



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11]  
No. 11]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 7, 2008/माघ 18, 1929  
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 7, 2008/MAGHA 18, 1929

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2008

फा. संख्या 10-7/2008-वी.सी.आई.—भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 23 की उपधारा (1) के अनुसरण में भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् से भारतीय पशु-चिकित्सा व्यवसायी रजिस्टर बनाए रखने की अपेक्षा की गई है जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम अंतर्विष्ट होंगे जो मान्यताप्राप्त पशु-चिकित्सा अर्हता धारण करते हैं और जो उस राज्य/संघ की पशु-चिकित्सा के पास तत्समय नामावलीगत हैं जिस पर अधिनियम का विस्तार है।

सचिव, भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद्, भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 23 की उप-धारा (2) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देते हैं कि भारतीय पशु-चिकित्सा व्यवसायी रजिस्टर, 2007 का अनुपूरक साधारण जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।

## भारतीय पशु चिकित्सक रजिस्टर – 2007

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1	ए. अन्नामलाई, पुत्र श्री वी. अंजापुली	टीएनवीसी / 3648 / 06	थंडलाई, पीओ नं. 734, संगरापुरम तालुक, विल्लुपुरम - 606202, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएएन यूवीएसएस / 06	05.03.82
2	ए.अरुलान्था कृष्णन, पुत्र श्री के. अंगामुथु	टीएनवीसी / 3762 / 06	नॉर्थ स्ट्रीट, लडुडीवाडी एवं डाक, गंगावल्ली तालुक, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएएन यूवीएसएस / 95	03.07.72
3	ए. अरुलजोथी, पत्नी श्री टी.सैथिलकुमार	टीएनवीसी / 2853 / 05	10, बहमदेसम डाक, सक्ति नगर, वाया, इरोडे जिला 638315	बीवीएससी / टीएएन यूवीएसएस / 01	09.06.77
4	ए. अरुन प्रसाद, पुत्र श्री एस. अरुन	टीएनवीसी / 1508 / 05	1, शिरदी एन्कलेव, थिरुविल्लुवर नगर रोड, पुराना कटपडी, वेल्लोर 632007	बीवीएससी / टीएएन यूवीएसएस / 96	01.02.73
5	ए. अशोक, पुत्र श्री पी. आनंद कुमार	टीएनवीसी / 2087 / 05	117, सैकिंड क्रॉस, पोन्ननगर, त्रिची 620001, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएएन यूवीएसएस / 93	13.09.69
6	ए. बालासुब्रमण्यम, पुत्र श्री पी. अन्नामलाई	टीएनवीसी / 2745 / 05	2 / 34, कोप्पमपट्टी, मेलकल्लुपलायम डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला 637408	बीवीएससी / एमएयू / 94	10.06.71
7	ए. भारतीदासन, पुत्र श्री पी. अयादुरई	टीएनवीसी / 1744 / 05	3 / 1, लक्ष्मनपुरम, चौथी स्ट्रीट, नवनम रोड, पश्चिम गोविंदपुरम, डिंडीगल -1	बीवीएससी / टीएएन यूवीएसएस / 97	31.07.74
8	ए. चेल्लापंडी, पत्नी श्री आर. मुरुगोसन	टीएनवीसी / 0721 / 05	मुनियाप्पर कोदिल, III क्रॉस, मेला अग्रहरम, अरियालूर 621704, पेराम्बलूर जिला	बीवीएससी / टीएएन यूवीएसएस / 97	06.07.74
9	ए. क्लीमेंट इबेंजेर हेनरी, पुत्र श्री एच. अहजारियां वेथराज	टीएनवीसी / 0858 / 05	टीएफ-1, जेजी अपार्ट., अन्नमलयार स्ट्रीट, अरुनानगर, पुथुर, तिरुचिरापल्ली 620017	बीवीएससी / टीएएन यूवीएसएस / 00	06.04.76
10	ए. इलांगो, पुत्र श्री सी. अय्यासामी	टीएनवीसी / 0784 / 05	4 / 5, मासीनाइकेनपट्टी, स्वामिनाथन मंडपम के पीछे, अयोध्यापट्टिनम, सलेम 636103	बीवीएससी / टीएएन यूवीएसएस / 92	23.05.69

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
11	ए. गेब्रियल राज, पुत्र श्री एस. अडियक्कलासामी	टीएनवीसी/ 2947/05	एफो-97, चौथी स्ट्रीट, एएफ ब्लॉक, 11वां मेन रोड, अन्ना नगर, चेन्नई 600040	बीवीएससी/ मद्रासविधि/69	05.06.43
12	ए. जगदीश्वरन, पुत्र श्री एस. अप्पुसामी	टीएनवीसी/ 0824/05	12-10ए.पसुवरेडिडयार लेन, कोलाथुर, मेट्टूर तालुक सलेम जिला- 636303	बीवीएससी/टीएन यूवीएस/93	24.06.70
13	ए. जयरमन, पुत्र श्री अप्पादुरई	टीएनवीसी/ 3786/07	कागलाचेरी, थिरुवरूर जिला, 612713, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन यू/82	10.04.55
14	ए. जेराल्ड इरविन, पुत्र श्री वाई ऑगस्टीन	टीएनवीसी/ 1257/05	17/29, वेस्ट कल्लुकुट्टम, कल्लुकुट्टम डाक, कन्याकुमारी जिला, पिन 629808	बीवीएससी/टीएन यूवीएस/02	17.08.78
15	ए. जयाराज, पुत्र श्री के. अंडीवेल	टीएनवीसी/ 0899/05	पी. कोसावापट्टी डाक, वडामादुरई वाया, डिंडीगल	बीवीएससी/टीएन यूवीएस/96	26.07.73
16	ए. कार्थिकेयन, पुत्र श्री टी. वी. अरुमुगम	टीएनवीसी/ 1687/05	बी 139, एनजीओबी कॉलोनी, पलायमकोट्टई, तिरुनेलवेली- 627007	बीवीएससी/टीएन यूवीएस/01	12.03.77
17	ए. किरुबाकरन, पुत्र श्री सी. अरुमुगम	टीएनवीसी/ 0778/05	कुरिची डाक, भवानी तालुक, ओलागडम वाया, इरोडे जिला 638314	बीवीएससी/टीएन यूवीएस/01	04.05.77
18	ए. कोइल राजा, पुत्र श्री डी. अबेल पंडियान	टीएनवीसी/ 3086/05	58, मासी स्ट्रीट, अजवारथिरुनगरी, थूथुकुडी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन यू/88	30.09.66
19	ए. कृष्णामूर्ति, पुत्र श्री बी. आत्मनाथन	टीएनवीसी/ 2819/05	न. 5, उप्पुकरा स्ट्रीट, वलजापेट, वेल्लोर जिला 632402	बीवीएससी/ मद्रासविधि/74	06.01.50
20	ए. कुमारसन, पुत्र श्री एम. आर. अरुणाचलम	टीएनवीसी/ 0872/05	8/2, ईस्ट स्ट्रीट, कूनावेलमपट्टी, पुडूर डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला 637401	बीवीएससी/टीएन यूवीएस/96	10.05.73
21	ए. कुमारसन, पुत्र श्री टी. अरुमुगम	टीएनवीसी/ 2243/05	न. 35, 11क्रॉस स्ट्रीट, गोपालापुरम, मन्नारसामी कोइल, टिंडीवनम 604002, विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन यूवीएस/97	23.07.74
22	ए. महालिंगा नायनार, पुत्र श्री के. अरिमुथु नायनार	टीएनवीसी/ 0719/05	10/14, सन्धी स्ट्रीट, थिरुवट्टीश्वरन पेट, ट्रिप्लिकेन, चेन्नई 600005	बीवीएससी/ मद्रासविधि/71	06.11.47

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
23	ए. मनिकवसाका दीनाकरना, पुत्र श्री एस.ए. पिल्लै	टीएनवीसी / 1688 / 05	26-एफ, मथारसंगम रोड, रमनपुथुर, नागरकोइल - 629 004	बीवीएससी / मद्रासविधि / 73	17.02.51
24	ए. मनिवन्नन, पुत्र श्री वी. अरुनाचलम	टीएनवीसी / 2383 / 05	5ए, लक्ष्मीभवनम, थिरुवल्लुवर स्ट्रीट, बेथानियापुरम, मदुरै 625016	बीवीएससी / टीएनए यू / 88	04.05.63
25	ए. मनोहरन, पुत्र श्री ए. अय्यावू	टीएनवीसी / 2918 / 05	39 / 12, एम.सी. रोड, शानरोरकुप्पम, अम्बूर 635814	बीवीएससी / टीएनए यूवीएस / 94	09.07.70
26	ए. मकबूल अहमद, पुत्र श्री मौ. अब्दुल लतीफ	टीएनवीसी / 3289 / 05	33 / 4, पहली मंजिल, श्रीनिवास पेरुमल सन्नाथी, तीसरी स्ट्रीट, रोयापेट्टाह, चेन्ई 600014	बीवीएससी / टीएनए यू / 76	01.06.54
27	ए. मरिया अरुल इरुदयाराज, पुत्र श्री आर. एम. अमलराजा	टीएनवीसी / 3799 / 07	2844, इरुदयापुरम, थंजावूर-613001, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनए यूवीएस / 95	31.01.72
28	ए. मेथाई, पुत्र श्री वी. अरुनागिरिवेलू	टीएनवीसी / 2949 / 05	न.300, गांधी स्ट्रीट, थिरुवल्लूर थिरुवेंकटापुरम, पोन्नेरी 601204, थिरुवल्लूर जिला	बीवीएससी / टीएनए यूवीएस / 97	25.06.73
29	ए. मोहिददीन अब्दुल कादर, पुत्र श्री ए. अनवरशा	टीएनवीसी / 3578 / 06	25, शेनबेगम नगर, पलायमकोट्टई, तिरुनेलवेली 2, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनए यूवीएस / 98	22.03.74
30	ए. मुथुसेलवम, पुत्र श्री पी. आरुमुगम	टीएनवीसी / 3620 / 06	नेहरू नगर, वजाकोम्बई डाक, थम्ममपट्टी वाया- गंगुवल्ली डाक, सलेम जिला 636113, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनए यूवीएस / 06	10.05.81
31	ए. नटराजन, पुत्र श्री टी. अमृतलिंगम	टीएनवीसी / 3271 / 05	38, सेंगलपट्टी स्ट्रीट, न.1, गुगई, सलेम -6	बीवीएससी / टीएनए यू / 88	24.05.64
32	ए. पद्मराज, पुत्र श्री डी. अप्पावु जैन	टीएनवीसी / 1585 / 05	प्लॉट न. 546, नेताजी बोस मेन रोड, फेस।।।, वेल्लालर, वेल्लोर, 632009	बीवीएससी / टीएनए यू / 80	09.10.56
33	ए. राजेद्रन, पुत्र श्री सी. अदाईकलम	टीएनवीसी / 2840 / 05	यदावर स्ट्रीट, पलाथुर डाक, ओटांगु वाया, पट्टुकोट्टई तालुक, तंजौर जिला, पिन 614803	बीवीएससी / टीएनए यू / 85	01.06.61
34	ए. रामनाथन, पुत्र श्री टी. अप्पनासामी	टीएनवीसी / 0672 / 05	गुरुनाथनकोविल' स्ट्रीट, कोडांगिपट्टी, विलाथुकुलम तालुक, थूथुकुडी जिला 628904	बीवीएससी / टीएनए यूवीएस / 93	08.04.69

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
35	ए. रामासामी, पुत्र श्री आर. अबुदियप्पा चेट्टियार	टीएनवीसी / 3787 / 07	8-सी, पिल्लइयर कोइल स्ट्रीट, एस.एस. कॉलोनी, मदुरै - 16, तमिलनाडु	बीवीएससी / एमयू / 53	31.05.29
36	ए. रमेश, पुत्र श्री एस. आरुमुगम	टीएनवीसी / 2945 / 05	नया न.64, पुराना न. 39, सन्नधी स्ट्रीट, जयकोंडाचोवु पुरम, पेराम्बलूर जिला, पिन 621802	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 93	23.12.69
37	ए. रंगासामी, पुत्र श्री आरुमुगम	टीएनवीसी / 0675 / 05	नया न. 8, प्लॉट न.23, जीवास्थीनम नगर, अडयार, चेन्नई 600020	बीवीएससी / टीएनयू / 79	02.10.54
38	ए. संगरन, पुत्र श्री ए. अरुमुगम	टीएनवीसी / 2979 / 05	आर-106, सुदसन जैम्स पार्क, मोगापेयर एरी स्कीम, चेन्नई-600037	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 91	22.06.68
39	ए. सेंथिल कुमार, पुत्र श्री पीत्र अलागुमलई	टीएनवीसी / 0874 / 05	ईस्ट स्ट्रीट, अरनमनईपुडुर, टीनेनी 625531	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 96	10.05.72
40	ए. सेरमा श्रवन पंडियान, पुत्र श्री एस. अमरसन	टीएनवीसी / 2677 / 05	33, एबी / 1, अम्पा राव स्ट्रीट, कांचीपुरम 631502	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 97	23.01.74
41	ए. सिवाकुमार, पुत्र श्री पी. अंडियप्पा	टीएनवीसी / 0875 / 05	पुधुर रोड, कोडमपट्टी डाक, धुरायूर तालुक, त्रिची जिला, पिन 621012	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 96	12.06.73
42	ए. सिवाकुमार, पुत्र श्री एम. अयामुथु	टीएनवीसी / 3640 / 06	ए-1, क्वालिटी पाइप्स के निकट, कंडासामी नगर, सामराजपेट, मेचेरी, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 93	15.05.70
43	ए. सुब्रमण्यन, पुत्र श्री आर. अरुनाचल मुदियार	टीएनवीसी / 1340 / 05	5 / 825, मोगापेयर वेस्ट, चेन्नई-600037	बीवीएससी / टीएनयू / 80	04.07.56
44	ए. सुंदरराज, पुत्र श्री एस. अरोकियासामी	टीएनवीसी / 2983 / 05	डब्ल्यू 46, 8वां स्ट्रीट, 'बी' सेक्टर, अन्ना नगर, वेस्टर्न एक्सपेंशन, चेन्नई 600101	बीवीएससी / मद्रासविदि / 61	08.12.38
45	ए. उमा महेश्वरी, पुत्र श्री के. करुप्पइयाह	टीएनवीसी / 2754 / 05	न. 22, दूसरा क्रॉस स्ट्रीट, कस्तूरीबाई नगर, अडयार, चेन्नई-600020	बीवीएससी / टीएनयू / 82	15.12.56
46	ए. वाल्मीका वल्ली, पुत्र श्री सी. विजया शंकर पंडियान	टीएनवीसी / 3646 / 06	15-बी, त्रियंत नगर- II स्ट्रीट ईस्ट, धूथुकुडी- 628008, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 95	17.07.72
47	ए. विजयालिंगा कोरंडी, पुत्र श्री टी. अलगन	टीएनवीसी / 1395 / 05	'श्री अलगु मीनाक्षी', तीसरी स्ट्रीट एक्स, भारतीपुरम, एस. अलगुलम, मदुरै 625017	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 94	04.06.71

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
48	ए. विल्सन संतोष कुमार अरुनी (आर. आनंद अरुनी)	टीएनवीसी / 2724 / 05	एच-349, सूर्य अपार्ट., जॉय कॉटेज, एलिस नगर, मदुरै-10	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 91	11.04.67
49	ए. यसोधा, पुत्र श्री एन. अप्पावु	टीएनवीसी / 0944 / 05	76 / 68, वेल्लाक्कल पट्टी डाक, नामगिरीपेट वाया, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला 637406	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 98	16.06.75
50	ए.सी. सक्सेना, पुत्र श्री के. सी. सक्सेना	यूपीवीसी / 4425 / 06	459-ए, गुडाओल बाग, मदन कुटी कोहारा पीर, बरेली, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 06	26.09.82
51	ए. चिदाम्बरम, पुत्र श्री के. आर्मुगुम	टीएनवीसी / 3482 / 06	32, थिरुवत्तूर स्ट्रीट, पेन्नाडम- 606105, थिदटागुडी तालुक, कुडालोर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन यू / 76	21.10.50
52	ए.के. जमालुद्दीन, पुत्र श्री ए. खादर मोहिदीन	टीएनवीसी / 1679 / 05	9 / 5, लॉलबेगम स्ट्रीट, ट्रिप्लिकेन, चेन्नई 600005	बीवीएससी / टीएन यू / 82	01.04.54
53	ए.के. थिरुवेनकंडन, पुत्र श्री ए.डी. कन्नन	टीएनवीसी / 0785 / 05	5 / 71-1, पी.जी. नगर, जागीरम्मा पलायम, डाक सलेम 636302	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 95	15.06.72
54	ए.एम. रामास्वामी पुत्र श्री आर.ए. मुरुगेशन	टीएनवीसी / 0726 / 05	न. 505 / 1, पेथामपलायम रोड, पेरुडुदुरई 638052, इरोडे जिला	बीवीएससी / मद्रासविधि / 69	01.01.48
55	ए.एम. शानमुगन, पुत्र श्री ए.एस. मुथुसामी	टीएनवीसी / 3259 / 05	34, विद्यानगर, थिंडल, इरोडे 638009	बीवीएससी / मद्रासविधि / 65	10.01.40
56	ए. महबूबखान, पुत्र श्री जे. अनवर खान	टीएनवीसी / 3735 / 07	फॉरेस्ट रोड, बोम्मिडी डाक, पप्पीरेड्डीपट्टी तालुक, धर्मापुरी, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 06	15.5.78
57	ए.पी. जोथिनाथन, पुत्र श्री ए. पोन्ना गौंडेर	टीएनवीसी / 2647 / 05	1268 सी, फेज 2, 50वी. स्ट्रीट, साधुवाचेरी वेल््लोर 632009	बीवीएससी / मद्रासविधि / 61	09.08.38
58	ए.पी. नम्बी, पुत्र श्री ए.आर. पी. रंगन	टीएनवीसी / 0888 / 05	3052, 13वां ब्लॉक, जे.बी. नगर, अन्ना नगर वेस्ट एक्स., चेन्नई 600040	बीवीएससी / टीएन यू / 81	08.05.57
59	ए. परामासिवम, पुत्र श्री सी. अधीनारायण	टीएनवीसी / 1615 / 05	पुराना न. 40, नया न. 1737, पुडुनगर, चौथी स्ट्रीट, माच्चुवाडी, पुडुक्कोट्टई 622001	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 91	04.04.68
60	ए.एस. मुरुगेशन, पुत्र श्री ए. सोरनामुथु	टीएनवीसी / 3258 / 05	215ए, साउथ स्ट्रीट, कोट्टूर वाया, वीरापंडी, थेनी जिला	बीवीएससी / टीएन यू / 89	09.07.67

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
61	ए.एस. राजेन्द्रिन, पुत्र श्री ए.स. सेल्लापन	टीएनवीसी / 1560 / 05	एस.एन. मंगलम डाक, कारीपट्टी वाया, सलेम 636106	बीवीएससी / टीएनए यू / 88	05.03.66
62	ए. सेकर, पुत्र श्री अरुमुगा पडईयाची	टीएनवीसी / 2299 / 05	नॉर्थ स्ट्रीट, कुलूमूर डाक, सेंदुरई तालुक, पेराम्बलूर जिला 621714	बीवीएससी / टीएनए यूवीएस / 01	02.06.77
63	ए. थंगावेल, पुत्र श्री के. आनंथपद्मनाभन	टीएनवीसी / 2608 / 05	23, सेकंड क्रॉस स्ट्रीट, न्यू सेक्रेटरिएट कॉलोनी, चेन्नई 600010	बीवीएससी / टीएनए यू / 80	19.05.53
64	ए.वी. ओमप्रकाश, पुत्र श्री ए.वी. कन्नन	टीएनवीसी / 1235 / 05	फ्लैट न. 5, तिली अपार्टमेंट्स, 114-बी, बी.बी.रोड, पेराम्बूर, चेन्नई- 600011	बीवीएससी / टीएनए यू / 86	04.06.63
65	ए. वर्धराजन, पुत्र श्री आर. अम्पावु	टीएनवीसी / 1853 / 05	अलंगई ग्राम, उमायलपुरम डाक, अट्टूर तालुक, सलेम जिला, पिन 636119	बीवीएससी / टीएनए यूवीएस / 96	30.05.73
66	ए. वेलावन, पुत्र श्री आर.ए. अंबाजगन	टीएनवीसी / 1213 / 05	1/391, रेहादाहल्ली डाक, बोम्मिडी वाया, पाप्पीरेडिया पट्टी तालुक, धर्मापुरी - 635301	बीवीएससी / टीएनए यूवीएस / 01	15.05.78
67	ए. विनायगम, पुत्र श्री पी. अन्नामलई	टीएनवीसी / 3426 / 06	4 / 65, पलप्पलायम, पुनेवलमपट्टी डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनए यूवीएस / 92	31.05.68
68	आलोक कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री अवदेश कुमार सिंह	बीवीसी / 2724 / 06	ग्राम परभूनाथ नगर, डाक तरही, थाना मुफस्सिल छपरा, 841301, जिला छपरा, बिहार	बीवीएससीएंडएच / जेएनएयू / 05	18.02.79
69	आलोक रंजन घोष, पुत्र श्री प्रकाश चंद्र घोष	बीवीसी / 2664 / 05	ग्राम जानकीपुर, डाक पवई, थाना अमरपुर, जिला बंका, बिहार	बीवीएससीएंडएच / टीएनवीएसयू / 05	03.12.80
70	आनंद कुमार आनंदमय, पुत्र श्री राम सिंहासन सिंह	बीवीसी / 2688 / 05	ग्राम पहरिया, डाक दावध, थाना सूर्यापुरा, जिला रोहतास, बिहार	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 05	21.07.79
71	आरती श्रीवास्तव, पुत्री श्री एन.के. श्रीवास	राजएसवीसी / 3268 / 06	बी-248, 10-बी, स्कीम गोपालपुरा बाईपास, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 06	21.09.77

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
72	अब्दुल मुनीर कंडांगल	केरलएसवीसी/31 84/06	उंगुगल हाउस, साउथ कोडियाथुर, कोडियाथुर डाक, मुक्कम (वाया), कोजीकोडे 673602, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/06	25.05.83
73	अमय गुप्ता, पुत्र श्री एस. के. गुप्ता	यूपीवीसी/ 4466/06	31ए/59ए, पंडित जंगजीत नगर, समसाबाद, राजपुर, आगरा, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 6	31.11.80
74	अमयेन्द्र कुमार पंडित, पुत्र श्री महेंद्र पंडित	बीवीसी/2717/0 6	ग्राम मरइया, डाक डिपरालतिक, थाना परबट्टा-851212, जिला खगरिया, बिहार	बीवीएससीएंडएच /एएयू/05	22.02.80
75	अभिषेक कुमार सिंह, पुत्र श्री सुशील प्रशाद सिंह	बीवीसी/2674/0 5	ग्राम साहू टोला, डाक हवेली खडगपुर, थाना हवेली खडगपुर- 811213, जिला मुंगेर बिहार	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएसएंड टी/05	09.02.81
76	अबिनाश कुमार प्रधान, पुत्र श्री कैलाशचंद्र प्रधान	ओवीसी/2077/ 06	एटी/डाक, जकईकेला, वाया बोनाईगढ़, जिला सुंदरगढ़, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/06	25.04.81
77	अब्राहम जोसेफ पल्लीसेरी	केरलएसवीसी/31 70/06	पल्लीसेरी हाउस, रीजेंसी गार्ड्स, कुट्टानेल्लूर डाक, त्रिसूर डाक, थिसूर- 680014, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/06	15.05.81
78	अबू नासिर मुंशी मोहम्मद उमर	महाएसवीसी/ 7323/	13-सी, राठौड़ लेआउट, नूरी मस्जिद के पास, अनंतनगर, नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /नागपुर विवि/67	01.01.43
79	अबुल हसन, पुत्र स्व. श्री मौहम्मद हसन	यूपीवीसी/ 4354/06	दिलदार नगर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएटी/72	15.07.52
80	आचार्य अखीला लक्ष्मीश	महाएसवीसी/ 7390/	श्री सन्निधि 31, शांतिनिकेतन, सीएसएच, यारी रोड, मुम्बई 400061, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 5	05.10.81
81	आदे मनोज जयवंत	महाएसवीसी/ 7428/	एटी दत्तापुर, डाक तहसील घटनजी, जिला यवतमाल - 445301, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 5	10.12.82



[भाग III—खण्ड 4]

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
82	अडिप्पा, पुत्र श्री जडियप्पा	कर्नाएसवीसी/38 63/06	मलाडगुड, वीरूपापूर डाक, सिधानूर तालुक, रायचूर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 06	01.06.83
83	आदेश सिंह चौहान, पुत्र श्री वृजपाल	राजएसवीसी/ 3289/06	जवाहरनगर, माहूकलन, गंगापुर शहर, सवाई माधोपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएसयू/06	25.09.79
84	अधिराज मिश्रा, पुत्र श्री अशोक कुमार मिश्रा	ओवीसी/2042/ 06	प्लॉट न. 212/ए, सत्य नगर, मुबनेश्वर 751007, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/06	10.07.81
85	आदित्य गोयल, पुत्र श्री ए. के. गुप्ता	यूपीवीसी/ 4497/06	मौह, भिठ, मौहम्मदी, लखीमपुर खेरी, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /सीएसएयूएंडटी /06	01.07.81
86	आदित्य कुमार, पुत्र श्री राजबाबू यादव	यूपीवीसी/ 4404/06	ग्राम हजाथपुर, डाक दयालनगर (नीराखी), जतेहपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एनडीएसयूएंडटी /06	10.08.82
87	अदकीने अशोक बलिराम,	महाएसवीसी/ 7658/	श्रीराम नगर, कालेगांव, कालेगांव रोड, परभनी- 431401, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 6	05.10.82
88	अदलक स्मिता अशोक राव	महाएसवीसी/ 7352/	अलसी प्लॉट, विमलाबाई अलसी स्कूल, अकोला- 444004, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 5	12.07.82
89	अदसुल नवनाथ शिवाजी	महाएसवीसी/ 7712/	ए-पी, कनगांव, तालुक डौंड, जिला पुणे 412219, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 6	18.02.84
90	अदयाशा प्रियदर्शिनी, पुत्री श्री अंचल दास	ओवीसी/2129/ 07	एटी अम्बिकई, जिला/डाक जाजपुर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/07	28.03.83
91	अगरकर योगेश ज्ञानेश्वर	महाएसवीसी/ 7575/	कृष्णा कुंज निवास, अगरकर घाट, गुल्मे वस्ती, भोसारी, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 6	31.12.83
92	अग्रवाल संजय कुमार नूराराम	गुजएसवीसी/ 2730/06	ग्राम फतेपुरा, अर्बन बैंक के निकट, तालुक फतेपुरा, जिला दाहोद-72, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एसयू/06	19.06.84
93	अघई इमरान खान अघई साहेब खान	महाएसवीसी/ 7263/	बारूद ब्यूस, मोधा रोड, जितूर, तालुक जितूर, जिला परभनी, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 3	10.09.79
94	आघव प्रकाश लक्ष्मणराव	महाएसवीसी/ 7409/	एटी दवानापुर, डाक नूगापुर, तालुक परली (बी), जिला बीड 431517, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 5	04.07.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
95	अजय गुप्ता, पुत्र श्री आर. के. गुप्ता	यूपीवीसी / 4485 / 06	ग्राम एवं डाक गौसगंज, मूसानगर, जिला कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएंडटी / 06	01.07.80
96	अजय कुमार सिंह, पुत्र श्री राम निहाल सिंह	यूपीवीसी / 4391 / 06	ग्राम पैंडा, डाक ओझागंज, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच. / जीबीपीयूएटी / 06	01.09.80
97	अजय कुमार त्रिपाठी, पुत्र श्री एस.पी. त्रिपाठी	यूपीवीसी / 4548 / 06	एसए5 / 159, आर-3सीएच, रामरपुर, पहाड़िया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 06	01.01.81
98	अजय कुमार वरुण, पुत्र श्री लल्लू प्रसाद वरुण	यूपीवीसी / 4377 / 06	म.न. 13, आवास विकास कॉलोनी, कटरा बस्ती, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीएयूएंडटी / 06	10.07.79
99	अजय कुमार, पुत्र श्री रोशन लाल	एचवीसी / 1929 /	206 / 11, पाना बैतान, बेरी जिला, झज्जर, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 06	26.07.82
100	अजय कुमार, पुत्र श्री सुखन राम	यूपीवीसी / 4470 / 06	ग्राम बाघी, डाक बेलसारी, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएंडटी / 06	03.11.78
101	अजय कुमार वर्मा, पुत्र श्री जी.एस. वर्मा	यूपीवीसी / 4373 / 06	म.न. 34, झडी गढ रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 06	21.01.79
102	अजय प्रताप सिंह, पुत्र श्री यू.एस. सिंह	यूपीवीसी / 4465 / 06	म.न. 114 / 18 / 1, शिवकुटी डाक तेलियारगंज, इलाहबाद, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	01.04.83
103	अजय शाह, पुत्र श्री भीम सिंह	यूपीवीसी / 4371 / 06	ग्राम पहसैयद राजा, डाक देवरिया, तहसील जमानिया, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीएयूएंडटी / 06	22.11.76
104	अजीत सिंह राणा, पुत्र श्री ओ.पी. सिंह राणा	यूपीवीसी / 4467 / 06	म.न. 736, सेक्टर-14, आवास विकास कॉलोनी, आगरा, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	25.04.83
105	अजीथ कुमार जी.एस.	केरलएसवीसी / 31 09 / 06	टी.सी 15 / 1101, गांधी नगर, स्ट्रीट II, जीएनए- 215, कॉटन हिल, वजुथाकॉड, त्रिवेंद्रम, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	01.06.80
106	अजीथ एम.	केरलएसवीसी / 31 37 / 06	सोपनिका, म.न. 12, टीसी3 / 2521(8), मरम्पलम गार्डन्स, पट्टोट पैलेस, डाक त्रिवेंद्रम 695004, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	22.05.79

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
107	अकहील अहमद, पुत्र स्व. श्री अब्दुल हफीज	कर्नाएसवीसी / 39 37 / 06	429, 5वां डी, मेन, कल्याण नगर, ब्लॉक II, बंगलौर—560043, कर्नाटक	बीवीएससी / यूएएस बंगलौर / 72	06.11.46
108	अखेडे गजानन शरद	महाएसवीसी / 7127 /	कुसुम नगर, एस.पी. कॉलेज के पीछे, परदी रोड, भूम, तालुक भूम, जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएफएसयू / 0 4	26.08.30
109	अखिल अग्रवाल, पुत्र श्री एस.पी. अग्रवाल	यूपीवीसी / 4550 / 06	मौह पुरानी बजरिया, डाक स्थ, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	27.06.76
110	अखिल चंद्र काला, पुत्र स्व. श्री सतीश चंद्र काला	यूवीसी / 254 / 06	151 / 9—ए, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / आगराविधि / 64	05.12.42
111	अखिल कुमार गजमिये, पुत्र श्री बी.आर. गजमिये	एमपीएसवीसी / 24 10 / 07	म.न. 623, गुप्तेश्वर वार्ड, जबलपुर, म.प्र.— 482001	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 06	06.02.82
112	अखिलेश कुमार, पुत्र श्री महावीर प्रसाद	बीवीसी / 2868 / 0 5	ग्राम शेख अली, डाक बेशबाक, थाना इस्लामपुर, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडएच / राज.कृ.विधि / 00	05.12.75
113	अखिलेश कुमार, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद	बीवीसी / 2710 / 0 5	ग्राम बहादुर, डाक चंडी, थाना चंडी—803108, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएंडएफ एस / 05	15.01.83
114	आलम सिंह धामी, पुत्र श्री देव सिंह धामी	यूवीसी / 248 / 06	ग्राम चौदनपट्टा, डाक रानीबाग, जिला नैनीताल, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 74	08.11.51
115	अलका, पुत्री श्री लाल बहादुर प्रसाद	डीवीसी / 0615 / 02	एच—62, धर्मपुरा, नजफगढ़, नई दिल्ली 110043	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 03	26.08.77
116	ऐले किडंगन	केरलएसवीसी / 31 72 / 06	किडंगन हाउस, वेलुथूर डाक, थिसूर— 680016, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	19.09.81
117	आलोक कुमार साहू, पुत्र श्री रबीन्द्र साहू	ओवीसी / 2118 / 07	एटी / डाक कडालीबाना, वाया चौदाकुलत, जिला केंद्रपाड़ा, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 07	10.01.83
118	आलोक कुमार सिंह, पुत्र श्री मेवा राम	यूपीवीसी / 4401 / 06	ग्राम एवं डाक गौसगंज, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 06	20.09.79
119	आलोका अग्निवेश, पुत्र श्री धीरेंद्रनाथ मलिक	ओवीसी / 2140 / 07	एसआईजी—27, 7एकड़, एचबी कॉलोनी, फेस—1, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर—16, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 07	01.04.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
120	अल्पनारायण सिंह, पुत्र श्री जी.पी. सिंह	यूपीवीसी / 4433 / 06	भगवतपुर कटारी, कौशम्बी, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीएयूएंडटी / 06	17.12.79
121	अमन कुमार, पुत्र श्री योगेंद्र प्रसाद	बीवीसी / 2727 / 06	ग्राम परोरा, डाक परोरा, धाना चेरिया, बरियारपुर -848204, बेगुसराय, बिहार	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 05	02.01.79
122	अमन प्रकाश ढाका, पुत्र श्री जे.पी. ढाका	एचवीसी / 1918 /	म.न. 1496, सेक्टर-9, करनाल, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 06	06.07.84
123	अमन रस्तोगी, पुत्र श्री विद्या सागर रस्तोगी	एचवीसी / 1905 /	म.न. 7310-ए, बाड़ा हजारी-रेवाड़ी, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 06	06.04.81
124	अमन वर्मा, पुत्र श्री एस.डी. वर्मा	एचपीएसवीसी / 781 / 06	रीमा वर्मा, एसडब्ल्यू ऑफिस, सीएसकेएचपीकेवीवी, पालमपुर, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेकेवीवी / 06	30.11.79
125	अमरजीत राय, श्री जुगुल राय	यूपीवीसी / 4359 / 06	ई-5228 / ए, सेक्टर-2, राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीएयूएटी / 04	30.10.73
126	अमरवती पिडुगु, पुत्री श्री पी. कृष्णा मूर्ति	एपीएसवीसी / 4446 / 06	20-3-124 आई / सी 8, संजय गांधी कॉलोनी, थिरुपति 517501, आंध्रप्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	09.11.81
127	अमरबाग रंधावा, पुत्री श्री दिलबाग बाग सिंह	पीबीएसवीसी / 2654 / 06	ग्राम एवं डाक नागाको, मिल्क प्लांट के निकट, तहसील खादूर साहिब, जिला तरनतारन, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएसयू / 06	06.01.84
128	अमरवीर सिंह, पुत्र श्री गुरमीत सिंह सिंह	पीबीएसवीसी / 2685 / 06	179, भगत सिंह कॉलोनी, बस्ती गोबिंदगढ़, मोगा, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएसयू / 06	01.08.82
129	अमरजीत कुमार सिन्हा, पुत्र श्री कामेश्वर प्रसाद सिन्हा	एचवीसी / 1926 /	म.न. 486, ओल्ड चार चमन, करनाल, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / पीआरडीकेवी / 98	01.01.75
130	अम्बेकर नम्रता नारायणराव	महाएसवीसी / 7387 /	"अभ्युदय", प्लॉट न. 11, वकील कॉलोनी, तालुक व जिला परभनी-431401, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	30.05.83
131	अम्बोर महेश नामदेवराव	महाएसवीसी / 7459 /	तिलक नगर, नेहरू इंग्लिश स्कूल, तालुक व जिला नांदेड- 431605, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	31.12.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
132	आम्बरे वैभव काशीनाथ	महाएसवीसी / 7232 /	गुरुकुलनगर, चवन चॉल, जिमखाना के पीछे, हनुमान मंदिर, पुसना आगरा रोड, थाणे (प.), महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	12.06.80
133	अम्बुलगेकर अशोक मारोतीराव	महाएसवीसी / 7735 /	32.भगवती जवाहर कॉलोनी, ऑल इंडिया रेडियो के पीछे, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / केकेवी दपोली / 80	27.06.52
134	अमित जिंदल, पुत्र श्री अछरू प्रकाश	पीबीएसवीसी / 2667 / 06	वार्ड न. 12, 119, जैन मंदिर के निकट, बारेटा मंडी, मनसा-151501, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएसयू / 06	08.12.81
135	अमित कुमार जायसवाल, पुत्र श्री नरेंद्र जयसवाल	यूपीवीसी / 4507 / 06	म.न. 113, सदर बाजार, बरेली कैंट, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएंडटी / 06	13.10.78
136	अमित कुमार शर्मा, पुत्र श्री एस. शर्मा	एचपीएसवीसी / 760 / 06	पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, न्यू रामाकृष्णा गैस्ट हाउस, ओ.पी. ज्वालाजी, जिला कांगडा, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेकेवीवी / 06	19.02.81
137	अमित कुमार श्रीवास्तव, पुत्र श्री रामनिवास श्रीवास्तव	एमपीएसवीसी / 2336 / 06	ग्राम बीरखडी, गोहाड भिंड, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेकेवीवी / 06	13.06.78
138	अमित कुमार, पुत्र श्री अश्विनी कुमार	बीवीसी / 2661 / 05	ग्राम ननकू मंडल टोला, डाक दुर्गापुर, थाना खगरी-851204, जिला खगरिया, बिहार	बीवीएससीएंडएच / टीएनवीएसयू / 05	09.04.80
139	अमित नैन, पुत्र श्री मोहिंदर कुमार	पीबीएसवीसी / 2657 / 06	ग्राम बोडियाला पिठा, डाक खुई-खेरा, तहसील फाजिल्का, जिला फिरोजपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 06	15.03.81
140	अमित पाल पंवार, पुत्र श्री मोहाकम सिंह पवार	यूवीसी / 210 / 06	77 / 8, पुरवावाली गणेशपुर, रुडकी, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 06	21.09.83
141	अमित प्रसाद, पुत्र डॉ. सुरेश प्रसाद	कर्नाएसवीसी / 3882 / 06	कमरा न. 6, वीसीएच, बंगलौर-560024, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	04.11.81
142	अमित रायकवर, पुत्र श्री विनोद रायकवर	एमपीएसवीसी / 2425 / 07	1446 / 2, गंगा नगर, गढ़ा, जबलपुर, म.प्र.-482003	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 06	07.11.79
143	अमित सचान, पुत्र श्री के. के. सचान	यूपीवीसी / 4543 / 06	एमआई-185, डबल स्टोरी, जनता नगर, बाड़ा-2, कानपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 06	01.01.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
144	अमित शर्मा, पुत्र श्री पी.सी. शर्मा	एचपीएसवीसी/7 72/06	ग्राम एवं डाक सोहारी, तहसील बंगाना, जिला उना, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच /सीएसकेकेबीवी/ 06	01.01.81
145	अमिता शर्मा, पुत्री श्री यादवेंद्र शर्मा	डीवीसी/0645/ 04	पेट्स प्लानेट, 2843, मेन संत नगर रोड, रानीबाग, दिल्ली	बीवीएससीएंडएच /यूएसधारवाड/ 01	15.09.79
146	अमित्व रॉय, पुत्री श्री चंडी चरन रॉय	डब्ल्यूबीएसवीसी/ 3244/06	ग्राम देओली, डाक पश्चिम नईचंद्रपुर, थाना मोयना, जिला पूर्वा मिदनापुर, प. बंगाल	बीवीएससीएंडएच /डब्ल्यूबीयूएफएस /06	10.05.84
147	अमरेंद्र कुमार पांडे, पुत्र श्री जय प्रकाश पांडे	बीवीसी/2691/0 5	ग्राम ठकराहा, थाना ठकराहा-841503, जिला पश्चिमी चम्पारन, बिहार	बीवीएससीएंडएच /केएयू/05	31.12.79
148	अमरेंद्र सिंह, पुत्र स्व. श्री श्याम सुंदर	यूपीवीसी/ 4509/06	ग्राम सराय कुर्मी, डाक बिमौरा, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /सीएसएयूएंडटी /06	05.09.76
149	अमरेश यादव, पुत्र श्री राजेश प्रसाद यादव	बीवीसी/2628/0 5	ग्राम फुलवरिया, डाक सहादतपुर, थाना लौरिया 845453, जिला पश्चिम चम्पारन, बिहार	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/03	10.01.78
150	अमृत कौर, पुत्री श्री प्रकाश सिंह	पीबीएसवीसी/ 2644/06	ग्राम फल्लनवाल, डाक मॉडल टाउन, तहसील एवं नगर-लुधियाना-141002, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /पीएयू/05	01.04.77
151	अमृत प्रियरंजन साहू, पुत्र श्री बेलोचन साहू	ओवीसी/2114/ 07	एटी/डाक अटासाही, वाया घासीपुरा, जिला केओन्झर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/07	06.07.82
152	अमृता चट्टोपाध्याय, पुत्र श्री दुलाल चंद्र चट्टोपाध्याय	डब्ल्यूबीएसवीसी/ 3232/06	कालीताला, दक्षिणपारा, ग्राम एवं डाक बोईचीग्राम, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच /डब्ल्यूबीयूएफएस /06	30.06.82
153	अमृत कुमार रेड्डी एम., पुत्र श्री पुल्ला रेड्डी मुक्कारा	एपीएसवीसी/ 4444/06	देवनग्राम (ग्राम), गडीकोटा (डाक), गिड्डालूर (एम), प्रकासम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/06	15.06.80

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
154	अमृतकर किरन भारत	महाएसवीसी / 7179 /	ए/पी मदनी (दिंडोडा), तालुक / डाक वर्धा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू/04	26.05.81
155	अमृतकर सुहास अशोकराव	महाएसवीसी / 7162 /	138, मातानगर, रालेगांव, तालुक रालेगांव, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू/04	12.04.81
156	अनाकिका मिश्रा, पुत्री श्री एस. मोहना मिश्रा	एपीएसवीसी / 4543 / 07	वैज्ञानिक, कुक्कुटपालन परियोजना निदेशालय, राजेंद्रनगर, हैदराबाद-30, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एएनजीआरएयू/97	03.01.75
157	आनंद कुमार गिल, पुत्र श्री बचन सिंह	यूपीवीसी / 4522 / 06	ग्राम कुकरी, डाक मुंघा खेरा, जिला जेपी नगर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 05	01.01.80
158	आनंद कुमार सच्चर, पुत्र स्व. श्री धरम पाल सच्चर	यूवीसी / 256 / 06	29-शास्त्रीनगर एक्स., डाक डिफेंस कॉलोनी, देहरादून, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 82	30.06.56
159	आनंद कुमार, पुत्र श्री लवातू राम	यूपीवीसी / 4408 / 06	राप्ती नगर, गणेशपुरम, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 06	09.06.77
160	आनंद कुमार, पुत्र श्री राम बिलास	यूपीवीसी / 4421 / 06	ग्राम एवं डाक अराजी अमानी, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीएयूएडटी / 06	15.07.79
161	आनंद, पुत्र श्री श्रीसाहिल बी. देयरनावडगी	कर्नाएसवीसी / 38 71 / 06	साई प्रकाश क्षेत्र, सदाशिवनगर, इब्राहिमपुर, बीजापुर, बीजापुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू/06	24.11.82
162	एंड्रयू चंद्रमोहन, पुत्र श्री आर.सी. सैमुअल	टीएनवीसी / 0706 / 05	ए-6, श्री निकेतन अपार्टमेंट, न. 12, गेंगू रेड्डी रोड, इगमोरे, चेन्नई 600008	बीवीएससी / टीएनएयू/74	22.11.48
163	अनिल कुमार बंटोथू, पुत्र श्री बालाजी	एपीएसवीसी / 4496 / 06	माइलाराम कोटागुडा (परखल), डाक एवं एम वारंगल जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू/06	05.06.80
164	अनिल कुमार गौड, पुत्र श्री वी.पी. गौड	एमपीएसवीसी / 24 23 / 07	एफ/-17, कृषि नगर, अधरताल, जबलपुर, म.प्र. 482004	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 81	25.02.57
165	अनिल कुमार एच.सी., पुत्र श्री चिनड्याह एच.वी.	कर्नाएसवीसी / 38 99 / 06	हाले पारेसांद्रा, पारेसांद्रा डाक, सी.बी.पुरा तालुक, कोलार जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू/06	21.08.78
166	अनिल कुमार जायसवाल, पुत्र श्री रमा शंकर	यूपीवीसी / 4450 / 06	उत्तम निवास कासिया, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएएसयू / 06	01.07.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
167	अनिल कुमार सिंह, पुत्र श्री	यूपीवीसी / 4544 / 06	द्वारा मुन्नासिंह, ग्राम एवं डाक देवैठा, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेबीवी / 06	15.02.79
168	अनिल कुमार वैष्णव, पुत्र श्री अर्जुन दास	राजएसवीसी / 3270 / 06	बस-तुलिसर तौसर, नागौर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 06	10.01.80
169	अनिल कुमार, पुत्र श्री भगवत प्रसाद	बीवीसी / 2676 / 05	ग्राम न्यू एरिया, राना बीघा डाक राना बीघा, थाना दीप नगर- 803101, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / एसयू / 05	08.06.76
170	अनिल कुमार, पुत्र श्री आर.एम. वर्मा	यूपीवीसी / 4439 / 06	ग्राम शामपुर (नाईपुरा), उल्फतगंज टांडा, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीएयूएंडटी / 06	03.03.79
171	अनिदिता पांजा, पुत्र श्री जनार्दन पांजा	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3228 / 06	7 / 13, एस. कृतिबास रोड, दुर्गापुर, जिला बर्दवान- 713205, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	15.10.82
172	आनिदिता साहा, पुत्री श्री दीपक कुमार साहा	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3263 / 06	ग्राम थाना कॉलोनी, डाक इस्लामपुर, जिला उत्तरी दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	12.01.84
173	अनीश कुमार एस.बी.	केरलएसवीसी / 31 97 / 06	संकरनथडाथिल, त्जोलूर डाक, पराप्पुर (वाया), थिसूर- 680552, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	07.07.77
174	अनीता भारती, पुत्री श्री चंदर सिंह	राजएसवीसी / 3304 / 06	नागोरी गेट के सामने, जोधपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 06	30.06.80
175	अनीथा एम.एम., पुत्री श्री एम.के. मुथप्पा	कर्नाएसवीसी / 39 16 / 06	68 / 1, चिक्काटूर ग्राम, हरंगी रोड, कुडामंगलूर डाक, कुशालनगर, उत्तरी कुर्ग, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	21.06.79
176	अनजान दंडापत, पुत्र श्री सत्यरंजन दंडापत	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3226 / 06	अबिनाश सरनी, म.न. 10 / 6 / 2, चांदमारीडांगा, जिला बंकुरा-722101, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	02.03.83
177	अनजान कु. मलिक, पुत्र श्री जगन्नाथ मलिक	ओवीसी / 2103 / 07	एटी रेहेंग, डाक कुलीगांव, जिला बालासौर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 07	03.05.82
178	अंजु काविया, पुत्री श्री गिरवर डान	राजएसवीसी / 3269 / 06	प्लॉट न. 2 / 24, नया विद्यानगर, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 06	12.02.80
179	अंजु प्रधान, पुत्र श्री शिव कुमार प्रधान	डीवीसी / 0670 / 06	डब्ल्यूजेड, - 409के, जनक पार्क, हरि नगर, नई दिल्ली	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 03	23.08.74



क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
180	अंजु रवीन्द्रन नायर	केरलएसवीसी / 31 29 / 06	अपीनाथ किजकेथिल हाउस, वेदिटया डाक, मनकमकुजी डाक, अलपुजाह- 690557, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	08.06.82
181	अंजुम जाफर, पुत्री श्री जफरुद्दीन	यूवीसी / 224 / 06	IV / 1121-डी, झा कॉलोनी, पतनगर, जिला यू.एस. नगर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 02	10.01.79
182	अंकन डे, पुत्र श्री अरुण डे	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3269 / 06	ग्राम एवं डाक बैची, जिला हुगली-712134, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	26.05.83
183	अंकुर गुप्ता, पुत्र श्री आर. एल. गुप्ता	एचपीएसवीसी / 7 77 / 06	ग्राम एवं डाक सालोगा, तह. एवं जिला सोलन, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेकेवीवी / 06	09.10.82
184	अंकुर सचान, पुत्र श्री जगमोहन लाल	यूपीवीसी / 4542 / 06	ईडब्ल्यूएस-778, बाडा, जनता नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 06	10.01.79
185	अंकुर शर्मा, पुत्री श्री विकास	राजएसवीसी / 3323 / 06	म.न.10 / 41, एमआईजी बी एनएचबी कॉलोनी, शिवशिग पुरा, सीकर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 0 4	16.06.81
186	अंकुश हनुमंत गरोबा	महाएसवीसी / 7435 /	फदकुले प्लॉटिंग, बोम्बाले हनुमान चौक, घटनगरी रोड, जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 0 5	08.02.82
187	अन्ने बशीर बी.	केरलएसवीसी / 31 19 / 06	अनास डेले, अट्टमपुरथु, तेजस नगर, पंधारापंडु मुरी, थट्टामाला, कोल्लम- 691020	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	16.04.80
188	अनोज कुमार दिमिरी, पुत्र श्री पी.डी. दमीरी	यूवीसी / 100 / 06	पीडब्ल्यूडी इस्पेक्शन हाउस के निकट कर्णप्रयाग, चमोली, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 97	18.06.70
189	अनूप आर्या	गुजएसवीसी / 2733 / 06	12, बंसरी टेनामेट्स, वैभव सिनेमा के पीछे, बकरोल, आनंद जिला गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 06	11.05.83
190	अनूप कुमार गौतम, पुत्र श्री शिव कुमार	यूपीवीसी / 4402 / 06	मौह. गोकुल नगर, डाक गांधी आश्रम, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 06	01.07.81
191	अनूप सिंह नेगी, पुत्र श्री करम सिंह नेगी	यूवीसी / 245 / 06	ग्राम एवं डाक धारकोट, जिला टिहरी, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 75	22.12.53
192	अनूपराज आर.	केरलएसवीसी / 31 87 / 06	कैथाक्कट्टू हाउस, वडाकेनिरप्पू, डाक नजीजूर, कोट्टायम- 686612, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	11.12.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
193	अन्सेर मौ. सलाहुद्दीन, पुत्र श्री मौ. अन्सेर बाशा	टीएनवीसी/ 3636/06	13, न्यू बंगारु नायडू कॉलोनी, पश्चिमी के.के. नगर, चेन्नई-600078, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/ 60	20.12.38
194	अंशु कुमार, पुत्र श्री झौरी पासवान	बीवीसी/2624/0 5	ग्राम चकहित, डाक मंझौली, थाना बख्तियारपुर-803202, जिला पटना, बिहार	बीवीएससीएंडएच /एचयू/05	08.01.80
195	अंतर्दामी बारिक, पुत्र श्री ब्रज बिहारी बारिक	ओवीसी/2070/ 06	एटी मल्लिकादेईपुर, डाक नईकानिधि, जिला भद्रक, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/06	07.12.81
196	अनु अब्राहम	केरलएसवीसी/31 30/06	एससीटी-116, चलाकुजी लेन, पट्टोम डाक, त्रिवेंद्रम- 695004, केरल	बीवीएससीएंडएच /केयू/06	03.12.81
197	अनु चौधरी, पुत्र श्री अरुण देव चौधरी	डीवीसी/0682/ 06	ई-48, जीएफ लाजपत नगर-III, नई दिल्ली-24	बीवीएससीएंडएच /एचयू/89	30.05.64
198	अनुज सिंह खेरा, पुत्र श्री सरदार सिंह	यूपीवीसी/ 4529/06	मौह, चौक अमरोहा, जे.पी. नगर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएटी/06	15.08.84
199	अनूप कुमार सिंह, पुत्र श्री यशवंत सिंह	यूपीवीसी/ 4441/06	ग्राम सिकती, डाक शुक्लापुर, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एनडीएयूएंडटी /06	15.12.78
200	अनुपमा के.	केरलएसवीसी/31 23/06	अनु विहार, पथारम डाक, सूराना, कोल्लम-690567, केरल	बीवीएससीएंडएच /केयू/06	05.10.81
201	अनुपमा आर.	केरलएसवीसी/31 44/06	ओवारका, पोरेडाम (डाक), घदयामंगलम, कोल्लम- 691534, केरल	बीवीएससीएंडएच /केयू/06	10.09.81
202	अनुराधा कुमारी, पुत्री श्री अशोक कुमार	कर्नाएसवीसी/39 30/06	यूएस गर्ल्स होस्टल, कमरा नं. 127, हेब्ल, बंगलौर- 560024, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 06	20.07.80
203	अनुराग जिंदल, पुत्र श्री विजय कुमार जिंदल	पीबीएसवीसी/ 2668/06	विजय कुमार करयाना स्टोर, शमशान घाट के निकट, बरेटा, मनसा-151501, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /जीएडीवीएसयू /06	28.08.83
204	अनुराग शर्मा, पुत्र श्री रमेश दत्त शर्मा	डीवीसी/0667/ 05	457, हवा सिंह ब्लॉक, एशियाड विलेज, नई दिल्ली- 49	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएटी/95	24.10.72
205	अनुराग यादव, पुत्र श्री ए. पी. यादव	यूपीवीसी/ 4420/06	2430/1, विवये नगर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएंडटी /06	04.03.61

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
206	अपर्णा बोददुलूरी, डाक श्री वेकट नारायण	एपीएसवीसी / 4513 / 06	म.न. 4-87 / 7, पूर्वी गांधी नगर, नगरम डाक, कीसारा (एम), आर.आर. जिला- 500083, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	21.05.81
207	अपर्णा खलीकर, पुत्री श्री वेकटेश खलीकर	डीवीसी / 0650 / 05	21 / 7, विजय नगर, डबल स्टोर, दिल्ली-9	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 03	19.04.81
208	अपरा शाही, पुत्री श्री सक्सेना	एमपीएसवीसी / 23 48 / 06	डी-ओसवाल रेजिडेंसी, रतन कॉलोनी, नरबदा रोड, जबलपुर, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएंडटी / 94	24.05.71
209	अरबिंद साहा, पुत्र श्री अनिल कुमार साहा	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3283 / 06	एसटीपी टाउनशिप, डाक संतालडीह, जिला पुरुलिया, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	10.11.82
210	आराधना त्रिपाठी, पुत्री श्री वीरेंद्र कुमार	डीवीसी / 0605 / 02	म.न. 101, पॉकेट-4, सेक्टर-24, राहिणी-85, दिल्ली	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएंडटी / 98	31.12.76
211	अरबत मयूरा पुरुषोत्तम	महाएसवीसी / 7565 /	संगलूदकर नगर, बनासा, तालुक दरयापुर, जिला अमरावती-444803, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएफएसयू / 0 5	22.02.83
212	अर्चना एस. नायर	केरलएसवीसी / 31 52 / 06	मंदरानगट्टू हाउस, कप्पिल ईस्ट, कृष्णापुरा डाक, कायमकुलम वाया, अलपुजाह- 690533, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	07.11.82
213	अर्चना सिन्हा, पुत्र श्री जीतेंद्र कुमार	बीवीसी / 2655 / 0 5	ग्राम मल्हाबाद, डाक मामूदा, थाना इशलामपुर, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडएच / बीएयू / 05	01.03.80
214	अर्चना, पुत्री श्री आर.एस. त्रिपाठी	यूपीवीसी / 4481 / 06	द्वारिकागंज, थाना झिझक, जिला कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएंडटी / 06	11.07.81
215	अर्जुन कुमार लूखा, पुत्र श्री चूना राम	राजएसवीसी / 3333 / 06	पी.न.88, अभय गढ़, स्कीम एयर फोर्स एरिया, जोधपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 01	01.01.74
216	अर्नब पॉल, पुत्र श्री प्रभुराम पॉल	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3247 / 06	रबीन्द्रपल्ली (पिरताला), डाक सूरी, जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	05.02.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
217	अर्पिता मोहपात्रा, पुत्री श्री प्रदीप कुमार मोहपात्रा	ओवीसी/2058/06	एटी माघापुर, जिला/डाक कंदपाड़ा, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/06	16.12.82
218	अरुण खराटे, पुत्र श्री गुरुनाथ	कर्नाएसवीसी/3861/06	गवर्न.हॉस्पिटल के निकट, हुलागेरी बाना धोरगली, लक्ष्मेश्वर-582116, गडग जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/06	22.07.82
219	अरुण कुमार डे, पुत्र श्री अनिल कुमार डे	डब्ल्यूबीएसवीसी/3241/06	ग्राम एवं डाक द्वारहट्टा, धाना हरिपाल, जिला हुगली -712403, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच /डब्ल्यूबीयूएफएस/05	21.07.82
220	अरुण कुमार जी.एस.	केरलएसवीसी/3164/06	अनिल भवन, कोलियूर, मुट्टाकौड डाक, त्रिवेंद्रम-695523, केरल	बीवीएससीएंडएच /केयू/06	05.04.82
221	अरुण कुमार खंडेलवाल, पुत्र श्री विष्णु	राजएसवीसी/3283/06	जय बजरंग होटल, कोर्ट रोड, गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/06	12.10.79
222	अरुण कुमार वाई.के. पुत्र श्री कृष्णा मूर्ति राव वाई. एन.	कर्नाएसवीसी/3949/06	पुट्टानायकन स्ट्रीट, तारीकेरे-577228, चिकनगलूर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/06	26.06.81
223	अरुण रामाचंद्रन, पुत्र श्री एन. रामाचंद्रन	टीएनवीसी/3621/06	20-सी-2, सुरभी नेसामोनी नगर, नगरकोइल-629001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनयूवीएस/94	25.03.71
224	अरुणा श्री बलगा, पुत्री श्री नारायण राव	एपीएसवीसी/4457/06	द्वारा चंद्र मोहन जी, वेट. असि. सर्जन, वेट. डिसपेंसरी, जुपाडु बंगला, नंदीकोटकूर, कुर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/06	15.08.81
225	अरुंधती एस., पुत्री श्री एस. अंजइयाह	एपीएसवीसी/4498/06	म.न.6-20-84, छोटा मस्जिद के निकट, गुरबाबाडी, डुब्बा, निजामाबाद, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/06	29.12.81
226	अरुण आनंद मैती, पुत्र श्री रवीन्द्र नाथ मैती	डब्ल्यूबीएसवीसी/3287/06	ग्राम-जॉय कृष्णापोर, डाक पंसकुरा, जिला पी/ मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच /डब्ल्यूबीयूएफएस/06	10.12.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
227	अरविंद कुमार, पुत्र श्री राम चंदर	एचवीसी / 1941 /	ग्राम एवं डाक हसनपुर, जिला झज्जर, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 06	31.12.82
228	आशा वी., पुत्री श्री वेंकटेशप्पा	कर्नाएसवीसी / 39 11 / 06	दक्कन अस्पताल के पीछे, चिंतामनी, कोलार जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	04.11.83
229	आशीना यू.एस.	केरलएसवीसी / 31 38 / 06	औलीक्कारा हाउस, चेराई डाक, अर्नाकुलम- 683514, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	29.10.81
230	आशिम कुमार बिस्वास, पुत्र श्री धीरेन्द्र नाथ बिस्वास	पीबीएसवीसी / 2702 / 07	डिपा. ऑफ एलपीटी, जीएडीवीएसयू, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 00	05.03.78
231	आशीष कुमार अग्रवाल, पुत्र श्री के.सी. अग्रवाल	राजएसवीसी / 3246 / 06	6, भगवती नगर, 1, करतार पुरा, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 06	01.01.79
232	आशीश कुमार वर्मा, पुत्र श्री वी.के. वर्मा	यूपीवीसी / 4385 / 06	म.न. 300 / 6, सी.सी. रोड, रामनाथ, देवरिया, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 06	15.03.81
233	अशोक कुमार जोजफ, पुत्र श्री वी. जोजफ	यूवीसी / 244 / 06	द्वारा जी.डी. भट्ट, जवाहर ज्योति, दामूबाडुंगा, काठगोदाम, जिला नैनीताल, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 95	08.09.57
234	अशोक कुमार राठौड़, पुत्र श्री सी.एल. राठौड़	यूपीवीसी / 4538 / 06	यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / विक्रमविवि / 59	14.06.35
235	अशोक कुमार, पुत्र श्री देवकृष्ण महतो	डीवीसी / 0677 / 06	3 / 27 एच, साकेत ब्लॉक, मांडो, फजलपुर, नई दिल्ली -92	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डीविवि / 06	15.10.78
236	अशोक कुमार, पुत्र श्री कालू राम	राजएसवीसी / 3318 / 06	ग्राम रतनपुरा, वाया मुंडरू, तहसील श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	27.09.80
237	अशोक कुमार, पुत्र श्री नाथू सिंह	यूपीवीसी / 4414 / 06	ग्राम ताजपुरा, थाना बहसूमा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएंडटी / 92	14.06.68

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
238	अशोका, पुत्र श्री शंकरलिंगप्पा	कर्नाएसवीसी/39 20/06	85, तेजस्विनी हाउस, 18वां क्रॉस, बगलकुटे, बंगलौर, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 06	02.07.82
239	आशुतोष कुमार, पुत्र श्री सत्यनारायण	डीवीसी/0633/ 04	द्वारा राज कुमार शर्मा, 5770 /6, न्यू चंद्रावल, मलकागंज के निकट, दिल्ली-110007	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/03	10.08.74
240	अश्विनी कुमार, पुत्र श्री योगेश कुमार	यूपीवीसी/ 4534/06	मोतीराम चिपियान, मौह. थाना भवन, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /पीएयू/05	10.07.82
241	अश्विनी एस., पुत्र श्री सोमइयाह	कर्नाएसवीसी/39 29/06	हाले वोक्कालीगारा, बीडी, शिवपुरा मददूर, माण्ड्या जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 06	10.02.84
242	असीम देव, पुत्र श्री अमरेंद्र देव	यूवीसी/265/07	बी-03, पशुलोक कॉलोनी, ऋषिकेश, जिला देहरादून, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच /एचपीकेवीवी/95	16.06.72
243	अथावले अमरदीप माधवराव	महाएसवीसी/ 7339/	'बापू निवास', आर्शीवाद नगर, परभनी-431401, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 5	03.06.83
244	अतोले सचिन अर्जुन	महाएसवीसी/ 7709/	एटी पांढरेवाडी, तालुक परांदा, जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 6	02.04.84
245	अतोले शांतिलाल कल्याण	महाएसवीसी/ 7392/	ए/पी रावनगांव, तालुक दौंड, जिला- पुणे- 413130, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 5	08.04.82
246	अतुल गुप्ता, पुत्र श्री एस. सी. गुप्ता	यूपीवीसी/ 4437/06	म.न. 285, पटेल नगर, नई मंडी, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 06	18.08.79
247	अतुल हिसारिया, पुत्र श्री बाबू लाल	राजएसवीसी/ 3307/06	दूकान न. 57, नई अनाज मंडी, नोहर, हनुमानगढ़, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/0 6	07.07.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
248	अतुल हिसारिया, पुत्र श्री बाबूलाल हिसारिया	कर्नाएसवीसी/38 75/06	द्वारा अजय कुमार ओला, कमरा न. 123, वीसीएच, बंगलौर-560024, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 06	07.07.82
249	अतुल कुमार, पुत्र श्री बजरंग लाल	यूपीवीसी/ 4386/06	ग्राम संडुपुर, डाक फातपुर, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएटी/06	14.04.81
250	अतुल कुमार, पुत्र श्री रवीन्द्र कुमार	यूपीवीसी/ 4407/06	ग्राम सरकार काहरी, डाक भोजपुर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएटी/06	30.09.84
251	ऑगस्टाइन राजय्याह अप्पादुरई, पुत्र श्री ए. इग्नेटियस एल्बर्ट	टीएनवीसी/ 3245/05	110/44-डी, टी.बी. रोड, अरासरदी, मदुरै 625010	बीवीएससी/ मद्रासविवि/64	05.05.42
252	अवध बिहारी शर्मा, पुत्र स्व. श्री सकलदीप शर्मा	बीवीसी/2716/0 5	ग्राम माधोपुर, डाक धीबरा, थाना जानीपुर- 801505, जिला पटना, बिहार	बीवीएससीएंडएच /बिहारविवि/59	05.01.36
253	अवतिका मोर, पुत्री श्री वीरेंद्र नाथ मोर	एमपीएसवीसी/24 09/07	अवधेश ब्रदरस, घंटा घर, कटनी, म.प्र. 483501	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/06	01.05.81
254	अवनीश कुमार गौतम, पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद	बीवीसी/2701/0 5	ग्राम काथिगा, डाक सिंहनन, थाना अमरपुर - 813105, जिला बंका, बिहार	बीवीएससीएंडएच /सीएसएसूएटी/0 5	01.03.79
255	अवाई प्रशांत माधवराव	महाएसटीसी/ 7377/	एटी डाक कामथा (ब्लॉक), तालुक अर्घपुर, जिला नांदेड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 5	05.10.83
256	आवारे रवीन्द्र पुंडलिक	महाएसटीसी/ 7641/	संगर निवास, आईयूडीपी कॉलोनी, दिघे फार्म के सामने, वाशिम-444505, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 6	13.07.83
257	अविनाश कुमार परास्ते, पुत्र श्री अमर लाल परास्ते	एमपीएसवीसी/23 27/06	रिद्ध बाबा डिंडोरी के निकट, डिंडोर, म.प्र.- 481880	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/05	03.01.79
258	अयान मुखर्जी, पुत्र श्री आलोक कांति मुखर्जी	डब्ल्यूबीएसवीसी/ 3224/06	ग्राम एवं डाक मध्यम, जिला बर्दवान - 713422, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच /डब्ल्यूबीयूएफएस /06	17.02.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
259	आजाद अबुल कलाम, पुत्र श्री अब्दुल शाहेद अली	असम/2281/07	ग्राम एवं डाक घकुआ, जिला बारपेटा- 781309, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू/07	01.01.80
260	बी. अनुकुमार, पुत्र श्री वी. बालाकृष्णन	टीएनवीसी / 1307/05	27/6ए-1, साउथ स्ट्रीट, 5वीं स्ट्रीट, गनपति नगर, नागरकोइल 629002, कन्याकुमारी जिला	बीवीएससी/टीएन यूवीएस/97	20.05.74
261	बी. अरविंद, पुत्र श्री एम. एस.बी. बालासुब्रमनी	टीएनवीसी / 3792/07	27/54, सांगिलीदेवन लेन, पलानी, डिंडीगल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन यूवीएस/91	15.07.70
262	बी. आर्मुगम, पुत्र श्री ए.बी. पिल्लै	टीएनवीसी / 2365/05	158/2, आर.वी. पुरम, नागरकोइल 629001	बीवीएससी/यूएस बंगलौर/75	14.07.53
263	बी. चंद्र बोस, पुत्र श्री के. एल. बालारमन	टीएनवीसी / 0687/05	जी9, भारत फ्लैट्स, आर.वी. नगर, अन्ना नगर ईस्ट, चेन्नई 600102	बीवीएससी/टीएन यू/72	30.05.47
264	बी. चंद्रशेखरन, पुत्र श्री एस.के. बाबू पिल्लै	टीएनवीसी / 0952/05	9/1, जेराट गार्डन, कसमाजोर रोड, 11 एवेन्यू, इगमोर, चेन्नई 600008	बीवीएससी / मद्रासविवि / 70	08.01.46
265	बी. धनलक्ष्मी, पुत्र श्री वी. मनोहर बाबू	टीएनवीसी / 2094/05	पुराना न. 52/4, नया न. 100, बेराकाह रोड, चेन्नई 600012	बीवीएससी/टीएन यू/84	22.01.60
266	बी. मुरली मनोहर, पुत्र श्री आर. भक्तवत्सलम	टीएनवीसी / 1527/05	बूदावन, पुराना न. 68, नया न. 155, मेदावक्कम टैंक रोड, सेक्रेटरिएट कॉलोनी, किलपॉक, चेन्नई 600010	बीवीएससी/टीएन यू/75	06.09.52
267	बी. मुरुगन, पुत्र श्री के. बालारमन	टीएनवीसी / 1323/05	ई4/12, फर्स्ट मेन रोड, ओट्टेरी एक्सटेंशन, वंडालूर, चेन्नई 600048	बीवीएससी/टीएन यूवीएस/93	15.05.70
268	बी. नरेंदर, पुत्र श्री नरसइयाह	एपीएसवीसी / 4481/06	डॉकेश्वर (डाक), नंदीपेट (एम), निज़ामाबाद जिला 503212	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू/06	09.02.82
269	बी. पंकजम, पुत्र श्री पी. बालन	टीएनवीसी / 1563/05	नया न. 12, पुराना न. 50, नरसोजी स्ट्रीट, वलजापेट, वेल्लोर 632513	बीवीएससी / मद्रासविवि / 73	28.06.49



क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
270	बी. पुवाराजन, पुत्र श्री वी. ब्रूवालिंगम	टीएनवीसी / 0826 / 05	न. 133, अरुलानंदम्मल नगर, 8वीं स्ट्रीट, थंजावूर 613007	बीवीएससी / टीएएन यूवीएस / 96	24.10.72
271	बी. श्रवनन, पुत्र श्री आर. बालाकृष्णन	टीएनवीसी / 2802 / 05	107, वल्लालर नगर, चौथी स्ट्रीट, मेडिकल कॉलेज रोड, थंजावूर	बीवीएससी / टीएएन यूवीएस / 97	15.11.73
272	बी. सिवाकुमार, पुत्र श्री पी. बाला सुब्रमण्यन	टीएनवीसी / 1271 / 05	3/2, पलया पलायम डाक, नमक्कल जिला एवं तालुक- 637405	बीवीएससी / टीएएन यूवीएस / 01	30.06.77
273	बी. सिवामनी, पुत्र श्री ए. सी.एम. बालासुब्रमण्यन	टीएनवीसी / 3579 / 06	7, मुरुगा रेड्डी स्ट्रीट, शोलिंघूर 631102, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएएन यूवीएस / 01	02.06.77
274	बी. सोक्कालिंगम, पुत्र श्री एस. बालासुब्रमण्यन	टीएनवीसी / 2303 / 05	प्लॉट न. 28, डोर न. 2, 111 स्ट्रीट सुदर्शन नगर, मदम्बक्कम, चेन्नई 600073	बीवीएससी / टीएएन यूवीएस / 00	29.04.75
275	बी. श्रीदेवी, पुत्री ओबुलापथि	एपीएसवीसी / 4544 / 07	वेट असि. सर्जन, वेट. डिस्पेंसरी, कमलापुर, करीम नगर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी/एंडएच / एपीएयू / 91	01.06.68
276	बी. सुचित्रा, पुत्र श्री जी. बालाकृष्णन	टीएनवीसी / 1704 / 05	25/2, 12वां एवेन्यू, अशोक नगर, चेन्नई 600083	बीवीएससी / टीएएन यूवीएस / 97	02.04.74
277	बी. स्वामीनाथन, पुत्र श्री आर. वक्यानाथन	टीएनवीसी / 1167 / 05	न. 7, श्री शिवबालाजी इल्लम, लक्ष्मी कॉलोनी, बॉयज़ हाई स्कूल, प्ले ग्राउंड रोड, धरमपुरी 701	बीवीएससी / टीएएन यूवीएस / 00	28.01.75
278	बी. विजया भारती, पुत्र श्री आर. बाल भारती	टीएनवीसी / 1561 / 05	न. 16, प्रोफेसरस कॉलोनी, एस. ओ.एस. विलेज के पीछे, पूर्वी ताम्बरम, चेन्नई 600059	बीवीएससी / टीएएन यू / 76	24.01.53
279	बी. वास्कर, पुत्र श्री एस. बालासुब्रमण्यम	टीएनवीसी / 3564 / 06	अन्नाई इल्लम, बोम्मईकुट्टट्टइमेडु, सेलापमपथी, डक नमक्कल, 19, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएएन यूवीएस / 98	28.12.74

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
280	बी.आर. परीवेल, पुत्र श्री के. रंगनाथन	टीएनवीसी/ 2047/05	14, सी.एन.सी. नगर, बुधामूर, बृहदाचलम, कुड्डालोर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएएन यूवीएस/97	21.06.74
281	बी. राजेश कुमार, पुत्र श्री आर. बालाकृष्णन	टीएनवीसी/ 2295/05	31, पलानी अंडावर, कोइल स्ट्रीट, कोसापलायम, अर्नी 632301, तिरुवन्नामलई जिला	बीवीएससी/टीएएन यूवीएस/97	23.06.74
282	वी.एस. मजुला, पुत्र श्री एम. स्टीफेन जयकुमार	टीएनवीसी/ 1562/05	न.9. सिंधु गार्डन, गोपालपुरम, वेल्लोर-6	बीवीएससी/टीएएन यूवीएस/90	24.10.62
283	बी.वी. सुनील कुमार, पुत्र श्री बेहरा कोटेश्वर राव	डब्ल्यूबीएसवीसी/ 3240/06	डीएस/196-ए, 64 यूनिट, डाक आदरा, जिला पुरुलिया- 723121, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच /डब्ल्यूबीयूएस/06	07.08.83
284	बाबाराज एस. मथपथि, पुत्र श्री श्रीशैल	कर्नाएसवीसी/38 73/06	टोडालाबागी- 587301, जामखंडी तालुक, बगलकोट जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएसएस/06	01.11.83
285	बगकर शिवाजी रामदास	महाएसवीसी/ 7159/	ए/पी-मुजारी, तालुक राहुरी, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएसएस/04	14.11.80
286	बगल अकरम तानाजी	महाएसवीसी/ 7422/	एटी येरमारवाडी, डाक कटारखाटव, तालुक खाटव, जिला सतारा-415507, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएसएस/05	27.10.82
287	बागनेट निर्मल, पुत्र श्री बहादुर चेतरी	असम/2245/06	द्वारा श्री टोक बहादुर चेतरी, ग्राम एवं डाक नातुन होली, थाना तामुलपुर, जिला नलबारी, असम	बीवीएससीएंडएच /एस/06	01.07.82
288	बाहेकर विजय श्रीराम	महाएसवीसी/ 7604/	चैतण्या वाडी, वार्ड न. 16, बुलदाना-443001, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएसएस/06	21.06.82
289	बहिराम यशवंत राव काशीनाथ	महाएसवीसी/ 7681/	एटी शेवाडीपडा, डाक उमभारती, तालुक साकरी, जिला धुले-424306, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएसएस/06	21.03.79

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
290	बैजू ई.के.	केरलएसवीसी / 31 82/06	इंगाडियिल हाउस, माथिलाकोम डाक, थिसूर 680685, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/06	14.01.75
291	बालम दीप्ती, पुत्री श्री रामास्वामी	एपीएसवीसी / 4510/06	ईसीए एवं आईएस लि., दारलापुडी, एस. रायावरम (एम), विशाखापटनम जिला, 531082, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/06	27.04.73
292	बलानी जगदीश कांतिलाल	गुजएसवीसी / 2691/06	बवाजिनी वाडी, नदी रोड, सिद्धपुर, जिला पाटन, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एसडीएयू/06	14.01.83
293	बालेंद्र सिंह, पुत्र श्री बलवान सिंह	यूपीवीसी / 4477/06	ग्राम एवं डाक बरौली खारका सरिला, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /सीएसएयूएंडटी /06	02.05.80
294	बालेंद्र कुमार त्रिपाठी, पुत्र श्री एस.एन. त्रिपाठी	यूपीवीसी / 4557/07	ग्राम अंगवा, डाक बडीहडल, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /सीएसएयूएंडटी /06	04.04.77
295	बल्लमवार विशाल अशोक	महाएसवीसी / 7631/	डाकघर के सामने, आरमोरी, जिला गडचिरोली— 441208, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 6	09.01.83
296	बलराम अहिरवार, पुत्र श्री खिलन प्रसाद अहिरवार	एमपीएसवीसी / 23 33/06	ग्राम खुदाई, डाक सेवास सागर, सागर, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच /सीएसकेकेवीवी/ 06	10.12.74
297	बालसराफ सतीश मारुति	महाएसवीसी / 7130/	कोलहार, घोटी स्टेट, हाइवे, शेकीवाडी तालुक, अकोले, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 4	01.05.81
298	बलवंतकर, सुनील सतवाजी	महाएसवीसी / 7542/	ए/पी सगरौली, तालुक बिलोली, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 5	02.02.83
299	बामने स्वाति शिवाजीराव	महाएसवीसी / 7349/	कमलेश्वर कन्या विद्यालय के निकट, विद्या नगर, जालकोट रोड, उदगीर, जिला लातूर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 5	10.07.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
300	बंदिता अरुक, पुत्री श्री बी. अरुक	ओवीसी / 2039 / 06	एटी / डाक अनल, वाया एम.के. गोला, जिला ढेंकनाल -759024, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 05	14.09.80
301	बनिता सिंघला, पुत्री श्री नरहर चंद सिंघला	डीवीसी / 0612 / 02	म.न. 234, वसुधा अपार्ट., प्लॉट न. 41, सेक्टर-9, रोहिणी, नई दिल्ली	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 03	06.11.76
302	बंकर प्रवीन सूर्यकांत	महाएसवीसी / 7584 /	'प्रयाग' निवास, साईनगर, तहसील रोड, तेलहारा जिला अकोला-444108, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	29.11.83
303	बंशराज प्रसाद पटेल, पुत्र श्री एल.पी. पटेल	यूपीवीसी / 4537 / 06	ग्राम हनुमान गंज माजरा, लौरी धान, रायपुरा मऊ, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 04	20.02.77
304	बनवारी लाल जिंदल, पुत्र श्री लड्डू लाल	राजएसवीसी / 3260 / 06	ग्राम एवं डाक नरौली डांग, तहसील सापोतारा, करौली, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 06	25.04.78
305	बप्पा गोस्वामी, पुत्र स्व. श्री मलय गोस्वामी	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3255 / 06	ग्राम एवं डाक सुदर्शन नगर, जिला दक्षिण दीनाजपुर-733121, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	16.07.83
306	बराद दिलीप सिंह बालूभाई	गुजएसवीसी / 2735 / 06	"कल्पवल्ली" समर्पण सोसायटी, मार्केटिंग यार्ड के निकट, कोडीनार, जिला जूनागढ़-362720, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 06	27.05.84
307	बाराटे अभिजीत काशीनाथ	महाएसवीसी / 7730 /	माजी सैनिक वसाहत, राम मंदिर के निकट, आप्ता मिराज, तालुक मिराज, जिला सांगली, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	01.08.82
308	बरहटे परेश विनोद	महाएसवीसी / 7726 /	'पद्मिनी निवास', प्लॉट न.3, चंद्रप्रभा कॉलोनी, रिंग रोड के निकट, जलगांव, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	12.08.83
309	बरखा शर्मा, पुत्री श्री वी.के. शर्मा	यूवीसी / 183 / 06	4 / 1319 टीए कॉलोनी, पंतनगर, यू.एस. नगर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीवीपीयूएटी / 02	08.08.78

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
310	बरूआ बिद्ये, पुत्र श्री ताधित च. बरूआ	असम/2271/07	ग्राम भलूकमारी, डाक गोसाबारी, नागांव, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू/07	01.09.82
311	बरूआ दारमोंद्रा, पुत्र श्री मोहन च. बरूआ	असम/2242/06	ग्राम लचित नगर, डाक खुबालिया, जिला धोमाजी-78705, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू/06	31.07.81
312	बरूआ कौंगकोन, पुत्र स्व. श्री जोगेश्वर बरूआ	असम/2270/07	द्वारा स्व. श्री जोगेश्वर बरूआ, ग्राम सामरीखोवा, डाक बिस्वनाथ चरियाली, सोनितपुर, असम-784176	बीवीएससीएंडएच / एएयू/07	01.03.78
313	बसालिगप्पा, पुत्र श्री शरणप्पा	कर्नाएसवीसी/38 39/06	बी.एस. डिगे, बालवाडी, वाया वाडी (जं.), चित्तपुर तालुक,	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू/06	22.07.81
314	बासप्पा अमलाजेरी, पुत्र श्री मालप्पा	कर्नाएसवीसी/38 33/06	इनाम हचिनल-587301, चुलयाल आरसी, जामखंडी तालुक, बगलकोट जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू/06	30.04.82
315	बासवराज गोमदी, पुत्र श्री मल्लेशप्पा पी. गोमदी	कर्नाएसवीसी/39 57/07	2259, सेक्टर न. 11, महतेश नगर, बेलगाम-590016, कर्नाटक	बीवीएससी/यूएस बंगलौर/83	01.07.57
316	बासवराज एस. भजंतरी, पुत्र श्री सिदप्पा	कर्नाएसवीसी/38 62/06	हल्लूर-587115, बगलकोट तालुक एवं जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू/06	22.06.83
317	बासवराज के.एन., पुत्र श्री नागना गौड	कर्नाएसवीसी/39 44/06	मोरीगेरे-583220, एच.बी. हल्ली, बेलारी जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू/06	01.09.83
318	बाटे ए. अज़िया अब्दुल दावूद	महाएसवीसी/7253/	बाटे विला, फैमिलीमल, दापोली, तालुक दापोली जिला रत्नगीर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू/02	15.09.78
319	बाविस्कार बहर श्रीकृष्णा	महाएसवीसी/7439/	जज हनुमान गली, डाक सकाली, तालुक यवल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू/05	03.03.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
320	बेदरे दत्तात्रेय किसनराव	महाएसवीसी / 7725 /	बाजार चौक, यरमला, तालुक कलम्ब, जिला उस्मानाबाद-413525, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	01.05.80
321	बीनु भदोरिया, पुत्री श्री रमेश सिंह भदोरिया	यूवीसी / 246 / 06	33, वन विहार, बल्लुपुर, देहरादून	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 96	05.06.71
322	बेगम सोनूवारा, पुत्री मौह. नसीरुद्दीन अहमद	असम / 2284 / 07	ग्राम सतगांव (आमबारी), डाक उदयन विहार, जिला कामरूप, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 07	26.04.84
323	भाबनाथ प्रसाद बस्तिया, पुत्र श्री नबरंजन बस्तिया	ओवीसी / 2050 / 06	एटी / डाक कल्याणी नगर, जिला कटक, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 06	27.05.82
324	भदाने सचिन विश्वासराव	महाएसवीसी / 7554 /	कर्मवीर नगर, 91, साकरी, तालुक साकरी, जिला धुले-424304, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	02.08.80
325	भदसारले कस्तूरी चंद्रशेखर	महाएसवीसी / 7217 /	सगुना बाग, मालेगांव, नेरल, मालेगांव, तालुक करजत, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	05.09.81
326	भगत सिंह चौधरी, पुत्र श्री जोधराज	राजएसवीसी / 3305 / 06	गोविंद जीरॉक्स, उपतहसील कनवास के निकट, कोटा, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 06	10.08.78
327	भगत सुशील संतोषराव	महाएसवीसी / 7640 /	प्लॉट न. 209, एलआईजी-226, म्हादा कॉलोनी, वर्धा-442001, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	09.06.82
328	भगवती नाबा कृष्णा, पुत्र श्री बालू राम नाथ	असम / 2239 / 06	ग्राम नाम डुम डोमिया सातरा, डाक ढिंग, जिला नागांव, 782123, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 06	01.01.78
329	भगवती पल्लवी, पुत्री श्री अनवुंद्रा भगवती	असम / 2269 / 07	द्वारा श्री ए. भगवती, नलबारी, विद्यापारा- 781335, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 07	28.06.82
330	भगवान दास, पुत्र श्री दल्लू राम	राजएसवीसी / 3274 / 06	गुलाब बाग के सामने, पंचवटी कॉलोनी, करौली राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 06	04.01.79

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
331	भाग्य लक्ष्मी पी.एस.	केरलएसवीसी/31 89/06	वेलाम्परम्बिल हाउस, गवर्न. ग्रेस के निकट, उआझूर डाक, कोडुंगूर, कोट्टायम- 686564, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/06	21.07.81
332	भजना राम बिश्नोई, पुत्र श्री हरसिंगा राम	राजएसवीसी/ 3278/06	प्लॉट न. 137, एयर फोर्स एरिया के सामने, जोधपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/06	28.11.79
333	भालेराव संजय मलहारी	महाएसवीसी/ 7558/	338, चोराम्बा, तालुक धरूर, जिला बीड- 431124, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 4	03.06.79
334	भाल्के समीर वैजनाथ राव	महाएसवीसी/ 7731/	एटी दारखेड, डाक व तालुक गौरखेड, जिला परभनी, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 6	05.09.81
335	भालोदिया सतीश जादवभाई	गुजएसवीसी/ 2736/06	एटी जंबलपुर, तालुक टंकारा, जिला राकोट- 363650, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/06	30.03.84
336	भामरे नरेश विठ्ठल	महाएसवीसी/ 7713/	म.न. 12, पी.डी.पी. नगर, सतना, जिला नासिक- 423301, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 6	18.05.82
337	भंगारे राजेंद्र डगाडू	महाएसवीसी/ 7698/	ए/पी राजुर, तालुक अकोले, जिला अहमदनगर -433604, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 6	26.10.80
338	भवंतरलाल चौधरी, पुत्र श्री धन राज	राजएसवीसी/ 3303/06	द्वारा श्री ईश्वर सिंह, जगदम्बा मेडिकल स्टोर, सिविल अस्पताल, बाडमेर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /एसकेएन डीएयू/06	25.04.81
339	भापकर प्रशांत त्रिम्बकराव	महाएसवीसी/ 7140/	ए/पी लोनी बापकर, तालुक बारामती, जिला पुणे -413110, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 4	15.07.82
340	भाराली उदय भास्कर, पुत्र श्री बिद्या राम नाथ	असम/2289/07	द्वारा श्री बिद्या राम नाथ, डाक सिपाझर दक्षिण चुबुरी, दारंग, असम-784145	बीवीएससीएंडएच /एएयू/07	30.09.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
341	भारत चंद, पुत्र श्री कुंदन चंद	यूवीसी/266/07	लोहिया पुल, सितारगंज रोड, डाक खातिमा, जिला यू.एस. नगर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी/80	22.12.55
342	भारत बी.के., पुत्र श्री कांताराजप्पा बी.आर.	कर्नाएसवीसी/39 36/06	बिसालेरे- 577116, कडूर तालुक, चिक्कमगलूर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू/06	03.05.83
343	भारती डी.एन. पुत्री श्री आर. डोराईस्वामी	अंड.व निको. एसवीसी/80/00	द्वारा सुनील, गोलघर, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एवं निकोबार	बीवीएससी/टीएनवी एएसयू/00	9.9.76
344	भरत कुमार किंताली, पुत्र श्री गोविंदराजुलु	एपीएसवीसी/4485/06	उत्तरावल्ली डाक, राजम वाया, विजियानगरम जिला -535124, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू/06	17.07.83
345	भारतीय आनंद विजय	महाएसवीसी/7132/	ए/पी- कोलसा, तालुक सेनगांव, जिला हिंगोली, द्वारा संतोष द्वारका दास अग्रवाल, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू/04	31.07.81
346	भास्कर आर, पुत्र श्री रामप्पा	कर्नाएसवीसी/38 89/06	अबलोदू-562105, किडालाघट्टा तालुक, कोलार जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू/06	25.08.81
347	भास्कर सोमनाथ रामदास	महाएसवीसी/7424/	ए/पी भेंडा, तालुक नेवासा, जिला अहमदनगर- 414605, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू/05	01.06.81
348	भास्करन रवि लथा, पत्नी श्री एम. मुरली गनम	टीएनवीसी/1792/05	न. 80, गजपथि स्ट्रीट, शेनॉय नगर, चेन्नई 600030	बीवीएससी/टीएनए यू/88	29.05.64
349	भिनवा राम बयाल, पुत्र श्री वैबा राम	राजएसवीसी/3311/06	ग्राम एवं डाक बघोली, वाया सराय, झुंझुनू, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू/05	01.01.75
350	भोजाने नागनाथ मारुण्ड	महाएसवीसी/7432/	ए/पी चिखाली, तालुक उस्मानाबाद, जिला उस्मानाबाद- 413501, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू/05	10.11.81
351	भूप कुमार लाकेसर, पुत्र श्री शियो चंद राम लाकेसर	पीबीएसवीसी/2647/06	द्वार राम प्रताप, बसंत नगर, स्ट्रीट न.3, अबोहर, जिला फिरोजपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / आरएयू/06	10.06.78
352	भूपेंदर सिंह, पुत्र श्री करन सिंह	डीवीसी/0613/02	65/पॉकेट ए-00/ सेक्टर II (60एम), अवतिका, रोहिणी, दिल्ली-110085	बीवीएससीएंडएच / एचएयू/88	08.03.65



क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
353	भूपेन्द्र कुमार, पुत्र श्री सुरेश चंद्र	यूपीवीसी / 4482 / 06	ग्राम होरची, डाक निधोली कलां, जिला एटा, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएंडटी / 06	22.10.78
364	भोसले देवेन्द्र दत्तात्रेय	महाएसवीसी / 7223 /	मातृ पितृ कृपा, तालीवाडी, गुहागर, तालुक गुहागर, जिला रत्नगीर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	18.06.80
355	भोसले संतोष प्रहलाद	महाएसवीसी / 7486 /	द्वारा श्री प्रहलाद डी. भोसले, एटी दिवथाना, डाक पेठ, धिखाली, जिला बुलदाना, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	28.08.82
356	भोसले योगेश देवीदास	महाएसवीसी / 7444 /	द्वारा डी.वी.भोसले, विश्वसदन, बालाजी नगर, राम मंदिर के निकट, ओमर्गा, तालुक ओमर्गा, जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	19.06.80
357	भोयार सचिन कुमार घनशाम	महाएसवीसी / 7175 /	'कृष्णाकुंज', धर्मपुरी रोड, हनुमाननगर, देसाईगंज, तालुक देसाईगंज, जिला गडचिरोली, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	21.09.81
358	भुजबल राजू निवृत्ति	महाएसवीसी / 7242 /	ए/पी घारगाव, तालुक संगमनेर, जिला अहमदनगर - 422620, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	25.12.81
359	भूपिंदर मोहन जुल्का, पुत्र श्री राम प्रसाद जुल्का	पीबीएसवीसी / 2665 / 06	49, शिवालिक एन्कलेव, चंडीगढ़ रोड, नवां शहर - 225012, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / पीएयू / 64	22.12.40
360	भुयन नबा ज्योति, पुत्र श्री सुरेन भुयन	असम / 2261 / 07	पानीगाव चराली, नेताजी रोड, नागाव, असम- 782001	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 07	31.12.80
361	बिभा कुमारी, पुत्र श्री नरेश प्रसाद	बीवीसी / 2651 / 05	ग्राम काजीचक, डाक रनथपुर, थाना सेरमेरा 811104, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडएच / बीएयू / 05	27.12.79
362	बिभु प्रसाद पांडा, पुत्र श्री देवराज पांडा	ओवीसी / 2059 / 06	एटी क्वा. न. 2आरए (एफ) 16/4, यूनिट-9 फ्लैट, डाक साहिद नगर, भुवनेश्वर-22, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 06	01.07.81
363	बीबी जार्ज	केरलएसवीसी / 3180 / 06	नेवादा हाउस, एसआरएम रोड, कोची- 682018, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	05.02.83
364	बिजय कुमार बेहेरा, पुत्र श्री निरंजन बेहेरा	ओवीसी / 2097 / 07	एटी तालागढ़, डाक बलियंता, जिला खुर्दा, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 07	27.04.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पत्ती	अर्हताएं	जन्मतिथि
365	विलास कुमार, पुत्र श्री विदेश्वरी प्रसाद, पुर्वे	बीवीसी/2656/05	ग्राम रानीगंज, शिक्षक कॉलोनी, डाक मेरीगंज, थाना रानीगंज-854353, जिला अरेरिया, बिहार	बीवीएससीएंडएच / बीएयू/05	22.01.80
366	विकाश चक्रवर्ती, पुत्र श्री श्रीसागर चक्रवर्ती	डब्ल्यूबीएसवीसी/3222/06	भक्तपारा, डाक रघुनीथपुर, जिला पुरुलिया-723133, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस /05	17.06.83
367	विकाश डे, पुत्र श्री तीरथपदे डे	डब्ल्यूबीएसवीसी/3277/06	ग्राम एवं डाक गोलकुंडा, जिला बंकुरा-722101, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस /06	05.12.82
368	विकाश सेठी, पुत्र श्री बृदायन सेठी	ओवीसी/2096/07	एटी तीपिरी (सिरस्ता), डाक पेलो, वाया कोलार, जिला जगससिंगपुर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी/07	16.07.79
369	बिलेवर दिलीप श्रीराम	महाएसवीसी/7626/	भागीरथी नगर, सरोद लेआउट, गुडाधी, तालुक/ जिला अकोला-444001, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू/06	02.07.83
370	दिनायक सिंह, पुत्र श्री अरविंद प्रसाद	बीवीसी/2877/05	ग्राम परसदिहा, डाक परसबिहा, पीएस नगर, नौसा-801305, नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू /05	15.02.81
371	बिनी जोसेफ	केरलएसवीसी/3121/06	थायिल हाउस, थोट्टुमुकम डाक, एरियाकोड वाया, मलप्पुरम जिला-673639, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू/06	06.05.82
372	विदु किरनमयी च., पुत्री श्री वैकट स्वामी	एपीएसवीसी/4452/06	डी.न. 7-28/1, तुलासंम्मा स्ट्रीट, पोरंकी-521137, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू/06	28.11.82
373	विदु बंदोपत कुलकर्णी, पुत्र श्री बंदोपत नारायण	डीवीसी/0596/02	30, महादेव रोड, नई दिल्ली	बीवीएससीएंडएच / केकेवी/81	09.09.59
374	बिनोद कुमार पासवान, पुत्र श्री सुरेंद्र पासवान	बीवीसी/2659/05	ग्राम चकला, डाक चकला, थाना बाहेरी-847201, जिला दरभंगा, बिहार	बीवीएससीएंडएच / बीएयू/05	05.03.80
375	विरादर श्रीकांत मुरलीधर, पुत्र श्री मुरलीधर	कर्नाएसवीसी/3859/06	मानिकेश्वरी निवास, बासवा कॉलोनी, हुमनाबाद-585330, बिदर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू/06	01.06.84
376	विरादर प्रशांत गुंडेराव	महाएसवीसी/7471/	302, श्री कृष्णा सीएचएस, आरडीपी-6, प्लॉट न. 212, चारकोप सेक-3, कांदिवली (प.), मुंबई, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू/05	03.01.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताए	जन्मतिथि
377	बिरिन्दर पाल सिंह, पुत्र श्री अवतार सिंह	पीबीएसवीसी / 2663 / 06	616, स्ट्रीट नं. 2, सीआईए स्टाफ के निकट, नानक नगरी, मोगा, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएसयू / 06	05.11.82
378	बिस्मिता नदी, पुत्री श्री विजय कुमार नदी	ओवीसी / 2130 / 07	एटी दूमीचाक, डाक देवोग, वाया सिंगला, जिला बालासौर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 07	02.01.83
379	बिस्व रंजन महाराना, पुत्र श्री बैकुंठनाथ महाराना	ओवीसी / 2066 / 06	एटी सौभाग्यमंजरी लेन, डाक / जिला नयागढ़, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 06	11.07.81
380	बिस्वजीत दास, पुत्र श्री चैतन्य चरन दास	ओवीसी / 2094 / 07	एटी / डाक पुरुनबसला, वाया नलीबर, जिला जगतसिंगपुर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 06	02.07.80
381	बिस्वजीत मोंडल, पुत्र श्री धनपति मोंडल	डब्ल्यूडीएसवीसी / 3274 / 06	एटी बलरामपुर (स्टेशन रोड), डाक रगडीह, जिला पुरुलिया, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएसएस / 06	02.01.82
382	बिस्वजीत स्वेइन, पुत्र श्री मायाधर स्वेइन	ओवीसी / 2074 / 06	एटी-सी / 4, पीएफ कॉलोनी, पीएच-1, सहीद नगर, भुवनेश्वर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 06	20.06.82
383	बिस्वरंजन त्रिपाठी, पुत्र श्री ब्रह्मानंद त्रिपाठी	ओवीसी / 2052 / 06	एटी टिटीगन, डाक सावामुला, जिला जगतसिंगपुर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 06	02.06.81
384	बोबाडे श्याम प्रभाकर	महाएसवीसी / 7157 /	हिमवर्षा अपार्ट., प्लॉट नं. 177, पांडे लेआउट, खामला, नागपुर-25, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	04.01.80
385	बोडेमवड उत्तम श्रीराम	महाएसवीसी / 7290 /	मेन रोड, दताला, तालुक कंधार, जिला नांदेड- 431707, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	10.05.78
386	बोडखे अविनाश मछीन्द्र	महाएसवीसी / 7600 /	नागपुर वेट. कॉलेज, सर्वट क्वा.न.एल / 5, सेमिनरी हिल्स, नागपुर-06, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	30.12.82
387	बोडखे सुचिता शालिग्राम	महाएसवीसी / 7169 /	24, राजापेट, हुडकेश्वर रोड, नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	08.05.81
388	बोले प्रवीण रामकृष्णा	महाएसवीसी / 7342 /	वाशिम रोड, पदूर, (नानासाहेब), तालुक पदूर, जिला अकोला, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	27.07.78
389	बोम्बटकर राहुल शालिग्राम	महाएसवीसी / 7593 /	ए / पी बेलखेड, तालुक तेलहारा, जिला अकोला- 444108, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	11.03.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
390	बोमन्ना श्रीवानी, पुत्री श्री बी. डाली राजू	एपीएसवीसी / 4484 / 06	पुत्री श्री एम. धन लक्ष्मी, एम.पी. एच.ए.(डब्ल्यू), बामिडी स्ट्रीट, कोरासावादा पी., पठापटनम (एम), श्रीकाकुलम जिला-532214, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीसीयू / 06	24.12.81
391	बोंदरा सचिन छगनप्पा	महाएसवीसी / 7181 /	रत्नप्रमानिवास, गणेश नगर, चिखाली, तालुक चिखाली, जिला बुलदाना, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	08.10.78
392	बोनिया राजबी, पुत्र श्री जगत च.बोनिया	असम / 2272 / 07	पिछलगुरी (नारायणपुर), डाक माधबपुर, जिला उत्तरी लखीमपुर- 784164, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 07	01.03.82
393	बोरादा विजय पंडितराव	महाएसवीसी / 7566 /	'आर्शावादा', विष्णु नगर, परमनी-431401, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	07.02.81
394	बोराह रितुराज, पुत्र श्री सोनेश्वर बोराह	असम / 2285 / 07	ग्राम दिचियल, डाक खोना-खोकोरा, जिला सिवासागर, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 07	01.01.83
395	बोरडे अर्चना उत्तम राव	महाएसवीसी / 7385 /	'स्नेहदीप', 69, रामकृष्णा नगर, तालुक जिला परमनी -431401, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	13.03.82
396	बोरदोलोई गौतम, पुत्र स्व. श्री सत्येन बोरदोलोई	असम / 2263 / 07	ग्राम मजारती गरुबत, डाक मजारती, जिला नागांव, असम-782002	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 07	31.03.80
397	बोरदोलोई स्मिता, पुत्र श्री मृदु पवन हज़ारिका	असम / 2275 / 07	द्वारा श्री एम.पी. हज़ारिका, खोलमती, वार्ड न. 14, उत्तर लखीमपुर, जिला लखीमपुर, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 07	14.12.81
398	बोरेकर विवक ईश्वर	महाएसवीसी / 7394 /	वैष्णव नगर, दत्ता मंदिर वार्ड, मोहबला रोड, वारोरा, तालुक वारोरा, चंद्रपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	21.06.82
399	बोरकत प्रदनयंकुर लक्ष्मन	महाएसवीसी / 7623 /	डी. फार्मसी कॉलेज, आमगांव, ए/पी तालुक आमगांव, जिला गोंडिया- 441902, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	20.11.81
400	बोरकोटकी दिव्य ज्योति, पुत्र श्री प्रोन्नित च. बोरकोटकी	असम / 2265 / 07	रामकृष्ण नगर, खेलमती तिनियेली, जोरहाट-8, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 07	15.01.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
401	बोरो डेजी पुत्री स्व. श्री इंद्र मोहन बोरो	असम/2286/07	ग्राम पटगांव (पेप्सी गेट के निकट), डाक अज़ारा, गुवाहाटी -17, कामरूप, असम	बीवीएससीएंडएच /एएयू/07	02.01.83
402	बोरो प्रिंस, पुत्र श्री महेंद्र नाथ बोरो	असम/2262/07	दोरिका किनार, नवाजान गांव, डाक नमतियाल पाथेर, जिला सिवसागर, असम	बीवीएससीएंडएच /एएयू/07	03.04.80
403	बोरसे विराज अशोक	महाएसवीसी/7721/	प्लॉट न. 93, श्रिया, श्रीरंग कॉलोनी, देवपुर, धुले- 424005 महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/06	21.12.82
404	ब्रह्मंकर महेश गणपत	महाएसवीसी/6710/	44, शातिश्रम, ओसवाल नगर, देवपुर, धुले, तालुक/ जिला धुले- 424005 महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/06	08.09.82
405	ब्रज मोहन गुप्ता, पुत्र श्री आर.एन. गुप्ता	यूपीवीसी/4521/06	ग्राम सोहसा पाटिल गोसी, छपरा, डाक कुरमौता, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /सीएसएयूएंडटी /99	07.03.71
406	ब्रजेश के. पुत्र श्री एस.एन. विश्वकर्मा	यूपीवीसी/4505/06	151, संजय गांधी नगर, नौबस्ता, कानपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /सीएसएयूएंडटी /06	10.01.80
407	ब्रिस्केतु कुमार, पुत्र श्री माधव शरन सिंह	बीवीसी/2625/05	ग्राम शिवगढ़, डाक दतियाना, थाना विक्रम पाली, जिला पटना, बिहार.	बीवीएससीएंडएच /एएयू/05	01.03.80
408	बुदरुक विकास विलास	महाएसवीसी/7692/	3811/115, गंगई निवास, दत्ता नगर, बारशी जिला, सोलापुर-413401, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/05	16.06.83
409	बुबुले नामदेव राजेंद्र	महाएसवीसी/7487/	'मालोश्री', मंगलवारपेट, परांदा, ए/पी/टी- परांदा, जिला उस्मानाबाद-413502, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/05	10.10.83
410	बुरसे नीलेश अरुणकुमार	महाएसवीसी/7246/	जैन गली, हिंगोली- 421513, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/04	09.02.81
411	बूटे विक्रम सुरेश	महाएसवीसी/7707/	14, स्काईलार्क, खंडाला, तालुक खंडाला, जिला सतारा-412802, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/06	10.06.84
412	सी. अंबारासु पुत्र श्री आर. चिन्नुसामी	टीएनवीसी/2448/05	न.1, सोजिया मुदलियार स्ट्रीट, मोहानूर 637015, नमक्कल जिला	बीवीएससी/टीएएनयूवीएस/98	26.05.75

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
413	सी. बालाचंद्रन, पुत्र श्री रामा चिदम्बरम	टीएनवीसी / 0783 / 05	सी ब्लॉक, जी-2, मारुथि नगर, 40, वेलाला स्ट्रीट, अडाम्बक्कम, चेन्नई 600088	बीवीएससी / टीएनए यू / 80	28.07.57
414	सी. बालुसामी, पुत्र श्री टी. चिनप्पन	टीएनवीसी / 0961 / 05	संकरन स्ट्रीट (दक्षिण), पप्पानाडु डाक, ओरथानाडु तालुक, धंजापुर जिला 614626	बीवीएससी / टीएनए यूवीएस / 98	20.05.75
415	सी. बदेश्वरन, पुत्र श्री एस. चिन्नाओदी	टीएनवीसी / 2967 / 05	अलामारथु कडु, कुरुम्बनूर डाक, मट्टूर तालुक, सलेम जिला 636303	बीवीएससी / टीएनए यूवीएस / 96	02.05.73
416	सी. चंद्रहासन, पुत्र श्री पी. चिन्नासामी	टीएनवीसी / 1255 / 05	होगीनक्काल रोड, मदम ग्राम, पेन्नाग्राम डाक, धर्मापुरी जिला	बीवीएससी / टीएनए यू / 79	16.08.55
417	सी. काथिरवेलन, पुत्र श्री वी. चिन्नादुराई	टीएनवीसी / 0676 / 05	चेल्लाकुट्टई डाक, वनियमबाडी, वेल्लोर जिला 635752	बीवीएससी / टीएनए यूवीएस / 00	19.05.76
418	सी. मदन मोहन, पुत्र श्री ए. चेलप्पा	टीएनवीसी / 1706 / 05	40 / 1, अंजु स्ट्रीट, वडासेरी, नगरकोइल, कन्याकुमारी जिला, पिन- 629001	बीवीएससी / टीएनए यूवीएस / 95	02.06.72
419	सी. नेल्सन जयकुमार, पुत्र श्री आर. चंद्रमोहन	टीएनवीसी / 3659 / 06	7, थिरुमंजना वीधी, राघवेंद्र ब्लड क्लिनिक लैब. के निकट, सिरकाली- 609110, नगाई जिला	बीवीएससी / टीएनए यूवीएस / 98	19.05.72
420	सी. पंडियान, पुत्र श्री सी. चिन्नादुराई	टीएनवीसी / 1287 / 05	11 / 34 बी 1-थेथाकुडी साउथ, डाक वेदारनियम तालुक, नगाईपट्टीनम जिला, पिन 614809	बीवीएससी / टीएनए यूवीएस / 00	07.04.75
421	सी. पंडियान, पुत्र श्री एस. के. चिन्नुसामी	टीएनवीसी / 2981 / 05	सलप्पालायम, रेड्डीपट्टी डाक, नमक्कल 637001	बीवीएससीएडएच / एमपीकेवीपी / 96	20.07.73
422	सी. पॉल प्रिसंली राजकुमार, पुत्र श्री वी. चेलप्पा	टीएनवीसी / 0884 / 05	7, कामची अम्मान कोइल स्ट्रीट, सिम्मक्कल, म्दुरै 625001	बीवीएससी / टीएनए यूवीएस / 00	06.04.75
423	सी. पजानीयंडी पिल्लै, पुत्र श्री पी. चिदाम्बरथानु पिल्लै	टीएनवीसी / 1865 / 05	22-32, चिदाम्बरा भवन, वेस्टर्न स्ट्रीट, इरानिएल, नेय्यूर डाक, 629802, के.के जिला	बीवीएससी / मद्रासविधि / 69	25.11.41
424	सी. रामानी, पत्नी श्री एल. नागराजन	टीएनवीसी / 3049 / 05	42सी, रामालिंगा नगर, 11 स्ट्रीट, वीरुगम्बक्कम, चेन्नई 600092	बीवीएससीएडएच / केएयू / 87	07.05.64
425	सी. सेंथामिल पंडियान, पुत्र श्री पी. चिन्नासामी	टीएनवीसी / 2005 / 05	बंगाहल्ली, बेडराहल्ली डाक, धर्मापुरी जिला 636803	बीवीएससी / टीएनए यूवीएस / 00	10.05.75

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
426	सी. सुगुमार, पुत्र श्री एस. चिन्ना दुराई	टीएनवीसी / 2761 / 05	एफ-3, सरवन होम, बजनई कोइल स्ट्रीट, सिपॉय गार्डन, वडापलानी, चेन्नई 600026	बीवीएससी / टीएन यूवीएसएस / 00	23.06.77
427	सी. थेडुवाविरुथम, पुत्र श्री आर. चंद्रशेखरन	टीएनवीसी / 3250 / 05	कोविलथवु, अधनूर डाक, अय्याकरनपुलम वाया, वेडारानियम तालुक, नागपट्टिनम जिला 614707	बीवीएससी / टीएन यूवीएसएस / 95	05.03.72
428	सी. थियोफिलस आनंदकुमार, पुत्र श्री जे. एल.सी. देवादौस	टीएनवीसी / 1544 / 05	14, 9वीं स्ट्रीट, गांधी नगर, तिरुवन्नामलई 606601	बीवीएससी / टीएन यूवीएसएस / 94	04.10.70
429	सी. वेंकटेशुब्बा राव, पुत्र श्री सी. भारद्वाज	टीएनवीसी / 1396 / 05	19 / 13, पहली गली, एस्परन गार्डन, किलपौक, चेन्नई 600010	बीवीएससी / मद्रासविदि / 64	12.09.37
430	सी. अशोक कुमार, पुत्र श्री ए. चोकालिंगम	टीएनवीसी / 3518 / 06	112, पोरियालर नगर, थिरुमलपुरम डाक, मदुरै 625014, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन यूवीएसएस / 98	28.05.75
431	सी. कृष्ण, पुत्र स्व. श्री सी. चिन्नास्वामी	टीएनवीसी / 3398 / 06	2 / 36, अम्मानूर ग्राम, पेरियावेनमनि डाक, चेर्यूर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन यू / 82	15.03.57
432	सी. मनिवन्मन, पुत्र श्री एस. चिन्नइय्यन	टीएनवीसी / 2706 / 05	डोर न. 235, चौथी स्ट्रीट, नटराजपुरम, साउथ कॉलोनी, थंजावुर 613007	बीवीएससी / टीएन यूवीएसएस / 95	07.02.72
433	सी. मथीवथानी, पुत्री श्री बी. चट्टावरायने	पॉण्डीएसवीसी / 2 85 / 06	न. 27, मरियम्मन, कोइल स्ट्रीट, इल्लईपिलईचावडी, पॉण्डीचेरी-5	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डीविदि / 05	4.09.83
434	सी.एन. चिन्नास्वामी, पुत्र श्री आर. नाजप्पा गौडेर	टीएनवीसी / 3238 / 05	चिक्कारामपलायम (डाक), करामडई वाया, कोयम्बतूर जिला	बीवीएससी / मद्रासविदि / 73	25.08.50
435	सी.एन. दक्षयानी, पुत्र श्री सी.वी. नटेशन	टीएनवीसी / 0702 / 05	जी-4, प्रकृति फ्लैट्स, न. 367 व 368, 100 फीट रोड, विजय नगर, वेलाचेरी, चेन्नई 600042	बीवीएससी / मद्रासविदि / 67	24.01.42
436	सी.पी. सिंह चौहान, पुत्र श्री बी.एस. चौहान	यूपीवीसी / 4515 / 06	ग्राम जानूपुर, डो बौरी, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएंडटी / 01	22.08.75
437	सी. सुंदरराजन, पुत्र श्री एम. चिन्नइय्यन	टीएनवीसी / 2443 / 05	मेलकैरपुर ग्राम एवं डाक, कांचीपुरम 631502, कांचीपुरम जिला	बीवीएससी / टीएन यूवीएसएस / 92	25.07.69

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
438	सी.टी.ए. बलराज, पुत्र श्री सी. बलराज	टीएनवीसी / 1735 / 05	न. 14, (पुराना न. 19), चौथा एवेन्यू, अशोक नगर, चेन्नई 600083	बीवीएससी / मद्रासविधि / 55	25.08.32
439	सी.वी.एस. डेविड, पुत्र श्री डी.एस. डेविड	टीएनवीसी / 2613 / 05	32, III मेन रोड, कृष्णानगर, क्रोमपेट, चेन्नई 600044	बीवीएससी / मद्रासविधि / 73	24.03.50
440	सी. वीरापंडियान, पुत्र श्री ए. चित्रावेलन	टीएनवीसी / 2330 / 05	बी-23, ऑकर्ड वेस्टएंड, 1, वेलाम्मल स्कूल रोड, मोगापेयर पूर्व, चेन्नई 600037	बीवीएससी / टीएनए यू / 79	26.09.57
441	सी. वेंकटेशन, पुत्र श्री जी. ए. चेलियप्पा पटेल	पॉण्डीएसवीसी / 2 93 / 06	बाग्यम, 23, टोल्कापेयर स्ट्रीट, अशोक नगर, पॉण्डीचेरी	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डीविधि / 05	8.01.84
442	च. दीपक रंजन मोहपात्रा, पुत्र डॉ. राजेंद्र कुमार मोहपात्रा	ओवीसी / 2112 / 07	एटी/डाक भूतामुंडई, वाया कुजंग, जिला जगतसिंगपुर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 07	07.08.81
443	च. थिरुज्ञान सम्बंदन, पुत्र श्री चेन्ना बासवइय्या	टीएनवीसी / 2017 / 05	10, कावेरी नगर, मुसिरी -बाईपास रोड, मुसिरी, त्रिची जिला	बीवीएससी / टीएनए यू / 77	07.04.54
444	चाबुंगबम संगीता देवी, पुत्र श्रीचाबुंगबम इबोम्बा सिंह	डीवीसी / 0601 / 02	48, अजीत आर्कड, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली- 110048	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 98	24.03.75
445	चैतण्य यलावर्था, पुत्री श्री सोम सुंदरा राव	एपीएसवीसी / 4495 / 06	डी.न.74-31 / 1-15, रघु गार्ड्स, अशोक नगर, विजयवाड़ा-7, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	20.06.83
446	चैत्रा बी.एस., पुत्री श्री स्वामी एस.	कर्नाएसवीसी / 39 02 / 06	351, पहला क्रॉस, कावेरीनगर, माण्ड्या -571401, माण्ड्या जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	01.04.84
447	चंद्राधर भोगी, पुत्र श्री सायीराजू	एपीएसवीसी / 4504 / 06	मुट्टावारी स्ट्रीट, पार्वधीपुरम, विजियानगरम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	15.01.81
448	चंदन घोष, पुत्र श्री अशोक कुमार घोष	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3256 / 06	नेशनल हाई रोड, डाक रामपुरहाट, जिला बीरभूम- 731224, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	01.02.82
449	चंदन प्रकाश, पुत्र श्री राजेंद्र कुमार	राजएसवीसी / 3308 / 06	प्लॉट न. 109, शिव कॉलोनी, किशनगढ़ बास, अलवर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएंडटी / 06	04.07.83
450	चंदनखेडे जयंत कुमार मंसाराम	महाएसवीसी / 7629 /	तुकुम वार्ड, देसाईगंज, जिला गडचिरोली- 441027, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	14.10.83



क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
451	चंद्र मौली डी. बाला, पुत्र श्री डी. हरि नारायण	डीवीसी/0636/04	डी-6, फ्लैट 6143/4, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070	बीवीएससीएंडएच / एपीएयू/72	15.08.49
452	चंद्र प्रकाश, पुत्र श्री डी.सी. अग्रवाल	राजएसवीसी/3316/05	द्वारा भगत राम विजय, 85, आदर्श नगर, मालपुरा, टोंक, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / सीएसएकेईपीवी /97	29.11.72
453	चंद्र शेखर के.एम., पुत्र श्री मुनिस्वामी पी.	कर्नाएसटीसी/3922/06	द्वारा लक्ष्मीनरसिम्हा, 41, शैलेंद्र विद्या मंदिर के पीछे, आर.के. एक्सटें., श्रीनिवासपुरा, कोलार जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू/06	20.06.83
454	चंद्र शेखर वर्मा, पुत्र श्री सरजु प्रसाद वर्मा	यूपीवीसी/4387/06	1/743, विकास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी/06	02.06.78
455	चंद्र शेखर दूबे, पुत्र श्री सुरेश चंद्र	एमपीएसवीसी/2345/06	201, मीरा कॉलोनी, आम के पास, भिंड, भिंड, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवी/05	01.07.79
456	चंद्रभान यादव, पुत्र श्री जे. एस. यादव	यूपीवीसी/4478/06	ग्राम अर्जुन पट्टी, डाक हडिया, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएंडटी /06	01.12.75
457	चंद्रइयाह एम.बी., पुत्र श्री बासवइयाह	कर्नाएसवीसी/3934/06	मकाली, सेट्टीकेरे-572226, सी.एन. हल्ली तालुक, तुमकुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू/06	09.04.82
458	चंद्रमौली नाइक बी., पुत्र श्री सेल्वा नाइक बी.	एपीएसवीसी/4524/06	जिलेलामंडा (ग्राम), पल्लुम गड्डा डाक, बाया पिलेर, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू/06	28.12.77
459	चंद्रपाल सिंह, पुत्र श्री भीखम सिंह	यूपीवीसी/4490/06	ग्राम एवं डाक सलीमाबाद, तह. किरोही, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएंडटी /06	30.05.81
460	चंद्रशेखर एम.पी. पुत्र श्री मुनियप्पा के.बी.	कर्नाएसवीसी/3948/06	677, 29वां मेन, बीटीएम, II स्टेज, बंगलौर-560076, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू/06	09.09.79
461	चंद्रावती तिवानी, पुत्री श्री सर्वेश्वर राव	एपीएसवीसी/4499/06	पेरिका स्ट्रीट, वेकटपुरम, खम्मम जिला- 507136, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू/06	06.02.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
462	चानिनी के.जी.	केरलएसवीसी/31 31/06	बी/5, चित्रा नगर, वट्टीयुरकावू, त्रिवेंद्रम 695013, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/06	29.05.81
463	चन्नाबासप्पा हलाड, पुत्र श्री वीरूपाक्षप्पा	कर्नाएसवीसी/38 57/06	पुत्र श्री वी.सी. हलाड, कालीमथ ओनी, नवलगुंड तालुक, धारवाड जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 06	23.10.81
464	चप्पलवर अनिता मारोती	महाएसवीसी/ 7121/	संतोष विजय निवास नटकर कॉलोनी, देगलूर, तालुक देगलूर, जिला नांदेड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 4	01.05.82
465	चरित ज्योति बरूआ, पुत्र श्री अरुण देव चौधरी	डीवीसी/0681/ 06	सी-44सी, 11 मजिल, इंडेन गैस एजेंसी के सामने, शिवाजी एन्कलेव, नई दिल्ली-27	बीवीएससीएंडएच /एएयू/97	22.04.73
466	चौधरी अमित कुमार रामजीभाई	गुजएसवीसी/ 2692/06	मोटावास, डाक चराडा, तालुक मनसा, जिला गांधीनगर - 382810, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एसडीएयू/06	26.09.83
467	चौधरी अतुल अरुण	महाएसवीसी/ 7212/	ए/पी अवाहे, तालुक जलगांव, जिला जलगांव, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 4	05.08.81
468	चौधरी गिरीश हरि	महाएसवीसी/ 7659/	'हरीश बिल्डिंग', प्रतिमानगर, वारनगांव, तालुक भुसावल, जिला जलगांव- 425305, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 6	22.07.84
469	चौधरी महेश विश्वास	महाएसवीसी/ 7674/	प्लॉट न. 18(बी), संजीवनी नगर, चोपडा, जिला जलगांव, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 6	16.09.82
470	चौधरी पुष्प राज पुडलीक	महाएसवीसी/ 7303/	एटी/डाक बोरखेडे, तालुक धारनगांव, जिला जलगांव, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 4	01.05.82
471	चौहान प्रकाश कुमार मोहनभाई	गुजएसवीसी/ 2693/06	एस.टी. कॉलोनी, सुपरवाइजर, क्वा.न.20, हाईवे रोड, पालनपुर, जिला बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एसडीएयू/06	25.07.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
472	चवन संतोष बाजीराव	महाएसवीसी / 7384 /	एम.एस.इ.बी. कॉलोनी, शाहू नगर, पोल फैक्ट्री के पीछे, तालुक जिला बीड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू/05	08.07.79
473	चवन सोमनाथ कुडलीक	महाएसवीसी / 7441 /	एटी डाक भाविनिमगांव, तालुक शेवगांव, जिला अहमद नगर—414502, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू/05	23.06.82
474	चवन विनोद विलासराव	महाएसवीसी / 7379 /	ए/बी पोखरुड, तालुक भूम, जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू/05	22.06.82
475	चवन वृशाली प्रमोद	महाएसवीसी / 7686 /	दशरथ, फ्लैट न. 13, दूसरी मंजिल, रोड न. 1, टी.पी.एस. vi सांताक्रुज (प), मुंबई, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू/06	01.09.83
476	चव्हाण दिनेश मनोहर राव	महाएसवीसी / 7597 /	एटी फत्तेपुर, डाक सुराली, तालुक वारुड, जिला अनरावती—444906, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू/06	09.07.83
477	चव्हाण प्रशांत बंदू	महाएसवीसी / 7590 /	ताज नगर, दिगरस, जिला यवतमाल - 445203, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू/06	17.09.82
478	चावाडे शारदा पंढारीनाथ	महाएसवीसी / 7418 /	द्वारा श्री पी.वी. चावाडे, काचेरी रोड, ए/पी अकोले, तालुक अकोले, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू/05	23.11.82
479	चेडे गणेश अन्नासाहेब	महाएसवीसी / 7663 /	द्वारा ए.बी. चेडे, जायकवाडी कॉलोनी, सेलू, जिला परभनी—431503, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू/06	27.08.81
480	चेंचू मरिया किरन के.	केरलएसवीसी / 3158 / 06	कोडियथ हाउस, अय्यानथोले रोड, पोथोले डाक, थिसूर—680004, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएसयू/06	25.05.82
481	चेपटे शरद ज्ञानदेव	महाएसवीसी / 7614 /	फ्लॉट न. 87, सम्भाजी नगर, भोखरदान नाका, जालना—431203, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू/06	05.01.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
482	चेतन दामोदर यादव, पुत्र श्री यादव दामोदर	एपीएसवीसी/ 4439/06	ब्लू क्रॉस ऑफ हैदराबाद, प्लॉट न. 403/9, रोड न. 35, जुबिली हिल्स, हैदराबाद -35, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एमएयू/96	12.01.73
483	चेतन, पुत्र श्री सत नारायण	पीबीएसवीसी/ 2670/06	222, गली न. 4, नई एसबीएस कॉलोनी, रामपुरा फुल, भटिंडा, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /जीएडीवीएसयू /06	27.06.82
484	चेतन सी.पी., पुत्र श्री पूवइयाह सी.एम.	कर्नाएसवीसी/39 39/06	कुपट्टू ब्रिज, कोकेरी गांव, चेयान्दने-571212, दक्षिणी कुर्ग, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 06	22.10.83
485	चेतना गंगवार, पुत्री श्री बी.एस. गंगवार	यूपीवीसी/ 4424/06	आजमपुर, बारधेरा, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएटी/06	10.11.82
486	चेतरी अरुण ज्योरी, पुत्र श्री शेर बहादुर चेतरी	असम/2255/06	बोकोखाट टाउन, वार्ड न. 2, डाक बोकोखाट, जिला गोलाघाट-785612, असम	बीवीएससीएंडएच /एएयू/06	06.02.82
487	चेतरी स्मिता, पुत्री श्री एच. के. चेतरी	असम/2249/06	द्वारा स्व. श्री एच.सी. पुरी, सुबोधिनी रोड, चलिया नगर, तिनसुखिया, असम	बीवीएससीएंडएच /एएयू/06	19.03.83
488	चिकबीरे सत्यदीप बीरप्पा	महाएसवीसी/ 7231/	नई कॉलोनी, ए/पी पेठ, वडगाव, तालुक हटकनौगले, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 4	10.10.81
489	चिमोटे मीना जनार्दन	महाएसवीसी/ 7408/	वार्ड न. 7, गलबर्दी, मोहपा, तालुक कल्मेश्वर, नागपुर- 441502, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 5	20.09.82
490	चिचोलीकर सचिन मोहनराव	महाएसवीसी/ 7465/	मेन रोड, कैज, भूविकास बैंक के निकट, कैज, तालुक कैज, जिला बीड-431123, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 5	08.12.81
491	धिष्णय कुमार साहू, पुत्र श्री धरनीधर साहू	ओवीसी/2085/ 06	एटी बेलपाल, डाक बंधापाटना, जिला केंद्रपाड़ा, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/06	05.07.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
492	चिन्मय मिश्रा, पुत्र श्री सचिदानंद मिश्रा	ओवीसी / 2110 / 07	एटी सबीदेईपुर, डाक बिनायकपुर, वाया सरंकुल, जिला नयागढ़, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 07	02.08.83
493	चिरायु गोस्वामी, पुत्र श्री पंकज गोस्वामी	राजएसवीसी / 3293 / 06	4-ई-55, जेएनवी कॉलोनी, बीकानेर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 06	11.12.79
494	चित्तरंजन सेना, पुत्र श्री चैतण्य सेना	ओवीसी / 2087 / 06	एटी / डाक सोरावा, वाया नयाहाट, जिला पुरी, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 06	28.09.80
495	चोपडे नीलेश अशोक	महाएसवीसी / 7619 /	द्वारा अशोक विश्वनाथ चोपडे, ए / पी तालखेड, तालुक मोटाला, जिला बुलधाना-443101, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	30.01.84
496	चौधरी सोनिया रावसाहेब	महाएसवीसी / 7282 /	द्वारा आर.डी. चौधरी, डॉ. लोढा के पुराने अस्पताल के पास, माजिर चौक, मेन रोड, माजलगांव, बीम, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	18.02.82
497	घुटिया गौरी शंकर, पुत्र श्री गुना घुटिया	असम / 2256 / 06	ग्राम एवं डाक गोगामुख, जिला घोमाजी- 787034, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 06	01.03.81
498	सी.एस. सक्तिवेलन, पुत्र श्री के. चिन्नुसामी	टीएनवीसी / 3137 / 05	5 / 25, सिंगिलीपट्टी, एल. कनावईपट्टी डाक, नमक्कल जिला व तालुक, पिन 637002	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 95	20.06.72
499	डी. आनंद प्रकाश सिंह, पुत्र श्री एम. धर्मासिंगम	टीएनवीसी / 2414 / 05	धलुथलाई डाक, अरुम्बवूर वाया, पेराम्बलूर जिला, पिन- 621103	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 95	12.07.72
500	डी. नसीर अहमद, पुत्र श्री एम. दस्तगीर	टीएनवीसी / 0831 / 05	ई-123, पीडब्ल्यूडी क्वार्टर्स, थोड हंटर नगर, सइदापेट, चेन्नई 600015	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 96	26.03.73
501	डी. भास्करन, पुत्र श्री एम. धर्मार	टीएनवीसी / 2905 / 05	221 / 105, सेक्रेटेरिएट कॉलोनी, 9वीं स्ट्रीट, केलीज, चेन्नई 600010	बीवीएससी / टीएन यू / 89	31.05.67
502	डी. चंद्रशेखरन, पुत्र श्री आर. डोराईसामी	टीएनवीसी / 1669 / 05	43ए, पी.वी.आर. रोड, गांधी नगर, नमक्कल 637001	बीवीएससी / टीएन यू / 77	22.07.54

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
503	डी दक्कशिना मूर्ति, पुत्र श्री एस. डंडापानी	टीएनवीसी / 3134 / 05	275 / जी3, बालाजी नगर, थिरुवल्लुवर सेलई, पोथानुर डाक, पी. वेलूर तालुक, नमक्कल जिला, 687181	बीवीएससीएंडएच / पीआरकेवीपी / 94	16.02.71
504	डी. इबेनजेर, पुत्र श्री डी. देवश्याम	टीएनवीसी / 1919 / 05	बी-5, टावर ब्लॉक, टेलर्स रोड, किलपौक, चेन्नई-600010	बीवीएससी / मद्रासविधि / 65	30.07.42
505	डी. फ्रांसिस सोलोमन, पुत्र श्री के. देवराज	टीएनवीसी / 2753 / 05	47, एचआईजी I, 7वां मेन रोड, नुलाम्बूर टी.एन.एच.बी. स्कीम, चेन्नई 600037	बीवीएससी / मद्रासविधि / 71	27.06.49
506	डी. जयनथि, पत्नी श्री एम. रामास्वामी	टीएनवीसी / 0867 / 05	4 / 15, वार्ड न. 15, करुप्पूर डाक, ओमालूर तालुक, सलेम 636012	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 00	02.06.76
507	डी. कन्नाघासन, पुत्र श्री के. देवराजन	टीएनवीसी / 3629 / 06	भारती मेटल मार्ट वेरी चेट्टीपलायम डाक, थुरईयूर तालुक, त्रिची, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 06	16.05.81
508	डी. कन्नन, पुत्र श्री के. दुराईसामी	टीएनवीसी / 3162 / 05	कोलाथुपलायम (डाक), सेल्लापमपट्टी (वाया), नमक्कल (तालुक व जिला), पिन-637019	बीवीएससीएंडएच / पीआर डीकेवी / 97	30.07.73
509	डी. काठीरेसन, पुत्र श्री एस. दुराईसामी	टीएनवीसी / 3211 / 05	3 / 294, श्री कृष्णा नगर, थिरुप्पलई, मदुरै 625014	बीवीएससी / टीएन यू / 84	10.11.52
510	डी. माइकेल जेयारा, पुत्र के.ए.एम. दिवियानाथन	टीएनवीसी / 3766 / 06	39, पम्पा कॉलोनी, इदामलईपट्टी पुडुर, तिरुचिरापल्ली-12, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन यू / 78	21.01.50
511	डी. नरहरि, पुत्र श्री डी. विजयालु रेड्डी	टीएनवीसी / 2872 / 05	31 / 15, ईस्ट फर्स्ट मेन रोड, तीसरी मंजिल, शेनॉय नगर, चेन्नई-600030	बीवीएससी / मद्रासविधि / 68	02.09.46
512	डी. प्रेम कुमार, पुत्र श्री एस. दुराईराज	टीएनवीसी / 3783 / 07	बी-140, एचआईजी ब्लॉक 80 फीट रोड, अन्ना नगर, मदुरै-625020, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन यू / 79	02.06.56

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
513	डी. राजेंद्र प्रसाद, पुत्र श्री बी.आर. इबेनजेर	टीएनवीसी / 1418 / 05	9/5, कंदन स्ट्रीट, मदुरै श्री मीनाक्षी नगर, वलासरवक्कम, चेन्नई- 600087	बीवीएससी / मद्रासविधि / 62	25.03.39
514	डी. रामासामी, पुत्र श्री एस.पी. धनुषकोडी	टीएनवीसी / 2384 / 05	वीराचलई डाक, तिरुमयम तालुक, पुडुक्कोट्टई जिला, पिन 622412	बीवीएससी / टीएनए यू / 83	16.02.60
515	डी. सेल्वी, पुत्र श्री एस. धर्मालिंगम	टीएनवीसी / 0624 / 05	3/89ए, पचियाप्पन स्ट्रीट, अन्नियूर, 605202, विल्लुपुरम तालुक	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डीविधि / 02	28.10.79
516	डी. सिवाकमार, पुत्र श्री एम. दुरईसामी	टीएनवीसी / 3641 / 06	141/87-ए, मुथुविनयगर कोइल स्ट्रीट, थिरुवन्नामलई -606601, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 00	07.04.75
517	डी. सुरेश कुमार, पुत्र श्री पी. धर्मालिंगम	टीएनवीसी / 3782 / 07	35-बी, कुमार पोस्टल कॉलोनी, मोनोजीपट्टी, धंजावूर-613004, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 97	23.01.74
518	डी. थियागराजन, पुत्र श्री ए.सी. देसीकन	टीएनवीसी / 3031 / 05	1782, 11 स्ट्रीट, वसंतम कॉलोनी, 18, मेन रोड, अन्नानगर पश्चिम, चेन्नई 600040	बीवीएससी / टीएनए यू / 80	20.03.57
519	डी. युवराज, पुत्र श्री एंडापानी	टीएनवीसी / 3798 / 07	50/36, कामराज नगर, अराकोनम-631001, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 06	16.06.81
520	डी.के. चंद, पुत्र श्री सुरेंद्र चंद	यूवीसी / 224 / 06	गाम मनिहारगोटी, पीलीभीत रोड, टनकपुर, जिला चम्पावत, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 96	28.08.72
521	डी.पी. सिंह सहगल, पुत्र श्री मुख्तियार सिंह	यूपीवीसी / 4360 / 06	ग्राम तेलुपुरा, डाक रामपुर, मनिहरन, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 88	04.06.66
522	डी.आर. श्रीनिवास, पुत्र श्री डी.बी.आर. शास्त्री	एपीएसवीसी / 4547 / 07	द्वारा डी. पालेश्वर राव, 12-7-89/2/2, न्यू मेट्टूगुडा, सिकंदराबाद-500017, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 07	03.07.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
523	डी. सुमथी, पत्नी श्री डी. सुरेश कुमार	टीएनवीसी / 2262 / 05	न. 2, एकदंत फ्लैट्स, 63वी स्ट्रीट, अशोक नगर, चेन्नई 600083	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 97	09.07.73
524	डी. सुरेश कुमार, पुत्र श्री एस.के. धर्मराज	टीएनवीसी / 3459 / 06	13 / 4-1, रामामसामी पुरम, अवुदयानूर, तेनकासी तालुक, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 96	13.05.73
525	दाखोले विशाल वामनराव	महाएसवीसी / 7527 /	प्लॉट न. 17, एनआईटी लेआउट, भाऊ साहेब सर्व सोसायटी, त्रिमूर्ति नगर के निकट, नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	11.06.82
526	दाखोरे बालासाहेब बाबाराव	महाएसवीसी / 7653 /	द्वारा:श्री दाखोरे बी.एल.,रूपा गैस्टहाउस के निकट, सम्माजी राजे मार्ग, वसंत नगर, नांदेड-431602, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	30.07.83
527	दलीप सिंह यादव, पुत्र श्री हीरा लाल यादव	राजएसवीसी / 3241 / 06	द्वारा भीम सिंह वकील, बस स्टैंड रोड, बहरोर, अलवर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 96	25.08.71
528	दलजीत सिंह, पुत्र श्री मोहन सिंह	पीबीएसवीसी / 2666 / 06	वा.न. 1, दशमेश नगर, भूचो मंडी, मटिडा, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएसयू / 06	25.07.81
529	दामेरा श्रीनिवास, पुत्र श्री डी.वी.वी. सत्यनारायण	टीएनवीसी / 3625 / 06	नक्षत्र अपार्ट, ब्लॉक-11, फ्लैट 1/बी-11, श्रीकृष्णपुरम स्ट्रीट, रोयापेट्टाह, चेन्नई-14, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन एयू / 75	14.11.50
530	दामुथिमी लिंगडोह, पुत्र श्री एन. चवास स्टोन गरोड	मेघएसवीसी / 246 / 07	मिनथोंग, पोहकेश, जोवाई, मेघालय	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 07	5.01.83
531	डांडेकर संतोष विट्ठलराव	महाएसवीसी / 7499 /	एटी/डाक तलारी, तालुक किनवत, जिला नांदेड-431811, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	20.07.82
532	डांगे विश्वेश व्यंकटराव	महाएसवीसी / 7648 /	वैभव नगर, जिंतूर रोड, संजय होटल के पीछे, परमनी - 431401, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	05.05.84



क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
533	दारेकर सुहास देवराम	महाएसवीसी/ 7343/	द्वारा बालासाहेब दारेकर, एटी वालुंज, डाक बाबुर्दी, तालुक एवं जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 5	28.04.83
534	दारजी प्रेमल प्रवीन	महाएसवीसी/ 7483/	सदविचार बिल्डिंग, 201/ए, शिम्पोली रोड, बोरीवली, वेस्ट, मुम्बई- 400092, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 5	23.08.82
535	दास ध्रुवज्योति, पुत्र श्री बोकिन चंद्र दास	असम/2266/07	सिक्स माइल, खानापाड़ा, लिचुबारी, म.न. 9, डाक खानापाड़ा, गुवाहाटी-22, कामरूप, असम	बीवीएससीएंडएच /एएयू/07	03.09.81
536	दास गायत्री, पुत्री श्री धीरेंद्र नाथ दास	असम/2277/07	ग्राम बरखा, डाक हिंगुली, थाना कमालपुर, जिला कामरूप, असम-781380	बीवीएससीएंडएच /एएयू/07	13.03.80
537	दास गायत्री, पुत्री श्री कंदरपा कुमार दास	असम/2248/06	द्वारा कंदरपा कुमार दास (मू.पू. एमएलए), श्री नगर, आर.जी बरूआ रोड, म.न. 55, डाक दिसपुर, जिला कामरूप, असम	बीवीएससीएंडएच /एएयू/06	10.12.81
538	दास मधुमिता, पुत्री श्री भास्कर दास	असम/2283/07	खानापाड़ा, जनपथ, फार्म गेट, गुवाहाटी-22, जिला कामरूप, असम	बीवीएससीएंडएच /एएयू/07	22.09.83
539	दौलत सिंह रावत, पुत्र स्व. श्री बी.एस. रावत	यूवीसी/232/06	कादम्बरी भवन, दूरिस्ट गैस्ट हाउस के निकट, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएटी/00	16.01.75
540	दवे विक्रम नानालाल	महाएसवीसी/ 7473/	हिम्मत नगर, म.न. 13, पहली मंजिल, एस.वी.पी. रोड, बोरीवली (वेस्ट), मुम्बई-400092, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 5	07.10.82
541	देविंदर कुमार, पुत्र श्री मदन लाल	पीबीएसवीसी/ 2669/06	वार्ड न. 2, लहर गंगा, जिला संगरूर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /जीएडीवीएसयू /06	15.09.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
542	दावांडे दीपमाला नामदेव	महाएसवीसी / 7168 /	नामदेव एम. दावांडे, मलकापुर, शेंदूरजना घाट, वारुद, तालुक वारुद, जिला अमरावती, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू/04	20.06.82
543	दावाणे सुमेश चंद्रकांत	महाएसवीसी / 7687 /	साकेत सीएचएस लि., बिल्डिंग न.1, कमरा न.11, म्हादा कॉम्प्लेक्स, मलाड(पू.) मुम्बई, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू/06	16.02.83
544	दयाल सिंह, पुत्र श्री जे. एस. रावत	यूवीसी / 198 / 06	ग्राम तुडी, डाक बनसु, वाया गुप्ताकाशी, रुद्रप्रयाग, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 06	17.04.70
545	देसाई जयराम मधुकर	महाएसवीसी / 7398 /	रामकृष्णा तपोवन, बाजावाडी, ए/पी देगवे, तालुक सावंतवाडी, जिला सिंधुदुर्ग-416511, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू/05	15.10.82
546	देबाशीष साहा, पुत्र श्री संकर कुमार साहा	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3225 / 06	खैरामारी, कॉलेज रोड, डाक एवं थाना बोंगांव, जिला 24 परगना(उ.)-743235, प.बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	03.11.82
547	देबाशीष साहू, पुत्र श्री भास्कर साहू	ओवीसी / 2098 / 07	एटी / डाक मुनिगडी, वाया निमिना, जिला गंजम, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 07	24.02.83
548	देबजानी दास, पुत्री श्री नानी गोपाल दास	त्रिपुराएसवीसी / 166 / 06	इंद्रानगर, मध्यफाड़ा, डाक अमोयनगर, अगरतला (प.), त्रिपुरा	बीवीएससीएंडएच / सीएयू/06	27.08.83
549	दीनदयाल मीना, पुत्र श्री गंगा राम	राजएसवीसी / 3275 / 06	7 / 151, मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू/06	24.12.80
550	दीपा मेरी जे.जे.	केरलएसवीसी / 3122 / 06	न.7, सास्थ बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल एस्टेट, कनान रोड, कालेकुलंगारा, पलक्कड-678731, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू/06	25.10.81
551	दीपक बैनर्जी, पुत्र श्री नित्यनंद बैनर्जी	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3227 / 06	कंगसाबाती कॉलोनी, क्या.न. सी-14, ग्राम एवं डाक खटरा, जिला बंकुरा-722140, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	22.04.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
552	दीपक गुप्ता, पुत्र श्री एस. बी. गुप्ता	एमपीएसवीसी / 23 87 / 06	ब्लॉक न. 14, जीवाजीगंज, मुरैना, म.प्र.— 476001,	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 06	23.03.80
553	दीपक कुमार तिवारी, पुत्र श्री जे.पी. तिवारी	एमपीएसवीसी / 23 66 / 06	एमआईजी-11/17, विवेकानंद नगर, (न्यास कॉलोनी), होशंगाबाद, म.प्र. 461001	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 06	20.10.79
554	दीपक पॉल, पुत्र श्री पंजु राम	पीबीएसवीसी / 2689 / 06	बी जे 11 / 196, मौहल्ला प्रेम नगर, बटाला, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / पीएयू / 04	03.07.79
555	दीपक राजपूत, पुत्र श्री एल.आर. राजपूत	एमपीएसवीसी / 23 86 / 06	143 जवाहर मार्ग, जोबत, झुंझार, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 06	15.07.80
556	दीपक सैनी पुत्र श्री बलराम सिंह सैनी	डीवीसी / 0680 / 05	सी-174/3, राम नगर, कंकर खेरा, मेरठ कैंट- 250001	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 05	29.08.80
557	दीपक शर्मा, पुत्र श्री प्रकाश शर्मा	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3220 / 06	12 1/2 माइल, एल्बर्ट विला के निकट, अपर पुडुंग, कालिमपोंग- 734301, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 05	13.02.80
558	दीपक शर्मा, पुत्र श्री सुरजीत शर्मा	पीबीएसवीसी / 2658 / 06	ग्राम लालीना, जैतो रोड, कोटकपुरा, जिला फरीदकोट, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 06	21.06.81
559	दीपलता माझी, पुत्री श्री देवकी नंदन	एमपीएसवीसी / 24 02 / 06	7/78, गोमती निकेतन, पुरानी जीन, गली न. 3, मुरैना, म.प्र.— 476001	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 06	06.09.82
560	दीप्ती चदालवडा, पुत्री श्री च. नागइयाह चौधरी	एपीएसवीसी / 4532 / 06	डी.न. 68-2-17, एनएसएम स्कूल रोड, पतामाता, विजयवाड़ा- 520010, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	09.07.82
561	दीप्ती पेडालका, पुत्री श्री सम्बासिवा राव	एपीएसवीसी / 4468 / 06	भारतपेट, पहली लाइन, अमरावती रोड, गुंटूर- 522002, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	13.5.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
562	दीप्ती सिवाच, पुत्री श्री दिबाग सिंह सिवाच	डीवीसी / 0629 / 04	612, कृषि अपार्टमेंट्स, डी-ब्लॉक, विकासपुरी, दिल्ली	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 03	04.05.78
563	दीप्ती वर्मा, पुत्री श्री बी. आर. वर्मा	एचपीएसवीसी / 7 69 / 06	शयान निवास, गरारु, जोगिन्दर नगर, जिला मंडी, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेकेवीवी / 06	04.02.83
564	दीप्ती वैद्य, पुत्री श्री एस. के. वैद्य	एचपीएसवीसी / 7 57 / 06	24 / 1, जवाहर नगर, मंडी, हि. प्र.— 175001	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेकेवीवी / 06	16.03.83
565	देवगडे आशीष हरिदास	महाएसवीसी / 7178 /	'एमएस', मानवता नगर, सिस्टर कॉलोनी, नगीना बाग, चंदरपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 0 4	23.10.80
566	दीपिका, पत्नी डॉ. सुधीर	यूपीवीसी / 4560 / 07	सी-150, साउथ सिटी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 04	11.05.80
567	डरे राहुल संतू	महाएसवीसी / 7580 /	साईकृपा, सीएचएस लि., 204, प्लॉट न. 27, सैक्टर- 19, नेरुल, नवी मुम्बई- 400706, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 0 6	09.07.80
568	देसाई बालाजी विठ्ठलराव	महाएसवीसी / 7254 /	लक्ष्मी निवास, बांगरवाडी के निकट, जिला सिधुदुर्ग, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 0 1	03.12.77
569	देशमुख अजय भाऊराव	महाएसवीसी / 7443 /	संत ज्ञानेश्वरनगर, पोपिनवार लेआउट, तालुक पुसाद, जिला यवतमाल- 445204, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 0 5	12.05.83
570	देशमुख बलीराम सुदाम	महाएसवीसी / 7419 /	एटी मावनानगर, डाक डांगसौडाने, तालुक सतना, जिला नासिक- 423301, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 0 5	01.06.82
571	देशमुख लता पंढारी राव	महाएसवीसी / 7429 /	नई गुजराती कॉलोनी, तालुक एवं जिला मंडारा- 441904, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 0 5	20.03.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
572	देशमुख मंगेश शंकर राव	महाएसवीसी / 7396 /	अगाशे लेआउट, प्लॉट न.19, गुरुकुल, मकापुर, तालुक अकोला-444001, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 0 5	04.01.83
573	देशमुख पल्लवी वैजनाथराव	महाएसवीसी / 7264 /	203, अम्बिका कॉम्प्लेक्स, बालिकाश्रम, रोड, सावेदी अहमदनगर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 0 3	07.06.81
574	देशमुख परीक्षित सुरेशराव	महाएसवीसी / 7310 /	15, राठी लेआउट, कटोल, तालुक कटोल, नागपुर महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 0 4	12.08.80
575	देशमुख प्रशांत विठ्ठलराव	महाएसवीसी / 7131 /	ए/पी- करकंभ, तालुक पंढारपुर, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 0 4	12.01.81
576	देशमुख वैभव विठ्ठल राव	महाएसवीसी / 7502 /	गढ़ी, करबा पेठ, कल्लम, तालुक कल्लम, जिला उस्मानाबाद-413507, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 0 5	21.09.80
577	देशपांडे कुलदीप यशवंत	महाएसवीसी / 7257 /	'श्रीराम' तापडिया नगर, अकोला- 444005, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 0 3	30.09.80
578	देशपांडे राजेश रवीन्द्र	महाएसवीसी / 7118 /	भूमराला, तालुक लोनार, जिला बुलधाना, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 0 4	24.06.80
579	देशपांडे रमन माणिकराव	महाएसवीसी / 7534 /	ए/पी वैद्यकिनी, तालुक घटोडा, जिला बीड- 431122, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 0 4	01.07.81
580	देशपांडे श्वेता बाजीराव, पुत्री श्री बाजी राव देशपांडे	एपीएसवीसी / 4436 / 06	द्वारा एस. सुदर्शन राव, म.न. 3-6-49, ब्राह्मिनवाडी, बड़ा तालाब, आदिलाबाद, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 0 5	18.08.82
581	देवाडे अनिकेत अरुण	महाएसवीसी / 7515 /	35, आदर्श नगर, नगर-कल्याण रोड, अहमदनगर-414001, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 0 5	20.03.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
582	देवप्रिया हर, पुत्री श्री अरुण कुमार हर	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3258 / 06	डी-54, बुर्जडाउन, डाक मिदनापुर, जिला पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	04.01.82
583	देवराजा के., पुत्र श्री करगप्पा	कर्नाएसवीसी / 38 92 / 06	हिरियन्नाहल्ली, डिबूर-562101, चिक्कबलापुरा तालुक, कोलार, जिला कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	25.06.83
584	देवेन्द्र सिंघवानी, पुत्र श्री यश पाल सिंघवानी	एचवीसी / 1942 /	द्वारा दीपक मेडिकल स्टोर, इस्माइलाबाद, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 06	12.07.82
585	देवेन्द्र कुमार शर्मा, पुत्र श्री राम दत्त शर्मा	यूवीसी / 238 / 06	म.न.1, सर्दार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, अनुसंधान केंद्र, बुलंदशहर उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 96	30.06.72
586	देवेन्द्र कुमार स्वामी, पुत्र श्री अशोक कुमार	राजएसवीसी / 3326 / 06	ग्राम एवं डाक रामगढ़, तहसील नोहर, हनुमानगढ़, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 06	12.12.80
587	देवेन्द्र कुमार, पुत्र श्री गोरखनाथ राय	बीवीसी / 2619 / 0 5	ग्राम कर्वन, डाक कर्वन, थाना इसुआपुर- 841411, जिला छपरा (सारन), बिहार	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 05	02.02.80
588	देवेन्द्र पाठक, पुत्र श्री सीता राम पाठक	पीबीएसवीसी / 2698 / 07	वेटरिनरी एनाटोमी विभाग, सीओवीएस, जीएडीवीएएसयू, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / टीएनवीएंडएएसयू / 04	26.02.79
589	देवेन्द्र सिंह जादोन, पुत्र श्री एस.एस. जादोन	एमपीएसवीसी / 23 46 / 06	वेटरिनरी हॉस्पिटल, बारामलहेरा, छतरपुर- म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 95	17.09.71
590	देवेन्द्र सिंह पटेल, पुत्र श्री बी.एस. पटेल	एमपीएसवीसी / 23 91 / 06	एमपीईबी, कॉलोनी गदरवाड़ा, नरसिंगपुर, म.प्र.- 487551	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 06	15.10.81
591	देवी मृगाली, पुत्री श्री अमिया कुमार नाथ	असम / 2282 / 07	ग्राम एवं डाक कलईगांव, जिला उदलगुरी- 784525, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 07	01.03.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
592	देवी एस.	केरलएसवीसी/31 78/06	पिशारथु हाउस, कुमारपुरम डाक हरिपद, अलप्पड, थिसूर- 690548, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/06	27.08.82
593	देवकते बालाजी रामराव	महाएसवीसी/ 7501/	ए/पी रूई, डाक संघवी, तालुक अहमदपुर, जिला लाटूर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 5	24.09.83
594	देवकी पिल्खवाल, पुत्री श्री प्रताप सिंह	यूवीसी/272/07	ग्राम दवाला तल्ली, डाक पिजियान, कुंवरपुर, हल्दवानी, नैनीताल, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच /एएयू/07	12.03.84
595	देवरुखकर मीनल बालकृष्ण	महाएसवीसी/ 7426/	दयानंद सदन बिल्डिंग न.243, कमरा न.9515, कन्नमवार नगर-2, विखरोली (पू.), मुंबई, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 5	22.04.82
596	धादरा पी.वी.	केरलएसवीसी/31 55/06	विश्वमंगलम, वेलानाड डाक, त्रिवेंद्रम-695543, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/06	14.09.80
597	डागे गजानन पांडुरंगराव	महाएसवीसी/ 7344/	"निवारा", शिवनेरी नगर, रामपुर रोड, देगलूर, तालुक देगलूर, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 5	14.02.79
598	डागे मोहन जयप्रकाश	महाएसवीसी/ 7184/	चौभारा चौक, ए/पी जलगांव (जेए), जिला बुलधाना, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 4	19.03.81
599	धामी मेहुलकुमार अर्जनभाई	गुजएसवीसी/ 2737/06	"समर्पण", 48-मंगल नगर, विद्या डेरी रोड, बोरसाड चौकडी, आनंद- 388001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/06	17.12.83
600	धनराज नागर, पुत्र श्री मोहन लाल नागर	राजएसवीसी/ 3331/06	5-डी-1, तलवंडी, कोटा, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/02	03.06.75
601	धनंजय चौरे, पुत्र श्री एम. डी. चौरे	एमपीएसवीसी/23 41/06	एम-261, गहताजलि कॉम्प्लेक्स, भोपाल, म.प्र. -462003	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/89	17.04.64

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
602	धनंजय कुमार सिंह, पुत्र श्री रामाशंकर सिंह	बीवीसी / 2729 / 06	ग्राम परवा, डाक नोनसारी, थाना नोखा-802215, जिला रोहतास, बिहार	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएसएंड टी / 05	05.01.79
603	धनंजय धारा, पुत्र श्री अनुकूल च. धारा	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3275 / 06	ग्राम एवं डाक हरिझामा, जिला पूर्वी मिदनापुर- 721152, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूपएफएस / 06	12.02.83
604	धनावडे निर्मला बाजीराव	महाएसवीसी / 7489 /	ए/पी केलगर, तालुक जाओली, जिला सतारा-415017, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	19.02.83
605	धान्या वी. पाए	केरलएसवीसी / 3111 / 06	श्रीरंग, ऋंगपुरम, कोडुनगलूर, थिसूर-680664, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	02.05.83
606	धरानेशा एन.के., पुत्र श्री कृष्णा गौडा	कर्नाएसवीसी / 3891 / 06	नरसिनाकुप्पे हुलंगला डाक, अरकलगुड तालुक, हसन जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	19.05.83
607	धर्मंदर, पुत्र श्री आजाद सिंह	एचवीसी / 1919 /	ग्राम एवं डाक चामारियान, जिला रोहतक, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 06	10.04.83
608	धर्मंदर इंदु, पुत्र श्री गंगा राम इंदु	राजएसवीसी / 3290 / 06	844, बरकत नगर, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 06	24.06.75
609	धर्मंदर कुमार सिंघल, पुत्र श्री मुरारी	राजएसवीसी / 3263 / 06	ग्राम बागडोली, तहसील बोनली, सवाईमाधोपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 06	01.12.77
610	धर्मेश तिवारी, पुत्र श्री रमाकांत तिवारी	यूपीवीसी / 4504 / 06	283, शिव कटरा, लाल बंगला, कानपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएंडटी / 06	25.12.79
611	धावाले स्वामीनाथ परशराम	महाएसवीसी / 7718 /	ए/पी उखलगांव, तालुक श्रीगोंडा, जिला अहमदनगर-413703, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	20.05.84
612	धावारे स्नेहल धामराज	महाएसवीसी / 7318 /	अर्चना ग्रीन्स, ई-12, एन.आई. बी.एम. रोड, पुणे- 411048, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	17.08.81



क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
613	धायजे कपिल दिगम्बर	महाएसवीसी / 7532 /	ए/पी नेवासा (तहसील कार्यालय के निकट), तालुक नेवासा, जिला अहमदनगर-416603, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू/05	06.06.81
614	धायगुडे विठ्ठल श्रीरंग	महाएसवीसी / 7205 /	151, सुखेड, तालुक खंडाला, जिला सतारा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू/04	04.04.82
615	धीरा देवी, पत्नी श्री अश्विनी शर्मा	यूपीवीसी / 4552 / 07	ग्राम एवं डाक अकोरही (एटीआई), जिला जालौन, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एएयू/04	31.12.80
616	धीरज भारद्वाज, पुत्र श्री आर.पी. भारद्वाज	डीवीसी / 0655 / 05	म.न. 551, बवाना, दिल्ली- 39	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू/05	10.09.79
617	धीरज सिंह भंडारी, पुत्र श्री बचन सिंह भंडारी	यूवीसी / 268 / 07	769 / 1, प्रगति विहार, देहरादून, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी/95	02.03.70
618	ढेंगे संदीप अमृत	महाएसवीसी / 7585 /	एटी पलासगांव, डाक कोलारी, तालुक लखानी, जिला भंडारा-441809, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू/06	15.02.83
619	धीरेश चंद्र जोशी, पुत्र श्री जगदीश चंद्र जोशी	यूवीसी / 257 / 06	ग्राम एवं डाक कुमलता, जिला पिथौरागढ़, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी/94	24.04.73
620	दिल्लेश्वर राव सावरा, पुत्र श्री अम्पला स्वामी	एपीएसवीसी / 4511 / 06	गोड्डा सिरिखंडी (डाक), मेलियापुट्टी(एम), श्रीकाकुलम जिला- 532215, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू/06	16.06.80
621	ढिंडाले अशोक कुंडलीक	महाएसवीसी / 7325 /	एटी घोटकारवाडी, डाक सातेवाडी, तालुक अकोले, जिला अहमदनगर-422610, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू/05	15.07.81
622	धीरज कुमार भुयन, पुत्र श्री विचित्रनंदा भुयन	ओवीसी / 2133 / 07	एटी/डाक सानामांग, वाया बाटीपारा, जिला केंद्रपाड़ा-754218, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी/07	10.12.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
623	धीरज कुमार गुप्ता, पुत्र श्री रम अवतार गुप्ता	पीवीएसवीसी / 2700 / 07	डिपा. ऑफ क्लिनिकल बेट. मेडि., ईएंडजे, सीओवीएस, जीएडीवीएसयू, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएंडटी / 01	16.12.79
624	धोबले मोहिनी मनोहर	महाएसवीसी / 7599 /	प्रोसैस सर्विस सोसायटी, प्लॉट न.16, स्वावलम्बी नगर, नागपुर-22, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	27.11.83
625	ढोकले अविनाश विट्टलराव	महाएसवीसी / 7327 /	ए/पी निघोज, पारनेर, जिला अहमदनगर- 414306, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	08.08.81
626	धोडे संतोष नवनाथ	महाएसवीसी / 7375 /	पंचायत समिति के सामने, चुट्टे अस्पताल के निकट, ए/पी अष्टी, तालुक अष्टी, जिला बीड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	10.06.82
627	धोपे अशोक वामनराव	महाएसवीसी / 7300 /	बड़ामाऊ राम मंदिर के निकट, करंजा (लाड), तालुक करंजा (लाड), जिला वाशिम, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / पीकेवी अकोला / 76	17.02.52
628	धोते अमित पुरुषोत्तम	महाएसवीसी / 7618 /	डॉ. चारमोड नर्सिंग होम के पीछे, तिलक वार्ड, कजी मोहल्ला, भंडारा-441904, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	02.12.83
629	धूमल रोहित विजय	महाएसवीसी / 7389 /	तुलसी निवास-14, सी-5 / 1 / 14 / 2:4, सेक्टर-5, सी.बी. डी. बेलापुर, नवी मुंबई, जिला थाना, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	03.01.83
630	दिव्येंदु चक्रवर्ती, पुत्र श्री भूपेंद्रनाथ चक्रवर्ती	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3231 / 06	ग्राम दंगलपारा, डाक पुरंदरपुर, जिला बीरभूम- 731129, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	09.02.84
631	दिलीप गुलंकी, पुत्र श्री जनावरी राव	एपीएसवीसी / 4467 / 06	फ्लैट न. 103, श्री हर्ष रेजिडेंसी, संकरमतम के निकट, मोतीनगर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	02.11.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
632	दिनेश चंद्र सिंह रावत, पुत्र श्री रूप सिंह रावत	यूवीसी/249/06	द्वारा 0387, स्टाफ न. बीईएल, कोटद्वारा, जिला पौड़ी, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी/87	20.06.61
633	दिनेश जस्ती, पुत्र श्री पिचेश्वर राव	एपीएसवीसी/4536/06	54-16-9, एफ2, माधुरी अपार्ट., वेंकटेश्वर नगर, विजयवाड़ा- 520008, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू/06	29.01.83
634	दीपक कुमार चौरसिया, पुत्र श्री किशोरी प्रसाद चौरसिया	बीवीसी/2687/05	ग्राम नं. एरिया, डाक नवादा, भाग नं. नवादा- 805110, जिला नवादा, बिहार	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएंडएफ एसयू/05	15.11.78
635	दीपक सैनी, पुत्र श्री बी. एस. सैनी	यूपीवीसी/4526/06	सी-174/3, रामनगर, कंकर खेरा, मेरठ कैंट, मेरठ, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू/06	29.08.80
636	दीपन्विता पात्रा, पुत्र श्री तरनी पात्रा	डब्ल्यूबीएसवीसी/3242/06	खटरा कोर्ट रोड, डाक खटरा, जिला बंकुरा- 722140, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस /06	12.02.84
637	दीप्ती शर्मा, पुत्री श्री प्रेम प्रकाश	राजएसवीसी/3258/06	1/29, हाउसिंग बोर्ड, जवाहर नगर, श्री गंगानगर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू/06	16.12.80
638	दीप्तीमयी बाघेई, पुत्री स्व. श्री सोमनाथ बाघेई	ओवीसी/2117/07	एटी/डाक पटपुर (एलआई सी कार्यालय के सामने), बाया उदाला, जिला मयूरभंज, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी/07	04.05.82
639	दीप्तीरजन स्वेइन, पुत्र श्री नरहरि स्वेइन	ओवीसी/2076/06	एटी/डाक बासोई, बाया पारजंग, जिला डैकनाल, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी/06	25.04.81
640	दिस. पी.पी.	केरलएसवीसी/3168/06	पोट्टाथु पराबिल हाउस, नदावरम्बा डाक, थिसूर, त्रिवेंद्रम- 680661, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू/06	08.05.70
641	दिव्या चंद्रन	केरलएसवीसी/3145/06	चक्किता मुरियिल, डाक अलुमकदाविल, करुगापल्ली, कोल्लम- 690573, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू/06	05.05.80

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
642	दीक्षित विक्रम अकरूर	महाएसवीसी / 7198 /	एटी करुंडे, डाक मोरची, तालुक मालिसयस, जिला सोलापुर- 413109, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	19.03.82
643	डोड्डाबसावन गौडा के., पुत्र श्री नागनगौडा के.	कर्नाएसवीसी / 3841 / 06	बेन्नीहल्ली- 583127, हरप्पनहल्ली तालुक, दावणगेरे जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	12.06.83
644	डोईफोडे विनोद कमलाजी	महाएसवीसी / 7497 /	डबल जीन, 3-22-50 / 2, थाटले अस्पताल के पीछे, पुराना जालना, तालुक जालना-431203, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	23.06.82
645	डोइजोड कीर्ति वैजनाथ	महाएसवीसी / 7560 /	दत्तानगर, सोमनाथपुर रोड, उदगीर, तालुक उदगीर, जिला लाटूर- 413517, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	11.06.81
646	दोनेकर मनीषा नत्थूजी	महाएसवीसी / 7581 /	विट्ठल वाडी, महावीर भवन के निकट, वरोरा रोड, वानी, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	06.08.78
647	डोंगरे विलास भगवानराव	महाएसवीसी / 7733 /	एटी बबूतर, डाक रेनापुर, पाठरी, जिला परभनी- 431506, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	04.10.83
648	दुबल प्रियदर्शिनी बाबूराव	महाएसवीसी / 7496 /	एटी डाक अदुल, तालुक पाटन, जिला सतारा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	07.09.78
649	दुलेन रॉय, पुत्र स्व. श्री हीरालाल रॉय	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3278 / 06	ग्राम भागबत डांगा, डाक बादलपुर, जिला डी / दीनाजपुर - 733121, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	01.01.83
650	दुर्गा नागा मल्लेश्वरी, पुत्री श्री नागेश्वर राव	एपीएसवीसी / 4469 / 06	म.न. 5-166, एनजीओ कॉलोनी, कुर्नूल रोड, आंगोल, प्रकासम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	10.06.83
651	दुर्गा राम, पुत्र श्री ए.आर. मौर्य	यूपीवीसी / 4528 / 06	ग्राम एवं डाक सुल्तानपुर, जिला मऊ, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसयूएंडटी / 01	20.06.70

क्र.सं.	नाम	पजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
652	दुर्गेश नदिनी, पुत्री श्री देवल प्रकाश लोबना	पीबीएसवीसी / 2645 / 06	म.न. 3020, स्ट्रीट न.2, पारसराम नगर, भटिण्डा, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / एसकेयूए एसएंडटी, जम्मू / 06	04.08.82
653	डर्मन कुमार बेहेरा, पुत्र श्री सनातन बेहेरा	ओवीसी / 2053 / 06	एटी अंडोला, डाक घोबानीसोल, जिला मयूरभंज, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 06	04.05.80
654	दुसाने मनोज प्रभाकरराव	महाएसवीसी / 7292 /	आई निवास, दत्ता कॉलोनी, महात्मा फुले स्कूल के निकट, माजलगांव, जिला बीड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	23.08.79
655	ई. चोकालिंगम, पुत्र श्री एन. ईश्वरा पिल्लै	टीएनवीसी / 3774 / 06	59-ए, ईस्ट स्ट्रीट, केशवनपुथूर, अजागिया पडियापुरम, के.के. जिला- 629851, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 95	20.08.47
656	ई. सरिथा, पुत्री श्री ई. राम रेड्डी	एपीएसवीसी / 4488 / 06	पत्नी टी. बाला भास्कर, म.न. 19-128, जवाहर रोड, रामनगर, मानचेरियल, आदिलाबाद जिला- 504208, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	21.05.81
657	ई. श्रीधरन, पुत्र श्री वी. इथीराजुलु	टीएनवीसी / 1827 / 05	प्लॉट न.8, नया वेप्पमकुरिची, नॉर्थ वेल्लूर डाक, नेवेली, कुडालूर जिला-607802	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 96	27.04.72
658	ई. थॉमस नत्ला थम्बी, पुत्र श्री डी. इबेनकन	टीएनवीसी / 2196 / 05	80ए, लुइस अम्मल स्ट्रीट, नागरकोइल 629001, केके जिला	बीवीएससी / मद्रासविधि / 64	21.12.42
659	ई.वी.आर.श्रीनिवासन, पुत्र श्री डी.ई.वी. राजाराम	टीएनवीसी / 1588 / 05	बी 5, तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड क्वार्टर्स, करई, रानीपेट	बीवीएससी / टीएन यू / 76	01.06.52
660	ई. वेंकटेश कुमार, पुत्र श्री एम. इलुमलई	टीएनवीसी / 2720 / 05	पेरियेरीपट्टी डाक, थोलासम्पट्टी (वाया), ओमलूर तालुक, सलेम जिला 636503	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 98	06.04.75
661	एलिजाबेथ एम. संगम्मा, पुत्री श्री ए.पी. जोसेफ	मेघएसवीसी / 239 / 06	द्वारा श्री ए.पी. जोसेफ, डाक होरिनकट्टा, मेंडीपाथर, ईस्ट एग्री हिल्स, मेघालय	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 06	23.6.78

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
662	एल्सो जॉन	केरलएसवीसी / 3132 / 06	न्जालियिल हाउस, चेरुवल्ली डाक, मनीमाला, कोट्टायम-686543, केरल	बीवीएससीएंडएएच / केएयू / 06	17.02.81
663	फैसल सी.टी.	केरलएसवीसी / 3149 / 06	चीरन थोडिका हाउस, पाडीकुन्नु, नीलाम्बूर डाक, मलप्पुरम-679329, केरल	बीवीएससीएंडएएच / केएयू / 06	12.05.81
664	फकीरप्पा डी. मेनसिनाकयी, पुत्र श्री दयावप्पा मेनसिनाकयी	कर्नाएसवीसी / 3913 / 06	मुसरीगेरी डाक, बादामी तालुक, बगलकोट जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएएच / केवीएफएसयू / 06	10.12.82
665	फारुक अमीन, पुत्र श्री मौहम्मद ए. लतीफ	राजएसवीसी / 3342 / 07	वेटेरिनरी अस्पताल, कुंडी, जिला उदयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच / पीआरकेवीबी / 92	30.07.67
666	फारुक रहमतुल्लाह शरीफ, पुत्र श्री हसन शरीफ	टीएनवीसी / 2740 / 05	17, सरदार पटेल रोड, अदयार, चेन्नई 600020	बीवीएससी / मद्रासविदि / 73	22.02.50
667	फकरुद्दीन अंसारी, पुत्र श्री कृतुबुद्दीन अंसारी	यूपीवीसी / 4413 / 06	ग्राम बैरागीपट्टी, डाक फागिल नगर, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / एनडीएयूएंडटी / 06	07.07.80
668	फ्रैंकिस्टर रुडोले शडप, पुत्र (स्व.) श्री के. लॉ	मेघएसवीसी / 245 / 07	मूकिरडुप, लडथाडलाबोह, एनएच-44, जोवाई-793150, मेघालय	बीवीएससीएंडएएच / एएयू / 07	5.6.82
669	जी. अम्बिका, पुत्री श्री जी. सिद्दिराम	एपीएसवीसी / 4516 / 06	म.न. 1-40, सिंगल विंडो ऑफिस के सामने, पुराना बस स्टैंड, लीजा, महबूबनगर जिला-509125, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / एसवीवीयू / 06	20.06.81
670	जी. अरुण कुमार, पुत्र श्री सुब्बुलू नायडू	एपीएसवीसी / 4538 / 07	पत्नी बी. सम्बासिवा राव, वैज्ञानिक, एनिमल हाउस, 219-बी, सीसीएमबी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / एएनजीआरएयू / 99	30.06.74
671	जी. बालाकृष्णन, पुत्र श्री के. गोविंदन	टीएनवीसी / 0753 / 05	मसानम कोइल स्ट्रीट, सुंदर राजापूरम, राजापलायम 626142	बीवीएससी / टीएएन यूवीएस / 96	14.04.73

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
672	जी. धनंजय राव, पुत्र श्री जी. मदन मोहन राव	टीएनवीसी / 2215 / 05	64, आउटर सर्कल रोड, किलपौक गार्डन कॉलोनी, चेन्नई 600010	बीवीएससी / टीएनए यू / 81	01.06.55
673	जी. दिनकर राज, पुत्र श्री वी.के. गोपाल	टीएनवीसी / 2415 / 05	80, पुष्पा नगर, मेन रोड, नुगाबक्कम, चेन्नई 600034	बीवीएससी / टीएनए यू / 86	22.09.63
674	जी. इलांगोवन, पुत्र श्री एम.एन. गोपाल	टीएनवीसी / 0674 / 05	1 / 267, एनजीओ नगर, तिरुपत्तूर, वेल्लोर जिला 635601	बीवीएससी / टीएनए यूवीएस / 02	30.05.76
675	जी. गुरुप्रभाकर, पुत्र श्री जी. गुरु मनिक्कम	टीएनवीसी / 1086 / 05	5-14-11-जे, मुरुगन कोइल स्ट्रीट, पेरीयूर 625703, मदुरै जिला	बीवीएससी / टीएनए यूवीएस / 94	27.10.70
676	जी. हेमानबारा नायडू, पुत्र श्री जी. चंद्रशेखर नायडू	एपीएसवीसी / 4434 / 06	डी.न. 18-1-298, पुराना शहर, वेनुगोपाल नगर, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनजी आरएयू / 06	02.06.68
677	जी. जगदीसन, पुत्र श्री पी. गुरुसामी	टीएनवीसी / 1253 / 05	64, वॉटर टैंक स्ट्रीट, उथमपलायम डाक, थेनी जिला 625533	बीवीएससी / टीएनए यूवीएस / 01	07.04.77
678	जी. झांसी रानी, पुत्री श्री माला कोंडइयाह	एपीएसवीसी / 4447 / 06	नॉर्थ मोपुर (ग्राम), अलूर(एम), नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	15.08.82
679	जी. कामेश कन्नन, पुत्र श्री टी. गोपाल	टीएनवीसी / 3631 / 06	डब्ल्यू-11 / 5, मुल्लई इल्लम, पुराना पुलिस स्टेशन स्ट्रीट, गुडालूर डाक, थेनी- 625518, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनए यूवीएस / 06	10.05.80
680	जी. काथीरावन, पुत्र श्री ए. गोपालन	टीएनवीसी / 2161 / 05	47-ए, पोन्न-कडु, पेरावुरानी 614804, थंजावूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनए यूवीएस / 94	10.06.71
681	जी. कुमारेसन, पुत्र श्री एम. गनेशन	टीएनवीसी / 1668 / 05	5 / 144सी, नवालूर डाक, पिन-636116, अट्टूर तालुक, सलेम जिला	बीवीएससी / टीएनए यूवीएस / 92	29.04.68

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
682	जी. माला देवी मंगियारकरासी, पुत्र श्री एम. मरीराज	टीएनवीसी/ 3789/07	1-1/106, यूवीवी नगर, मलकिनार, विरुधुनगर— 626109, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएएन यूवीएएस/97	03.07.71
683	जी. पोन्नदुराई, पुत्र श्री एस. गुरुसामी	टीएनवीसी/ 3023/05	होटल सेल्वा कुमार, कुरुक्कुपथई बस स्टॉप, थिरुथंगल, सिवाकासी 626130	बीवीएससी/टीएएन यूवीएएस/93	04.04.70
684	जी. राज मनोहर, पुत्र श्री पी. गोपाल	टीएनवीसी/ 2490/05	एच-31, ई.वी.एन. रोड, पेरियार नगर, इरोडे 638009	बीवीएससी/टीएएन यूवीएएस/98	25.08.74
685	जी. राजाराजन, पुत्र श्री एन. गोविंदराजन	टीएनवीसी/ 1240/05	प्लॉट न.11, टीडीसीसी बैंक कॉलोनी, न.1, टॉलगेट, त्रिची 621216	बीवीएससी/टीएएन यूवीएएस/96	29.05.73
686	जी. रवि कुमार, पुत्र श्री जे. गोपालकृष्णन	टीएनवीसी/ 2871/05	जी6जी ब्लॉक, 55 स्ट्रीट, अशोक नगर, चेन्नई 600083	बीवीएससी/टीएनए यू/83	23.05.60
687	जी. सेल्वाराजू, पुत्र श्री पी. गनपथि	टीएनवीसी/ 2421/05	वेस्ट थोट्टम, बेल्बकुरिची डाक, नमक्कल 637402	बीवीएससी/टीएएन यूवीएएस/97	26.07.73
688	जी. सैथिल कुमार, पुत्र श्री के. गणेश मूर्ति	टीएनवीसी/ 1237/05	ई-304, 19वीं स्ट्रीट, पेरियार नगर, चेन्नई - 600082	बीवीएससी/टीएएन यूवीएएस/01	30.11.77
689	जी. श्रीनिवासन, पुत्र श्री वी. गुरुमूर्ति	टीएनवीसी/ 3027/05	प्लॉट न. 12, डोर न. 17, टी. एन.जी.ओ. कॉलोनी, मेन रोड, नंगानल्लूर चेन्नई 600061	बीवीएससी/टीएनए यू/84	06.12.59
690	जी. सुगन्या, पुत्र श्री गोपालकृष्णन	टीएनवीसी/ 1965/05	14, बालाजी नगर, अलदरथिरुनगर, चेन्नई 600087	बीवीएससी/टीएएन यूवीएएस/96	30.12.72
691	जी. सुंदरा पंडियान, पुत्र श्री के. गोविंदराजन	टीएनवीसी/ 3767/06	21, मेन रोड, कथापक्कम, कुडालोर-2, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएएन यूवीएएस/00	07.05.75
692	जी.तमिलमनी, पुत्र श्री एल. गोविंदन	टीएनवीसी/ 2624/05	पिलपारुथि डाक, बोम्मिडी वाया, पाम्पिरेड्डीपट्टी तालुक, धर्मापुरी जिला 635301	बीवीएससी/टीएएन यूवीएएस/97	24.07.73



क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
693	जी. धुलसी, पुत्र श्री एम. गोविंदसामी उडयार	टीएनवीसी / 2007 / 05	9 / 56, कुरिजी स्ट्रीट, कुमारन नगर एक्सटेंशन-2, चेन्नई 600050	बीवीएससी / मद्रासविदि / 73	11.10.49
694	जी. ट्रेसामरी, पुत्र श्री के. ज्ञानमनि	टीएनवीसी / 3115 / 05	7, थिरु-वि-का न्यू स्ट्रीट, संकरनकोविल 627756, तिरुनेलवेली जिला	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 96	12.05.73
695	जी. विजया भास्कर रेड्डी, पुत्र श्री जी. सेखर रेड्डी	एपीएसवीसी / 4445 / 06	गांधीनगरम (ग्राम), चिन्नागुरायलूर (डाक), घपाडु (एम), कडपा जिला, आंध्रप्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	11.06.82
696	जी. विजय कुमार, पुत्र श्री एस. के. गोविंदराजन	टीएनवीसी / 0730 / 05	न. 333, सुप्रमगलम मेन रोड, पल्लापट्टी, सलेम 638009	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 94	15.08.71
697	जी.ए. बाला सुब्रमण्यम, पुत्र श्री टी.के. अमृतलिंगम	टीएनवीसी / 2986 / 05	5 / 6, मिडल स्ट्रीट, गुरुसामीपलायम, 637403, नमयकल जिला	बीवीएससी / टीएन यू / 87	01.05.84
698	जी.एम. सिवकुमार, पुत्र श्री के. गोविंदराजन	टीएनवीसी / 1876 / 05	न. 27, वेलाचेरी रोड, सहदापेट, चेन्नई- 600015	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 97	17.02.73
699	जी. महेंद्रन, पुत्र श्री एम. गणेशन	टीएनवीसी / 1745 / 05	2 / 178, करपागनाथर कुलम, थिरुथुरई पुंडी, थिरुवरुर जिला, पिन 614703	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 98	02.05.75
700	जी.आर. बरानीधरन, पुत्र श्री जी. रंगास्वामी	टीएनवीसी / 1860 / 05	पुराना न. 66, नया न. 20, फर्स्ट मेन रोड, सी.आई.टी. नगर, चेन्नई 600035	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 97	19.11.72
701	जी. राजावेलु, पुत्र श्री एन. वी. गोविंद राजन	टीएनवीसी / 0669 / 05	106 / 1, कलाधियप्पा स्ट्रीट, चूलाई, चेन्नई 600112	बीवीएससी / मद्रासविदि / 67	11.02.42
702	जी. श्रवणन, पुत्र श्री वी. गोपालाकृष्णन	टीएनवीसी / 3396 / 06	44, थिरुमलाई नगर, उदायमपलायम, डाक निवेडमपट्टी, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 96	29.05.73
703	गमाने हेमंत कुमार श्रीराम	महाएसवीसी / 7583 /	मंडई पेट, अदयाल, तालुक पोनी, जिला मंडारा-441903, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएफएसयू / 06	12.06.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
704	गद्दाम रघुपति रेडडी, पुत्र श्री जी. प्रताप रेडडी	एपीएसवीसी / 4514 / 06	चिगुरुमामिडी, करीमनगर जिला 505467, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	16.05.81
705	गड्डे उज्वला दीप्ती, पुत्र श्री मनमध राव	एपीएसवीसी / 4507 / 06	डी.नं. 6-66-1/2. द्वारा अयप्पा एंटरप्राइसेज, रोड नं. 10, श्रमिक नगर, चाइना गंतयदा, पुराना गाजुवाका, विशाखापटणम-28, आंध्रप्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	30.05.83
706	गडेकर योगेश प्रभाकर	महाएसवीसी / 7204 /	माधेवडगांव (देशमुखवस्ती), तालुक श्रीगोंडा, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	10.08.81
707	गडी राजशेखर राजू, पुत्र श्री जी. वेंकटरमन राजू	एपीएसवीसी / 4466 / 06	द्वारा आर. चंद्रशेखर राजू, डी. नं. एफ-588, वी.वी. रेडडी नगर, आरटीपीपी येरागुंटला (एम), कडपा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	07.08.82
708	गडमडे अश्विनी बलराम	महाएसवीसी / 7177 /	29, लोखंडे नगर, गायत्री मंदिर के पीछे, नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	19.12.80
709	गगप गौडी, पुत्र श्री सुरेश चंदर	डीवीसी / 0644 / 04	द्वारा श्री सुखदेव बत्रा, 28, भरत नगर, दिल्ली- 52	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 02	06.07.78
710	गगन कुमार पाल, पुत्र श्री आर.सी. पाल	एमपीएसवीसी / 23 69 / 06	234, धार रोड, इंदौर, म.प्र. 452002	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 06	03.06.80
711	गायकवाड गौरी प्रहलाद	महाएसवीसी / 7197 /	केंजल, तालुक वाई, जिला सतारा- 415536, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	31.10.80
712	गायकवाड प्रदीप अर्जुन राव	महाएसवीसी / 7241 /	'आकाक्षा', गणपति लेन, पाओनेर, तालुक पाओनेर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	20.09.80
713	गायकवाड रोहित एकनाथ	महाएसवीसी / 7417 /	सी / 62, आशीर्वाद, सीएचएस, गुनसागर नगर, स्टेशन रोड, कलवा, तालुक व जिला थाणे, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	11.09.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
714	गायकवाड शहीर विठ्ठल	महाएसवीसी / 7240 /	भलवानी, तालुक पंढारपुर, जिला सोलापुर- 413304, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	17.05.81
715	गायकवाड शिवाली प्रदीप	महाएसवीसी / 7574 /	ओम प्रभातकर, बी-9, गगताप माला, नासिक रोड, नासिक-422101, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	27.08.83
716	गम्भीर शीतल सुभाष राव, पुत्र श्री सुभाष शामराव गम्भीर	कर्नाएसवीसी / 3824 / 06	द्वारा पी.वी. बिरादर, हिंदी लेक्चरर, अम्बिका कॉलोनी, औरद-585326, जिला कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 03	12.06.81
717	गणपति नायक अजमीरा, पुत्र श्री सोमा नायक	एपीएसवीसी / 4502 / 06	डी.न. 11-182, मुन्नानगी, कोलीपारा एम, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसबीवीयू / 06	05.06.82
718	गंधाले प्रदीप नारायण	महाएसवीसी / 7539 /	द्वारा नारायण गंधाले, ए/पी वम्बोरी, तालुक राहुरी, जिला अहमदनगर- 413704, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	30.11.82
719	गंधे अंजलि दिगम्बर	महाएसवीसी / 7381 /	"वात्सलय", शिवाजी नगर, तालुक अर्नी, जिला यवतमाल 445103, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	14.04.81
720	गणेश जी.	केरलएसवीसी / 3108 / 06	कौस्तुभोम, टीसी 15 / 855, कॉटन हिल, वजुथाकौड, त्रिवेंद्रम-695010, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	13.04.82
721	गणेश कुमार सैनी, पुत्र श्री दयानंद सैनी	एचवीसी / 1946 /	सैनी क्लॉथ स्टोर, पुल बाजार, नारनौल महेंद्रगढ़, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 06	08.07.80
722	गंगाले दया पंजाबराव	महाएसवीसी / 7256 /	ए-58, विवेकानंद सोसायटी, श्रीरामपुर, पुसाद, जिला यवतमाल-445204, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 03	02.01.81
723	गंगुरदे नीलेश शिवाजी	महाएसवीसी / 7688 /	ओम साई अपार्टमेंट, कमरा न. 13, गोविंद नगर, वफे, शाहपुर, जिला थाणे, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	28.10.79

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
724	गनिती पवन कुमार, पुत्र श्री जी.बाला चैनइयाह	एपीएसवीसी / 4523 / 06	8 / 86, सुमित्रानगर, बडगेल -518227, कडपा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	27.02.80
725	गनवीर विककी दीपक	महाएसवीसी / 7393 /	द्वारा दीपक पी. गनवीर, तहसील कार्यालय के निकट, बडसा रोड, अमरोरी (बलवी), तालुक अमरोरी, जिला गडचिरोली, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	26.07.81
726	गरिमा सक्सेना, पुत्री श्री विनोद कुमार सक्सेना	डीवीसी / 0884 / 07	ए-5 / 25, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली-85	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 00	18.08.77
727	गौरव गुप्ता, पुत्र श्री आर. एन. गुप्ता	यूपीवीसी / 4416 / 06	टी-2 / 149, जी.एस.वी.एम., मेडिकल कॉलेज, कानपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एमडीएयूएंडटी / 06	10.05.80
728	गौरव शर्मा, पुत्र श्री गौतम शर्मा	राजएसवीसी / 3314 / 08	मनोद भवन, सब्जी मंडी, वार्ड न. 13, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एसकेयूएसएंडटी / 06	23.12.80
729	गौरव, पुत्र श्री धर्म प्रकाश	एचवीसी / 1907 /	म.न. 219, सेक्टर-5, अर्बन एस्टेट, कुरुक्षेत्र, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 06	10.12.82
730	गौतम घंदन कुमार, पुत्र स्व. श्री नरेश्वर सरमा	असम / 2268 / 07	द्वारा स्व. श्री नरेश्वर सरमा, भुक्ताबारी (बामुनपारा), डाक सिपाइर, जिला दारंग- 784415, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 07	30.09.83
731	गौतम कृष्णाजी फुल्जले, पुत्र श्री कृष्ण	राजएसवीसी / 3335 / 06	द्वारा भगवती सिंह राजावत, 2डी / 17, जवाहर नगर, बूंदी, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / डॉ.पीआर डीकेवी / 97	4.4.72
732	गवडाकटला विजय माधवी, पुत्री श्री मलकोंडइयाह	एपीएसवीसी / 4460 / 06	सहायक बी.सी. कल्याण अधिकारी, चिराला, प्रकासम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	30.08.81
733	गावली आनंद दगाडु	महाएसवीसी / 7365 /	ए / पी भलवानी, तालुक पंढारपुर, जिला सोलापुर- 413304, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	26.01.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
734	गावंडे प्रिया जगन्नाथ	महाएसवीसी / 7490 /	कृष्णा विहार, पहला पेट्रोल पम्प, अकोला रोड, अकोट, तालुक अकोट, जिला अकोट -444101, महाराष्ट्र	बीबीएससीएंडएएच / एमएफएसयू / 05	07.08.82
735	गावंडे सुधरी साशेबराव	महाएसवीसी / 7167 /	ए/पी-सावरकर नगर, बिलनपुरा, अथनपुर, तालुक अथलपुर, जिला अमरावती, महाराष्ट्र	बीबीएससीएंडएएच / एमएफएसयू / 04	02.07.80
736	गावंडे तुषार रामराव	महाएसवीसी / 7119 /	30, साई नगर, गायवाडी, तालुक दरयापुर, जिला अमरावती, महाराष्ट्र	बीबीएससीएंडएएच / एमएफएसयू / 04	12.12.81
737	गावारे वैजीनाथ सरजेराव	महाएसवीसी / 7461 /	एटी: बूटेगांव, डाक सायगांव, तालुक बदनापुर, जालना-431203, महाराष्ट्र	बीबीएससीएंडएएच / एमएफएसयू / 05	25.09.80
738	गायस्कर रीतेश पांडुरंग	महाएसवीसी / 7503 /	17-मोहाता गार्डन के पीछे, बिडकर लेआउट, संत ताकडो जी वार्ड, हिंगनघाट, जिला वर्धा, महाराष्ट्र	बीबीएससीएंडएएच / एमएफएसयू / 05	05.01.81
739	ज्ञान दीपनज्योति, पुत्र श्री खगेंद्र नाथ ज्ञान	असम / 2243 / 06	द्वारा के.एन. गयान, म.न. 12, बाघरबोरी, गुवाहाटी-37, जिला कामरूप, असम	बीबीएससीएंडएएच / एएयू / 06	05.12.82
740	गायकी देवेन्द्र एकनाथ	महाएसवीसी / 7637 /	ए/पी कापरा, तालुक / जिला यदतमाल-445005, महाराष्ट्र	बीबीएससीएंडएएच / एमएफएसयू / 06	04.04.82
741	गीता शर्मा, पुत्र श्री राम दत्त शर्मा	डीवीसी / 0662 / 05	56 / 14, मानक शाह मार्ग, दिल्ली कैंट, धौला कुआं, नई दिल्ली	बीबीएससीएंडएएच / जीबीपीएयूटी / 99	26.06.75
742	गीता, पत्नी श्री जनार्दन मौर्या	राजएसवीसी / 3332 / 06	49, स्टेशन रोड, इसारदा, सवाई माधोपुर, राजस्थान	बीबीएससीएंडएएच / जीबीपीएएंडटी / 02	23.05.78
743	गीथा रमेश, पुत्री श्री जी. सांथामूर्ति	टीएनवीसी / 2099 / 05	पुराना न. 15 / 1, नया न. 33 / 1, वेंकटचलम स्ट्रीट, वेपेरी, चेन्नई-7	बीबीएससी / टीएन एयू / 87	28.05.64

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
744	गडगे हिम्मत रंगनाथ	महाएसवीसी / 7656 /	एटी अजनसॉड, डाक देगांव, तालुक पंढारपुर, जिला सोलापुर, 413304, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	28.01.84
745	गडगे राजेंद्र शिवाजी	महाएसवीसी / 7728 /	मेन रोड, पिम्परी, तालुक कोरेगांव, जिला सतारा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	06.10.83
746	घालवडकर सचिन परशुराम	महाएसवीसी / 7451 /	ए/पी रुकडी, तालुक हटकलंगेल, जिला कोल्हापुर-416118, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	03.10.80
747	धनश्याम दत्त जोशी, पुत्र श्री हरि दत्त जोशी	यूवीसी / 236 / 06	ग्राम-चौसाला, डाक धौलादेवी, जिला अल्मोडा, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएंडड / 94	15.08.70
748	घरात रोहित दयानंद	महाएसवीसी / 7270 /	एफ-12 2/3, सेक्टर-18, नया पनवेल, तालुक पनवेल, जिला रायगढ़- 410206, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	04.10.80
749	घवात पंकज गणेशराव	महाएसवीसी / 7595 /	निवारा कॉलोनी न. 1, रामकृष्ण नगर, अकोला- 444001, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	18.01.81
750	घयावत कुनाल, पुत्र श्री ज्ञानेश्वर	महाएसवीसी / 7388 /	अनुद्यान, 24, हिंगना रोड, राजेंद्र नगर, नागपुर- 440016, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	25.02.82
751	घोडके माधुरी तुकाराम	महाएसवीसी / 7222 /	ए/पी अनावली, तालुक पंढारपुर, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	23.11.80
752	घोघरे शांतनु रमेशराव	महाएसवीसी / 7430 /	श्रद्धा नगर, चिखाली गेट के निकट, लहुरिया प्लॉट, मुर्तियाजपुर, तालुक मुर्तियाज पुर, जिला अकोला, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	11.04.81
753	घोष अमृता	गुजएसवीसी / 2690 / 06	क्वा. 27, एस.बी. रेजिडेंशल कॉम्प्लेक्स, यूनिवर्सिटी रोड, राजकोट-5, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसडीएयू / 06	19.11.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
754	घुले राहुल प्रभाकर	महाएसवीसी / 7442 /	घुले बिल्डिंग, लेन न. 5, शिवाजी नगर, तालुक संगमनेर, जिला अहमदनगर - 422605, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	06.07.83
755	गिड्डे धनाजी अर्जुनाथ	महाएसवीसी / 7737 /	एटी गिड्डेवाडी, डाक अष्टी, तालुक मोहोल, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	15.10.82
756	गिड्डे गिरीश, पुत्र श्री जी. श्रीहरि राव	एपीएसवीसी / 4440 / 06	डी.न. 2-7, अम्बेडकर नगर, यनम- 533464, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / पीएंडीविवि / 06	12.09.81
757	गिराडकर मंगेश्वरी कौडुजी	महाएसवीसी / 7361 /	ए/पी अदयाल, शिवाजी चौक, पौनी, जिला भंडारा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	14.12.82
758	गिरिप्रगदा श्रवण कुमार, पुत्र श्री किशन राव	एपीएसवीसी / 4478 / 06	म.न. 4-3-216 / 10, भूम नगर, पेडापल्ली, करीमनगर जिला- 505172, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	15.05.82
759	गिरीश एच.एम., पुत्र श्री मल्लेशम्पा एच.	कर्नाएसवीसी / 38 48 / 06	हिरेनल्लूर- 577562, कडूर तालुक, चिकमगलूर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	17.01.81
760	गिरीश कुमार त्यागी, पुत्र श्री ए.एस. त्यागी	यूपीवीसी / 4455 / 06	ग्राम नानू, डाक मंडुला, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 06	23.12.80
761	गिरीश राडेर, पुत्र श्री रामप्पा	कर्नाएसवीसी / 38 36 / 06	द्वारा परशुराम रेड्डी राडेर, मलानायकनहल्ली-581119, रानेबेनूर तालुक, हावेरी, जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	20.07.83
762	गीते कैलाश शेषराव	महाएसवीसी / 7346 /	शेषराव भीमराव गीते, श्रीनिवास निवास, नरेश्वर मंदिर के निकट, मेन रोड, कंधार, तालुक कंधार, जिला नांदेड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	10.04.78
763	ग्लैडी	केरलएसवीसी / 3 201 / 06	वेमपिल्ली हाउस, वेंगलूर डाक, थोडुपुजा, इडुक्की जिला- 685584, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएसयू / 06	17.03.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
764	गोबडे महेश रमेश	महाएसवीसी / 7338 /	एटी जम्भोरा, डाक पलोरा, तहसील मोझदी, जिला मंडारा— 441905, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 05	25.12.81
765	गोबिंदर सिंह, पुत्र श्री तारा सिंह	पीबीएसवीसी / 2871 / 06	1042, स्ट्रीट न. 5, कृष्णा नगर, खन्ना— 141401, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /जीएडीबीएसयू/ /06	01.01.82
766	गोगोई सोफिया मकडोह, पुत्री श्री प्रदीप कुमार गोगोई	असम / 2251 / 06	म.न. 13, जनपथ, बकरापारा, खानापड़ा, गुवाहाटी— 781022, असम	बीवीएससीएंडएच /एएयू/06	05.12.81
767	गोंडधर दीपक आत्माराम	महाएसवीसी / 7564 /	डॉ. आर. एस. जापे, लक्ष्मी नगर, मोथी उमरी, अकोला— 444005, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /डॉ.पीडी केवी/00	04.07.68
768	गोपेश सिंह यादव, पुत्र श्री विद्या राम	यूपीवीसी / 4533 / 06	ग्राम महाराज पुरा, डाक चंकरनगर, इटावा, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /सीएसकेकेवीवी /06	01.07.80
769	गोस्वामी अनूपनंदा, पुत्र श्री अच्युत च. गोस्वामी	असम / 2244 / 06	गौरी सागर, नकाटनी गांव, डाक गौरीसागर, जिला सिवसागर— 785664, असम	बीवीएससीएंडएच /एएयू/06	01.03.81
770	गोटारने विनोद त्रयम्बक	महाएसवीसी / 7423 /	एटी गेट्स बू, डाक कोने, तालुक वाडे, जिला धाणे— 421303, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 05	15.09.79
771	गोधी अनिल कालीदास	गुजएसवीसी / 2738 / 06	एटी एवं डाक गढ, तालुक पालनपुर, जिला बनासकंठा (उ. गो.)— 385515, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/06	28.05.84
772	गौतम कामिला, पुत्र श्री सुबल चंद्र कामिला	ओवीसी / 2079 / 06	एटी / डाक राजपुर, वाया जलेश्वर, जिला बालासौर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/06	15.01.80
773	गोवर्धन आर. पुत्र श्री स्थनाइन आर.	कर्नाएसवीसी / 38 87 / 06	तालेमराल्हा हल्ली, पवागडा तालुक, तुमकुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू /06	24.04.84



क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
774	गोविंदा टी.एच., पुत्र श्री होनइय्या डी.	कर्नाएसवीसी / 39 24 / 06	थागाहल्ली डाक, कप्पा होबली, मद्दूर तालुक, माण्ड्या जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	08.05.83
775	गोवाने गोपाल रामदासजी	महाएसवीसी / 7258 /	द्वारा:विजय कुलकर्णी, रेणुका टाइपिंग इंस्टीट्यूट, किरण नगर, 1, अमरावती, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 03	30.07.80
776	ग्रामस्की भूपाल, पुत्री श्री डी.एस. भूपाल	राजएसवीसी / 3242 / 06	दर्शन सिंह, ग्राम मकसर, हनुमानगढ़, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एसकेएनडीएयू / 05	27.12.80
777	गरीश चंद्र बर्धवाल, पुत्र स्व. श्री जी.एस. बर्धवाल	यूवीसी / 284 / 08	22 / 2, तेग बहादुर रोड, लेन न. 1, देहरादून, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 91	29.10.58
778	ग्रोर्ग हागी चिरमांग, पुत्र ( स्व.) श्री दालिप किंडइयाह	मेघएसवीसी / 244 / 07	द्वारा डी. चिरमांग, मिन्थोंग, पोहकेश, जोवाई-79, मेघालय	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 07	22.12.80
779	गुड्डू कुमार, पुत्र श्री अर्जुन प्रसाद गुप्ता	बीवीसी / 2718 / 06	ग्राम देव, डाक देव, धाना देव- 824202, जिला औरंगाबाद, बिहार	बीवीएससीएंडएच / एनडीएयूएंडटी / 04	11.01.81
780	गुडेवर जगदीश गनपत	महाएसवीसी / 7548 /	480, सोनारपदा, पद्मानगर, भिवंडी तालुक, भिवंडी, जिला थाणे- 421305, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	04.08.82
781	गुडला प्रमाद रेड्डी, पुत्र श्री जी. आदिनारायण रेड्डी	एपीएसवीसी / 4470 / 06	7 / 326-1, भाग्यनगर कॉलोनी, कडपा-516002, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	06.07.81
782	गुजराती प्रवीनकुमार गोविंद राव	महाएसवीसी / 7662 /	द्वारा:जी.आर.गुजराती, वैशाली ट्रेडर्स, हार्डवेयर व पेंट मर्चेन्ट, मेन रोड, धर्माबाद, ला नांदेड 431809, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	23.06.81
783	गुलाम जफर अंसारी, पुत्र श्री गुलाम रब्बानी	एपीएसवीसी / 4433 / 06	म.न. 5-9-175, हैदरखान गुडा, नालगोंडा, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / पीकेवी / 86	15.07.62

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
784	गुंजल प्रशांत सुदामाराव	महाएसवीसी / 7158 /	प्लॉट न. 621, विठल नगर, शिरूर, तालुक शिरूर, जिला पुणे- 412210, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच / एमएफएसयू / 04	23.12.81
785	गुंजन श्रीवास्तव, पुत्री डॉ. आनंद कुमार श्रीवास्तव	यूवीसी / 194 / 06	ए-33, रिंग रोड, आवास विकास, रुद्रपुर, यू.एस. नगर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएएच / जीबीपीयूएटी / 06	29.10.83
786	गुप्ते अदिती गिरीश	महाएसवीसी / 7677 /	14 / 214, श्री दर्शन, आजाद नगर, जे.पी. रोड, अंधेरी(प.) मुम्बई-400053, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच / एमएफएसयू / 06	08.08.83
787	गुरव पूनम अरुण	महाएसवीसी / 7227 /	गणेश कृपा चॉल, कमरा न. 14, कोपर रोड, जूनी- घोबीवली, तालुक डोम्बीवली, धाणे, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच / एमएफएसयू / 04	07.06.82
788	गुरव पूनम अरुण	महाएसवीसी / 7228 /	वाडाले, तालुक फाल्टन, जिला सतारा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच / एमएफएसयू / 04	17.07.81
789	गुरव प्रशांत शिवाजी	महाएसवीसी / 7646 /	'सद्गुरु निवास', ए/पी खारसुडी, तालुक अटपदी, जिला सांगली-415308, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच / एमएफएसयू / 06	25.02.84
790	गुरप्रीत सिंह, पुत्र श्री इकबाल सिंह	यूवीसी / 230 / 06	वेटरिनरी हॉस्पिटल, रामेश्वरपुर डाक, लालपुर, जिला, यू.एस. नगर	बीवीएससीएंडएएच / जीबीपीयूएटी / 01	15.01.78
791	गुतम के. दास, पुत्र श्री ठाकुर चरन दास	एचपीएसवीसी / 752 / 06	वरिष्ठ वैज्ञानिक, नॉर्थ टैम्परेट रीजनल स्टेशन, सीएसडब्ल्यूआरआई, गरसा, कुल्लु, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएएच / बीसीके वीवी / 02	07.11.67
792	ज्ञानेंद्र सिंह गहलोत, पुत्र श्री मातादीन	एमपीएसवीसी / 2414 / 07	द्वारा श्री रामस्वरूप करोलिया, किला रोड, रैनी गली, अम्बाह, मुरैना, म.प्र. 476111	बीवीएससीएंडएएच / जेएनकेवीवी / 06	02.07.81
793	एच. पुरिकन राज, पुत्र श्री एम. हरिदोस	टीएनवीसी / 0822 / 05	पुराना नं. 18, नया नं. 68, नागलथु स्ट्रीट, कांचीपुरम-631501, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 01	04.07.76

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
794	हेगडे मिलिंद रामेश्वर	महाएसवीसी / 7382 /	पोहारा, डाक पोहारा, तालुक लखानी, जिला भंडारा- 442809, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	13.07.63
795	हगवाने सचिन दिनकर	महाएसवीसी / 7200 /	111-बी/3, धोम कॉलोनी, वाई, तालुक वाई, जिला सतारा-412803, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	13.06.82
796	हांडेकर प्रवीन कुमार बालचंद्र	महाएसवीसी / 7627 /	द्वारा बी.बी. हांडेकर, हनुमान मंदिर के निकट, गोविंदपुर, तालुक नागबिड, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	11.08.82
797	हनुमान आर्या, पुत्र श्री घीसा राम	राजएसवीसी / 3334 / 06	ग्राम एवं डाक रघुनाथपुरा, तहसील कोटपुतली, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 06	27.04.79
798	हाओबिजाम मंगोलिजाओ सिंह, पुत्र श्री हाओबिजाम थोइबा सिंह	डीवीसी / 0602 / 02	ई-74, सिद्धार्थ नगर, नई दिल्ली	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 00	01.03.74
799	हक मफीदुल, पुत्र श्री फूल मुहम्मद अली	असम / 2246 / 06	ग्राम एवं डाक हंगलपारा, धाना सिपाझर जिला दारंग, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 06	01.03.82
800	हरि नारायणन पी.एम.	केरलएसवीसी / 3 167 / 06	परमना, पारामेकावू लेन, थिसूर- 680020, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	09.12.82
801	हरि ओम मीना, पुत्र श्री मांगी लाल मीना	राजएसवीसी / 3317 / 06	गांधी पुरा, लखारी, बूंदी, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 05	02.12.81
802	हरिहर प्रसाद गुप्ता, पुत्र श्री नानक चंद गुप्ता	यूपीसी / 226 / 06	1/206, पंतनगर, जिला यू.एस. नगर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 78	01.11.57
803	हरिकांत, पुत्र श्री आर.के. कनौजिया	यूपीवीसी / 4393 / 06	ग्राम रज़ाकपुर, डाक यूजीयू, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीएयूएंडटी / 06	10.08.80
804	हरिनंदन कुमार, पुत्र श्री सीता राम साहू	बीवीसी / 2704 / 05	ग्राम हिमजापुर, डाक शिवकुंड, धाना घरहरा- 811201, जिला मुंगेर, बिहार	बीवीएससीएंडएच / एसकेयूएसएंडटी / 05	25.10.79

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
805	हरिंदर सिंह, पुत्र श्री मजन सिंह	पीबीएसवीसी / 2677 / 06	बी-8, स्ट्रीट न.2, विकास नगर, राहन रोड, नवां शहर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएच / 06	02.12.81
806	हरिश् चंद्र जोशी, पुत्र श्री दामोदर जोशी	यूवीसी / 252 / 06	25, न्यू कॉलोनी, धारनौला, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 90	22.06.64
807	हरिश् चंद्र, पुत्र श्री लाखन सिंह	यूपीवीसी / 4417 / 06	ग्राम हरिपुरा, डाक रामपुरा, किरावली, आगरा, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएंडटी / 06	10.06.80
808	हरजीत सिंह खाख, पुत्र श्री हरबंस	राजएसवीसी / 3277 / 06	21, सेतिया फार्म, मेन रोड, बसंती चौक, श्रीगंगानगर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 06	20.12.79
809	हरमनप्रीत सिंह, पुत्र श्री हरदेव सिंह	राजएसवीसी / 3327 / 06	यूआईटी क्वार्टर्स के सामने, इंदिरा कॉलोनी, बीकानेर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 03	27.07.75
810	हरनेंद्र कुमार, पुत्र श्री एस.एन. शर्मा	यूवीसी / 247 / 06	33, वन विहार, बल्लूपुर, देहरादून, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 96	14.03.69
811	हासे पंकज बानुदास	महाएसवीसी / 7128 /	'मधुमती', सम्भाजी नगर, पारनेर, तालुक पारनेर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	12.10.81
812	हटकर देवराव नागोराव	महाएसवीसी / 7602 /	राधाकृष्णा कॉलोनी, मोरशी, जिला अहमदनगर— 444905, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	03.08.79
813	हजारिका अंकुर, पुत्र श्री केशाब हजारिका	असम / 2253 / 06	द्वारा सोरबाजानिन भंडार, डाक रुक्मिणी गांव, गुवाहाटी—22, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 06	16.02.77
814	हजारिका जयंता, पुत्र श्री देबेन हजारिका	असम / 2258 / 06	ग्राम एवं डाक बिहपुरिया, वार्ड न.3, जिला लखीमपुर— 784161, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 06	31.01.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
815	हेदाउ माधुरी सुधाकरराव	महाएसवीसी / 7172 /	द्वारा अनंतराय लाठे, देशमुखपुरा, कटोल, जिला नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	14.04.81
816	हेगाजे पाटिल शिवानंद रामगोंडा	महाएसवीसी / 7280 /	मेन रोड, सुलकुड, तालुक कागल, जिला कोल्हापुर-418216, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 03	01.03.79
817	हेमंत कुमार ओझा, पुत्र श्री सुभाष चंद्र ओझा	एमपीएसवीसी / 2 395 / 06	भूरे बाबा की बस्ती, छतरी बाजार, लश्कर, ग्वालियर, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 0 8	05.09.80
818	हेमंत कुमार श्रीवास्तव, पुत्र श्री महेश प्रशाद	डीवीसी / 0600 / 02	डी-87, आनंद विहार, रेलवे हाउसिंग सोसायटी, दिल्ली-110092	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 8 2	10.06.80
819	हेमंत कुमार बी.के., पुत्र श्री काडमनी बी.एच.	कर्नाएसवीसी / 38 54 / 06	फतेपुरा, तुम्बिनाकट्टे- 581119, रानेबन्नूर तालुक, हावेरी जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	18.05.83
820	हेमाश्री पी., पुत्र श्री पुत्तालिगइयाह	कर्नाएसवीसी / 39 32 / 06	अपेक्षा नीलया, चौथा ए क्रॉस, 1 मेन, हनुमंतपुरा, तुमकुर, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	18.05.83
821	हेमन्ध कुमार शर्मा, पुत्र श्री लखन	राजएसवीसी / 3330 / 06	खादी भंडार के निकट, मुसावर, भरतपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 00	10.11.75
822	हेमन्ध सिंह सोलंकी, पुत्र श्री एस.एस. सोलंकी	डीवीसी / 0634 ए / 04	म.न. डब्ल्यू जेड-193ए, पालम गाव, नई दिल्ली-110045	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएंडटी / 00	23.08.76
823	हिमांशु पलुई, पुत्र श्री दीनबन्धु पलुई	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3265 / 06	ग्राम सैतुलमुरी, डाक सिंगरापुर, जिला हुगली- 712614, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	27.03.81
824	हृदानंद मलिक, पुत्र श्री उपेंद्र मलिक	ओवीसी / 2102 / 07	एटी/ डाक केशरीपुर, बाया सोरो, जिला बालासोर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 07	12.06.82
825	आई मौहम्मद आशिफ, पुत्र श्री ए.के. इस्माइल	टीएनवीसी / 3581 / 06	2344, वेस्ट-11 स्ट्रीट, पाडुकोट्टई- 622001, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन एयू / 85	01.06.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
826	आई मुरुगाराज, पुत्र श्री पी. इरुलप्पन	टीएनवीसी / 0041 / 03	बी2 / 3, हाउसिंग यूनिट फ्लैट्स, के.के. नगर, मदुरै- 020, तमिलनाडु	बीवीएससी / मद्रासविधि / 87	21.08.48
827	आई कोर्बन गोडरे डेविड, पुत्र श्री इवान थंगासामी	टीएनवीसी / 3293 / 05	गोल्डन स्क्वेयर, के.पी. बलासई, तेनकासी, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 84	21.11.70
828	इलासरिया रमेश कुमार नाथलाल	गुजएसवीसी / 2895 / 08	लुनवा रोड, गोकुल गाम, फार्म हाउस, तालुक पालन पुर-385001, (बी.के.) गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसडीएस / 08	22.07.83
829	इंदरदीप सिंह काहलोन, पुत्र श्री बलबीर सिंह काहलोन	पीबीएसवीसी / 2694 / 06	647, ऋषि नगर, इंकम टैक्स कॉलोनी के पीछे, डाक मॉडल टाउन, जालंधर	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेएचपीके वी / 06	08.04.79
830	इंदरजीत सिंह, पुत्र श्री जरनैल सिंह	पीबीएसवीसी / 2672 / 06	248, वार्ड न. 9, ग्राम एवं डाक शेकुपुर, मौह. सूडन, जिला कपूरथला, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएसयू / 06	19.10.81
831	इंदिरा पॉल, पुत्री श्री रबीन्द्र नाथ पॉल	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3249 / 06	24 / 2 / 133, मॉडल धारा लेन, कोलकाता-700090, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीएसएस / 06	30.03.83
832	इंदरजीत, पुत्र श्री दूधनाथ	यूपीवीसी / 4468 / 06	ग्राम सदुलापुर, डाक डौंडी, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / केएस / 06	05.03.76
833	इंदु के.	केरलएसवीसी / 3 116 / 06	कार्तिक, चुंगाथारा डाक, मलप्पुरम जिला- 679334, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएस / 06	12.01.82
834	इंदु शेखर मिश्रा, पुत्र श्री सी.एस. मिश्रा	यूपीवीसी / 4406 / 06	एसए 4 / 67, ए / 2 का नईबस्ती, दौलतपुर, पांडेपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 06	04.04.83
835	इंदुरु प्रतिमा, पुत्री श्री आई. राजशेखर रेड्डी	एपीएसवीसी / 4451 / 06	जे.आर. पेटा आत्माकुर, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	01.07.82
836	इंगले प्रदीप धानाजी	महाएसवीसी / 7536 /	ए / पी पिसोरा, तालुक श्रीगोंडा, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएसएसयू / 05	21.06.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
837	इंगले संतोष लक्ष्मन	महाएसवीसी / 7510 /	ए/पी देउलगांव सिधी, तालुक व जिला अहमदनगर - 414001, महाराष्ट्र	बीवीएससी/एंडएच / एमएफएसयू / 05	02.07.82
838	इंगले कैलाश शंकर	महाएसवीसी / 7383 /	"केशरगंध", वार्ड न. 17, शिवाजी नगर, चिखाली, तालुक चिखाली, जिला बुलधाना, महाराष्ट्र	बीवीएससी/एंडएच / एमएफएसयू / 05	21.10.80
839	इरप्पा, पुत्र श्री भीम सिंह	कर्नाएसवीसी / 38 46 / 06	एल.टी. न. 3, बासवाना बागेवाडी, बीजापुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससी/एंडएच / केवीएफएसयू / 06	04.07.79
840	इसलाम मोहिदूत, पुत्र श्री मजीबर रहमान	असम / 2267 / 07	ग्राम भैरार पामं, डाक मांडिया, जिला बारपेटा, असम	बीवीएससी/एंडएच / एएयू / 07	18.01.82
841	इस्लाम शाहीदुल, पुत्र स्व. श्री अब्दुल मजीद मुल्लाह	असम / 2236 / 06	ग्राम अलीसिंगा गांव, डाक लाल पुल बाजार, जिला दारंग-784514, असम	बीवीएससी/एंडएच / एएयू / 06	01.03.69
842	जे. बास्कल लिओ, पुत्र श्री आई. जोसफ दुराईराज	टीएनवीसी / 2928 / 05	7सी, रूबी इल्लम, पेरुमल स्वामी कोइल स्ट्रीट, सत्तानकुलम 628704, धूथूकुडी जिला	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 00	06.05.75
843	जे. डेविड सुरेश, पुत्र श्री के. जोसफ	टीएनवीसी / 2968 / 05	2 / 25, सुसीला नगर, केलाम्बक्कम, कांचीपुरम जिला, पिन 603103	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 92	12.03.69
844	जे. जॉनसन राजेश्वर, पुत्र श्री जे. जीवा रतन दास	टीएनवीसी / 1983 / 05	36-1, लुइस स्ट्रीट, वॉटर टैंक रोड, नगरकोइल 629001, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 84	15.05.61
845	जे. मुरलीधरन, पुत्र श्री जी. जगन्नाथन	टीएनवीसी / 1239 / 05	10-1187 ई. मुनुसामी गौंडेर स्ट्रीट, कोलाथुर (डाक), मेट्टूर(तालुक), सलेम जिला	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 96	03.05.73
846	जे. रमेश, पुत्र श्री एन. जयबलान	टीएनवीसी / 1274 / 05	ई1, श्रीमती अर्पाटमेंट्स, न.7, जोनेहान लेन, संथोमे, चेन्नई 600028	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 98	02.06.75

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
847	जे. रमेश, पुत्र श्री वी.ए. जय राम चंदरा रेड्डी	टीएनवीसी/ 2989/05	पारधीपुथुर ग्राम एचं डाक, अरक्कोनम तालुक, वेल्डोर जिला 631002	बीवीएससी/ एपीएयू/91	14.01.65
848	जे. रामकृष्णा, पुत्र श्री जे. बी. शास्त्री	टीएनवीसी/ 1556/05	बीएल-1, थिन्ना कृष्णा टावर्स, 176-बी, एम.टी.एच. रोड, विलीयक्कम, चेन्नई 600049	बीवीएससी/ मद्रासविधि/64	07.09.41
849	जे. सेत्वारज, पुत्र श्री जी. जयरमन	टीएनवीसी/ 1638/05	25ए, मनिक्कावासागर स्ट्रीट, एजिल नगर, मेडिकल कॉलेज रोड, धंजावूर 613007	बीवीएससी/टीएए नयूवीएएस/94	05.09.71
850	जे. जयति, पुत्री श्री जे. जोधी	पॉण्डीएसवीसी/2 84/06	बीसी-3, टेलीकॉम क्वार्टर्स, जयनगर, रेडियारपलायम, पॉण्डीचेरी- 10	बीवीएससीएंडएएच /पॉण्डीविधि/05	28.02.84
851	जे. जॉन किरुबहरान, पुत्र श्री डी. जॉन फ्रैंकलिन	टीएनवीसी/ 2711/05	410, प्रीमियर गृहलक्ष्मी अपार्ट., 71, पेराम्बूर हाई रोड, चेन्नई 600012	बीवीएससी/टीएन एयू/87	01.02.64
852	जे. जोशुआ अल्लान, पुत्र श्री ए. जोसफ जयराज अप्पादुराई	टीएनवीसी/ 3169/05	3बी, लक्ष्मी नरसिंगपुरम स्ट्रीट, थाई इल्लम, पलायम कोर्टर्डई, तिरुनेलवेली जिला	बीवीएससी/टीएए नयूवीएएस/97	13.05.74
853	जे. कलाथरन, पुत्र श्री आर. जोसेफ जेसुदासन	टीएनवीसी/ 1746/05	4/1-ए, वेंकटरामा अइयर स्ट्रीट, वेंकटपुरम, नंदिनी वेजिटेबल्स के सामने, अम्बालूर, चेन्नई 600	बीवीएससी/ मद्रासविधि/71	20.07.49
854	जे.पी.एम. सुंदरराज, पुत्र श्री पी.डी. सुंदरराज	टीएनवीसी/ 1587/05	न. 137, सक्ति नगर, वीरुथमपेट, वेल्डोर 632006	बीवीएससी/टीएन एयू/80	19.12.52
855	जे.वी. कृष्णामर्ति, पुत्र श्री जे.वी. नरसिम्हुलु	टीएनवीसी/ 1332/05	6 बी, छठी मंजिल, मिलिनियम टावर्स, 21, टेलर्स रोड, चेन्नई 600010	बीवीएससी/ मद्रासविधि/65	11.11.43
856	जे. वेंकटेश, पुत्र श्री एल. जयकोथंडा रामासामी	टीएनवीसी/ 2604/05	23/18, गोल्डन एवैन्यू, 11 क्रॉस स्ट्रीट, विजय नगर, वेलाचेरी, चेन्नई 600042	बीवीएससी/टीएए नयूवीएएस/97	16.06.73



क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
857	जादव राजेश कुमार दीनू भाई	गुजएसवीसी / 2777 / 06	जनता कॉलोनी, कोथम्बा, तालुक लुनावडा, जिला पंचमहल-389220, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 06	28.10.81
858	जाधव सुरेश गुलाब राव	महाएसवीसी / 7493 /	एटी कृष्णनगर (टांडे), डाक टडोली (टाडोबा), तालुक अर्नी, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएफएसयू / 05	01.06.78
859	जाधव अविनाश विठ्ठल राव	महाएसवीसी / 7357 /	ए/पी राडी, तालुक अम्बाजोगई, जिला बीड- 431523, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएफएसयू / 05	02.06.83
860	जाधव भरत रामराव	महाएसवीसी / 7379 /	परसावत नगर, छत्रपति राजर्षि शाहू स्कूल, ए/पी परभनी, तालुक व जिला परभनी, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएफएसयू / 05	03.12.82
861	जाधव महेश जनार्दन	महाएसवीसी / 7706 /	ए/पी करक, तालुक राजापूर, जिला रत्नगीर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएफएसयू / 06	03.11.80
862	जाधव मिलिंद मोहन	महाएसवीसी / 7549 /	2-ए/22, दूसरी मंजिल, एम.एम. आर.डी.ए. कॉलोनी, दुर्गा नगर के सामने, विखरोली लिंक रोड, जोगेश्वरी (पू.), मुम्बई, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएफएसयू / 05	17.09.82
863	जाधव रवीन्द्र काका	महाएसवीसी / 7570 /	ए/पी वावरहीरे, तालुक मान, जिला सतारा- 415508, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएफएसयू / 06	29.03.84
864	जाधव संदीप रामचंद्र	महाएसवीसी / 7716 /	86, केसरकर पेठ, सतारा- 415002, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएफएसयू / 06	06.04.83
865	जाधव संजू रघुनाथराव	महाएसवीसी / 7407 /	सामंतवाडी, तालुक बीड, जिला बीड-431122, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएफएसयू / 05	17.02.81
866	जाधव संतोष योगीराज	महाएसवीसी / 7460 /	बी एवं सी क्वार्टर, 1/2, कलम्ब रोड, कैज, तालुक कैज, जिला बीड-431123, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएफएसयू / 05	01.05.80

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
867	जाधव विश्वनाथ तुकाराम	महाएसवीसी/ 7689/	ए-1/3, बी.एम.सी. बिल्डिंग, सरदार नगर न.3, हेमंत माजरेकर रोड, सियोम, कोलीवाड़ा, मुम्बई, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 06	23.02.82
868	जाधव विवके विठोब	महाएसवीसी/ 7679/	5/बी-704, सनराइज म्हादा कॉलोनी, फिल्म सिटी रोड, मलाड (पू.), मुम्बई- 400097, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 06	27.10.79
869	जाधवर नितिन बाबूराव	महाएसवीसी/ 7632/	'लक्ष्मी निवास', वलवाड, तालुक बारशी, जिला सोलापुर-413401, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 06	02.05.80
870	जगदम्बा कुंजा, पुत्री श्री नागुलु	एपीएसवीसी/ 4461/06	वंकावारीगुडेम, जुलुगुमल्ली (एम), प.गोदावरी जिला- 534456, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/06	04.02.77
871	जगदले अजीत अरुण	महाएसवीसी/ 7187/	सतारा रोड (पाडली), तालुक कोरेगांव, जिला सतारा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 04	05.07.82
872	जगदीश प्रसाद कुशवाहा, पुत्र श्री सीताराम कुशवाहा	यूपीवीसी/ 4488/06	ग्राम एवं डाक बडोखर, जिला इलाहबाद, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /सीएसएयूएंडट 1/06	05.03.77
873	जगताप अर्चना बाजीराव	महाएसवीसी/ 7186/	ई-6, गणेश विहार, काले पाडल रोड, सासाने नगर, हादपसर, तालुक हवेली, पुणे, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 04	28.09.81
874	जगताप सोपान गौतमराव	महाएसवीसी/ 7355/	मैडी सुरतरक, तालुक बारशी, टाकली, जिला अकोला-444001, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 05	28.11.79
875	जगतार सिंह, पुत्र श्री जगराज सिंह	पीबीएसवीसी/ 2659/06	38, बाबा दीप सिंह अवेन्यू, एफसीजी रोड, डाक एसजेएस नगर, नांगल भट, अमृतसर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /जीएडीवीएसयू /06	11.05.83
876	जयकिशन प्रसाद, पुत्र स्व. श्री वकील प्रसाद	यूपीसी/262/06	प्रोफेसर ए.जी.आर. एंड ओ, सीबीएससी, पंतनगर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच /सीएसएकेईपीवी वी/92	20.09.69

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
877	जयराम लहरिया, पुत्र श्री बृन्दावन	एमपीएसवीसी/2 426/07	झंडा बाजार, नगर पंचायत, पवाई, पन्ना, म.प्र.—488446	बीवीएससीएंडएएच /जेएनकेवीवी/8 1	25.09.55
878	जयसवाल सत्यम आनंद जीवन	महाएसवीसी/ 7651/	आनंदनगर, ए/पी मनधा, तालुक हदगांव, जिला नांदेड़— 431712, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच /एमएएफएसयू/ 06	05.05.83
879	जायसवाल विनोद शामलालजी	महाएसवीसी/ 7295/	“शाम मंगल निवास”, राजेंद्र पेट, गंगाखेड, तालुक गंगाखेड, जिला परभनी, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच /एमएएफएसयू/ 04	11.01.80
880	जकासनिया भावेश कुमार रमेशभाई	गुजएसवीसी/ 2739/06	एटी जेतपुर, तालुक मोरबी, जिला राजकोट— 363630, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /एएयू/06	15.06.84
881	जमन राम, पुत्र श्री गणेश राम	यूवीसी/234/06	ग्राम एवं डाक डिगटोली, जिला पिथौरागढ़, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएएच /जीबीपीयूएटी/ 88	02.10.59
882	जमना वैभव परबनप्पा	महाएसवीसी/ 7301/	ए/पी कनाबास (जी), तालुक दक्षिणी सोलापुर, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच /डॉ.बीएस केकेवी/01	30.03.79
883	जैसी मेरी इसाक	केरलएसवीसी/3 165/06	म.न. 22, चित्रा नगर, पट्टोम, त्रिवेंद्रम— 685004, केरल	बीवीएससीएंडएएच /केएयू/06	08.08.81
884	जसप्रीत सिंह, पुत्र श्री गुलज़ार सिंह	पीबीएसवीसी/ 2652/06	पींगा काला चौक पट्टी राव की, वार्ड नं. 8, गोराया, जिला जालंधर, पंजाब	बीवीएससीएंडएएच /जीएडीवीएएसयू /06	25.11.81
885	जसवंत सिंह, पुत्र श्री शिव बचन सिंह	यूपीवीसी/ 4469/06	सी-3141, विदापेस्ट रोड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच /जेएनकेवीवी/0 1	01.07.75
886	जतिन्दर गुलानी, पुत्र श्री प्रीतम सिंह	डीवीसी/0603/ 02	जे-3/2, कृष्णा नगर, दिल्ली— 110051	बीवीएससीएंडएएच /पीएयू/01	11.07.79
887	जतिन्दर सिंह, पुत्र श्री मनजीत सिंह	पीबीएसवीसी/ 2662/06	शिवालिक एनक्लेव, गली नं. 2, चंडीगढ़ रोड, नवां शहर, पंजाब	बीवीएससीएंडएएच /जीएडीवीएएसयू /06	11.02.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
888	जावेद अहमद, पुत्र श्री नेवाज अली	यूपीवीसी / 4396 / 06	ग्राम बटेला, डाक ओरवारा, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 06	18.06.83
889	जाविद अहमद, पुत्र श्री एस.ए. शाकिर	टीएनवीसी / 2467 / 05	फ्लैट 1सी, 248, रंगराजपुरम, मेन रोड, कोडमबक्कम, चेन्नई-24	बीवीएससी / मद्रासविधि / 72	20.05.48
890	जयाहर लाल सिंह, पुत्र श्री बी.एस. सिंह	यूपीवीसी / 267 / 07	म.न. 1228 / IV, झा कॉलोनी, पतनगर, जिला यू.एस. नगर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / सीएसएकेईपीवी वी / 89	05.12.67
891	जावले सासरिका सम्भाजी	महाएसवीसी / 7551 /	11, स्नेह नगर, मैथीखाना रोड, अम्बेजोगई, तालुक अम्बेजोगई, जिला बीड- 431517, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 03	30.09.80
892	जय प्रकाश वर्मा, पुत्र श्री रमा धर वर्मा	यूपीवीसी / 4448 / 06	ग्राम एवं डाक गोपालपुर, जिला लखीमपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 06	10.03.79
893	जय सिंह, पुत्र श्री के.बी. लाल	यूपीवीसी / 4395 / 06	ग्राम एवं डाक अत्थावायक, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीएयूएंडटी / 06	01.04.78
894	जयलक्ष्मी जाली पारथी, पुत्री श्री जे. सम्भासिवा राव	एपीएसवीसी / 4509 / 06	टाकाकुंताला विसान्नापेटा (एम), कृष्णा जिला- 521125, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	08.07.81
895	जयप्रकाश भांजा, पुत्र श्री प्रफुल्ल कुमार भांजा	ओवीसी / 2081 / 06	एटी चहलिमा, जिला / डाक सरसंखा, बालासौर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 06	31.08.81
896	जयप्रकाश गिन्नी, पुत्र श्री जात्तेप्पा	कर्नाएसवीसी / 38 50 / 06	हिरेरुगी डाक, इंडी तालुक, बीजापुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	10.06.82
897	जयराम वी, पुत्र श्री वेंकटेश	कर्नाएसवीसी / 39 07 / 06	कंगनाहल्ली ग्राम, उल्लपन्नाहल्ली- 563125, चिंतामनि तालुक, कोलार जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	02.12.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
898	जयश्री बी., पुत्री श्री बसावनराजप्पा	कर्नाएसवीसी/38 32/06	नवानेकरे, होसादुर्गा रोड, डाक होलालकरे, तालुक थिन्नदुर्गा जिला, कर्नाटक	बीबीएससीएंडएएच /केवीएफएसयू /06	21.05.84
899	जयश्री ई.एस., पुत्री श्री शंकरप्पा ई.एस.	कर्नाएसवीसी/38 85/06	इरोवथी हलागा डाक, तीरथहल्ली तालुक, शिमोगा जिला, कर्नाटक	बीबीएससीएंडएएच /केवीएफएसयू /06	10.02.82
900	जीवन कुमार मुंडा, पुत्र श्री मधु मुंडा	ओवीसी/2121/ 07	एटी मध्यापुर, डाक तंतलापाशी, जिला कैओझर, उड़ीसा	बीबीएससीएंडएएच /ओयूएटी/07	03.05.83
901	जीवन रंजन दाश, पुत्र श्री प्रान नाथ दाश	ओवीसी/2131/ 07	क्वान.-एल/448, फेस-1, तालुक/ डाक दमदमा, एच.बी. कॉलोनी, भुवनेश्वर- 751019, उड़ीसा	बीबीएससीएंडएएच /ओयूएटी/07	07.07.72
902	जेराल्ड महेश कुमार, पुत्र श्री मरिया सवारीमुधु	डीवीसी/0627/ 04	लघु पशु फैकल्टी, नेशनल इंस्टीट्यूटऑफ इन्वुनोर्लोजी, अरुणा आसफ अली, पुराना जेएनयू कैम्पस, नई दिल्ली	बीबीएससी/टीए नयूटीएस/98	18.07.73
903	जैरिश एम.	केरलएसवीसी/3 174/06	बैठानिकुनेल हाउस, कूवापल्ली डाक, थोडुपुजा, इडुक्की-685590, केरल	बीबीएससीएंडएएच /केयू/06	25.05.80
904	जेसी वी.	केरलएसवीसी/3 140/06	मंगोथ कैंडी, चेवायूर डाक, कालीकट-673017, केरल	बीबीएससीएंडएएच /केयू/06	09.03.81
905	झा दीपक कुमार	महाएसवीसी/ 7289/	माध्या, वार्ड न. 6, बल्हानाका, वी.डी.सी., जिला महोत्तरी, नेपाल	बीबीएससीएंडएएच /एमएफएसयू/04	21.04.74
906	जिब्रान दानिश अब्दुल हफीज	महाएसवीसी/ 7367/	एस.टी.आर.क्वान.8, मॉडल इंग्लिश स्कूल के निकट, सुभाष रोड, तालुक जिला परमनी, महाराष्ट्र	बीबीएससीएंडएएच /एमएफएसयू/05	25.04.82
907	जीजी जॉर्ज	केरलएसवीसी/3 143/06	मनजूरन हाउस, पोया डाक, माला वाया, थिसूर-680733, केरल	बीबीएससीएंडएएच /केयू/06	02.04.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
908	जिकालोड श्रीनिवास गंगाधर राव	महाएसवीसी / 7278 /	गांधी चौक, बिलोली, तालुक बिलोली, जिला नांदेड़- 431710, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	01.02.78
909	जिरोबे सुनील सूर्यकांत, पुत्र श्री जिरोबे सूर्यकांत	कर्नाएसवीसी / 39 56 / 07	द्वारा शशिकांत एस. सुल्तानपुरा -585401, मेलूर रोड, हाजी आरा मिल के पीछे, विद्यानगर कॉलोनी, बिदर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / एनएयू / 98	24.10.77
910	जिशा एम. नायर,	केरलएसवीसी / 3 156 / 06	निजी सदनम, पुडुरक्कारा, अयनथोले डाक, थिसूर- 680003, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	26.04.82
911	जीतेंद्र जगपाल, पुत्र श्री हरजीत सिंह जगपाल	डीवीसी / 0678 / 06	सी-505, किदवई नगर, नई दिल्ली- 23	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 06	21.06.83
912	जीतेंद्र कुमार गौड़, पुत्र श्री रघुबीर दत्त	डीवीसी / 0617 / 02	म.न. 98 (मंदिर के पीछे), ईश्वर कॉलोनी, बवाना, दिल्ली- 110039	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 94	09.02.71
913	जीतेंद्र बहादुर सिंह, पुत्र श्री आर.एन. कनौजिया	यूपीवीसी / 4403 / 06	ग्राम खेरवा, डाक पुरबावन, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 06	08.03.79
914	जीतेंद्र कुमार पात्रा, पुत्र श्री नरहरि पात्रा	ओवीसी / 2127 / 07	एटी- देवोग, डाक जगतसिंगपुर, जिला जगतसिंहपुर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 07	02.06.82
915	जीतेंद्र कुमार शर्मा, पुत्र श्री प्रयाग लाल शर्मा	एमपीएसवीसी / 2 370 / 06	ग्राम एवं डाक जौरा, मुरैना, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 0 6	01.07.81
916	जीतेंद्र तिवारी, पुत्र श्री रामेश्वर दयाल	राजएसवीसी / 3339 / 06	180-बी, जवाहर नगर, भरतपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 0 3	19.12.78
917	जीतेंद्र वर्मा, पुत्र श्री हेम चंद वर्मा	एचपीएसवीसी / 7 71 / 06	सेक्रेटरी निवास, वार्ड न. 4, शादयाना रोड, थियोग, शिमला, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेकेवीवी / 06	01.01.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
918	जोगदंद सचिन रामकृष्णा	महाएसवीसी / 7245 /	कमलेश्वर निवास, हटोला रोड, तालुक वाशी, जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	09.09.81
919	जोगदंद स्वाति मानिकराव	महाएसवीसी / 7528 /	भवानी नगर, धरूर रोड, कैज, जिला बीड- 431123, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	20.02.82
920	जोगे संदीप वसंतराव	महाएसवीसी / 7163 /	29, गणेश नगर, श्री भवानी मंगल कार्यालय के निकट, वर्धा (वर्धा), महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	30.06.80
921	जोगमाया सिंह, पुत्री श्री नित्यानंद सिंह	ओवीसी / 2116 / 07	एटी / डाक बाहम, वाया गौरपाली, जिला सम्बलपुर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 07	16.07.80
922	जोधाले ज्ञानेश्वर शिवाजीराव	महाएसवीसी / 7192 /	नमगांव, जाली, तालुक संगमनेर, जिला अहमदनगर - 413714, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	05.01.82
923	जोधाले नितिन शिवाजी	महाएसवीसी / 7567 /	टाइप-सी, गौतमनगर, ए/पी कोल्हेवाडी, तालुक कोपरगांव, जिला अहमदनगर -423602, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	19.10.82
924	जोशी किरन नारायणराव	महाएसवीसी / 7512 /	21, सार्धक निवास, नाथ नगर, परमनी- 431405, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	05.03.83
925	जोशी सुधीर श्रीधर	महाएसवीसी / 7262 /	प्लॉट न. 27, ब्राह्मण समा कॉलोनी, पारतवाडा, जिला अमरावती, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / पीकेवी अकोला / 89	01.09.65
926	जोशी सुरेश गोपालराव	महाएसवीसी / 7463 /	'सुनेम' आर्कैड, बी-6, गोविंद नगर, बंसीलाल नगर, तालुक जिला औरंगाबाद- 431001, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / केकेवीपी / 76	28.07.52
927	जॉय लालमुआन पुइया कथारिया, पुत्र श्री जी.के. कथारिया	मिजोएसवीसी / 0 156 / 06	डी-30, बेसिक मॉल, रामहलून एन', आइजॉल जिला मिज़ोरम	बीवीएससीएंडएच / सीएयू / 05	10.02.80

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
928	जॉयदेब घोष, पुत्र स्व. श्री नीलकमल घोष	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3217 / 06	59 सीसी / 16, अनुपमा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, वीआईपी रोड, कोलकाता- 52, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / बीसीकेवी / 79	06.10.58
929	जूलियट, पुत्र ले. कर्न. (रिटा.) मौली मैथ्यू	कर्नाएसवीसी / 38 98 / 06	कमांड अस्पताल, एयरफोर्स, बंगलौर- 560067, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केबीएफएसयू / 06	28.12.82
930	जस्टिन डेविस के.	केरलएसवीसी / 3 171 / 06	कोल्लानूर हाउस, नत्तमकल्लू डाक, अरिमबूर, थिसूर- 680620, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	24.05.83
931	जुवेकर जयवंत चंद्रकांत	महाएसवीसी / 7236 /	वासुदेव निवास, 1004 मनगांव, सावंतवाडी रोड, तालुक कुडाल, जिला सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	20.10.81
932	ज्योति काजा, पुत्री श्री के. एच. सुंदरा राव	एपीएसवीसी / 4489 / 06	म.न. 5-4-17 / 1, भवानी कॉलोनी, राजेंद्र नगर, हैदराबाद -500030, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	01.07.84
933	ज्योति दूबे, पत्नी श्री राहुल दूबे	यूपीवीसी / 4547 / 06	ग्राम दुबूली, डाक निकासपुर, जिला अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 03	03.08.79
934	ज्योति कुमार, पुत्र श्री एम. एस. धर्मा धरन	डीवीसी / 0595 / 02	एमएस 163, आर्मी हैडक्वा., कमरा न. 54, बी-ब्लॉक, डिट क्यू डाक, नई दिल्ली -110011	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 81	05.04.58
935	ज्योति प्रकाश मिश्रा, पुत्र श्री डी.पी. मिश्रा	एमपीएसवीसी / 2 343 / 06	43, अग्रवाल नगर, इंदौर, म.प्र.- 452001	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 8 8	08.01.62
936	ज्योति शंकर पांडा, पुत्री श्री देबराज पांडा	ओवीसी / 2063 / 06	एटी-ईडब्ल्यूएस-28, स्टेज- I, हाउसिंग बोर्ड, डाक बरहामपुर, जिला गंजम, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 06	06.06.81
937	ज्योति तिवारी, पुत्री श्री कमला प्रसाद तिवारी	एमपीएसवीसी / 2 424 / 07	नयनसुख, कारखाने के सामने, सतना, म.प्र.- 485006	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 0 6	30.06.80



क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
938	ज्योतिर्वित्त्य, पुत्र श्री अरुण कुमार शर्मा	बीवीसी / 2670 / 05	ग्राम चिंतामनि चाक, डाक मोकामा, थाना मोकामा— 803302, जिला पटना, बिहार	बीवीएससी/एंडएच / एएनजी आरएयू/05	12.02.80
939	ज्योति रंजन बिस्वाल, पुत्र श्री माधवबनंद बिस्वाल	ओवीसी / 2113 / 07	एटी बडगांव, डाक तैरातांग, जिला जगतसिंगपुर, उड़ीसा	बीवीएससी/एंडएच / ओयूएटी / 07	25.07.82
940	कै. श्रीनिवासन, पुत्र श्री वी. कृष्णामूर्ति	टीएनवीसी / 1208 / 05	एस. नट्टनमंगलम, डाक गुरुसामी पलायम वाया, नमक्कल जिला, पिन 637403	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 98	01.07.73
941	कै. अमीरंजन, पुत्र श्री एम. ए. कुतुबदीन साहिब	टीएनवीसी / 3002 / 05	ए.पी. 1081, जी-ब्लॉक, 17वीं स्ट्रीट, अन्ना नगर, चेन्नई 600040	बीवीएससी / मद्रासविदि / 71	28.03.46
942	कै. अंबारासन, पुत्र श्री कै. कृष्णामूर्ति	टीएनवीसी / 0830 / 05	1/48, कुमारन कोइल, नॉर्थ एक्सटेंशन, सम्बानार कोविल, तांगमबाडी तालुक, पिन— 609309	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 98	11.04.75
943	कै. अंबुकुमार, पुत्र श्री एम. कुरुप्पनन	टीएनवीसी / 3801 / 07	19/ए. मेन रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कदमपट्टी वेस्ट, सलेम 636005, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 00	12.01.76
944	कै. अर्धनारीश्वरन, पुत्र श्री पी. कंडासामी गौंडेर	टीएनवीसी / 3265 / 05	51, टी.एन.ईबी. कॉलोनी, परमाथी सेलई, सिरुमौलासी एसओ, सीताराम पलायम, 637209, तिरुचेनगोडे तालुक, नमक्कल जिला	बीवीएससी / टीएन एयू / 85	17.03.58
945	कै. अरुणाचलम, पुत्र श्री ए. करुपड्याह	टीएनवीसी / 2978 / 05	न. 61, थिलईपुरम III क्रॉस, नमक्कल जिला 637001	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 93	25.07.70
946	कै. असोकन, पुत्र श्री कै. कृष्णामूर्ति	टीएनवीसी / 3790 / 07	59, एलएमएल कॉलोनी, भारतीपुरम, अम्भनकुलम, पप्पनाइकेनहल्ली, कोयम्बतूर - 643037, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 89	12.06.65
947	कै. बालासुंदरम, पुत्र श्री कै. कटियन्नन	टीएनवीसी / 1670 / 05	पलामारथु कडु, कट्टानाचम्पट्टी डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला 637408	बीवीएससी / टीएन एयू / 87	20.06.62

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
948	के. भवानी शंकर, पुत्र श्री आर. कुप्पुस्वामी	टीएनवीसी/ 3570/06	17/10, पलप्पन स्ट्रीट, ट्रिप्लिकेन, चेन्नई- 600005, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू /69	30.06.43
949	के. चिन्नामनि, पुत्र श्री सी. कोट्टईचामी	टीएनवीसी/ 2451/05	बालागुरुनाथपुरम, उप्परपट्टी डाक, वीरापंडी वाया, धेनी जिला 625534	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/01	17.05.77
950	के. चिन्पन, पुत्र श्री कुलप्पा नाइकर	टीएनवीसी/ 2313/05	144/185, आर 5, एम.एस.एम. गार्डन, उधंगराई, कृष्णागिरि जिला 635207	बीवीएससी/टीएन एयू/75	07.09.49
951	के. दुराई राजा, पुत्र श्री के. कृष्णास्वामी	टीएनवीसी/ 2728/05	65/99 बी. कोऑपरेटिव कॉलोनी, रोयापलायम पुडुर, चिथोडे, इरोडे जिला, पिन 638102	बीवीएससी/टीएन एयू/75	15.07.50
952	के. दुष्यन्धन, पुत्र श्री वी. करमेगम	टीएनवीसी/ 2131/05	कट्टनबुर डाक, वाया . थिरुकोथियूर तालुक, शिवांगंगा जिला तमिलनाडु, पिन 630210	बीवीएससी/टीएन एयू/82	12.12.56
953	के. गजेंद्रन, पुत्र श्री ए. कृष्णासामी	टीएनवीसी/ 1391/05	एस. बुधूर ग्राम, मुट्टाथूर डाक, विल्लुपुरम तालुक, विल्लुपुरम जिला	बीवीएससी/टीएन एयू/80	22.04.47
954	के. गोविंदरासन, पुत्र श्री आर. कुमरावेल	टीएनवीसी/ 1146/05	34ए/10, थिरु नगर, मोहानूर रोड, नमक्कल 637001	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/92	15.04.69
955	के. जगदीसन, पुत्र श्री के. कृष्णन	टीएनवीसी/ 3595/06	मजावरायानल्लूर, अयीकुडी डाक, कुन्नाम तालुक, पेराम्बलूर- 621115, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/05	20.07.82
956	के. जयकुमार, पुत्र श्री पी. कुलंडईवेलु	टीएनवीसी/ 2250/05	41/5, मेन रोड, कुमारमंगलम डाक, थियचेनगोडे तालुक, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/00	12.06.76
957	के. कमला, पुत्र श्री एस. कन्नन	टीएनवीसी/ 2000/05	283, पेरियाकुलम रोड, धेनी 625531, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/97	22.06.74
958	के. करुणानिधि, पुत्र श्री के.ए. करुप्पन गौंडेर	टीएनवीसी/ 2824/05	कुरुम्बानेर डाक, वाया कोलाथुर, मेट्टूर, तालुक, सलेम जिला	बीवीएससी/टीए एयू/77	09.05.51

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
959	के. कीर्तिवनन, पुत्र श्री आर. कुमारवेलु	टीएनवीसी/ 2612/05	59-सी, स्टेट बैंक कॉलोनी, सिटी लिंक रोड, आदमबक्कम, चेन्नई- 600088	बीवीएससी/टीएन एयू/75	01.01.52
960	के. कृष्णकुमार, पुत्र श्री के. करुप्पास्वामी	टीएनवीसी/ 3600/06	4/529-बी, अंडावर नगर, त्रिची रोड, नमक्कल, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएए नयूवीएएस/93	03.04.69
961	के. कृष्णाप्पा, पुत्र श्री बी. कीरप्पा	टीएनवीसी/ 1959/05	5/129, न्यू कॉलोनी, येन्मपट्टी रोड, धर्मापुरी 636703, तमिलनाडु	बीवीएससी/ मद्रासविधि/64	15.10.40
962	के. कृतिका, पत्नी श्री ए. के. कौसिगन	टीएनवीसी/ 0712/05	एल-63, हडको कॉलोनी, पुराने मंदिर की जमीन, होसुर, पिन 635109	बीवीएससी/टीएए नयूवीएएस/00	11.09.75
963	के. कुलसेकर, पुत्र श्री आर. कन्नन	टीएनवीसी/ 2660/05	प्लॉट न. 8, विजय नगर, विवेकानंद नगर, मेन रोड, कोलाथुर, चेन्नई 600099	बीवीएससी/टीएन एयू/84	29.11.59
964	के. लालधिग्लोवा, पुत्र श्री हंगुइया	मिजोएसवीसी/0 157/06	मुतियानपुई लुगेई, मिजोरम	बीवीएससीएंडएच /सीएयू/06	16.11.82
965	के. लथा, पुत्र श्री के. राजसेखरन	टीएनवीसी/ 2683/05	112-बी, बालन नगर, पीलामेडु, कोयम्बतूर 640004	बीवीएससी/टीएए नयूवीएएस/97	14.09.73
966	के. लोगनाथसामी, पुत्र श्री एम. कुरुप्पुसामी	टीएनवीसी/ 2878/05	इरूमईक्करन पलायम, कडाथुर डाक, गोबी तालुक, इरोडे जिला, तमिलनाडु 638466	बीवीएससी/टीएए नयूवीएएस/98	30.03.74
967	के. मणि, पुत्र श्री पी. कुलाधिवेलु	टीएनवीसी/ 3267/05	4/41, वीवर्स कॉलोनी, साउथ कलानाथम डाक, अट्टूर तालुक, सलेम जिला विप 636141	बीवीएससी/टीएन एयू/85	02.12.60
968	के. मनिमारन, पुत्र श्री सी. कलिया पेरुमल	टीएनवीसी/ 3266/05	कजानिवासल, लाबाईकुडीकडु डाक, कुन्म तालुक, पेराम्बलूर जिला, पिन 621108	बीवीएससी/टीएए नयूवीएएस/98	05.04.73
969	के. मुथुसामी, पुत्र श्री के. करुप्पना गौंडेर	टीएनवीसी/ 0868/05	वेस्ट स्ट्रीट, नरीक्कलपट्टी डाक, पलानी तालुक, डिंडीगल जिला 624618	बीवीएससी/टीएए नयूवीएएस/98	01.03.74

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
970	के. नागराज, पुत्र श्री वी. कृष्णन	टीएनवीसी / 3608 / 06	11, विवेकानंद स्ट्रीट, रामा कृष्णापुरम, गभपथि डाक, कोयम्बतूर 641006, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 91	25.06.67
971	के. नंजप्पन, पुत्र श्री कुप्पंडा गौडेर	टीएनवीसी / 1342 / 05	159 / 3, कोऑपरेटिव कॉलोनी स्ट्रीट, मोहानूर रोड, नमक्कल 637101	बीवीएससी / टीए एयू / 78	04.03.66
972	के. प्रेमावल्ली, पुत्र श्री डी. एम. कन्नन	टीएनवीसी / 3030 / 05	3 / 1581, न्यू कॉलोनी, पाथीवेल्लम, धर्मापुरी 636701	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 94	02.06.71
973	के. प्रेमकुमार, पुत्र श्री एम. कामराज	टीएनवीसी / 1383 / 05	6 / 350, शिवानंदम नगर, शिवाकाशी, पिन 626123	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 97	22.07.74
974	के. राजमानसिंह, पुत्र श्री पी.ए. कृष्णन	टीएनवीसी / 3626 / 06	389, नेताजी स्ट्रीट, जयहिंद पुरम, मदुरै- 625011, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 91	11.08.67
975	के. रामानुजम, के.ए. कन्न्डियाह नायडू	टीएनवीसी / 0677 / 05	न.14, सेकंड क्रॉस स्ट्रीट, यूनाइटेड इंडिया कॉलोनी, कोडमबक्कम, चेन्नई 600024	बीवीएससी / मद्रासविधि / 70	05.06.47
976	के. रमेश, पुत्र श्री सी. कंडासामी	टीएनवीसी / 3769 / 06	18-94-एफ1, चर्च मेन रोड, दूकनमपट्टी, मेददूर डैम, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 93	30.04.70
977	के. रमेश, पुत्र श्री आर. कौंडन	टीएनवीसी / 3645 / 06	4 / 528, अंडावर नगर, त्रिची रोड, नमक्कल, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 06	10.06.74
978	के. संगिलीमदन, पुत्र श्री पी. करुप्पासामी	टीएनवीसी / 2991 / 05	प्लॉट न.ए 8, नया न. ए 8, पुराना न. ए 8, एमएमडीए कॉलोनी, पानी की टंकी के निकट, अरुम्बक्कम, चेन्नई 600106	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 94	09.03.71
979	के. श्रवण कुमार, पुत्र श्री एम. कुरुथु	टीएनवीसी / 1525 / 05	3 / 101, II स्ट्रीट, इंडियन बैंक कॉलोनी, नारायणपुरम, मदुरै- 14	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 93	19.06.70
980	के. श्रवणबावा, पुत्र श्री एम. कुलंडइवेलु	टीएनवीसी / 2946 / 05	न. 42, बालाजी स्ट्रीट, विवेकानंद नगर, चेन्नई 600099	बीवीएससी / टीए एयू / 80	28.05.57

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
981	के. श्रवणन, पुत्र श्री एम. केशवण	टीएनवीसी / 2942 / 05	न.9, कवियारासु कन्नदासन नगर, कोडुगडूर, चेन्नई 800108	बीबीएससी / टीएन एयू / 88	25.04.63
982	के. श्रवणन, पुत्र श्री एस. कृष्णामूर्ति	टीएनवीसी / 2793 / 05	377, तीसरी गली, गणपति नगर, असूर डाक, कुम्भकोणम 612501	बीबीएससी / टीएन नयूवीएएस / 98	03.06.75
983	के. संधिल कुमार, पुत्र श्री पी.के. कन्नन	टीएनवीसी / 3628 / 06	180, पूनाथी, मुकासीपुडुर डाक, ओलागडुम वाया, भवानी तालुक, इरोडे 638314, तमिलनाडु	बीबीएससी / टीएन नयूवीएएस / 08	23.04.82
984	के. संधिलवेल, पुत्र श्री एस. कडासामी	टीएनवीसी / 3024 / 05	4 / 23, मलायमपलायम, धेनीवेलई डाक, करुर जिला, पिन 639206	बीबीएससी / टीएन नयूवीएएस / 94	26.05.71
985	के. शंकर, पुत्र श्री के.जी. कृष्णामूर्ति	टीएनवीसी / 1352 / 05	9 / 9, पीएमपी, रेजिडेंसी, पी.के. एल. नगर मेम रोड, थुडियालूर, कोयम्बतूर 641034	बीबीएससी / टीएन एयू / 88	23.06.66
986	के. शिबी धोमस, पुत्र श्री के.के.धोमस	टीएनवीसी / 0849 / 05	10 / 4, देवराया नगर, के.के. नगर डाक, त्रिची 620021	बीबीएससी / टीएन नयूवीएएस / 00	09.11.75
987	के. सिरिशा, पुत्री श्री के. राघव राव	एपीएसबीसी / 4491 / 06	ए-30, रेलवे क्वार्टर्स, सीताफल मंडी, सिकंदराबाद - 500081, आंध्र प्रदेश	बीबीएससी/एंडएच / एसबीवीयू / 06	23.02.83
988	के. शिवकुमार, पुत्र श्री ए. करुप्पुसामी	टीएनवीसी / 1604 / 05	125, आर.जी नगर, एस.वी. मिल्स डाक, उदुमलपेट - 642128	बीबीएससी / टीएन नयूवीएएस / 93	03.05.69
989	के. शिवकुमार, पुत्र श्री सी. कडासामी	टीएनवीसी / 3569 / 06	85, 7वीं स्ट्रीट, के.के.पुडुर डाक 641039, साईबाबा कॉलोनी, कोयम्बतूर, तमिलनाडु	बीबीएससी / टीएन एयू / 89	07.06.66
990	के. सिवरामलिंगम, पुत्र श्री बी.के.एस. गणपति	टीएनवीसी / 1353 / 05	प्लॉट न.168-ए, भुवनेश्वरी नगर, विजयानगरम, वेलाचेर, चेन्नई 600042	बीबीएससी / टीएन एयू / 79	12.01.55
991	के. सुकुमार, पुत्र श्री के. कुप्पन्नन	टीएनवीसी / 1554 / 05	101, ए 1 ए, सलेम रोड, पलानियंदी स्ट्रीट, नमक्कल जिला 637001	बीबीएससी / टीएन नयूवीएएस / 94	03.06.71

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
992	के. वनिजा, पुत्री श्री नागराजा नायडू	एपीएसवीसी / 4528 / 06	म.न. 6-8-1125, एनजीओ कॉलोनी, के.टी.रोड, तिरुपति -- 517507, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी/एडएच / एसवीवीयू / 06	01.05.81
993	के. वरुण प्रिया दर्शिनी, पुत्र श्री के. कडासामी	टीएनवीसी / 3633 / 06	93-ए, अम्बेडकर कॉलोनी, धर्मापुरी- 636701, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीए नयूवीएएस / 06	03.06.82
994	के. वासु, पुत्र श्री के. कुट्टइय्या	टीएनवीसी / 2679 / 05	1 / 19, मेन रोड, कलिंगराजन पलायम, पुडुर, भवानी डाक, इरोडे जिला 638301	बीवीएससी / मद्रासविदि / 71	06.02.47
995	के. वेलुस्वामी, पुत्र श्री के. कडासामी	टीएनवीसी / 3287 / 05	प्लॉट न.107, केवीबी गायत्री नगर, अधुर डाक, इरोडे रोड, करूर जिला 639002	बीवीएससी / यूए सबांगलौर / 91	20.07.61
996	के. वेणुकोपालन, पुत्र श्री पी. कृष्णासामी	टीएनवीसी / 3599 / 06	146 / 14, क्लासिक अपार्ट. एमराल्ड फ्लैट्स, थिरुमंगलम, अन्नानगर (प.), चेन्नई-40, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन एयू / 76	01.04.50
997	के. विजय कुमार, पुत्र श्री पी. कृष्णामूर्ति	टीएनवीसी / 3613 / 06	8, नया न. 26, पहली गली, सेक्रेटरिएट कॉलोनी, किलपीक, चेन्नई-600010, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन एयू / 76	20.09.51
998	के. विश्वनाथन, पुत्र श्री पी. कडासामी	टीएनवीसी / 1545 / 05	न. 50, विद्या नगर, थिडल डाक, इरोडे-638009	बीवीएससी / मद्रासविदि / 73	01.04.50
999	के. जहीर अब्बास, पुत्र श्री वी.ए. अब्दुल कलुम	टीएनवीसी / 3572 / 06	360-ए, रेलवे स्टेशन रोड, कवारइपेट्टई, गुम्मीडिपोंडी तालुक, तिरुवल्लूर जिला- 601206, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीए नयूवीएएस / 96	13.11.76
1000	के.ए. डोराईसामी, पुत्र श्री एम.पी. मुरुगम	टीएनवीसी / 0786 / 05	4 / 607, जयश्री गार्डन, जयश्री बस सर्विस, बीटेक्स कंपाउंड, गौरशंकर थिरुमना मंडपम के पीछे	बीवीएससी / टीएन एयू / 79	15.03.56
1001	के.ए. विश्वराघवन, पुत्र श्री के.वी. अन्ना मलई	टीएनवीसी / 0953 / 05	एसी 93, नया न. 8, 6 मेन रोड, दूसरा क्रॉस स्ट्रीट, अन्ना नगर पश्चिम, चेन्नई 600040	बीवीएससी / मद्रासविदि / 56	12.05.32

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1002	के.ए. धंडापानी, पुत्र श्री अय्यासामी	टीएनवीसी / 3508 / 06	2 / 355, सिरुवनी रोड, डाक कलमपलायम, कोयम्बतूर - 641010, तमिलनाडु	बीवीएससी / मद्रासविधि / 67	02.05.42
1003	के.ए. धंडायुधपानी, पुत्र श्री ए. अप्पादुराई	टीएनवीसी / 2935 / 05	पुराना न.61, नया न.19, एल-ब्लॉक, अन्ना नगर पूर्व, चेन्नई 600102	बीवीएससी / मद्रासविधि / 69	11.05.46
1004	के. अन्वाशंकर, पुत्र श्री पी. कोडुसामी	टीएनवीसी / 2275 / 05	ब्लॉक II, जी-11, 4 / 834, फर्स्ट जॉइंट स्ट्रीट, स्वामी नाथन नगर, कोट्टीवक्कम, चेन्नई- 600041	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 93	30.07.70
1005	के.सी. राजेश कन्ना, पुत्र श्री पी. चिनइयाह	टीएनवीसी / 3630 / 06	75, सुन्मबुकारा स्ट्रीट, पञ्जुकोट्टई, थंजावुर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 06	10.04.72
1006	के.के. अरविंदन, पुत्र श्री एन. कृष्णामूर्ति	टीएनवीसी / 92727 / 05	3 / 2, वर्धन स्ट्रीट, कडाथूर डाक, धर्मापुर जिला- 635303, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 93	3.06.70
1007	के.के. पोन्नुस्वामी, पुत्र श्री के.आर. करुप्पुसामी	टीएनवीसी / 1291 / 05	न. 19, शास्त्री स्ट्रीट, कल्लीपट्टी, गोबीचेट्टी पलायम, इरोडे जिला, पिन- 638452	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 97	20.07.74
1008	के.एम. पलानीवेल, पुत्र श्री के. मुथुसामी	टीएनवीसी / 0704 / 05	न. 38, II एवेन्यू अक्षय कॉलोनी, मोगापेयर, चेन्नई 600050	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 93	12.05.69
1009	के.एम. सक्तिवेल, पुत्र श्री के.आर. मोट्टइप्पन	टीएनवीसी / 1236 / 05	414 ए.मेन रोड, सन स्टूडियो के निकट, डाक नथाकडइयूर, जिला इरोडे 638108	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 98	23.12.73
1010	के. मुनिसामी, पुत्र श्री करगेयन	पॉण्डीएसवीसी / 2 95 / 06	न. 14, मेट्टू स्ट्रीट, कूडापक्कम, पॉण्डीचेरी- 605502	बीवीएससी/एंडएच / पॉण्डीविधि / 03	4.05.81
1011	के. नटराजन, पुत्र श्री एम. वी.के. कृष्णामूर्ति	टीएनवीसी / 0646 / 05	1-434, एचआईजी ए एसटीसी हुडको (पुराना), होसूर- 635109, तमिलनाडु	बीवीएससी / मद्रासविधि / 71	10.07.46

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1012	के. पूरानी, पुत्री श्री वी. कृष्णामूर्ति	पॉण्डीएसवीसी/2 91/06	न.85 व 86, यूनीक क्लासिक अपार्ट., 8वां क्रॉस, III मेन रोड, 292 टैगोर नगर, पॉण्डीचेरी	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डीवि/06	8.01.83
1013	के. रवि कुमार, पुत्र श्री पी. कलियन्मन	टीएनवीसी/ 2937/05	29, एम.के. थिरुनामंडपम, पी.वी. राव स्ट्रीट, मोहानूर डाक, नमक्कल 637001	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/00	01.06.77
1014	के.एस. काम्बो, पुत्र स्व. श्री हरि सिंह काम्बो	यूवीसी/235/06	गढ़ी कैंट, देहरादून, उत्तरांचल	बीवीएससी/ पंजाबवि/ (सोलन)/55	15.01.31
1015	के.एस. सुवर्सनम, पुत्र श्री के.एस. श्रीनिवासन	टीएनवीसी/ 2865/05	न. 37, लिंगप्पा स्ट्रीट, कांचीपुरम	बीवीएससी/टीएन एच/76	26.04.52
1016	के. सुब्रामोनिया पिल्लै, पुत्र श्री क्षेत्रबाला पिल्लै	टीएनवीसी/ 2336/05	71सी/10, 'निथियम', पोन्पा नगर, कन्याकुमारी जिला, नागरकोइल 629004	बीवीएससी/ मद्रासवि/75	01.10.49
1017	के. सुमथी, पुत्री श्री एस. वी. कलप्पन	पॉण्डीएसवीसी/2 80/06	न.9, प्रथम क्रॉस स्ट्रीट, वी.सी. नगर, मदुकरई, पॉण्डीचेरी-605015	बीवीएससी/टीएन वीएस/96	15.12.73
1018	के. तिलक पोन जवाहर, पुत्र श्री एस.के.कोइल पिल्लै	टीएनवीसी/ 2407/05	52 ए 2, सिवाज्ञान पुरम साउथ स्ट्रीट, दाना, विक्रमसिंग पुरम, 627425, तिरुनेलवेली जिला	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/91	27.05.68
1019	के.वी. वेंकटेश्वरन, पुत्र श्री आर. वेंकटकृष्णन	टीएनवीसी/ 0744/05	"पदमा अपार्टमेंट्स", 43/11, दामोदरपुरम मेन रोड, अदयार, चेन्नई 600020	बीवीएससी/टीएन एच/79	12.03.57
1020	के.वी. जयरामरेड्डी, पुत्र श्री वेंकट रामनप्पा	टीएनवीसी/ 1647/05	236/4, चक्रपानी कॉम्प्लेक्स, गवर्न. हास्पिटल के निकट, थेनी 625531	बीवीएससी/यूएस सबंगलौर/87	01.06.56
1021	के. ज्योथानपुई, पुत्री श्री के. लियांगथानपुइया	मिजोएसवीसी/0 159/06	बाँगाकावन, आइजवाल, मिजोरम	बीवीएससीएंडएच / सीएच/06	13.09.81
1022	कबीलन सुब्रमण्यन, पुत्र श्री आर. सुब्रमण्यम	टीएनवीसी/ 2970/05	2/106, श्रीरामुलु नगर, कावेरीपटनम- 635112, कृष्णागिरि जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/98	2.03.74



क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1023	काचारे राजू वामनराव	महाएसवीसी / 7376 /	पितृ स्मृति, स्नेह शारदा नगर, परमनी, तालुक परमनी, जिला परमनी, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	14.05.83
1024	कदम दीपक शिवदास	महाएसवीसी / 7717 /	पारित वस्ती, एस/पी माहुद (ब्लॉक), तालुक संगोला, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	23.05.83
1025	कदम संतोष दिगम्बरराव	महाएसवीसी / 7454 /	डॉ. कदम एस.डी., सुतार गली, खांडगाव, तालुक नईगांव जिला नांदेड— 431722, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	12.08.82
1026	कदम शेखर बालासाहेब	महाएसवीसी / 7220 /	ए/पी रावांडे, तालुक कोपरगांव, जिला अहमदनगर - 423601, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	28.02.82
1027	कदम योगिता विष्णु	महाएसवीसी / 7547 /	22, जामखेड रोड, अहमदनगर, तालुक नगर, जिला अहमदनगर—414002, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	06.04.80
1028	कैलाश चंद, पुत्र श्री प्रमु दयाल	राजएसवीसी / 3259 / 06	दिल्ली गेट के बाहर, गंगा मंदिर के निकट, अलवर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 06	05.03.79
1029	कैलाश चंद्र उनियाल, पुत्र श्री एस.एल. उनियाल	यूवीसी / 217 / 06	ग्राम धलवाला, मुनि-की-रेती, टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 95	05.05.71
1030	कैलाश महाजन, पुत्र श्री आर.एल. महाजन	एचपीएसवीसी / 74 / 06	ग्राम लूखानी, डाक घुमारविन, तहसील बिलासपुर, हि.प्र.— 174021	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेकेवीवी / 06	07.02.83
1031	काकाडे शाहजी अप्पासो	महाएसवीसी / 7434 /	लोहर गली, अंगार, तालुक मोहोल, जिला सोलापुर— 413214, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	14.10.82
1032	काकाडे सोमेश विष्णु	महाएसवीसी / 7700 /	एटी सोनिशी, डाक कोर्डगांव, तालुक पथार्डी, जिला अहमदनगर— 414102, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	22.08.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1033	काकाती आकाश दीप, पुत्र श्री नरेश्वर काकाती	असम/2292/07	द्वारा श्री एन.काकाती, सर्वोदय नगर, चांदमारी, गुवाहाटी-21, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू/07	30.07.83
1034	काकाती प्रज्ञान, पुत्र श्री प्रभात काकाती	असम/2250/06	सोनी मंदिर रोड, साउथ हेबोर गांव, नागांव-782002, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू/06	07.10.80
1035	काकुमनि अनुराधा, पुत्री श्री श्रीरामुलु	एपीएसवीसी / 4531/06	एम. निदामानुरु, तुंगतूर (एम), प्रकासम जिला- 523279, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू/06	12.06.81
1036	काले दयानेश्वर बालासाहेब	महाएसवीसी / 7582/	ए/पी भंडगांव, तालुक पारनेर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू/06	12.04.84
1037	कालगे राजेश्वर शिवसाम्ब	महाएसवीसी / 7142/	नोबल कॉलोनी, रेलवे स्टेशन के निकट, उदगीर, तालुक उदगीर, जिला लातूर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू/04	30.10.79
1038	कल्पना रत्नावत, पुत्री श्री रघुवीर सिंह	राजएसवीसी / 3280/06	एफ-3, बी-ब्लॉक, महेश नगर, टोंक फाटक, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू/06	04.09.80
1039	कल्पना वी.	केरलएसवीसी/3 124/06	चीराथा पराम्पू, करूर, डाक अम्बालापुजाह- 688561, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू/06	16.08.81
1040	कालूसे गणेश उत्तमराव	महाएसवीसी / 7605/	मुधे लेआउट, वार्ड न. 21, बस-स्टैंड के पीछे, बुलदाना -443001, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू/06	02.09.83
1041	कमल कुमार लाल रवि भूसन, पुत्र श्री मदन लाल दास	बीवीसी / 2629 / 05	ग्राम जोगसार, डाक जोगसार, थाना जोगसार- 812001, जिला भागलपुर, बिहार	बीवीएससीएंडएच / राजकृ विवि / 05	21.01.76
1042	कमल लोचन बेहेरा, पुत्र श्री निमाई चरन बेहेरा	ओवीसी / 2051 / 06	एटी जूनापोखरी, डाक सिनोटिरा, वाया बोंध, जिला भद्रक, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 06	09.06.83
1043	कमल सिंह, पुत्र स्व. श्री सोना सिंह पोखरियाल	यूवीसी / 255 / 06	गणेश विहार, बी-ब्लॉक, अजबपुर कलां, देहरादून, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 78	12.03.58

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1044	कमलेश प्रसाद प्रधान, पुत्र श्री कान्हू चरन प्रधान	ओवीसी/2062/06	एटी मरकंडपदा, डाक सुकाल, जिला पुरी, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएएच /ओयूएटी/06	14.05.81
1045	कमलजीत पब्बी, पुत्र श्री नरिन्दर कुमार	पीबीएसवीसी/1586/06	गली न. 4, बार्ड न.1, म.न. 477, संत अतर सिंह कॉलोनी, पुलिस लाइन्स के निकट, संगरूर, पंजाब	बीवीएससीएंडएएच /पीएयू/ 93	15.08.67
1046	काम्बले गौतम ज्ञानोबा	महाएसवीसी/7321/	सुनंदा भवन, जुंदूर रोड, सैलू, जिला परभनी- 431503, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच /एमएफएसयू/03	20.05.80
1047	कम्बालुरु नागराजू, पुत्र श्री के. बाला सुबइयाह	एपीएसवीसी/4474/06	पालुरु (डाक एवं ग्राम), पेड़डारमुडियम (एम), कडपा जिला- 516434, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच /एसवीवीयू/06	08.02.80
1048	कामदेव सेठी, पुत्र श्री रत्नाकर सेठी	ओवीसी/2095/07	एटी बाली शाही, डाक नौगांव हाट, जिला जगतसिंहपुर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएएच /ओयूएटी/06	02.07.82
1049	कमलेश कुमार, पुत्र श्री चंद्र धर	यूपीवीसी/4381/06	शिव कॉलोनी, लखीमपुर, खेरी, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच /एनडीएयूएंडटी/06	08.07.77
1050	कमलेश पटेल, पुत्र श्री रुपा राम पटेल	राजएसवीसी/3267/06	सी-180, सरस्वती नगर, जोधपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच /आरएयू/06	28.06.79
1051	कमलेश प्रसाद, पुत्र श्री शिवदानी प्रसाद	बीवीसी/2699/05	ग्राम धमौली, डाक मुरगांव, धाना इस्लामपुर- 801303, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडएएच /पॉण्डीविवि/05	16.05.76
1052	कामना गुप्ता, पुत्री श्री बलराज राय बंसल	पीवीएसवीसी/2653/06	बी-2, रामनगर, गली न.2, पीएसईबी कार्यालय के सामने, सुनाम, जिला संगरूर- 148001, पंजाब	बीवीएससीएंडएएच /जीएडीवीएएसयू/06	25.05.83
1053	कंचारिया साई राजेश, पुत्र श्री वेंकट सुब्बा राव	एपीएसवीसी/4456/06	7/398/2, गांधीनगर मेन रोड, चिमाकुर्था, प्रकासम जिला 523226, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच /एसवीवीयू/06	28.08.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1054	कांची सुजाता नारायणराव	महाएसवीसी/ 7386/	'प्रभु छाया', 53, प्रभावती नगर, पुराना पेडगांव रोड, जिला परभनी, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 05	14.08.81
1055	कांडीपल्ली वेंकट दुर्गा, पुत्री श्री के. जनार्दन राव	एपीएसवीसी/ 4519/06	डी.न. 50/57-3/1, वीटी कॉलेज के सामने, राजेंद्र नगर, विशाखापट्टणम -530018, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/06	09.10.82
1056	कापाने सचिन हरिदास	महाएसवीसी/ 7199/	पिलिव, तालुक मालशिरास, जिला सोलापुर- 413109, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 04	28.07.80
1057	कापगटे माधवराव प्रभुदास	महाएसवीसी/ 7529/	द्वारा प्रभुदास, एच. कापगटे, ए/पी सेंदुरावफा (डाकघर के निकट), तालुक सोकोली, जिला भंडारा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 04	02.09.78
1058	कापगटे सुनील संजय	महाएसवीसी/ 7309/	द्वारा जी.एन. कापगटे, तालाव वार्ड, साकोली, जिला भंडारा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 04	01.09.81
1059	कपिल चौहान, पुत्र श्री मोहन सिंह	एचपीएसवीसी/7 79/06	ग्राम एवं डाक देहा, तहसील धेओग, जिला शिमला, हि.प्र.- 171220	बीवीएससीएंडएच /सीएसकेकेवीवी /06	15.08.80
1060	कपिल गुप्ता, पुत्र श्री फूलचंद गुप्ता	एमपीएसवीसी/2 355/06	जी-32, मोहिनी सागर कॉलोनी, शिवपुरी, म.प्र.- 473551	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/0 5	06.12.78
1061	करम घद, पुत्र श्री दिला राम	एचपीएसवीसी/7 82/06	ग्राम एवं डाक किल्वा, तहसील सांगला, जिला कन्नौर, हि.प्र. 172015	बीवीएससीएंडएच /सीएसकेकेवीवी /06	28.07.82
1062	कर्णम पल्लवी, पुत्री श्री के. लक्ष्मी नरसिम्हा राव	एपीएसवीसी/ 4459/06	म.न. 1-103, ईश्वर मंदिर स्ट्रीट, पुथालापट्ट, धिरूर जिला- 517124, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/06	20.08.82
1063	करंडे विकास वसंत	महाएसवीसी/ 7160/	ए/पी किल्लेमछीन्द्र गढ़, तालुक वाल्वा, जिला सांगली, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 04	15.08.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1064	करिककाथिल स्मिता सिवदासन	महाएसवीसी / 7521 /	द्वारा श्री ओ. सिवदासन, क्वा.न. बी-3/4, एमएसू कैम्पस, परभनी- 431402, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	27.10.82
1065	कारलेवाड वैजू शिवाजी	महाएसवीसी / 7247 /	जय राय रेजीडेंसी, फ्लैट न. बी-4, प्रियदर्शिनी नगर, पुराना सांगवी, पुणे, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	03.09.80
1066	करमरकर रश्मि श्रीपद	महाएसवीसी / 7226 /	13, सिटीएक सोसायटी, मनापोडा रोड, डोम्बवली, तालुक कल्याण, जिला धाणे, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	23.10.81
1067	करनैल सिंह नानहर, पुत्र श्री लखमन सिंह	पीबीएसवीसी / 564 / 07	म.न. 146, गुरु तेगबहादुर एवेन्यू, जालंधर सिटी, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / पीयू / 60	03.04.37
1068	कारु पशुपति, पुत्र श्री आर. करुप्पा सामी	टीएनवीसी / 1389 / 05	1544, भारती नगर, संकरनकोविल, तिरुनेलवेली जिला 627756	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 98	30.05.75
1069	कासर कुंदन कुमार नंदकुमार	महाएसवीसी / 7507 /	द्वारा नंदकुमार शैकत कासर, मेन रोड, ए/ओ यरमला, तालुक कल्लम, जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	06.09.81
1070	कास्बे सागर सत्यावान	महाएसवीसी / 7484 /	कोरबा मिथागर, नानूरवाडी, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर संस्कार केंद्र, दडाला, मुम्बई, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	06.06.80
1071	काशिद दादासाहेब वैजनाथ	महाएसवीसी / 7326 /	श्रुति निवास, मोहोल रोड, दाहिताने, बारशी, सोलापुर- 413412, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	01.06.83
1072	कटकुरी श्रीनिवास अशोक	महाएसवीसी / 7283 /	"कौन्तेय", गंगापुत्र कॉलोनी, दुर्गा रोड, परभनी- 431401, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	12.11.80
1073	कटोले श्रीकांत भास्कर	महाएसवीसी / 7449 /	"कुलस्वामिनी", सरस्वती नगर, कॉलेज रोड, तालुक अकोट, जिला अकोला- 444101, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	20.06.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1074	काटरे देवेन्द्र दिगम्बर	महाएसवीसी / 7603 /	बिरसी रोड, कुम्भारटोली, आमगांव, जिला गोंडिया— 441902, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	09.08.82
1075	कौशिक पॉल, पुत्र श्री तपन कुमार पाल	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3280 / 06	3, शंकरीपुकुर, डाक श्रीपल्ली, जिला बर्दवान— 713103, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	06.01.83
1076	कविधा जी., पुत्री स्व. श्री एच. गोविंदइयाह	कर्नाएसवीसी / 39 15 / 06	347, अरालीमरदा, मलया, सिरागटे, तुमकुर— 06, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	04.05.84
1077	केदार प्रसाद गुप्ता, पुत्र श्री सुरेश प्रसाद गुप्ता	एमपीएसवीसी / 2 388 / 06	ग्राम गैसाबाद, हट्टा, दामोह, म. प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 0 6	30.10.79
1078	कीराई तमिल असोकन, पुत्र श्री कीराई ए. तमिलसेल्वन	टीएनवीसी / 2718 / 05	74, थम्बी इल्लम, रेलपे स्टेशन रोड, कीरानूर 622502, पुडुकोट्टई जिला	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 99	19.11.74
1079	कीर्ति मीना, पुत्री श्री श्रीराम मीना	राजएसवीसी / 3336 / 06	ग्राम एवं डाक— मौखेरा, बाया— विवाई, दौसा, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एएनजीआरएयू / 05	25.12.81
1080	केनी कोमल कृष्णा	महाएसवीसी / 7685 /	बी / 10, वसुभाई सीएचएस, नया लिंक रोड, दहानुकर वाडी तालुक, कांदीवली (प.), मुम्बई, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	16.09.82
1081	केशव डाहिया, पुत्र श्री यशवीर सिंह	डीवीसी / 0628 I / 04	पैट क्लिनिक, 1 व 2, कृषि विहार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जे.बी. टीटो मार्ग, नई दिल्ली— 110048	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 03	22.01.79
1082	केशव जी.वी., पुत्र श्री वेंकट रेड्डी	कर्नाएसवीसी / 38 93 / 06	गट्टाहल्ली, होलूर डाक, कोलार तालुक एवं जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	20.02.84
1083	खाबरागडे गीतवर्धन मानिकराव	महाएसवीसी / 7645 /	22, शिवाजी नगर, नागपुर— 27, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	16.05.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1084	खडे सचिन ज्ञानदेव	महाएसवीसी / 7188 /	"मातृ पितृ छाया", असारा गणेश गली, संगरुल, तालुक करवीर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	08.06.82
1085	खडे शैलेंद्र केशव	महाएसवीसी / 7209 /	खादी कोलवन, संगमेश्वर, जिला रत्नागिरि, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	30.04.82
1086	खाडपेकर यदुराज रवीन्द्र	महाएसवीसी / 7464 /	पार्वती अपार्टमेंट, 20, सिद्धेश्वर रोड, पाटिलवाडी, तालुक व जिला थाणे- 400601, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	24.09.82
1087	खालाते नीलेश संताजीराव	महाएसवीसी / 7722 /	द्वारा संताजी सिदराम खलाते, ए/पी राजाले, तालुक फाल्टन, जिला सतारा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	15.04.84
1088	खान अब्दुल मन्नार, पुत्र श्री अब्दुल मजीद	असम / 2238 / 06	ग्राम घोरासल न. 1, डाक ब्यासपारा, सिपाझर, दारंग, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 06	09.04.80
1089	खान अजीजुल, पुत्र स्व. श्री दौलत खान	असम / 2280 / 07	ग्राम एवं डाक पलहाजी, जिला बारपेटा, असम- 781309	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 07	30.06.80
1090	खान मोदासर नज़र, पुत्र श्री समशेर अली खान	ओवीसी / 2084 / 06	एटी / डाक बरुडई, वाया बरुडई, जिला जाजपुर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 06	22.12.79
1091	खान मुशीर अली जुनेद गफूर अली खान	महाएसवीसी / 7732 /	'रैन बसेरा', रोज़ होटल के पीछे, कादराबाद प्लॉट, परभनी, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	11.06.82
1092	खानदैत विवेक नट्टूजी	महाएसवीसी / 7621 /	डाकघर के निकट, पालनडूर (सीएच), तालुक लखानी, जिला भंडारा- 441811, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	28.09.82
1093	खरात आशीष कुमार शिवाजी राव	महाएसवीसी / 7269 /	'ओमकार', सिद्धेश्वर कॉलोनी, विठोबा मल, तासगांव, तालुक तासगांव, जिला सांगली, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	02.08.81
1094	खराटू मंगेश वासुदेव	महाएसवीसी / 7522 /	चिरनेर, तालुक उरान, जिला रायगढ - 410210, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	14.04.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1095	खारकर क्रांति प्रहलादराव	महाएसवीसी/ 7380/	सत्यमेव जयते बिल्डिंग, कैलासनगर, गोरक्षण रोड, तालुक जिला अकोला, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 05	01.12.80
1096	खरमाते योगेश भीमराव	महाएसवीसी/ 7406/	ए/पी एकनुल, तालुक खाटव, जिला सतारा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 05	19.07.83
1097	खरवडे श्रद्धा रामचंद्र	महाएसवीसी/ 7122/	"श्रीराम" निवास, मॉडल इंग्लिश सकूल के सामने, परमनी, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 04	25.04.82
1098	खरवाडकर अश्विनी रेनुका दास राव	महाएसवीसी/ 7538/	शंकर कुंज, रतनाली रोड, धर्माबाद, नांदेड- 431809, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 05	13.10.83
1099	खरवाडकर मकरंद दुर्गादास	महाएसवीसी/ 7664/	द्वारा डी.डी. खरवाडकर, शंकर कुंज, रतनाली रोड, धर्माबाद, जिला नांदेड- 431809, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 06	03.04.83
1100	खाटी मूषण मोहन	महाएसवीसी/ 7145/	78, कन्नमवर नगर, वर्धा, नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 04	04.04.81
1101	खेडेकर नितिन किसनराव	महाएसवीसी/ 7634/	वार्ड न. 1, गणेश नगर, मल्कापुर रोड, बुल्दाना- 443001, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 06	30.06.83
1102	खेडगिकर अमोल श्रीकांत	महाएसवीसी/ 7225/	ए-2/2, साई नगर, सिंहगढ़ रोड, पुणे - 410037	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 04	22.09.76
1103	खिलारे सतीश श्रीपतराव	महाएसवीसी/ 7120/	नर्मदा राव, बासमत रोड, परमनी, तालुक/जिला परमनी महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 04	23.10.81
1104	खिमानिया कन्हैया लाल नागदनभाई	गुजएसवीसी/ 2740/06	एटी एवं डाक बेराजा (फुल्ला), तालुक जोडिया, जिला जामनगर- 361011, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/06	04.04.83



क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1105	खोडवे प्रसाद मनोहर राव	महाएसवीसी/ 7586/	द्वारा एम.टी. खोडवे, नवजीवन कॉलोनी, दस्तूर नगर, अमरावती- 444606, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 06	04.05.82
1106	खोकडे मोहिनी विश्वपाल	महाएसवीसी/ 7144/	रामनगर, जैन मंदिर के पीछे, वार्ड न. 13, वर्धा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 04	25.02.78
1107	खुरुड विशाल भागचंद	महाएसवीसी/ 7531/	'भगवंत', कारपे एस्टेट, तालुक राहुरी, जिला अहमदनगर- 413705, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 05	03.08.82
1108	किरन, पुत्री श्री मदन	एचवीसी/1924	क्वा.न. 114/2, हॉस्पिटल क्वार्टर, पुराना कैम्पस, सीसीएस, एचएयू, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच /सीसीएसएचएयू /06	16.12.83
1109	किरनचंद अटलूरी, पुत्र श्री निरंजनपाल	एपीएसवीसी/ 4545/07	घंटासाला (डाक एवं एम), कृष्णा जिला- 520033, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /सीएसकेकेवीवी /06	23.08.83
1110	किरनमयी सी., पुत्री श्री भास्कर रेड्डी सी.	एपीएसवीसी/ 4493/06	द्वारा सी. रुक्मानगर रेड्डी, सिद्दावरम(कोठागुट्टापल्ली)पेड़ डामंडयम (एम), चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/06	25.07.82
1111	किरन मेनन	केरलएसवीसी/3 177/06	इयक्कारा हाउस, कोम्बारा, इरिंजनकुडा, थिसूर- 680121, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/06	01.06.82
1112	किशोर कुमार झा, पुत्र श्री राघारमन झा	बीवीसी/2623/ 05	ग्राम महारथपुर, खजुवाला, बीकानेर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /एएयू/05	01.03.77
1113	किशोर कुमार साहू, पुत्र श्री कृष्णा चंद्र साहू	ओवीसी/2060/ 06	द्वारा कृष्णा च. साहू, एटी/ डाक केंदुआपाडा, जिला भद्रक, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/06	08.05.79
1114	किशोर कुमार, पुत्र श्री राम स्वरूप	राजएसवीसी/ 3272/06	शक्ति नगर, डाक पिओग, तहसील अनी, जिला कुल्लू, हि. प्र. 172026	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/06	01.01.77

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1115	किशोर राना, पुत्र श्री मीना राम	एचपीएसवीसी/7 53/06	ग्राम शुहाक, डाक पिओग, तहसील अनी, जिला कुल्लू, हि. प्र. 172026	बीवीएससीएंडएच /सीएसकेकेवीवी /06	11.02.77
1116	किशोर टी.के., पुत्र श्री कोटेशप्पा टी.के.	कर्नाएसवीसी/38 49/06	होलालूर- 577216, शिमोगा तालुक एवं जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू /06	30.05.84
1117	किशोर करनाती, पुत्र श्री वेंकटेश्वरलु	एपीएसवीसी/ 4476/06	द्वारा इनुकोडा नरसइयाह, अनामतारम (ग्राम), पेडागोपथी (डाक), खम्मम जिला, आंध्रप्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/06	09.04.82
1118	किशोर कुमार झा, पुत्र श्री विधानंद झा	बीवीसी/2718/ 06	ग्राम पचाथी, डाक गुरमहा, थाना पडोल, जिला मधुबनी, बिहार	बीवीएससीएंडएच /एनडीएयूएंडटी /04	01.03.80
1119	किशोर विनायक राव काले, पुत्र स्व. श्री वी.जी. काले	एमपीएसवीसी/2 351/06	66-बी, राजेंद्र नगर, इंदौर, म.प्र. - 452012	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/7 5	07.06.50
1120	किशोरी लाल खुराना, पुत्र श्री दया नंद खुराना	डीवीसी/0614/ 02	121-सी, सुंदर अपार्टमेंट्स, पश्चिम विहार, नई दिल्ली- 110087	बीवीएससीएंडएच /एचएयू/79	20.08.56
1121	कोकाने शिरीष शिवाजीराव	महाएसवीसी/ 7372/	पारगांव, तालुक वाशी, जिला उस्मानाबाद- 413626, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 05	10.11.82
1122	कोकारे दामोदर किसन	महाएसवीसी/ 7356/	एटी.वाक्शवाडी, डाक निम्बवाडे, तालुक अटपडी, जिला सांगली -415301, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 05	01.06.81
1123	कोला श्रीनिवासुलु, पुत्र श्री के. बालुडु	एपीएसवीसी/ 4482/06	म.न. 10-1018, बासीरेड्डी बावी स्ट्रीट, कोइकुंटला डाक, कुर्नूल जिला- 518134, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/06	01.07.80
1124	कोल्हे अभिजीत वेंकटराव	महाएसवीसी/ 7666/	ए/पी पचाथी, तालुक पटोडा, जिला बीड- 431122, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 06	01.07.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1125	कोल्हे आशीष कुमार उधवराव	महाएसवीसी / 7402 /	विद्या विहार कॉलोनी, पीपरी कॉलेज, आरवी रोड, पीपरी (मेघे), जिला वर्धा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	11.06.82
1126	कोलपे अन्नासाहेब भीकनराव	महाएसवीसी / 7568 /	द्वारा कदम एम.बी. सामर्थ, पशु औषधालय, कोल्पेवाडी, तालुक कोपरगांव, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	24.01.83
1127	कोमला आरसी, पुत्री श्री कृष्णा राव	एपीएसवीसी / 4506 / 06	डी.न. 13-8-39 (1), डेमुनिगुम्न स्ट्रीट, अकपल्ली-531001, विशाखापटणम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	05.06.81
1128	कोनाडाका श्री राजारवीन्द्र, पुत्र श्री लक्ष्मन बाबूजी	पॉण्डीएसवीसी / 2 79 / 06	728, हाउसिंग बोर्ड, भरतियार स्ट्रीट, अशोक नगर, लॉसपेट, पॉण्डीचेरी- 8	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डीविधि / 02	8.6.90
1129	कोरे कुमार बाबूराव	महाएसवीसी / 7202 /	ए/पी सुलकुड, तालुक कागल, जिला कोल्हापुर- 416216, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	01.10.81
1130	कोसरेकर जयश्रीबेन सीताराम	गुजएसवीसी / 2741 / 06	सिवम अपार्टमेंट, लालबहादुर शास्त्री स्टेडियम के पीछे, बापूनगर, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 06	
1131	कोठावले सुनील तुकाराम	महाएसवीसी / 7704 /	भारत हाई स्कूल, सूरज ज्वेलर्स के निकट, बारशी रोड, जियूर(सी.आर.), तालुक कर्मला, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	24.11.82
1132	कोदुले दीपा रामलाल	महाएसवीसी / 7288 /	132, के.वी. सब स्टेशन, एम.एस. ई.बी. केडगांव, पुणे रोड, अहमदनगर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	07.10.81
1133	कौंडन्या बालासाहेब लक्ष्मीकांत	महाएसवीसी / 7657 /	प्रसाद साइकिल स्टोर्स, ए-1 मार्केट, कारेगांव रोड, परभनी-431401, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	02.09.82
1134	कोवुरु हरिबाबू, पुत्र श्री के. पंचलइयाह	एपीएसवीसी / 4455 / 06	द्वारा के. रवि, नेडुरुपल्ली पोडालाकारु (एम), नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	01.07.79

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1135	कृष्ण देव, पुत्र श्री हंस राज	पीबीएसवीसी / 560 / 07	79- प्रोफेसर कॉलोनी, तिलक नगर, अमृतसर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / पीयू / 61	17.04.37
1136	कृष्ण कुमार मिश्रा, पुत्र श्री रघुबीर मिश्रा	डीवीसी / 0606 / 02	द्वारा रघुबीर मिश्रा, एन-168, सादतपुर एक्स., डाक गोकुलपुरी, दिल्ली- 110094	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 02	07.04.79
1137	कृष्ण कुमार भौर्या, पुत्र श्री कालू राम भौर्या	राजएसवीसी / 3250 / 06	55, कल्याण नगर, करतारपुरा, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 06	07.04.80
1138	कृष्ण शर्मा, पुत्र श्री राम गोपाल शर्मा	एचवीसी / 1950 /	317 / 30, अजमेर कॉलोनी, भिवानी रोड, जीद, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 06	19.12.82
1139	कृष्णकान्त कुमार, पुत्र श्री चुन्नीलाल डारवे	बीवीसी / 2621 / 05	ग्राम रीकरपुरा, डाक मदरघाट, धाना कसबा, 854358, जिला पूर्णिया, बिहार	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 05	01.05.76
1140	कृष्ण कुमार जोशी, पुत्र श्री रमेश चंद्र जोशी	यूवीसी / 241 / 06	गोरखपुर, भीमताल, जिला नैनीताल, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जेएनएयू / 86	10.4.61
1141	कृष्णा मोहन	केरलएसवीसी / 3 191 / 06	कृष्णा निवास, कुन्नमथनम डाक, थिरुवला- 689981, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	31.03.82
1142	कृष्णा राव एच.आर., पुत्र श्री रामा राव एच.	एपीएसवीसी / 4438 / 06	वेंकटेश्वर हाउस, 3-5-808, हैदरगुडा, हैदराबाद-29, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी / यूए सबांगलौर / 91	25.12.63
1143	कृति गुरुंग, पुत्र श्री जी. पी. गुरुंग	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3229 / 06	लोअर मिरिक बस्ती, डाक मिरिक, जिला दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	26.05.82
1144	क्षिप्रा चंद्रशेखर, पुत्र श्री ए. के. चंद्रशेखर	कर्नाएसवीसी / 38 27 / 06	के-144, एडब्ल्यूएचओ सेना विहार, कम्मनाहल्ली, बंगलौर- 560049, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 05	29.10.82
1145	क्षीर सागर अबासाहेब जगन्नाथ	महाएसवीसी / 7569 /	ए/पी मालोली, तालुक मालिशरास, जिला सोलापुर- 413113, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	03.09.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1146	क्षीर सागर प्रवीना माधवराव	महाएसवीसी / 7729 /	शिव शक्ति, देगलूर रोड, उदगीर— 413517, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	14.03.84
1147	कु. अमर ज्योति टोप्पो, पुत्री श्री एफ. टोप्पो	एमपीएसवीसी / 2 378 / 06	म.न. 41, श्रीधर मोहिनी होम्स, रोहतास नगर, पिपलानी, भोपाल, म.प्र. 462021	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 0 6	10.01.80
1148	कु. हेमलता जैन, पुत्री श्री सी.पी. जैन	एमपीएसवीसी / 2 381 / 06	ग्राम एवं डाक मवाई टीकमगढ़, म.प्र.— 472001	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 0 6	03.01.80
1149	कु. ज्योत्सना शर्मा, पुत्री श्री विजय कुमार शर्मा	एमपीएसवीसी / 2 415 / 07	136—बी, मयूर नगर, थाटीपुर मोसर, ग्वालियर, म.प्र.— 474011	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 0 5	29.12.79
1150	कु. कमला मकवाना, पुत्री श्री पिठा मकवाना	एमपीएसवीसी / 2 377 / 06	चैतन्य भार्ग, उदयपुरिया, दिलीप गेट, झबुआ, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 0 6	06.01.79
1151	कु. कोटी माधुरी	महाएसवीसी / 7260 /	द्वारा के.के. राव, डीडी.एआर, एयर आकाशवाणी क्वार्टर्स, डी-1, जालना रोड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / डॉ.पीडी केवी / 00	26.03.76
1152	कु. पूनम शाक्या, पुत्री श्री पी.एल. शाक्या	एमपीएसवीसी / 2 375 / 06	क्वा.न. जी-111 / 57, (1464) शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.— 462016	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 0 6	01.11.82
1153	कु. शिल्पा गजभिये, पुत्री श्री एन.वी. गजभिये	एमपीएसवीसी / 2 376 / 06	ए-209, सेक्टर-डी, राज होम्स, मिनाल रेजीडेंसी, जेके रोड, भोपाल, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 0 6	24.03.80
1154	कु. श्रद्धा परिहार, पुत्री श्री सुधीर परिहार	एमपीएसवीसी / 2 380 / 06	19 / ए, विजय नगर, लालघाटी भोपाल, म.प्र.— 462030	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 0 6	06.05.82
1155	कुगाशिया नौशाद अली हसनभाई	गुजएसवीसी / 2696 / 06	डाक कोनाडर, तालुक पालनपुर, उचाडो वास, जिला बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसडीएस / 06	30.07.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1156	कुक्का गोपीनाथ, पुत्र श्री के. चंद्रहसन	एपीएसवीसी / 4525 / 06	मेरलापका (ग्राम एवं डाक), येरपडु (एम), चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	01.06.74
1157	कुलदीप सिंह, पुत्र श्री रनवीर सिंह	यूपीवीसी / 4511 / 06	ग्राम अहरीला, डाक बस्ता, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 06	04.05.82
1158	कुलदीप कुमार, पुत्र श्री अजोय शंकर बोरा	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3223 / 06	पुरुषोत्तम अपार्टमेंट्स, 13 / 1, एन.एन. घोष लेन, कोलकाता-700040, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 97	24.01.72
1159	कुलदीप सिंह बरार, पुत्र श्री किशन सिंह	पीबीएसवीसी / 1608 / 07	ग्राम एवं डाक भालौर, जिला फरीदकोट, वाया कोटकपुरा, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / पीयू / 60	19.04.40
1160	कुलकर्णी अशोक प्रभाकर	महाएसवीसी / 7455 /	"प्रभुलिया", नगर वेस, ग्राम वममोरी, तालुक राहुरी, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / केकेबीदापोली / 78	20.05.55
1161	कुलकर्णी दीपाली शामकांत	महाएसवीसी / 7274 /	आशदीप निवास, मिडल लेन, पाली, तालुक सुधागढ़, जिला रायगढ़- 410205, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	07.09.81
1162	कुलकर्णी गौरी मुकुंद	महाएसवीसी / 7479 /	ओम साई करन पैलेस, ए / 103, एकसार रोड, बोरीवली (प.), मुम्बई- 400092, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	02.09.82
1163	कुलकर्णी ऋषिकेश नंदकुमार	महाएसवीसी / 7266 /	'श्रीनिवास' शिकाहत कॉलोनी, म्हासवाडा, तालुक मान, जिला सतारा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	20.05.82
1164	कुलकर्णी शीतल विवेक	महाएसवीसी / 7296 /	सन पैराडाइज़, फ्लैट न.1, प्लॉट न. 246, सेक्टर-28, वाशी, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 02	27.02.79
1165	कुमार अजोय	गुजएसवीसी / 2689 / 06	द्वारा राधा रमनप्रसाद, ग्राम दरियापुर, एटी एवं डाक परोइयाह, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसडीएयू / 06	05.09.80

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1166	कुमार धनंजय, पुत्र श्री नवल किशोर प्रसाद	बीवीसी/2708/05	ग्राम सावनहुआ बावन बीघा, डाक हरनौत, थाना हरनौत-803110, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडएच / एमएएडएफएस यू / 05	16.01.77
1167	कुमार गोपाल, पुत्र स्व. श्री नकुल कुमार	असम/2254/06	ग्राम-राजापुकुरी, डाक भगवती-पारा, जिला कामरूप-781132, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू/06	01.03.81
1168	कुमार हर्ष वर्धन, पुत्र श्री कृष्ण मोहन झा	बीवीसी/2678/05	ग्राम गौसाई गांव, डाक गौसाई गांव, थाना गोपालपुर-853204, बिहार	बीवीएससीएंडएच / एमएएडएफएस यू / 05	03.01.81
1169	कुमार मनीन्द्रनाथ भारती, पुत्र श्री विश्वनाथ दास	बीवीसी/2703/05	ग्राम चकदारा (ओल्हानपुर), डाक ओल्हानपुर, थाना मधौरा, जिला सारन, बिहार	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी/05	10.09.77
1170	कुमार रवि, पुत्र श्री नोबत सिंह	डीवीसी/0624/03	म.न. 47, ग्राम घोंडली, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/03	16.12.79
1171	कुमारेश बेहेरा, पुत्र श्री रामचंद्र बेहेरा	ओवीसी/2041/06	एटी भालूकुमा, डाक इकातली, जिला कैओन्झर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी/06	19.06.82
1172	कुनाल देव शर्मा, पुत्र श्री मन मोहन शर्मा	डीवीसी/0665/05	201, दीपाली, पीतमपुरा, दिल्ली-34	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 05	28.07.81
1173	कुंज बिहारी जोशी, पुत्र श्री बिस्वनाथ जोशी	ओवीसी/2043/06	एटी/डाक पुरुना कटक, जिला बौध, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी/06	16.02.81
1174	कुंतल कुमार दत्ता, पुत्र श्री काजल कुमार दत्ता	डब्ल्यूबीएसवी सी/3238/06	न.8, ए.सी.सेन रोड, डाक मोरेपुकुर (रिश्रा), जिला हुगली, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	22.12.81
1175	कुमार नवनीत सिंह, पुत्र श्री अखिलेश सिंह	यूपीवीसी/4460/06	आदर्श हॉस्पिटल, मालवीय नगर, चितबरागांव, बलिया, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एमएएफएसयू/06	01.11.79
1176	कुओरती मुनिरा इलियास	महाएसवीसी/7472/	इरानी वाड़ी, 303, एस.सी. मार्ग, मज़गांव, मुम्बई-400010, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएफएसयू/05	28.07.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1177	कुरियाकोस मैथ्यू टी.	केरलएसवीसी/3 186/06	धरावट्टाहिल, अमायान्नूर डाक, कोट्टायम- 686025, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/06	21.11.80
1178	एल. चंद्रशेखरन, पुत्र स्व. श्री एस. लक्ष्मणन	टीएनवीसी/ 1937/05	न.3, एफ2, लक्ष्मी फ्लैट्स, राजाजी स्ट्रीट, सईदापेट, चेन्नई- 600015	बीवीएससी/ मद्रासविवि/73	02.06.50
1179	एल. लेसली लिओ प्रिंस, पुत्र श्री पी. लॉरेंस	टीएनवीसी/ 0714/05	461/19, 4 क्रॉस, अरुलानंद नगर, अरुल नर्सरी के निकट, थंजावूर जिला- 613007	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/97	22.06.74
1180	एल. नागराजन, पुत्र श्री एम.बी. लक्ष्मणन	टीएनवीसी/ 3048/05	42सी, रामासिंगा नगर, II स्ट्रीट, वीरुगम्बक्कम, चेन्नई 600092	बीवीएससी/टीएन एयू/84	30.04.61
1181	एल. राधाकृष्णन, पुत्र स्व. श्री एल. चंद्रशेखर रेड्डी	टीएनवीसी/ 2382/05	सुब्बा रेड्डी पलायम (ग्राम एवं डाक), वाया मिन्जूर, पोन्नेरी तालुक, थिरुवल्लूर जिला, पिन 601203	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/92	20.12.67
1182	एल.एन. मथूराम, पुत्र श्री एल.पी. नारायणन	टीएनवीसी/ 1982/05	नया न. 33/1, पुराना न. 15/1, वेंकटचला मुदाली स्ट्रीट, वेपेरी, चेन्नई 600007	बीवीएससी/टीएन एयू/76	30.12.52
1183	लाम सिंह कौशल, पुत्र श्री उदय सिंह	यूपीवीसी/ 4541/06	ई-3, 1156-60, शहीद नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /आगरा विवि/69	25.09.43
1184	लाड संजीवनी दयानंद	महाएसवीसी/ 7304/	कुडाल नेरुरपर रोड, कुडाल (नाबारवाडी), तालुक कुडाल, जिला सिधुदुर्ग, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 04	11.05.82
1185	लाडे मनीश कुमार बाबूराव	महाएसवीसी/ 7330/	धर्मापुरी रोड, हनुमान वाई, तालुक देसाईगंज (वडसा), जिला गडचिरीली, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 05	12.05.81
1186	लाडुकर नीता ओंकार राव	महाएसवीसी/ 7359/	'गुरुप्रसाद', 41, बापूनगर, उमरेर रोड, नागपुर, तालुक व जिला नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 05	12.04.82



क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1187	लईक अहमद खान	महाएसवीसी / 7147 /	मनोहर विहार कॉलोनी, 72, हजारी पहाड, नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	05.02.82
1188	लाइबाचियां राजेश कुमार जयंति लाल	गुजएसवीसी / 2743 / 06	लिम्बाचसेरी, ब्रह्मपोल, पोलाडी वास के निकट, एटी व तालुक सिद्धपुर, जिला पालन (नगर), गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 06	17.07.83
1189	लखन लाल गुप्ता, पुत्र श्री के.डी. गुप्ता	एमपीएसवीसी / 2 352 / 06	एफ-15, सिविल लाइंस, बलाघाट, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 7 9	18.03.55
1190	लखन सिंह सैनी, पुत्र श्री धर्म सिंह	राजएसवीसी / 3261 / 06	ग्राम एवं डाक रणधीर ग्राम, तह. वैर, भरतपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 06	19.01.78
1191	लाखे रमाकांत शंकरराव	महाएसवीसी / 7403 /	संगमेश निवास, 43, गांधी नगर, आई/एफ.ओ. पंचायत समिति, देगलूर, तालुक देगलूर, जिला नांदेड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	18.11.75
1192	लक्कावत राम सिंह, पुत्र श्री मांगया	एपीएसवीसी / 4541 / 07	न. 164 / 1, फ्लैट न.101, श्री कोटेश्वर रेजीडेंसी, जय नगर, भाग्यनगर कॉलोनी, कुकटपल्ली, हैदराबाद - 500072, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एएनजीआरएयू / 05	12.12.64
1193	लक्षमेश एस.के., पुत्र श्री कृष्णा गौडा एस.टी.	कर्नाएसवीसी / 38 26 / 06	270, 4 मेन, 4 स्टेज, टी.के लेआउट, कुवेम्पुनगर, मैसूर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 05	20.05.79
1194	लक्ष्मी पी.	केरलएसवीसी / 3134 / 06	मनिमंदिरम, करुमडी डाक, अम्बालापुजाह, अलपुजाह-688564, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	25.05.82
1195	लालातेंदु केशरी दास, पुत्र श्री सुभाष चंद्र दास	ओवीसी / 2135 / 07	एटी/डाक तोतापदा, वाया घंटेस्वर, जिला भद्रक, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 07	27.05.83
1196	ललित कुमार सिंह लोधा, पुत्र श्री के.एस. लोधा	एमपीएसवीसी / 2 363 / 06	उदासी आश्रम गुना, म.प्र.-473001	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 0 6	01.03.71

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1197	ललित कुमार, पुत्र श्री इंदर सिंह	एचवीसी/1916 /	म.न. 414/18, रविदास नगर, रोहतक, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 06	22.06.80
1198	ललिता कुमार जेना, पुत्री श्री अनिराम जेना	ओवीसी/2107/07	एटी सिपाकुडा, डाक बदायुई, नुआगांव, जिला पुरी, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी/07	07.08.77
1199	लालजी सिंह यादव, पुत्र श्री बालिक राम यादव	यूपीवीसी/4525/06	ग्राम अलीपुर मोडरा, डाक जखियान, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएंडट / 98	10.07.70
1200	लालमुआनपुइया सामते, पुत्र श्री वी.जेड. डिंगा	मिजोएसवीसी/0158/06	ए/11/107, लिली वेंग, चलतलांग, आइज़वाल, मिजोरम	बीवीएससीएंडएच / सीएयू/06	03.07.84
1201	लालोन कोल, पुत्र श्री जितेन कोल	डब्ल्यूबीएसवीसी/3281/06	ग्राम सफरपुर, डाक कानपुर, थाना कुमारगंज, जिला डी/दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस/06	23.12.83
1202	लांजेवा रूचा डेविडा	महाएसवीसी/7170/	गावरे, प्लॉट न. 16, आशीर्वाद नगर, हुडकेश्वर रोड, नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू/04	29.06.82
1203	लांजेश्वर रेनुका दौलतराव	महाएसवीसी/7173/	122, राधाकृष्ण नगर, हुडकेश्वर रोड, नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू/04	31.07.82
1204	लचूपटाला सुधाकर, पुत्र श्री एल. अम्पला नायडू	एपीएसवीसी/4465/06	द्वारा वी. महेश्वर राव, आईटीआई कॉलोनी, बोबली, विजियानगरम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू/06	01.07.82
1205	लाठकर गिरीश मधुकरराव	महाएसवीसी/7314/	4, गणपति गली, जितूर, तालुक जितूर, जिला परभनी-431401, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू/04	05.07.80
1206	लावंड सचिन पोपट	महाएसवीसी/7541/	एम.ए.सी.एस. कृषि फार्म, एटी होल (8 फाटा), ए/पी सोमेश्वरनगर, तालुक बारामती, जिला पुणे, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू/05	26.05.81
1207	लक्ष्मी नारायण सारंग पुत्र श्री धीरेंद्र कुमार सारंगी	ओवीसी/2141/07	तालातेलंग बाजार, कटक-9, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी/07	15.06.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1208	लीना सज्जन, पुत्र श्री परमेश्वरप्पा जी.बी.	कर्नाएसवीसी/39 01/06	लक्कावनाहल्ली रोड, अयप्पा स्वामी मंदिर, हिरियूर, चित्रदुर्गा जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू /06	01.05.84
1209	लहरीना, पुत्री श्री जे.के. रमानी	एचवीसी/1927 /	म.न. 742, अर्बन एस्टेट सेक्टर-8, करनाल, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच /सीसीएसएचएयू /06	22.01.83
1210	लेंडे श्वेता रमेश	महाएसवीसी/ 7378/	10, स्वरूप नगर, स्वावलम्बी नगर, नागपुर- 440022, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 05	07.09.82
1211	लिओनार्ड पॉल अब्राहम, पुत्र श्री जॉन अब्राहम	टीएनवीसी/ 2403/05	एम 15/2, 28वां क्रॉस स्ट्रीट, बसंत नगर, चेन्नई 600090	बीवीएससी/ मद्रासविधि/71	13.10.48
1212	लिबी एंटोनी	केरलएसवीसी/3 200/06	पलाथिंगल हाउस, थेक्कुमूला साउथ, कट्टूर, थिसूर, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/06	31.12.80
1213	लिनिता मैथ्यू एस.	केरलएसवीसी/3 148/06	पजाडियथु हाउस, अन्चेरी डाक, थौडुपुजा डाक- 685585, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/06	15.05.82
1214	लिपि कलासवारी, पुत्री श्री सतीश चंद्र कलासवारी	यूवीसी/220/06	सदर बाजार, आनंद भवन के निकट, लैंसडाउन, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएटी/ 06	06.08.82
1215	लिपिस्मिता समाल, पुत्री श्री सनातन समाल	ओवीसी/2111/ 07	एटी: मंत्रीपारा, डाक फकीरा बाद, वाया टाकुर पटना, जिला केंद्रपाड़ा, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/07	21.01.84
1216	लोबो नेरिसा डोमिनिका रोज़मेरी	महाएसवीसी/ 7530/	सलेसियाना, फ्लैट न. 1, प्लॉट न.167, नथालन पारेख मार्ग, वडाला, मुम्बई- 400031, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 04	25.10.80
1217	लोह हरिभाई मेघराजभाई	गुजएसवीसी/ 2727/06	एटी/डाक वगाडा (जबल पुर), तालुक पालनपुर, जिला बी.के., गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एसडीएयू/06	01.06.80
1218	लोकेंद्र सिंह यादव, पुत्र श्री कृष्ण कुमार यादव	यूपीवीसी/ 4556/07	ग्राम एवं डाक खाखा किस, डाक काखाखिस, जालौन, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /सीएसकेकेवीवी /06	06.09.80

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1219	लोखंडे पंकज रमेशराव	महाएसवीसी / 7649 /	पाटिल नगर, बस स्टैंड के निकट, बासमतनगर, जिला हिंगोली-431512, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 06	28.03.83
1220	लोखंडे स्वप्नजा जगन्नाथ	महाएसवीसी / 7125 /	लोखंडे नर्सिंग होम, नगर खन्ना, जामनेर, तालुक जामनेर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 04	04.05.82
1221	लोखंडे तानाजी पांडुरंग	महाएसवीसी / 7369 /	एटी ढोंडेवाडी, डाक जैनवाडी, तालुक पंढारपुर, जिला सोलापुर- 413304, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 05	01.06.81
1222	लोखिनी सम्पत्ति, पुत्र श्री मुथइयाह	एपीएसवीसी / 4542 / 07	म.न. 5-11-537, श्रीनगर कॉलोनी, विद्यारण्यपुरी, नईम नगर, हनमकोंड, वारंगल- 09, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एपीएयू/ 91	14.05.63
1223	लॉडे दिनोद विलास	महाएसवीसी / 7477 /	"कमान कुंज", 698 / 97, 98, बी-वार्ड, आइसोलेशन अस्पताल रोड, तालुक करवीर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 05	13.04.83
1224	लोनकर विजय सिंह रामसिंह	महाएसवीसी / 7203 /	ए/पी भलवानी, तालुक पंढारपुर, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 04	14.01.82
1225	लवकुश गुप्ता, पुत्र श्री एस.के. गुप्ता	यूपीवीसी / 4446 / 06	मोहल गंज, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएटी/ 06	25.01.82
1226	एम. अमरनाथ, पुत्र श्री ए. मुथुकृष्णन	टीएनवीसी / 3771 / 06	13, 'अमूल्य', मे फलावर गार्डन- 111 क्रॉस, गोरीमेडु, सलेम, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 01	27.07.76
1227	एम. अन्ना आनंद, पुत्र श्री एम. मुरुगइयन	टीएनवीसी / 3585 / 06	2/2-ए, कडियार स्ट्रीट, अम्बालापट्टूर उत्तरी, डाक धंजावूर, जिला- 614626, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 99	11.05.74
1228	एम. अर्थनारी ईश्वरन, पुत्र श्री के. मरप्पन	टीएनवीसी / 2629 / 05	13/2, मेन रोड, एल. कल्लीपट्टी, गोबीचेट्टी पलायम, इरोडे- 638452	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 00	03.07.73

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1229	एम. अशोक कुमार, पुत्र श्री एस. मनिक्कम	टीएनवीसी/ 0955/05	141/2, अम्मान कोइल स्ट्रीट, पिलाकुरिची डाक, सेंदुरई तालुक, पेराम्बलूर जिला 621806	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/01	03.04.77
1230	एम. भास्करन, पुत्र श्री सी. महादेवन पिल्लै	टीएनवीसी/ 1300/05	3/119, मिडल स्ट्रीट, थिरुनमूर डाक, अरियालूर तालुक, पेराम्बलूर जिला 621715	बीवीएससी/टीएन एयू/88	01.03.66
1231	एम. चंद्रन, पुत्र श्री के. मुरुगन	टीएनवीसी/ 3567/06	एच/4, जमाल नगर, रामापुरम, चेन्नई- 600089, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू /71	17.03.39
1232	एम. चेल्ला पंडियान, पुत्र श्री एम. महालिगम	टीएनवीसी/ 3118/05	13, एम. एल. पिल्लै नगर, पलायमकोट्टई, तिरुनेलवेली 627002	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/92	07.03.69
1233	एम. गीथा, पुत्र श्री एम. मरप्पन	टीएनवीसी/ 2203/05	75 बी/1, तिरुचेंगोडे रोड, नमक्कल 637001	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/00	23.05.76
1234	एम. ज्ञानसेखरन, पुत्र श्री मुरुगन	टीएनवीसी/ 3639/06	3/17, कोविल स्ट्रीट, लालीगाम डाक, लालीगाम, धर्मापुरी-636804, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/06	30.07.81
1235	एम. गोकुल कृष्णन, पुत्र श्री सी. मुरुधामुथु	टीएनवीसी/ 1373/05	न. 61, मन्नापा स्ट्रीट, कोटदूर, चेन्नई- 600085	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/00	05.08.75
1236	एम. हमीद अली, पुत्र श्री पी. मौहम्मद फारुक	टीएनवीसी/ 2369/05	57, मस्जिद गली, थिट्टूविलई, भूथपोडी डाक, कन्याकुमारी जिला	बीवीएससी/टीएन एयू/88	02.06.66
1237	एम. हरिभास्कर, पुत्र श्री एस. मदुरई मुथु	टीएनवीसी/ 3781/07	82-ए/22-ए 1, वल्लूर नगर- II स्ट्रीट, अन्नथानापट्टी, सलेम- 636002, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/99	03.07.74
1238	एम. अइयू, पुत्र श्री मथागौडेर	टीएनवीसी/ 2876/05	चिन्ना कुन्नूर ग्राम एवं डाक, वाया देनाडकोम्बई, थाना नीलगिरि- 643206	बीवीएससी/टीएन एयू/79	06.04.56
1239	एम. जेराल्ड महेश कुमार, पुत्र श्री वी.मरिया सवारीमुथु	टीएनवीसी/ 0836/05	5/181ए, सवरियार पुरम डाक, असीरक्था पुरम वाया, ट्यूटीकोरिन स्ट्रीट, पिन 628613	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/98	16.07.73

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1240	एम. जयमुरुगन, पुत्र श्री ए. मूक्कन	टीएनवीसी / 3788 / 07	मास्टर रामुनी नगर, तालुक कल्लूपट्टी, मदुरई- 625702, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएए नयूवीएएस / 99	05.06.74
1241	एम. जॉन एडविन, पुत्र श्री सी. मसीलामनि	टीएनवीसी / 2406 / 05	डब्ल्यू 548, VI स्ट्रीट, अन्ना नगर पश्चिम एक्सटेंशन, चेन्नई 600101	बीवीएससी / मद्रासवि / 67	17.11.43
1242	एम. जुगोल मैती, पुत्र श्री एम. टोमचोऊ मैती	डीवीसी / 0683 / 07	सी-41, इंदिरा एन्कलेव, नेब सराय, नई दिल्ली- 68	बीवीएससीएंडएएच / आईजीके वीवी / 03	01.02.74
1243	एम. कोनिमोजियान, पुत्र श्री पी.के. मनिक्कम	टीएनवीसी / 1321 / 05	पथापुडुर, पट्टुकोनमपट्टी डाक, पापीरेड्डीपट्टी तालुक, घर्मापुरी जिला 636905	बीवीएससीएंडएएच / एमपीकेवीपी / 98	25.05.75
1244	एम. करुणाकरन, पुत्र श्री एम.ए. मुथुपलानी	टीएनवीसी / 3759 / 06	246, असिरियार नगर, कुलियमपलायम डाक, गोबीचेट्टीपलायम, इरोडे, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएए नयूवीएएस / 98	21.03.75
1245	एम. लथा माला प्रियदर्शिनी, पुत्र श्री पी. मुरुगइय्यन	टीएनवीसी / 1520 / 05	न. सी-3, स्वामीनाथन स्ट्रीट, सत्या नगर, इक्काडुथंगल, चेन्नई 600097	बीवीएससी / टीएए नयूवीएएस / 99	11.08.74
1246	एम. मधनमोहन, पुत्र श्री वी. मुथुकृष्णन	टीएनवीसी / 3582 / 06	कामाची अम्मन, कोइल स्ट्रीट, आर. पधुपलायम, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएए नयूवीएएस / 01	03.06.78
1247	एम. महेशकृष्णन, पुत्र श्री एस. मरुदप्पन	टीएनवीसी / 2681 / 05	190, ध्यागी कुमारन स्ट्रीट, कोयम्बतूर 641001	बीवीएससी / टीएए एयू / 85	19.06.61
1248	एम. मोहन कुमार, पुत्र श्री आर.एस. मनि	टीएनवीसी / 2534 / 05	136 / 2, VII विनय नगर कोइल स्ट्रीट, मूलापलायम, इरोडे 638002	बीवीएससी / टीएए एयू / 85	05.03.56
1249	एम. मूर्ति, पुत्र श्री के. मोहन	टीएनवीसी / 1550 / 05	नीलियन कट्टू पुधुर, सिलुवमपट्टी डाक, नल्ली पलायम वाया, नमक्कल जिला, पिन- 637003	बीवीएससी / टीएए नयूवीएएस / 93	15.07.69

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1250	एम. मुस्ताक अली, पुत्र श्री एम. मकदूम अली	टीएनवीसी / 3594 / 06	आसिरियार नगर, कामाची अम्मन कोइल स्ट्रीट, परांगीपेट्टई—608502, चिदाम्बरम तालुक, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन एयू / 76	15.08.49
1251	एम. नागालिंगम, पुत्र श्री एस. मोहन दौस	टीएनवीसी / 3615 / 06	24, चिन्ना पालीवासल स्ट्रीट, विरुधुनगर— 626001, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन नयूवीएस / 98	21.04.75
1252	एम. पलानीसामी, पुत्र श्री आर. महाकृष्णन	टीएनवीसी / 1157 / 05	पूसावी कडु, पट्टनम डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला 637408	बीवीएससी / टीएन नयूवीएस / 97	26.07.74
1253	एम. पेरियासामी, पुत्र श्री मुथुसामी गौंडेर	टीएनवीसी / 2498 / 05	थेक्कालूर, अर्चलापुर डाक, इरोडे जिला 638101	बीवीएससी / मद्रासविदि / 71	09.06.46
1254	एम. पेरियासामी, पुत्र श्री वी. मुथुसामी	टीएनवीसी / 3627 / 06	3/32, मुथुमलई निवास, वेप्पूर डाक, कुन्नम तालुक, पेराम्बलूर—621717, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन नयूवीएस / 06	30.07.80
1255	एम. प्रत्व्यूशा, पुत्री एम. सोमी रेड्डी	एपीएसवीसी / 4492 / 06	म.न.3-9-357, सरस्वती नगर, कॉलोनी, पुराना चैक पोस्ट, एल. बी. नगर, हैदराबाद—72, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	03.06.82
1256	एम. रामाचंद्रन, पुत्र श्री आर. मासीलमानी	टीएनवीसी / 0860 / 05	दानिशपेट डाक, ओमालूर तालुक, सलेम जिला, पिन—636354	बीवीएससी / टीएन नयूवीएस / 96	19.07.72
1257	एम. ससीकुमार, पुत्र श्री के. मनि	टीएनवीसी / 2998 / 05	3/8-ए, सरस्वती इल्लम, कोडीचेट्टीपट्टी, डाक पेरियापट्टी, नमक्कल जिला 637001	बीवीएससी / टीएन नयूवीएस / 01	20.06.77
1258	एम. सेखर, पुत्र श्री वी. मुथुकृष्णन	टीएनवीसी / 1427 / 05	133, राधा नगर, मेन रोड, क्रोमपेट, चेन्नई 600044	बीवीएससी / टीएन एयू / 82	20.02.57
1259	एम. सेत्वाराजू, पुत्र श्री पी. मनि	टीएनवीसी / 2410 / 05	38/ए 1, मेन रोड, पोथनूर (डाक), नमक्कल जिला 638181	बीवीएससी / टीएन नयूवीएस / 92	02.04.69

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1260	एम. सैथिलकुमार, पुत्र श्री के. मुथुसामी	टीएनवीसी / 0843 / 05	विलानकुट्टयूर, पटलूर डाक, ओलागडम वाया, इरोडे जिला 638314	बीवीएससी / टीए न्यूवीएस / 00	02.06.75
1261	एम. शानमुगम, पुत्र श्री एस. मुरुगेशन	टीएनवीसी / 0795 / 05	न. 278, एन.जी.जी.ओ. नगर, चेंगलपट्टू 603001	बीवीएससी / टीए न्यूवीएस / 00	28.10.77
1262	एम. शोबना, पुत्र श्री मुनियांडी	टीएनवीसी / 3765 / 06	1 / 533-सी4, वसंथनगर, ईस्ट स्ट्रीट, वेलीपट्टिनम, रामराधपुरम, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीए न्यूवीएस / 00	31.03.77
1263	एम. श्रीदेवी, पुत्री श्री लोगावसीकरन	टीएनवीसी / 3658 / 06	बी-1, 10वीं स्ट्रीट, पेरियार नगर, चेन्नई- 600082, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीए न्यूवीएस / 97	19.05.74
1264	एम. सुब्रमण्यम, पुत्र श्री पी. माथिलवाहनन	टीएनवीसी / 3605 / 06	एम-11-36, टीएनएचबी योनविजा नगर, त्रिची रोड, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीए एयू / 80	01.03.55
1265	एम. सुब्रमनियन, पुत्र श्री एम. मनिककम	टीएनवीसी / 1678 / 05	10, नॉर्थ स्ट्रीट, गंगई कौंडा चोज़ापुरम डाक, जयकौंडा कोज़ापुरम तालुक, पेराम्बलूर जिला 612901	बीवीएससी / टीए न्यूवीएस / 93	05.04.69
1266	एम. सुंदरा विनायकी, पुत्र श्री आर. मदासामी	टीएनवीसी / 1137 / 05	194-0, के.टी.सी. के सामने, पलायमकौंटर्डई, तिरुनेलवेली जिला, पिन- 627002	बीवीएससी / टीए न्यूवीएस / 99	01.06.74
1267	एम. सुरेश, पुत्र श्री के.एस. मणि	टीएनवीसी / 3777 / 07	वैलायीथोट्टम, काकुरिची डाक, बेलुकुरिची वाया, नमक्कल-637402, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीए न्यूवीएस / 01	05.04.77
1268	एम. सुधा, पुत्र श्री एम. मूर्ति	टीएनवीसी / 0949 / 05	1 / 14, सौराष्ट्र स्ट्रीट, सुधा इल्लम, रामनड 623501, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीए न्यूवीएस / 01	19.04.77
1269	एम. वनजा रानी, पुत्र श्री एस. आनंदन	टीएनवीसी / 3796 / 07	द्वारा टी. सोमू, पश्चिम स्ट्रीट, इलुपुर डाक, थरंगमबाडी, नागाई जिला- 609308, तमिलनाडु	बीवीएससी एंड एच / एपीयू / 06	25.07.83



क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1270	एम. वेलुमुरुगन, पुत्र श्री ए. मुरुगन	टीएनवीसी / 3058 / 05	न.1, पिलयार कोइल स्ट्रीट, अन्नासागरम डाक, धर्मापुरी जिला 636704	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 01	16.03.77
1271	एम. विजयाभारती, पुत्र श्री एम. मंगल नाथन	टीएनवीसी / 2440 / 05	11-ए, पट्टुनूलकारा स्ट्रीट, मंगलभावनम, रामनाथपुरम-623501	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 99	16.07.74
1272	एम.ए. रशीद, पुत्र श्री एम. ए. रहमान	टीएनवीसी / 3637 / 06	फ्लैट जी1, सलमास कॉर्नर कैसल 11 / 12 जकसारिया कॉलोनी, 4 स्ट्रीट, चेन्नई -94	बीवीएससी / टीए एयू / 82	06.09.56
1273	एम. बाबू, पुत्र श्री सी. मन्नु मुदलियार	टीएनवीसी / 1846 / 05	6, कार्मल गार्डन, रामलिंगा नगर, वेस्ट एक्स., तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीए एयू / 79	5.04.56
1274	एम.डी. युवराजन, पुत्र श्री एम. दीनदयालन	टीएनवीसी / 2856 / 05	पुराना न. 31, नया न.24, श्रवमन स्ट्रीट, टी. नगर, चेन्नई 600017	बीवीएससी / मद्रासविधि / 67	21.12.38
1275	एम.जी. जयधंगराज, पुत्र श्री गनेशन	टीएनवीसी / 0773 / 05	4 वी, न. 50ए, गिरिजा अपार्टमेंट, 100 फीट रोड, अरुम्बक्कम, चेन्नई 600106	बीवीएससी / टीए एयू / 83	11.02.60
1276	एम. हरि, पुत्र श्री एम. तुलसीदास	टीएनवीसी / 3558 / 06	40, पांडेश्वरम (वाया), आईएफ अवाडी, चेन्नई- 600055, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीए एयू / 76	16.07.48
1277	एम.जे. राजा, पुत्र श्री जी. मुथुगन	टीएनवीसी / 2251 / 05	न.6, इल्लापाठिनी स्ट्रीट, शोलिगर रोड, पल्लीपेट, तिरुवल्लूर जिला- 631209	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 00	05.08.74
1278	एम.के. अरुणा, पुत्र श्री जी. कन्नामनि	टीएनवीसी / 3029 / 05	237, टीएनएचबी, कावेरीपट्टिनम, कृष्णागिरि	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 01	12.07.77
1279	एम. कलामेगम, पुत्र श्री मुथुकुमारसामी	पॉण्डीएसवीसी / 2 89 / 06	न. 34, विनयागर, कोइल स्ट्रीट, थेलासपेट, काथिरकमम डाक, पॉंडीचेरी-9	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डीविधि / 05	16.10.80

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1280	एम. काथिरचेलवन, पुत्र श्री ई. मनिक्कम	टीएनवीसी / 2966 / 05	इरावुकईकडु, मेलवजाकराई डाक, थिरुक्कुवलई तालुक, नागपट्टिनम जिला, पिन-610204	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 94	04.04.71
1281	एम.एन. सुंदर रमन, पुत्र श्री एम.वी.एन. राघवन	टीएनवीसी / 2153 / 05	20, देवादीस स्ट्रीट, वेदाचलम नगर, चेंगलपट्टूर, 603001, कांचीपुरम जिला	बीवीएससी / टीएन एयू / 79	18.06.56
1282	एम. नाथप्पन, पुत्र श्री एन. मुथुसामी	टीएनवीसी / 2097 / 05	22, ईस्ट कार स्ट्रीट, तुरईयूर, त्रिची जिला 621010, तमिलनाडु	बीवीएससी / मद्रासविधि / 73	29.09.47
1283	एम.पी. राजेंद्रन, पुत्र श्री एम. पेरिया कुरुप्पन	टीएनवीसी / 2703 / 05	601, सिक्स्थ स्ट्रीट, 'डी' सेक्टर, 'डब्ल्यू' ब्लॉक, अन्ना नगर वेस्टर्न एक्सटेंशन, चेन्नई 600101	बीवीएससी / मद्रासविधि / 64	25.12.42
1284	एम. पलानीवेल, पुत्र श्री एम. मुरुगन	टीएनवीसी / 0019 / 02	इंद्रा स्ट्रीट, कनगी कोइल रोड, पेरुंडुराई, इरोडे जिला 638052, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 02	11.06.76
1285	एम.एस. सेल्वारासू, पुत्र श्री एम. सेलप्पन	टीएनवीसी / 2386 / 05	एन.जी. पुडुर, एस.कराडु डाक, नमक्कल तालुक व जिला, पिन-637001	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 00	01.06.76
1286	एम. सेल्वाराज, पुत्र श्री ए. मुथुसामी	टीएनवीसी / 1351 / 05	14, नेताजी नगर, नन्जुंदापुरम रोड, कोयम्बतूर 641036	बीवीएससी / टीएन एयू / 77	27.05.53
1287	एम. सिवरामकृष्णन, पुत्र श्री सी. महादेवन	टीएनवीसी / 2101 / 05	6, तेलुंगार स्ट्रीट, पुलियान गुडी 627855, जिला तिरुनेलवेली, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 00	13.02.75
1288	एम. थंगापडियान, पुत्र श्री टी. मरुधई	टीएनवीसी / 2278 / 05	पेथासमुथिरम, थोट्टापडी डाक, विल्लुपुरम जिला 606301	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 00	09.07.75
1289	एम. वेनी, पुत्र श्री वी. थावचंद्र बाबू	टीएनवीसी / 2062 / 05	101, आईवीपीएम क्वार्टर्स, रानीपेट, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/एंडएच / बीसीके वीवी / 90	30.12.67
1290	मदन मुरारी पटेल, पुत्र श्री बृज लाल पटेल	यूपीवीसी / 4487 / 06	299 / 7314, स्टेनली रोड, कमला नगर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	बीवीएससी/एंडएच / सीएसएयूएंडट / 06	17.05.75

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1291	मादेपल्ली विद्या, पुत्र श्री एम. सुभाष राव	एपीएसवीसी / 4432 / 06	म.न. 20-93, जवाहर रोड, मानचेरियल, आदिलाबाद जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	19.03.79
1292	माधमवर सदानंद लक्ष्मणराव	महाएसवीसी / 7563 /	द्वारा एन.बी. चिंतलवार, डीआईसी, शिवाजी नगर, नांदेड- 431602, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएयू / 01	25.05.73
1293	मदनालवर विनायक साईनाथ	महाएसवीसी / 7654 /	द्वारा मदनालवर साईनाथ, डाकघर के निकट, रेलवे स्टेशन रोड, धर्माबाद, जिला नांदेड- 431809, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	07.03.84
1294	मदुपल्ली रवि कुमार, पुत्र श्री सूर्य प्रकाश राव	एपीएसवीसी / 4526 / 06	जलीमुडी ग्राम, गन्नावरम डाक, मधीरा एम, खम्मम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	29.05.81
1295	मफत जुनैद मुस्ताफा	गुजएसवीसी / 2697 / 06	3, नया अमन पार्क, चाणक्यपुरी सोसायटी के निकट, पालनपुर ब्लॉक, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसडीएयू / 06	08.08.84
1296	मगदूम विनोद विश्वनाथ	महाएसवीसी / 7514 /	'राम भाया' निवास, कडानी रोड, चिखाली, तालुक कागल, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	10.01.83
1297	महादेव शर्मा बी.एम., पुत्र श्री मरुलसिदइयाह बी.वी.	कर्नाएसवीसी / 38 51 / 06	बगावली-577547, तारीकेरे तालुक, चिकमगलूर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	27.05.84
1298	महादिक पराग प्रभाकर	महाएसवीसी / 7690 /	म.न. 4148, किला रत्नगिरि, रत्नगिरि- 415612, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	27.10.80
1299	महाजन अतुल चंद्रशेखर	महाएसवीसी / 7683 /	बिल्डिंग न. बी-15, कमरा न. 10, मुरबाद रोड, कल्याण (प.), जिला धाणे- 421301, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	18.11.83
1300	महाजन निकुंज राजेंद्र	महाएसवीसी / 7356 /	'प्रभुकुंज', राजदे प्लॉट, तालुक अकोट, जिला अकोला-444101, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	17.02.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1301	महाले गजेंद्र पंढारी	महाएसवीसी / 7149 /	एटी डीडरगांव, डाक तिनखेडा, तालुक नरखेड, जिला नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएफएसयू / 04	06.11.81
1302	महामुने शिल्पा शंकर	महाएसवीसी / 7550 /	नरशिवा कृपा, पुराना पदगांव रोड, परभनी- 431402, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएफएसयू / 03	12.06.81
1303	महावीर सिंह तरियल (कर्नल), पुत्र स्व. श्री चंदन सिंह तरियल	यूवीसी / 233 / 06	14-सी, ग्रीन पार्क, बल्लूपुर चौक, देहरादून, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / यूपीएयू / 66	24.07.45
1304	महेंद्र कुमार, पुत्र श्री रामदयाल मौर्या	यूपीवीसी / 4512 / 06	ग्राम नीलकंठ सरायपो कवाही अनजानपुर, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 01	25.05.77
1305	महेंद्र सिंह गुर्जर, पुत्र श्री हरि सिंह	राजएसवीसी / 3248 / 06	मोती नगर, दिल्ली फाटक के निकट, बांदी कुल, दौसा, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 06	11.04.80
1306	महेंद्र तिवारी, पुत्र श्री एस. के. तिवारी	यूपीवीसी / 4476 / 06	बी-44, नेहरू विहार, विकास नगर, कल्याणपुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएंडट / 06	28.06.82
1307	महेश दत्त शांडले, पुत्र श्री शंकर दत्त	डीवीसी / 0599 / 02	ए-35, डीजीएस अपार्ट., सेक्टर-22, द्वारका, नई दिल्ली 110045	बीवीएससीएंडएच / पीएयू / 65	22.07.40
1308	महेश कुमार बावनकर, पुत्र श्री लिखीराम	एमपीएसवीसी / 2 354 / 06	ग्राम सुवाही, डाक धनसुआ, बालाघाट, म.प्र.- 481001	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीटी / 04	09.10.78
1309	महेश कुमार, पुत्र श्री महेंद्र कुमार	एचवीसी / 1937 /	म.न. 51 / 18 / 11, तिलक बाजार, शर्मा गली, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 06	30.11.81
1310	महेश आर.	केरलएसवीसी / 3 163 / 06	रेवथी, कन्निमेल-ए, किलकोलूर डाक, कोल्लम- 691004, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	23.06.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1311	महेश सिंह, पुत्र श्री हरि दास सिसोदिया	एमपीएसवीसी/2 396/06	आनंद नगर, उत्तमपुरा, मारैना, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/0 6	04.06.82
1312	महेशा एन., पुत्र श्री निंजप्पा सी.	कर्नाएसवीसी/39 46/06	दूदय्यानागोरे- 572119, हंडनकेरे होबली, सी.एन. हल्ली तालुक, तुमकुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएएफएसयू /06	04.07.83
1313	महेश्वर परिदा, पुत्र श्री अनंत प्रसाद परिदा	ओवीसी/2068/ 06	एटी पनिसौनली, डाक गोबिंदपुर, जिला बालासौर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/05	14.08.79
1314	महिदा हिमांशु कालूभाई	गुजएसवीसी/ 2698/06	ए/6, शिल्प टेनामेंट, न्यू गायत्री स्कूल के निकट, साबरमती, 'डी' केबिन, अहमदाबाद-19, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एसडीएयू/06	01.07.83
1315	महिपाल चौबे, पुत्र श्री एम. पी. चौबे	यूपीवीसी/ 4457/06	न. 8/210, डी-2, हनुमान नगर, कॉलोनी सुंदरपुर, नेवादा, वाराणसी, उत्तरप्रदेश	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएटी/ 06	21.12.81
1316	महाजन विशाल मिलिंदराव	महाएसवीसी/ 7135/	भवानी नगर, बस स्टैंड के निकट, कंधार, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएएफएसयू/ 04	25.09.81
1317	महला भावेश कुमार लालजीभाई	गुजएसवीसी/ 2699/06	एटी डाक करंजवेरी, तालुक धरमपुर, जिला वलसाड, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एसडीएयू/06	26.02.84
1318	महुया डे, पुत्री श्री जनार्दन डे	डब्ल्यूबीएसवीसी /3252/06	ग्राम निश्चिंदीपुर, डाक जयरामबती, जिला बंकुरा, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच /डब्ल्यूबीयूएफएस /06	25.04.82
1319	मइंदे उमेश फांडुरंग	महाएसवीसी/ 7500/	एटी यावली, डाक आशोगांव देवी, बाबुलगांव, जिला यवतमाल 445001, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएएफएसयू/ 05	21.04.82
1320	मलय साहा, पुत्र श्री अमूल्य साहा	डब्ल्यूबीएसवीसी /3270/06	ग्राम मिलनपल्ली, डाक एवं थाना इस्लामपुर, जिला यू/दीनाजपुर- 733202, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच /डब्ल्यूबीयूएफएस /06	17.09.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1321	मालधुरे चंचल अरविंद	महाएसवीसी / 7601 /	33, प्ररुब्य सूरज कॉलोनी, वी. एम.वी.रोड, कठोरा नाका, अमरावती-444604, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	28.02.84
1322	मालधुरे नितीन अरविंद	महाएसवीसी / 7164 /	33, सूरज कॉलोनी, वी.एम.वी. रोड, कठोरा नाका, अमरावती, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	09.08.81
1323	मराली हेमाली विजय	महाएसवीसी / 7208 /	ए/पी दहानू अगार, तालुक दहानू, जिला थाणे, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	30.04.82
1324	मल्लिकार्जुन जी. एच., पुत्र श्री हनुमंथप्पा एच.बी.	कर्नाएसवीसी / 39 26 / 06	ईसामुद्रा- 577519, चित्रदुर्गा तालुक एवं जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	12.04.84
1325	मालसुरे सुमेधा राम	महाएसवीसी / 7171 /	द्वारा डॉ. आर.एस. मालसुरे, वेट. पॉलीक्लिनिक क्वा., तहसील कार्यालय के निकट, अमरावती, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	20.01.82
1326	ममता हेमब्रान, पुत्री श्री भाजू हेमब्रान	ओवीसी / 2099 / 07	एटी रायडांडिया, डाक उदाला, जिला मयूरभंज, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 07	05.07.82
1327	माने देवानंद उत्तमराव	महाएसवीसी / 7552 /	द्वारा:माधवराव पाटिल, टोडकर निवास के निकट, विकास नगर, देगलूर रोड, उदगीर, तालुक उदगीर, जिला लातूर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	01.06.81
1328	माने ज्योति बाबरुवन	महाएसवीसी / 7537 /	बैंक कॉलोनी, ब्लॉक न. 76, नीलंगा, तालुक तिलंगा, जिला लातूर- 413521, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	20.05.81
1329	माने प्रशांत माधवराज	महाएसवीसी / 7727 /	एटी सोनगांव, तालुक राहुरी, जिला अहमदनगर-413711, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	27.06.83
1330	मनीश पुरोहित, पुत्र श्री अरुण कुमार	राजएसवीसी / 3251 / 06	16-ई-19, चोपासानी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 06	24.08.78

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1331	मनीश वर्मा, पुत्र श्री सैतावीर सिंह	यूपीवीसी / 4495 / 06	17ए/बी, बाल विहार कॉलोनी, फरीदी नगर, पिकनिक स्पॉट रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएंडटी / 06	13.02.81
1332	मानिक पंवार, पुत्र श्री महावीर सिंह	एचवीसी / 1909 /	ग्राम एवं डाक बाली कुतुबपुर, थाना गन्नौर, जिला सोनीपत, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 06	06.11.84
1333	मनीश वस्थी, पुत्र श्री एस. सी. अवस्थी	यूपीवीसी / 4432 / 06	एच-320, सत्यम विहार, कल्याणपुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीएयूएंडटी / 06	16.02.83
1334	मंजारे प्रमोद तुकाराम	महाएसवीसी / 7665 /	द्वारा री मंजारे तुकाराम मनोहर, नायकवाडी प्लॉट, गांधीनगर, परांदा रोड, बारशी, तालुक बारशी, जिला सोलापुर 413411, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	15.07.83
1335	मंजुला वी.	केरलएसवीसी / 3 128 / 06	विलियमट्टाहिल हाउस, कानाकारी डाक, कोट्टायम-686632, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	09.05.83
1336	मंजुनाथ के.पी., पुत्र श्री पापन्ना	कर्नाएसवीसी / 38 84 / 06	4, नीरुभावी, केमपन्ना लेआउट, हेब्बल, बंगलौर- 560024, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	20.07.83
1337	मनमोहन सिंह नरुला, पुत्र श्री हवेला सिंह	पीबीएसवीसी / 388 / 07	म.न. 3505, गली न. 3, आजाद नगर, पुतलीगढ़, अमृतसर- 143001, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / पीयू / 58	15.04.38
1338	मनोज कुमार द्विवेदी, पुत्र श्री श्रीनाथ द्विवेदी	कर्नाएसवीसी / 39 23 / 06	13, वीसीएच, हेब्बल, बंगलौर- 560024, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	19.09.74
1339	मनोज कुमार मंदू, पुत्र श्री श्री नित्यानंद सिंह	कर्नाएसवीसी / 38 64 / 06	पशुचिकित्सा कॉलेज, बिदर, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 05	04.06.77
1340	मनोज कुमार मीना, पुत्र श्री कल्याण साहल	राजएसवीसी / 3244 / 06	3 केवी 270, शिवाजी पार्क, अलवर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 06	15.07.80

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1341	मनोज कुमार सिंह, पुत्र श्री सोवदार सिंह	यूपीवीसी/ 4484/06	एफ-696, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएंडटी /06	30.06.81
1342	मनोज कुमार त्रिपाठी, पुत्र श्री बी.बी. त्रिपाठी	यूपीवीसी/ 4449/06	ग्राम रुपनपुर, डाक मोलनपुर, महाराजगंज, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीएयूएंडटी /06	01.04.79
1343	मनोज सारंगी, पुत्र श्री बीरा किशोर सारंगी	ओवीसी/2128/ 07	एटी अलीकाना, वाया बालीकुडा, जिला जगतसिंघपुर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी/07	01.07.82
1344	मनोरंजन मोहपात्रा, पुत्र श्री अखिल मोहपात्रा	ओवीसी/2123/ 07	एटी/ डाक राज बरहामपुर, जिला बालासौर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी/07	15.06.82
1345	मनप्रीत अरोड़ा, पुत्री स्व. श्री हरपाल सिंह अरोड़ा	एमपीएसवीसी/2 405/06	एमआईजी-4, गुडलक अपार्ट., हातीताल गुरुद्वारे के निकट, जबलपुर, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी/0 4	01.08.78
1346	मनु रवीन्द्रन	केरलएसवीसी/3 115/06	पुकाडियिल हाउस, थजाथंगडी डाक, कोट्टायम- 686005, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू/06	01.01.82
1347	मनु सेखर	केरलएसवीसी/3 202/06	सुमानु टी.सी. 3/1293, टीकेडी रोड, पट्टोम डाक, त्रिवेन्द्रम- 695004, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू/06	15.02.81
1348	मरिया राजशेखर रेड्डी पुत्र श्री थोमस रेड्डी येरुवा	एपीएसवीसी/ 4530/06	थल्लाचेरुवु (डाक), अचमपेट (एम), गुदूर जिला- 522409, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू/06	20.08.80
1349	मरियम्मा थॉमस	केरलएसवीसी/3 183/06	इडाकट्टु, कावुम्बा गाम डाक, थेक्केथुकावला वाया, कोट्टायम- 686519, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू/06	20.05.82
1350	मेरी बिलना चंडी	केरलएसवीसी/3 110/06	पुल्लिकामलायिल हाउस, वडावथूर डाक, कोट्टायम- 686010, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू/06	29.10.81
1351	मस्तानबी शेख, पुत्री श्री मौलाली	एपीएसवीसी/ 4463/06	टेलर्स कॉलोनी, कोटापेट चिराला, प्रकासम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू/06	15.03.80



क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1352	माटे मंगेश सबाजी	महाएसवीसी / 7467 /	ए/पी निमगांव (सावा), तालुक जुन्नर, जिला पुणे, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू/ 05	03.06.82
1353	मधापति संतोष सदाशिव	महाएसवीसी / 7287 /	दसारा चौक, ए/पी हलकरनी, तालु. गांधीगलाज, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू/ 04	14.03.81
1354	मैथ्यू सी. जॉन, पुत्र श्री सी.आई जॉन	टीएनवीसी / 2342 / 05	2 / 149, हबीबुल्लाह रोड, टी. नगर, चेन्नई 600017	बीवीएससी / मद्रासविधि / 64	27.05.41
1355	मथुरा प्रसाद गौतम, पुत्र श्री के.एन.गौतम	एमपीएसवीसी / 2 421 / 07	नूतन कॉलोनी, सिधी, म.प्र.— 486661	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 8 3	01.07.62
1356	मवादिया सुरेश वाघजीमाई	गुजएसवीसी / 2745 / 06	पुत्र श्री मवादिया, अम्बेडकर नगर, माधवपुर (घेड), जिला पोरबंदर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 06	05.05.86
1357	मयूर वार्धाय, पुत्र श्री ए. सी. वार्धाय	एचपीएसवीसी / 7 63 / 06	म.न.9, टाइप 4, टीघर्स कॉलोनी, होलता, सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेकेवीवी / 06	10.01.83
1358	मौह. हबीबुल्लाह खान, पुत्र श्री एस. महबूब खान	टीएनवीसी / 1703 / 05	671, अन्ना नगर पश्चिम, चेन्नई 600101	बीवीएससी / मद्रासविधि / 57	03.02.35
1359	मौह. तौकीर आलम, पुत्र मौह. नजीरुद्दीन	बीवीसी / 2711 / 05	ग्राम आजाद नगर, वार्ड न. 14, डाक अरेरिया, धाना अरेरिया— 854311, जिला अरेरिया बिहार	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएस यू / 05	01.01.81
1360	मीनाकेतन पांडा, पुत्र श्री कृष्णा चंद्र पांडा	ओवीसी / 2144 / 07	एटी अयोध्यापुर, डाक रघुनाथपुर, जिला जगतसिंहपुर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 07	14.06.84
1361	मेहता सुधीर अमृतलाल	गुजएसवीसी / 2748 / 06	टैगोर स्ट्रीट न.1, 'गायत्री कृपा', के.पी.स्कूल के निकट, उपलेटा— 360490, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 06	17.07.84
1362	मैधे हेमंत कुमार छगन	महाएसवीसी / 7615 /	नई प्रगति कॉलोनी, श्रीनगर, डाक शेंडूरवापडा, तालुक साकोली, जिला मंडारा— 441802, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	24.04.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अईताएं	जन्मतिथि
1363	मेंडे ललित कुमार रेवाराम	महाएसवीसी / 7628 /	प्रगति कॉलोनी, सेंधूरवफा रोड, सकोली, जिला भंडारा- 441802, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 06	09.02.84
1364	मेंडे मंगेश श्रीकृष्णा	महाएसवीसी / 7609 /	द्वारा श्रीकृष्णा शंकरराव मेंडे, एटी वडगांव, डाक चंडिका पुर, तालुक अकोट, जिला अकोला- 444101, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 06	11.08.83
1365	मेशराम देवेंद्र जनार्दन	महाएसवीसी / 7166 /	रमाबाई अम्बेडकर चौक, विद्या नगर, ब्रह्मपुरी, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 04	13.06.81
1366	मेशराम शरद हीराचंदजी	महाएसवीसी / 7458 /	द्वारा 'आई', प्लॉट न. 88, नया अमर नगर, चिखाली लेआउट, मानेवाडा, नागपुर- 440034, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 05	06.06.81
1367	मेटाकारी दादा विठोबा	महाएसवीसी / 7533 /	ए/पी नंदेश्वर, तालुक मंगलवेधा, जिला सोलापूर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 05	04.04.82
1368	म्हास्के गिरीश दादा	महाएसवीसी / 7524 /	'स्वप्न पूर्ति', 228, शिवाजी नगर, अजिंक्यतारा रोड, गोडोलो, जिला सतारा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 05	26.12.79
1369	म्हास्के त्रिशूल कुमार हरिदास राव	महाएसवीसी / 7494 /	एटी/डाक शिराला, तालुक जिला अमरावती, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 05	23.03.79
1370	म्हात्रे मिलिंद ज्ञानेश	महाएसवीसी / 7293 /	थर्मैक्स एचएसजी सोसा. 13/22, सेक्टर-24/बी, पीसीएनटीडीए निगडी प्राधिकरण, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 02	22.01.80
1371	म्हात्रे सुशांत जयवंत	महाएसवीसी / 7701 /	एटी कनहोबा, डाक वाधव, तालुक पेन, जिला रायगड, 402103, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 06	27.05.84
1372	मिधुन एम.वी.	केरलएसवीसी /3 175 /06	मिधुन निवास, कोल्लाड डाक, कोट्टायम- 686020, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/06	27.04.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1373	मिनाली बेहेरा, पुत्री श्री विपिन बिहारी बेहेरा	ओवीसी/2048/06	एटी सौरी (बाजार), वाया बहुग्राम, डाक महासिंगपुर, जिला कटक, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएएच /ओयूएटी/06	26.06.79
1374	मिनि पी.सी., पुत्र श्री अरुण पवित्रन	कर्नाएसवीसी/3954/07	37, श्री कार्तिक, दूसरा क्रॉस, कृष्णा नगर, शेदटी हल्ली, जलाहल्ली (प.), बंगलौर- 15, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएएच /केयीएफएसयू/05	28.06.78
1375	मीनू कुमार, पुत्री श्री श्यामदेव प्रसाद	बीवीसी/2654/05	ग्राम रामचक, डाक लालबाग, थाना दरभंगा- 846004, जिला दरभंगा, बिहार	बीवीएससीएंडएएच /बीएयू/05	07.09.77
1376	मिराजकर पल्लवी प्रकाश	महाएसवीसी/7519/	मोहप अर्पाटमेंट्स, फ्लैट न.4, जैन मंदिर के निकट, सांगली- 416415, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच /एमएफएसयू/05	26.03.82
1377	मिर्जा अब्दुल रहमान बेग, पुत्र श्री मिर्जा कासिम अली बेग	एपीएसवीसी/4537/06	10-2-318-1/69, फिरोज गांधी नगर, विजय नगर कॉलोनी, हैदराबाद- 500057, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच /एपीएयू/70	01.03.46
1378	मिस्त्री चिराग नटधरलाल	गुजएसवीसी/2749/06	एटी/डाक पिपलाना, तालुक हरजी, जिला पालन- 384240ए गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /एएयू/06	01.06.83
1379	मीता सिन्हा महापात्र, पुत्री श्री बैद्यनाथ महापात्र	डीवीसी/0679/06	कृषि विद्यालय, ब्लॉक-जी, इग्नू, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली- 68	बीवीएससीएंडएएच /डब्ल्यूबीयूएफएस/00	01.08.78
1380	मिट्ठू मीना, पुत्र श्री तारा चंद	राजएसवीसी/32821/06	ग्राम एवं डाक छपाली, झुझुनू, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच /आरएयू/06	20.07.80
1381	मियां खान गफूर खान	महाएसवीसी/7320/	कसाद पुरा, चावलवावडी, कैलाश क्लॉथ स्टोर्स, डाक-अचलपुर सिटी, जिला अमरावती, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच /पीकेवी अकोला/70	01.07.46
1382	मोदी फाल्गुनी दशरथभाई	गुजएसवीसी/2700/06	शक्ति नगर सोसायटी, सुखबाग रोड, पालनपुर (ब्लॉक), गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /एसडीएयू/06	28.01.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1383	मोदी नीरव रमेशभाई	गुजएसवीसी / 2701 / 06	गटाहनाम गेट रोड, पेट्रोल पम्प, पलानपुर (ब्लॉक), गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसडीएयू / 06	28.08.82
1384	मोदवान गजानन वत्सत्रेय	महाएसवीसी / 7137 /	गुरु कृपा निवास, जैन मंदिर, मुदकेड, जिला नांदेड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	31.01.79
1385	मोह. सीबान, पुत्र श्री मिसाबसुददीन अहमद	यूपीवीसी / 4440 / 06	ग्राम एवं डाक नाहरखान सराय, बदायूँ, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीएयूएंडटी / 08	15.08.80
1386	मोहम्मद अय्यूब टाक, पुत्र श्री अहमद अली टाक	राजएसवीसी / 3298 / 06	ग्राम एवं डाक संजू, तहसील देगाना, नागौर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 06	01.09.80
1387	मोहम्मद हसन रहमान खान, पुत्र श्री मोह. महमूद खान	टीएनवीसी / 1390 / 05	8ई, एंडरसन रोड, अयानावरम, चेन्नई 800023	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 97	15.08.72
1388	मोहम्मद रियाज, पुत्र श्री कमलुद्दीन	यूपीसी / 219 / 06	छोटी मस्जिद के निकट, किच्छा जिला, यू.एस. नगर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 06	01.07.81
1389	मोहम्मद इमरान सादिक, पुत्र श्री अब्दुल हफीज जानी	कर्नाएसवीसी / 38 67 / 06	ए.एच. जानी मनियार, फायर स्टेशन के सामने, थिंचोली रोड, सेदाम तालुक, गुलबर्गा जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	05.12.81
1390	मोहम्मद के.पी.	केरलएसवीसी / 3 125 / 06	किजकेपेराम्बथु, त्रिकालगोंडे डाक, मांजेरी, मलप्परम जिला 676127, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	01.06.82
1391	मोहम्मद नयीम, पुत्र श्री एम.ए. जलील	टीएनवीसी / 3619 / 06	डब्ल्यू-86, उत्तरी मेन रोड, अन्ना नगर पश्चिमी एक्स., चेन्नई 600101, तमिलनाडु	बीवीएससी / एमयू / 64	22.04.40
1392	मोहम्मद जहीर, पुत्र श्री मोहम्मद रहीम	कर्नाएसवीसी / 38 31 / 06	2-1-8, कर्नाटक एंटरप्राइजिज, नई कमान के भीतर, बिदर 585401, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	11.01.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1393	मोहन सिंह, पुत्र श्री सज्जन सिंह	एचवीसी/1949 /	ग्राम एवं डाक अकबरपुर, धाना नारनील, उपधाना नंगल चौधरी, जिला मोहिन्दरगढ़, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/89	19.12.74
1394	मोहम्मद अब्दुल माजिद, मोहम्मद अब्दुल रशीद	महाएसवीसी/7669/	कादराबाद प्लॉट, राज नगर डॉ. उमरीकर अस्पताल के सामने, परमनी- 431401, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/06	02.07.81
1395	मोहम्मद जाकिर अली, पुत्र श्री मोहम्मद वजीर अली	एपीएसवीसी/4435/06	म.न. 3-1-188, काकासिया कॉलोनी, हनमकोंडा, वारंगल, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एपीएयू/89	06.07.66
1396	मोहिमा डे, पुत्री श्री मनोज देव	डब्ल्यूबीएसवीसी /3243/06	फ्लैट न. सी-101, 165ए, प्रतीक पल्ली, बोसेपुर, कोलकाता -42, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच /डब्ल्यूबीयूएफएस/स/06	08.04.79
1397	मोहिरे सुनील सुधाकर	महाएसवीसी/7261/	गणेश निवास, ए/पी, सावर्दे, तालुक थिपलून, जिला रत्नागिरि, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/02	28.04.79
1398	मोहित मलिक, पुत्र श्री चंदर प्रकाश मलिक	एचवीसी/1910 /	म.न. 2668, बी-ब्लॉक, अर्बन एस्टेट, जीद, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच /सीसीएसएचएयू/06	27.07.83
1399	मोहिता राय, पुत्री श्री एस. आर. राय	एमपीएसवीसी/2406/07	म.न. 1288/3, जे.पी. नगर, अधरताल, जबलपुर, म.प्र.- 482004	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/06	13.11.80
1400	मोहताज सईद, पुत्र श्री सैयद इदरीश अली दीवान	असम/2240/06	द्वारा एस.आई.ए. दीवान, गणेश नगर, ज्योतिनगर, बामुनीमैदान, गुवाहाटी, असम	बीवीएससीएंडएच /एएयू/06	12.04.81
1401	मोकाल जयश्री भागीनाथ	महाएसवीसी/7513/	किनारा होटल के पीछे, पानी की टंकी के पास, कैम्प न.1, मन्नाड़ रोड, तालुक नंदगांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/05	18.08.82
1402	मोकाल निनाद जगन्नाथ	महाएसवीसी/7482/	मोकाल सर हाउस, पेन-खोपोली रोड, उत्कर्ष नगर, आरटीओ कार्यालय के निकट, तालुक पेन, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/05	11.06.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1403	मोकाते दादासाहेब पांडुरंग	महाएसवीसी / 7189 /	ए/पी ब्राह्मनी, तालुक राहुरी, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	24.03.81
1404	मोनिका देवी यादव, पुत्र श्री बाबू लाल	राजएसवीसी / 3271 / 06	ग्राम यादव नगर, डाक खेलोरा, तहसील रामगढ़, अलवर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 06	12.11.80
1406	मोनिका जैन, पुत्री श्री जय कुमार जैन	डीवीसी / 0623 / 03	सी-8 / 278, यमुना विहार, दिल्ली- 110053	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेबीवी / 9 8	01.03.74
1406	मोरे दत्तात्रेय शंकर	महाएसवीसी / 7285 /	एटी दिवथाना, डाक पेठा, तालुक धिखाली, जिला बुलधाना, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	05.10.80
1407	मोरे शलाका माधवराव	महाएसवीसी / 7553 /	समीर, 24, मेधीखाना रोड, स्नेहनगर, अम्बाजोगई, तालुक अम्बाजोगई, जिला बीड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 03	25.04.79
1408	मोरे विद्या काशीनाथ	महाएसवीसी / 7211 /	ओमबासे बिल्डिंग, कमरा न. 17 / 2, वागले एस्टेट, शांति नगर, थाणे-4, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	22.07.81
1409	मोटे आदिती हनुमंतराव	महाएसवीसी / 7670 /	मोटे निवास, अहमदपुर, तालुक अहमदपुर, जिला लादूर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	14.02.84
1410	मौमिता बिस्वास, पुत्री श्री बैद्यनाथ बिस्वास	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3236 / 06	101, विद्येकानंद सरनी, चम्पाडालीर, बारासत, जिला 24 परगना(उ.), कोलकाता- 124, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	04.11.83
1411	मौसमी बानिक चौधरी, पुत्री श्री अर्जुन बानिक चौधरी	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3219 / 06	कमरा न. 11 / 1, रघुनाथपुर (उत्तर), कोलकाता- 59, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 05	17.12.81
1412	मृगाल मोंडल, पुत्री श्री सुधीर कुमार मोंडल	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3276 / 06	ग्राम एव डाक-थाना बदूरिया, जिला 24 परगना (उ.), पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	01.09.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1413	मृत्युंजय कुमार, पुत्र श्री सच्चिदानंद शर्मा	कर्नाएसवीसी/38 65/06	पशु चिकित्सालय महाविद्यालय, बिदर, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएएच /केवीएफएसयू /06	03.11.79
1414	मृत्युंजय गोस्वामी, पुत्र श्री आर.पी. गोस्वामी	यूपीवीसी/ 4445/06	ग्राम एंव डाक गढा, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच /जीबीपीयूएटी/ 06	12.01.82
1415	मृधुला एस. दाथेन	केरलएसवीसी/3 147/06	पुथेनदुरक्कल हाउस, मन्क्कडु डाक, थोडुपुजा, इडुक्की- 685584, केरल	बीवीएससीएंडएएच /केएयू/06	19.05.82
1416	मृत्युंजय बेहुरा, पुत्र श्री सत्यबादी बेहुरा	ओवीसी/2072/ 06	एटी अदाल, डाक सारंगधरपुर, जिला नयागढ़, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएएच /ओयूएटी/06	03.06.81
1417	मुदे स्मिता वासुदेवराव	महाएसवीसी/ 7331/	आर.एस. बिदकर कॉलेज के सामने, हिंगनघाट, हिंगनघाट, जिला वर्धा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच /एमएफएसयू/ 05	21.06.83
1418	मुदित चंद्रा, पुत्र श्री योगेश चंद्र	पीबीएसवीसी/ 2699/07	वेट. माइक्रोबायोलॉजी विभाग, जीएडीवीएएसयू, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएंडएएच /जीबीपीयूएंडटी /00	26.03.77
1419	मुकेश कुमार गुप्ता, पुत्र श्री ए.एस. गुप्ता	एमपीएसवीसी/2 353/06	एचआईजी-39, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, गुना, म.प्र.	बीवीएससीएंडएएच /जीबीपीयूएंडटी /80	05.04.54
1420	मुकेश सिंह, पुत्र श्री बचन सिंह	यूपीवीसी/ 4475/06	ग्राम दुलापुर, डाक नूरपुर, जिला कौशम्बी, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच /सीएसएयूएंडट 1/06	14.10.81
1421	मुकेश तिवारी, पुत्र श्री सी. एम. तिवारी	एमपीएसवीसी/2 349/06	बी-357, सर्व धर्म कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल- 462042	बीवीएससीएंडएएच /जेएनकेवीवी/0 4	15.12.78
1422	मुला राम कुमार रेड्डी, पुत्र श्री एम. लक्ष्मी रेड्डी	एपीएसवीसी/ 4442/06	म.न. 8/56, एसबीआई रोड, बंगनापल्ली, कर्नूल, जिला आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच /एसवीवीयू/06	29.06.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1423	मुले प्रमोद मधुकर	महाएसवीसी / 7612 /	द्वारा मधुकर एल. मुले, एटी बारसीनगर, देवलघाट, तालुक / जिला बुलधाना- 443001, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	05.03.84
1424	मुल्ला फर्नेज इकबाल	महाएसवीसी / 7416 /	सी.जी.सी. कॉलोनी, 390 / 32, सेक्टर-3, काने नगर, मुम्बई-400037, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	19.01.82
1425	मुल्ला मोहम्मद इमरान युनुस	महाएसवीसी / 7237 /	मुला लेन, मंगलवेधा, तालुक मंगलवेधा, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	01.07.81
1426	मुंडे विठ्ठल केशव	महाएसवीसी / 7272 /	एटी डाबी, डाक. तोखाडी, तालुक परली, ग्राम जिला बीड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	25.01.79
1427	मुनीश गोयल, पुत्र श्री रवीन्दर कुमार	पीबीएसवीसी / 2661 / 06	सोडी अमर सिंह स्ट्रीट, पाठेला मार्बल के निकट, मुक्तसर- 152026, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 06	22.01.81
1428	मुंज चिंतामणि पांडुरंग	महाएसवीसी / 7468 /	1182, मानेगांव, तालुक कुडाल, जिला सिंधुदुर्ग- 416519, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	31.08.82
1429	मुन्ना लाल यादव, पुत्र श्री टी.एस. यादव	यूपीवीसी / 4366 / 06	ग्राम कोयला, डाक धीरामनि, जिला एटा, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 84	05.04.83
1430	मुरली कृष्ण गडे, पुत्र श्री भूषइयाह	एपीएसवीसी / 4535 / 06	म.न. 3-6, रेवीन्द्रपड्डु, डुग्गीराला (एम), गुंदूर जिला- 522302, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	14.07.83
1431	मुरकीकर धनराज नागराव	महाएसवीसी / 7371 /	मातोश्री हॉस्पिटल, एटी / डाक मुकरमबाद, तालुक मुखेद, जिला नांदेड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	11.12.80
1432	मुरुकुमार दिनेश सम्भाजीराव	महाएसवीसी / 7486 /	एटी डाक मुरुम (भीमनगर), तालुक औमर्गा, जिला उस्मानाबाद- 413605, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	29.04.81



क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1433	मुसाले विट्ठल नामदेव	महाएसवीसी / 7504 /	एटी ब्रह्मा, डाक पिम्पलगांव, तालुक वाशिम, जिला वाशिम, महाराष्ट्र	बीवीएससी/इएएच /एमएफएसयू/ 05	30.06.80
1434	मुथु पुन्नागई, पुत्र श्री एम. पी. मुथुसामी	टीएनवीसी / 1196 / 05	सयाकडु, कूथुपुडी डाक, थिरुचेनगोडे तालुक, नमक्कल जिला, पिन- 637202	बीवीएससी / टीएए नयूवीएस / 98	03.06.74
1435	मुवा बालाजी संकर, पुत्र श्री एम.एस. सूर्या नारायण राव	एपीएसवीसी / 4490 / 06	डी.न. 5-24, पर्ली गेट्स होस्टल रोड, प्रसमपडु, विजयवाड़ा- 521108, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी/इएएच /एसवीवीयू/06	05.11.83
1436	एन. अकिला, पुत्र श्री के. एस. नटराजन	टीएनवीसी / 0854 / 05	फेस II, प्लॉट न. 32, वुड क्रीक कौंटी, चेन्नई - 16	बीवीएससी / टीएए नयूवीएस / 95	28.05.72
1437	एन. बलरामन, पुत्र श्री एन. सुब्रमण्यन	टीएनवीसी / 0068 / 03	न.11, सिवालिगम पिल्लै लेआउट, एस.वी. मिल्स, डाक उदुमलपेट 642125, कोयम्बतूर जिला	बीवीएससी / मद्रासविवि / 66	15.10.44
1438	एन. बूबलान, पुत्र श्री बी. नटराजन	टीएनवीसी / 3611 / 06	13 / 1, गोपाल नगर, ओंटीपुडूर, कोयम्बतूर- 641016, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएए नयूवीएस / 93	20.04.70
1439	एन. डेनियल जॉय चंद्रन, पुत्र श्री एन.जी. नवमनि	टीएनवीसी / 2619 / 05	31 / 14, फर्स्ट मेन रोड, ऑफिसर्स कॉलोनी, चेन्नई 600088	बीवीएससी / टीएए एस / 75	05.06.55
1440	एन. धनसेखरन, पुत्र श्री एम. नटेशन	टीएनवीसी / 2823 / 05	टीचर्स थोट्टम, नरईक्किनर, उलीपुरम वाया, रत्तीपुरम तालुक, नमक्कल जिला, पिन- 636118	बीवीएससी / टीएए नयूवीएस / 92	29.04.69
1441	एन. गनेशन, पुत्र श्री बी. नारायणन	टीएनवीसी / 3577 / 06	वेम्बनगुडी पूव, कीरानगलम डाक, अरंधंगी तालुक, पुडुकोट्टई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएए एस / 81	26.03.49
1442	एन. गीथा, पुत्र श्री के. राजन	टीएनवीसी / 3573 / 06	19, यू.पी. कृष्णन नगर, एस.वी. मिल्स डाक, उदुमलपेट- 642128, कोयम्बतूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएए नयूवीएस / 02	20.10.77

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1443	एन. जगदीशन, पुत्र श्री के. नटेशन	टीएनवीसी / 1705 / 05	132, बी-4, इंडियन बैंक कॉलोनी, नरसोथिपट्टी, सलेम-4	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 00	04.06.76
1444	एन. जेया थिलाकन, पुत्र श्री नारायण पेरुमल	टीएनवीसी / 1888 / 05	मुहिलनकुडीरुप्पु, डाक अगस्थीश्वरन, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु- 629701	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 93	04.01.70
1445	एन. कालीदौस, पुत्र श्री के. नटराजन	टीएनवीसी / 3778 / 07	आरएच-82, स्टेडियम पूंगा स्ट्रीट, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, इलिसनगर, मदुरै-10, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीए एयू / 80	02.03.55
1446	एन. कंडासामी, पुत्र श्री एस.आर.के. नालप्पा गौंडेर	टीएनवीसी / 3591 / 06	वलैयापट्टी, इदाइयोकोट्टई डाक, ओडनचटरम तालुक, डिंडीगल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / एमयू / 69	01.07.47
1447	एन. कन्नन बाबू, पुत्र श्री पी. नटराजन	टीएनवीसी / 2103 / 05	नया न. 15, 18वां एवेन्यू, अशोक नगर, चेन्नई- 83	बीवीएससी / मद्रासविधि / 73	25.08.51
1448	एन. कार्थिकेयन, पुत्र श्री ए. नटेशन	टीएनवीसी / 1686 / 05	1/209, पलायाकोट्टई डाक, नथक्काडयूर वाया, कांगेयम तालुक, इरोड जिला - 638108	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 01	03.06.77
1449	एन. कविथा, पुत्र श्री एस. नटराजन	टीएनवीसी / 2626 / 05	सलेम मेन रोड, अंडागलोर गेट डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला 637401	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 00	01.06.76
1450	एन. कुमारवेलु, पुत्र श्री के. नटराजन	टीएनवीसी / 1639 / 05	1-ए, सुबइयाह थेवर लेआउट, थिरुवल्लुवर नगर, रामनाथपुरम डाक, कोयम्बतूर 641045	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 93	29.03.69
1451	एन. मनावलन, पुत्र श्री ए. नारायणसामी	टीएनवीसी / 1717 / 05	21 बी, कुज्जी। क्रॉस स्ट्रीट, अन्ना नगर ईस्ट, चेन्नई 600102	बीवीएससी / टीए एयू / 75	07.06.49
1452	एन. मारुथु पंडी, पुत्र श्री ए. नटराजन	टीएनवीसी / 2488 / 05	28, वेट हॉस्पिटल रोड, वलावनूर 605108, विल्लुपुरम जिला	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 91	27.01.69
1453	एन. मुरली, पुत्र श्री एन. नागराजन	टीएनवीसी / 0807 / 05	बी 71, अशोक नगर, तिरुपत्तूर 635601	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 92	25.06.68
1454	एन. मुरलीधरन, पुत्र श्री बी. नरसिंहामूर्ति	टीएनवीसी / 2053 / 05	2, वागीसन नगर, फर्स्ट मेन रोड, विदाम्बरम 608001	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 91	08.03.66

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1455	एन. नर्मथा, पुत्री श्री के. गोविंदरासन	टीएनवीसी / 1247 / 05	34-ए / 10, थिरुनगर, मोहानूर रोड, नमक्कल 637001	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 92	07.06.69
1456	एन. पञ्जानिवेल, पुत्र श्री ए.पी. नटेशन	टीएनवीसी / 0685 / 05	प्लॉट न. 46.5 / 3, IV स्ट्रीट, चौधरी नगर, बलासर्वक्कम, चेन्नई 600087	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 94	03.06.71
1457	एन. पोन्नुसामी, पुत्र श्री पी. नटराजन	टीएनवीसी / 3580 / 06	8, मोथीलाल स्ट्रीट, तिरुनेलवेली जक्शन- 327001, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 93	03.07.70
1458	एन. प्रताप चंद्र राव, पुत्र श्री एन. नागेंद्र राव	टीएनवीसी / 3571 / 06	15 / 14, साथम कॉलोनी, अन्ना नगर वेस्ट एक्सटेंशन, चेन्नई- 600101, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीए एयू / 78	31.12.53
1459	एन. पुनियामूर्ति, पुत्र श्री एन. नटेशन	टीएनवीसी / 3598 / 06	168, VI स्ट्रीट, रेथिनासामी नगर, थंजावुर- 613006, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीए एयू / 79	06.03.57
1460	एन. रामासामी, पुत्र श्री के. राम नटराजन	टीएनवीसी / 3654 / 06	यादवम, कुलाथूर- 622504, पुडुकोट्टई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीए एयू / 74	06.06.48
1461	एन. सक्तिवेलु, पुत्र श्री के. वी. नारायणन	टीएनवीसी / 0796 / 05	द्वारा एन. मुरली, 437, मेन रोड, सेंदामंगलम, नमक्कल जिला	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 98	05.06.73
1462	एन. सेन्थिल कुमार, पुत्र श्री वी. नल्लू	टीएनवीसी / 2231 / 05	इरुमबालाकुरिची अरुथगुडी डाक, तिरुकोडलूर तालुक, विल्लुपुरम जिला, पिन- 605757, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 01	10.05.77
1463	एन. शानमुगासुंदरम, पुत्र श्री एस. नल्लासामी	टीएनवीसी / 1364 / 05	पुलावरपलायम, टी.पी. पलायम (डाक), कांजीकोविल (वाया), इरोडे जिला, पिन 638116	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 01	10.01.77
1464	एन. सिक्सकर, पुत्र श्री एन. श्रीनिवासुलु	एपीएसवीसी / 4458 / 06	म.न. 3-115, संगम स्ट्रीट, वेमपल्ली- 516329, कडपा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	15.06.82
1465	एन. श्री बालाजी, पुत्र श्री डी. नागराजन	टीएनवीसी / 3612 / 06	12, देसाई पेरुमल स्ट्रीट, रासीपुरम डाक, नमक्कल- 637408, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 00	09.05.75

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1466	एन. श्रीधरन, पुत्र श्री नागराजन	टीएनवीसी / 1376 / 05	डब्ल्यू-793 / जी 2, 9वां क्रॉस, सिंडिकेट बैंक कॉलोनी, अन्ना नगर वेस्ट, चेन्नई 600101	बीवीएससी / टीएन एयू / 81	30.11.53
1467	एन. सुबइय्यन, पुत्र श्री पी. नल्लुसामी	टीएनवीसी / 2771 / 05	एनआरके इल्लम, सुगनेश नगर, वडाकु, माधवी रोड, पेराम्बलूर	बीवीएससी / टीएन नयूवीएएस / 96	09.05.73
1468	एन. सुब्बुलक्ष्मी, पुत्र श्री के. रवि	टीएनवीसी / 3603 / 06	459, पहला क्रॉस स्ट्रीट, सिविल सप्लाई गोडाउन रोड, कामालक्षीपुरम, वेल््लोर-2, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन नयूवीएएस / 94	21.03.71
1469	एन.वरथा नारायणन, पुत्र श्री टी.के.एन. नारायण रेड्डी	टीएनवीसी / 3606 / 06	2 / 180, मुथुरामलिंगपुरम, अरुपुकोट्टई तालुक, विरुधुनगर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन एयू / 81	03.05.57
1470	एन. वासुदेवन, पुत्र श्री वी. नरसिम्हन	टीएनवीसी / 0962 / 05	189 / 102, आरिसीपलायम, मेन रोड, आरिसीपलायम, सलेम-9, पिन- 636009	बीवीएससी / टीएन नयूवीएएस / 98	19.06.74
1471	एन. विमल राज कुमार, पुत्र श्री सी. नल्लाथम्बी	टीएनवीसी / 1166 / 05	30, टीचर्स कॉलोनी, के.एस. पलायम डाक, पेरुंडुरई, इरोडे जिला, पिन- 638052	बीवीएससी / टीएन नयूवीएएस / 00	17.06.75
1472	एन. अरुलनाथन, पुत्र श्री टी. नटराजन	टीएनवीसी / 3554 / 06	8, जॉन कॉलेज रोड, रोज अवेन्यू, पलायमकोट्टई, तिरुनलवेली- 627002	बीवीएससी / टीएन नयूवीएएस / 01	12.10.75
1473	एन.सी. हेमामालिनी, पुत्री श्री एन.सी. अनंताचारी	एपीएसवीसी / 4539 / 07	1-1828, अम्पा राव बिल्डिंग, येरामुक्कापल्ली, कडपा- 516004, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एएनजीआरएयू / 97	20.08.74
1474	एन. चंद्रमौली, पुत्र श्री एम. नटराजन	टीएनवीसी / 3555 / 06	एफ 2, सागा कॉम्पलेक्स, साउथ मदा स्ट्रीट, माइलापुर, चेन्नई 600004, तमिलनाडु	बीवीएससी / मद्रासविधि / 66	23.03.45
1475	एन.ई. भास्कर, पुत्र श्री नेमला रामकृष्ण ईश्वराज	टीएनवीसी / 2755 / 05	पुराना न. 20, नया न. 7, डॉ. नतेसन सलई, वी.ओ.बी. बिल्डिंग, पहली मंजिल, अशोक नगर, चेन्नई 600083	बीवीएससी / मद्रासविधि / 73	20.10.49

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1476	एन. कीर्तिगा, पुत्र श्री पी. नटेशन	पॉण्डीएसवीसी/2 90/06	न. 14, तीसरा क्रॉस, वेंकट नगर, पॉण्डीचेरी- 11	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डीवि/06	19.09.83
1477	एन. पिचई कन्नू, पुत्र श्री एस.वी. नटराजन	टीएनवीसी/ 3428/06	16, पिलईयार कोइल स्ट्रीट, सातन कुल्लम डाक, द्यूटिकोरिन, जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ मद्रासवि/71	2.06.48
1478	एन.आर. सेथिल, पुत्र श्री ए. राजामनिक्कम	टीएनवीसी/ 1333/05	42 ए-5, 'एजिलागम', पी.वी. राव स्ट्रीट, गांधी नगर, नमक्कल, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/01	24.07.75
1479	एन.आर. थंगावेल, पुत्र श्री ए. रामासामी	टीएनवीसी/ 2541/05	76, वेडार स्ट्रीट, नम्बियार डाक, इरोडे जिला, पिन- 638458	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/92	04.06.69
1480	एन. रामामूर्ति, पुत्र श्री वी. नरसिम्मलु	टीएनवीसी/ 1754/05	प्लॉट न. 63, नायडू शॉप स्ट्रीट, लक्ष्मी नगर, क्रोमपेट, चेन्नई 600044	बीवीएससी/टीए एयू/78	22.11.55
1481	नबनिता चक्रवर्ती, पुत्री श्री नारायण चक्रवर्ती	त्रिपुराएसवीसी/1 67/06	द्वारा नारायण चक्रवर्ती, डाक धर्मनगर, डीएनवी स्कूल के सामने, (उ.) त्रिपुरा	बीवीएससीएंडएच / सीएयू/06	8.04.83
1482	नबनिता चट्टोपाध्याय, पुत्र श्री कृपानाथ चट्टोपाध्याय	डब्ल्यूबीएसवीसी /3257/06	ग्राम एवं डाक सालदा, जिला बंकुरा- 722122, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस स/06	02.02.84
1483	नादर्ग मनीषा बाबूराव	महाएसवीसी/ 7141/	'कृष्णई', येर्मे नगर, जालकोट रोड, उदगीर, तालुक उदगीर, जिला लातूर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू/ 04	22.05.81
1484	नागभूषण डी., पुत्र श्री देवेन्द्रचारी	कर्नाएसवीसी/39 41/06	ब्रह्मसमुद्रा डाक, जगलूर तालुक, दावणगेरे जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू /06	10.06.83
1485	नागराजा, पुत्र श्री सुंदर खारवी	कर्नाएसवीसी/39 09/06	सन्ना नागन हाउस, मरवांधे, कुंडापुर तालुक, उडुपी जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू /06	11.05.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1486	नागदिवे अंशुजा अरुणकुमार	महाएसवीसी/ 7594/	बेजोनबाग हाउसिंग सोसायटी, प्लॉट न. 583, खदान साइड, डाक बेजोनबाग, नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 06	06.11.83
1487	नागेंद्र कुमार सिद्धु, पुत्र श्री तेजपाल सिंह	यूपीवीसी/4500 /06	ग्राम दुल्हापुर पट्टी जाट टांडा, अफजल मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएटी/ 05	15.02.82
1488	नागेंद्र कुमार सिद्धु, पुत्र श्री तेज पाल सिंह	यूवीसी/218/06	ग्राम बहादुरपुर, डाक जाशपुर, जिला यू.एस. नगर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएटी/ 05	15.02.82
1489	नागेंद्र पाटिल, पुत्र श्री आर.के. पाटिल	एमपीएसवीसी/2 401/06	एमडी-13, बजरंग नगर, इंदौर, म.प्र.- 452001	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/0 6	11.07.79
1490	नागरले देवयानी गोसाईं	महाएसवीसी/ 7655/	वार्ड न. 4, नेहरू नगर, चंद्रपुर- 431402, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 06	03.12.82
1491	नायडू एल.एस.एम.जी. पुत्र श्री कासु बाबू एल.	एपीएसवीसी/ 4464/06	पोडुगुपलेम, ए. कोडुरु डाक, के. कोटापडु एम, विशाखापटणम, जिला- 531022, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/06	20.07.81
1492	नाईक प्रवीन मंधार	महाएसवीसी/ 7543/	ए/पी उट्टूर, तालुक अजारा, जिला कोल्हापुर- 416220, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 05	18.04.83
1493	नायर गिनेश चंद्रशेखरन	महाएसवीसी/ 7221/	अहूजा कोऑप.हाउ.सासोयटी ए-8, पांडुरंगवाड, मनफडा रोड, डोम्बीवली (पू), तालुक कल्याण, जिला थान, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 04	20.07.81
1494	नल्लम पद्मावती, पुत्री श्री रामनइयाह	एपीएसवीसी/ 4449/06	सेनिटरी एवं फूड इंस्पेक्टर, न. 28-1-735-2, मारुथिनगर, 2 स्ट्रीट, माईपडु गेट जंक्शन, पेट्रोल बंक के सामने, नवाबपेट, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/06	07.08.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1495	नामदे नरहरि श्रीनिवास राव	महाएसवीसी / 7525 /	पसायदन, नारायण चौल, स्टेशन रोड, परभनी- 431401, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएयूए परभनी / 78	04.03.58
1496	नीता जोशी, पुत्री श्री डी. सी. पंत	यूपीवीसी / 4351 / 06	बी-12, नरेंद्र नगर, कुमारगंज, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 92	06.01.70
1497	नंदे मिलिंद पुंडलीक	महाएसवीसी / 7446 /	विजय नगर, खामगांव रोड, कोठारी ऑटोमोबाइल के निकट, तालुक जिला बुलदाना- 443001, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएफएसयू / 05	23.01.81
1498	नान्दे राहुल महावीर	महाएसवीसी / 7399 /	'मातृ-पितृ छाया', हरिपुर रोड, कोठाली, तालुक शिरोल, जिला कोल्हापुर- 416101, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएफएसयू / 05	15.10.82
1499	नांजेश बी.एस., पुत्र श्री शिवे गौडा बी.एन.	कर्नाएसवीसी / 38 40 / 06	बानुगुंडी, कोनानूर-573130, अराकलगुड तालुक, हसन जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	20.07.82
1500	नारंजे मारती अशोक राव	महाएसवीसी / 7362 /	न्यू स्टेट बैंक कॉलोनी, जीजामाता स्कूल के निकट, डाक गोपुरी, जिला वर्धा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएफएसयू / 05	16.10.82
1501	नरसिम्हा दास टी. पुत्र श्री नारायण	एपीएसवीसी / 4431 / 06	म.न. 23-6-6/5, हरी बावली, शालीबंदा, हैदराबाद- 65, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एपीएयू / 71	15.06.48
1502	नारायण सिंह नेगी, पुत्र श्री सिंगा राम नेगी	यूवीसी / 54 / 06	ग्राम एवं डाक सैंज, वाया कोटी कॉलोनी, जिला देहरादून, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 95	15.07.71
1503	नरेंद्र खटक, पुत्र श्री रघवीर सिंह	एचवीसी / 1914 /	म.न. 23, लेबर कॉलोनी, भिवानी, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 06	27.11.82
1504	नरेंद्र बाबू कोलीसेट्टी, पुत्र श्री श्रीरामुलु	एपीएसवीसी / 4533 / 06	मचयापलेम डाक, बेल्लमकोंडा (एम), गुंटूर जिला- 522411, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	05.07.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1505	नरेंद्र कुमार शर्मा, पुत्र श्री राजा राम शर्मा	यूवीसी / 221 / 06	214, श्रवण नाथ नगर, हरिद्वार, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / आगरावि वि / 69	02.01.46
1506	नरेंद्र कुमार शुक्ला, पुत्र श्री जी.पी. शुक्ला	एमपीएसवीसी / 2 334 / 06	एचआईजी-5 / ए, मुखर्जी नगर, विदिशा, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 8 5	04.07.64
1507	नरेंद्र कुमार, पुत्र श्री अमरलाल	बीवीसी / 2673 / 05	ग्राम धूम नगर, डाक निमोइया, थाना धोरासाहान- 845303, जिला चम्पारन, बिहार	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएसएंडटी / 05	15.12.76
1508	नरेंद्र कुमार, पुत्र श्री बाबू राम	यूपीवीसी / 4378 / 06	ग्राम एवं डाक तेरवा, दाहिगांव, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीएयूएंडटी / 06	17.12.77
1509	नरेंद्र सिंह गौड़, पुत्र श्री महाबीर सिंह	यूपीवीसी / 4486 / 06	ग्राम कृपाल, डाक सुंदरपुर, गाज़न, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएंडटी / 06	25.10.82
1510	नरेंद्र सिंह, पुत्र श्री सियाराम	यूपीवीसी / 4353 / 06	14, तुलसी नगर, रोहेलखंड विश्वविद्यालय के निकट, बरेली, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 84	30.06.61
1511	नरेंद्र नाथ स्वेइन, पुत्र श्री अपराती चरण स्वेइन	टीएनवीसी / 1394 / 05	सर्वन रीजनल रिसर्च सेंटर, मन्नावनूर, कोडाईकनाल, पिन- 624103	बीवीएससीएंडएच / ओयूएंडटी / 73	28.02.49
1512	नरखेडे अजय कुमार विजय	महाएसवीसी / 7134 /	द्वारा बी.पी. नरखेडे, ए/पी बोराखेडी, तालुक मोटाला, जिला बुलधाना, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	21.06.81
1513	नरवडे अमोल मोतीराम	महाएसवीसी / 7328 /	लक्ष्मी नगर, बोरगाडी रोड, पुसाद, जिला यवतमाल- 445204, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	13.02.82
1514	नाथ अनजान कुमार, पुत्र श्री सोमेश्वर नाथ	असम / 2291 / 07	द्वारा श्री सोमेश्वर नाथ, ग्राम निजसीपझार, डाक सिपाझार, दारंग, असम	बीवीएससीएंडएच / एयू / 07	30.04.83



क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1515	नाथ बिपुल, पुत्र श्री भोगेश्वर नाथ	असम/2237/06	ग्राम चोंगेलीबारी गांव, डाक मधुपुर, जिला जोरहाट—785104, असम	बीवीएससीएंडएच /एएयू/06	01.03.81
1516	नाथ जयंत कुमार, पुत्र श्री नेगेन घ. नाथ	असम/2287/07	ग्राम कबाई चूबा, डाक एवं थाना सिपाझार, जिला दारंग, असम	बीवीएससीएंडएच /एएयू/07	30.04.79
1517	नवल किशोर सिन्हा, पुत्र श्री सुरेद्र प्रसाद सिन्हा	बीवीसी/2675/05	ग्राम इमलिया चाक, डाक सुमुआरा, थाना टिकारी—824236, गया, बिहार	बीवीएससीएंडएच /ओयूएंड टी/05	01.03.77
1518	नवनदीप सिंह, पुत्र श्री सुरिंदर पाल सिन्हा	पीबीएसवीसी/2664/06	39-ए, संत अवेन्यू, जीटी रोड, फीडम फैक्टरी, अमृतसर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /जीएडीवीएसयू/06	15.06.83
1519	नवीन कुमार वर्मा, पुत्र श्री रवीन्द्र देव वर्मा	यूपीवीसी/4499/06	सिकंदराबाद रोड, पटेल पुरम, कास्ता बस स्टैंड के निकट, गोला गोकर्न नाथ खिर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /सीएसएयूएंडटी/06	31.03.84
1520	नवीन लतियाल, पुत्र श्री सुखदेव चौधरी	राजएसवीसी/3265/06	जनता कॉलोनी, पुलिस स्टेशन के निकट, मेरटा सिटी, नागौर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/06	16.09.82
1521	नवीन स्वरूप एम., पुत्र श्री एम. नेल्सन	एपीएसवीसी/4503/06	17-6-33, खादर स्ट्रीट, पूर्णानंदमपेट, विजयवाड़ा—520016, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/06	06.12.81
1522	नवीना ए.एन. पुत्र श्री नागराज ए.वाई	कर्नाएसवीसी/3945/06	आरुदी—561204, डोड्डाबल्लापुरा, तालुक, बंगलौर ग्रामीण जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/06	01.03.84
1523	नवीन कुमार बंसल, पुत्र श्री शंकर लाल	एमपीएसवीसी/2399/06	1-8, मधुवन एन्क्लेव, न्यू हाई कोर्ट के पीछे, अल्कापुरी, ग्वालियर, म.प्र. 474001	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/06	30.01.81
1524	नवजोत कौर नांधा, पुत्री श्री गुरमीत सिंह	पीबीएसवीसी/2674/06	ग्राम खुरमपुर, डाक मेहातपुर, परीजान रोड, तहसील नकोदर, जालंधर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /जीएडीवीएसयू/06	20.03.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1525	नवकरन दीप सिंह, पुत्र श्री धरम सिंह	पीबीएसवीसी/2688/06	बी-38, दर्शन एवेन्यू, फोर फील्ड्स, जीटी बाई पास रोड, अमृतसर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएसयू / 06	01.10.83
1526	नवरोजदीप सिंह, पुत्र श्री एस. कुलदीप सिंह	पीबीएसवीसी/2690/06	3, मोहनी पार्क, खालसा कॉलेज, अमृतसर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएसयू / 06	14.07.82
1527	नायक दीप्ती नगेश	महाएसवीसी/7571/	अन्नु राज, सीएचएस, ए-6, 5वां कस्तूरबा रोड, बोरीवली (पू.), मुंबई- 400066, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएफएसयू / 06	09.03.83
1528	नीलम सिंह, पुत्री श्री जनार्दन सिंह	यूपीवीसी/4427/06	ग्राम एवं डाक छिवाला छा, जिला चित्रकूट, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 06	01.10.80
1529	नीना कंवर, पुत्री श्री चरनजीत सिंह	एचपीएसवीसी/751/06	म.न. 330-ए, सिविल बाजार, धर्मशाला, हि.प्र.- 176215	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएस यू / 05	22.12.82
1530	नीरज चौधरी, पुत्र श्री बी. एन. चौधरी	यूपीवीसी/4496/06	म.न. 128/734, किदवई नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएंडट 1/06	06.10.81
1531	नीरज कुमार, पुत्र श्री जसबीर सिंह	यूपीवीसी/4430/06	ग्राम शहजादपुर, डाक जई, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 06	07.07.79
1532	नीरज कुमार, पुत्र श्री राम सजीवन	यूपीवीसी/4508/06	ग्राम एवं डाक धमाना खुर्द, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएंडट 1/06	20.01.75
1533	नीरज कुमार, पुत्र श्री सुरेश चंद्र	यूपीवीसी/4374/06	ग्राम एवं डाक बांसा, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीएयूएंडटी / 06	10.08.80
1534	नीरज सारस्वत, पुत्र श्री आर.एन. सारस्वत	यूपीवीसी/4389/06	म.न. 334, शिवपुरी, नया विजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 06	30.06.80

क्र.सं.	नाम	पजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1535	नीता दींगरा, पुत्री श्री एन. डी. दींगरा	एमपीएसवीसी / 2 344 / 06	एस/एफ-7, ए.आई. सेंटर, नया मौहल्ला, सिहोरा, जबलपुर, म.प्र. 483225	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/9 2	02.01.68
1536	नीता रघुवंशी, पुत्री श्री आर.के. रघुवंशी	राजएसवीसी / 3315 / 06	पुराने पोस्ट ऑफिस के पीछे, गंटन पुरा, झालावाड, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/0 6	30.07.83
1537	नीतू आर्या, पुत्री श्री राम स्वरूप आर्या	राजएसवीसी / 3309 / 06	कान्हास का बास, बालोतरा, ब.ड.के. राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/06	20.03.78
1538	नीतू बाला, पुत्री श्री परशोत्तम लाल	पीबीएसवीसी / 2656 / 06	द्वारा देस राज सुभाष चंद, सी/ए सुभाष मंडी, बाग पुराना, जिला मोगा, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /जीएडीवीएसयू /06	25.06.81
1539	नीतू बाला, पुत्र श्री राम सिंह हंस	एचवीसी / 1940 /	म.न. 995, सेक्टर-13, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच /सीसीएसएचएयू /06	01.02.83
1540	नेहा शेरोन, पुत्री श्री सतबीर सिंह	एचवीसी / 1925 /	म.न. 145, डिफेंस कॉलोनी, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच /सीसीएसएचएयू /06	22.11.83
1541	नेहा सूद, पुत्री श्री बृज मोहन सूद	एचपीएसवीसी / 7 65 / 06	ग्राम एवं डाक कोहला, तहसील जिला हमीरपुर, हि.प्र.- 177033	बीवीएससीएंडएच /सीएसकेकेवीवी /06	30.03.82
1542	नरपाल सिंह, पुत्र श्री राम शरन	यूपीवीसी / 4480 / 06	19, आचार्य नगर, वेट. कॉलेज, मथुरा, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /सीएसएयूएंडट /06	21.08.81
1543	नेताके मनीशा ध्यानेश्वर	महाएसवीसी / 7425 /	द्वारा श्री डी.के. नटाके, ए/पी दहीवाडी, तालुक मान, जिला सतारा- 415508, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 05	06.06.83
1544	नेवासे अर्चना आत्माराम	महाएसवीसी / 7520 /	'अनुराग', शिवाजी कॉलोनी, ए/पी शिरवाल, तालुक खंडाला, जिला सतारा- 412801, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 05	05.07.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1545	निधि आर्या, पुत्री श्री एस. सी. आर्या	यूवीसी / 216 / 06	द्वारा मधु आर्या, बैंक कॉलोनी, बितोरिया-1, कुसुमखारा, हल्दवानी, जिला नैनीताल, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 06	13.07.82
1546	निधिश भारद्वाज, पुत्र श्री मोहन लाल	राजएसवीसी / 3319 / 06	म.न. 2 / 40, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सवाईमाधोपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 06	05.07.81
1547	नीहारिका मोहंती, पुत्री श्री ब्रह्मानंद मोहंती	ओवीसी / 2044 / 06	एटी / डाक बरबोई, जिला पुरी-752016, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 06	20.07.81
1548	निकास यतिराज शिवाजी	महाएसवीसी / 7630 /	'सुरयाम स्नेह', शिवाजी नगर, ए/पी जानेफल, तालुक मेहकर, जिला बुलदाना- 443304, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	22.07.83
1549	निखिलेश मोदी, पुत्र श्री हरि सिंह मोदी	राजएसवीसी / 3247 / 06	ब्रह्म नगर, कानोरे, उदयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 06	22.06.79
1550	नीलेश कुमार, पुत्र श्री भगवान दास	यूपीवीसी / 4388 / 06	ग्राम देवोमी, डाक बाघोरी, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 06	01.07.78
1551	नीलरतन मंडल, पुत्र श्री सुबोध कुमार मंडल	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3288 / 06	ग्राम कुमारपुर, डाक मौह, बाजार (टी.एस.), जिला बीरभूम-731132, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	19.04.82
1552	निम्मागंटी वेंकन्ना, पुत्र श्री नागइयाह	एपीएसवीसी / 4521 / 06	जालुबावीगुडा, चिरुमर्थी डाक, वेमुलपल्ली (एम), नालगोंडा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	05.05.80
1553	निरंजन कुमार निराला, पुत्र श्री राम हरि प्रसाद	बीवीसी / 2689 / 05	ग्राम बापू नगर, डाक भलुआ, थाना बौध गया- 824231, जिला गया, बिहार	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 05	01.01.79
1554	निर्मय कुमार पटेल, पुत्र श्री दयाशंकर पटेल	यूपीवीसी / 4520 / 06	ग्राम भलूही, डाक बोदारवर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	07.10.79

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1555	निशा जॉय	केरलएसवीसी / 3 118 / 06	चालीपोइका हाउस, मुलावना डाक, कांजीराकोड, कुंडारा, कोल्लम- 691506, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	18.05.80
1556	निशा कुमारी, पुत्री श्री रामेश्वर प्रसाद	बीवीसी / 2650 / 05	ग्राम थरपाकना, डाक रांची (जीपीओ), थाना लोअर बाजार- 834001, जिला रांची, बिहार	बीवीएससीएंडएच / बीएयू / 05	08.09.78
1557	निशात सिंह सेनी, पुत्र श्री जयवीर सिंह	यूटीसी / 211 / 06	ई-372, सुभाष नगर, रुड़की, हरिद्वार, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 06	29.11.82
1558	निस्तारा रधावा, पुत्री श्री टी.एस. रधावा	एचपीएसवीसी / 7 73 / 06	चामुंडेश्वरी होस्टल, डॉ. जीसी नेगी, कोवास, पालम पुर, जिला कांगड़ा, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेकेवीवी / 06	22.11.83
1559	नीता कुमारी, पुत्री श्री राजनंदन प्रसाद	बीवीसी / 2653 / 05	ग्राम सिओ बाजार, झांझा, डाक झांझा, थाना झांझा- 811308, जिला जमुई, बिहार	बीवीएससीएंडएच / बीएयू / 05	07.01.77
1560	नीतेश कुमार जैन, पुत्र श्री एन.के. जैन	एमपीएसवीसी / 2 420 / 07	एफ.न. 10, अनुश्री अपार्टमेंट, गोल बाजार, जबलपुर, म.प्र.- 482002	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 0 6	29.07.82
1561	नित्यानंद वी.सी., पुत्र श्री चंद्रप्पा वी.एस.	कर्नाएसवीसी / 39 05 / 06	बी-ब्लॉक, वेमागल- 563157, कोलार तालुक एवं जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	10.10.83
1562	नितिन गुप्ता, पुत्र श्री अलख प्रकाश गुप्ता	एमपीएसवीसी / 2 326 / 06	एच-1122, न्यू दर्पण कॉलोनी, थाटीपुर, ग्वालियर, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेकेवीवी / 05	21.01.80
1563	नितिन मेहता, पुत्र श्री महेश कुमार मेहता	एचवीसी / 1911 /	म.न. 65, पुलिस लाइन एरिया, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 06	25.06.83
1564	नितिन सिंह, पुत्र श्री एन. पी. सिंह	यूपीवीसी / 4358 / 06	ग्राम मेघाखेरी, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेकेवीवी / 05	15.06.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1565	नितिन त्यागी, पुत्र श्री के. पी. त्यागी	पीबीएसवीसी / 2703 / 07	पोषण विभाग, जीएडीवीएसयू, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / पीआरडीकेवीपी / 00	02.12.76
1566	नित्यगोपाल डे, पुत्र श्री साधुपदा डे	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3260 / 06	ग्राम एवं डाक सिल्पा जामबेडिया, जिला बंकुरा— 722121, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	28.04.83
1567	ओ.आर. सत्यमूर्ति, पुत्र श्री ओ. रामामूर्ति	टीएनवीसी / 3041 / 05	कृष्णिनीपेट ग्राम, अरक्कोनम तालुक, वेल्लोर जिला 631003	बीवीएससी / टीएनयूवीएस / 94	04.03.71
1568	ओ.आर. विनोद कुमार, पुत्र श्री ओबली राजेंद्रन	टीएनवीसी / 1515 / 05	1 आई, जयनगरम, ओमलूर डाक, सलेम जिला 636455	बीवीएससी / टीएनयूवीएस / 01	05.06.77
1569	ओम प्रकाश गुप्ता, पुत्र श्री विंदा प्रसाद साहा	बीवीसी / 2731 / 06	ग्राम परसन्नी देवाजीत, डाक मेहासी, थाना मेहासी, जिला पूर्वी चम्पारन, बिहार	बीवीएससीएंडएच / बीएयू / 84	06.06.58
1570	ओम प्रकाश गुप्ता, पुत्र श्री आर.एस. गुप्ता	एमपीएसवीसी / 2 416 / 07	मेला ग्राउंड के निकट, लहर, भिंड, म.प्र.— 477445	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेकेवीवी / 06	07.07.79
1571	ओम प्रकाश पंवार, पुत्र श्री हरि शंकर	राजएसवीसी / 3253 / 06	कमर्शियल टेलर, धान मंडी, सोजात सिटी, पाली, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 06	20.01.79
1572	ओम प्रकाश राही, पुत्र श्री सूरत लाल	यूवीसी / 202 / 06	ग्राम एवं डाक गडोली, तहसील बरकोट, जिला उत्तरकाशी, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 06	23.06.79
1573	ओम प्रकाश, पुत्र श्री पशुपति नाथ साहू	बीवीसी / 2631 / 05	ग्राम कोवारी बराय टोला, डाक हाजीपुर, थाना गंगा ब्रिज— 844101, जिला वैशाली, बिहार	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 00	03.10.75
1574	ओम प्रकाश, पुत्र श्री राम बिलास	यूपीवीसी / 4363 / 06	ग्राम एवं डाक भिटेन, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएंडटी / 05	05.01.77
1575	ओटारी उदय पंढारीनाथ	महाएसवीसी / 7661 /	ए/पी बीरवाडी, तालुक शाहपुर, जिला धाणे— 421603, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएफएसयू / 06	27.07.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1576	ओजा शिरीष अम्बालाल	गुजएसवीसी / 2702 / 06	30, वखारिया नगर, सोसायटी-3, कपिलेश्वर मंदिर के निकट, कलोल (उ.गो.), गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसडीएयू/06	01.06.82
1577	पी. बालाचंद्रन, पुत्र श्री वी. पेरुमल	टीएनवीसी / 2984 / 05	1/38, मेट्टूकट्टु थोट्टम, कौडीचेट्टी पट्टी, पेरिया पट्टी डाक, नमक्कल-1	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 95	27.01.70
1578	पी. चंद्रिका, पुत्र श्री एम. पलानी	टीएनवीसी / 1565 / 05	प्लॉट न. 15, वेपमपट्टू चर्च के पीछे, वेपमपट्टू शांति नगर, थिरुवेल्लोर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन एयू / 88	10.05.65
1579	पी. चित्रा, पुत्र श्री पी. परमसिवन	टीएनवीसी / 1491 / 05	नल्लागौडेम पलायन, मावुरेड्डीपट्टी डाक, तिरुचेनगोडु तालुक, नमक्कल 637212	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 98	05.06.74
1580	पी. धनपलम, पुत्र श्री ई. पी. पेरियासामी	टीएनवीसी / 1465 / 05	गांधी इल्लम, इछीपलायम डाक, कोडुमुडी वाया, इरोडे जिला पिन- 638151	बीवीएससी / टीएन एयू / 74	15.03.52
1581	पी. गोबी, पुत्र श्री एस. पोन्नुचामी	टीएनवीसी / 3588 / 06	नॉर्थ स्ट्रीट, पेरियूर डाक, कामुथी तालुक, रामन्द जिला- 623708, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 06	06.05.80
1582	पी. गोबू, पुत्र श्री के. पेरुमल	टीएनवीसी / 3062 / 05	4, 64, अमावासी पलायम, तालुक कुन्नाथूर डाक, विल्लुपुरम जिला, पिन- 605803	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 00	09.06.76
1583	पी. जगदीसन, पुत्र श्री पी. पेरियाथम्बी	टीएनवीसी / 3643 / 06	कल्लापलायम वेलेरीवेल्ली डाक, इडापडी तालुक, सलेम- 637101, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 06	05.06.81
1584	पी. कनकराज, पुत्र श्री आर. परसुरामन	टीएनवीसी / 1611 / 05	05, सोमासुंदरम स्ट्रीट, राधा नगर, क्रोमपेट, चेन्नई 600044	बीवीएससी / मद्रासविदि / 71	06.12.48
1585	पी. कन्नन, पुत्र श्री पंचनाथन	टीएनवीसी / 3795 / 07	ए-19, अशोक थापसी अपार्टमेंट्स, 9 लॉक स्ट्रीट, कोट्टुपुरम, चेन्नई- 600085, तमिलनाडु	बीवीएससी / एमयू / 73	15.08.47

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1586	पी. काथरीरावन, पुत्र श्री टी.एस. पेरियासामी	टीएनवीसी/0793/05	73, न्यू क्वार्टर्स, देवास्थानम पुडुर, नामगिरिपेट डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/01	07.04.76
1587	पी. कौसीगराज, पुत्र श्री सी.के. पलानी सामी	टीएनवीसी/2999/05	170, राजा स्ट्रीट, पेरुंडुरई 638052, इरोडे जिला	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/01	02.06.76
1588	पी. कुमारासामी, पुत्र श्री एन. पेरिया. गौंडेर	टीएनवीसी/0648/05	93/74, गुरुसामी नईकर स्ट्रीट, सामी नगर, दासप्पा गौंडेन पुडुर डाक, गोबीचेट्टी पलायम तालुक, इरोडे 638503	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/89	21.03.64
1589	पी. लक्ष्मनन, पुत्र श्री पोन्नुस्वामी	टीएनवीसी/3601/06	52, माइलप्पा स्ट्रीट, अयानावरम, चेन्नई- 60023, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/68	18.07.43
1590	पी. मेकला, पत्नी श्री एस. काथिरवेल	टीएनवीसी/1673/05	8/41, गुरुसामी पलायम डाक, नमक्कल जिला, पिन- 637403	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/98	20.12.75
1591	पी. मेनाहा, पुत्र श्री सी. रथीश कुमार	टीएनवीसी/0870/05	5/19 एम, एल.आर. मनिक्कम स्ट्रीट, भारतीपुरम, धर्मापुरी 636705	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/00	25.07.76
1592	पी. मोहन, पुत्र श्री पी. पलानीसामी	टीएनवीसी/3763/06	636-बी, मेट्टू स्ट्रीट, कॉवेरी नगर, पेराम्बलूर डाक एवं जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन एयू/84	23.05.60
1593	पी. मुरली, पुत्र श्री के. पलानीसामी	टीएनवीसी/3642/06	241, रुफरेस स्ट्रीट, जोधी नगर, अट्टूर तालुक, सलेम-636102, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/06	01.06.78
1594	पी. मुथुस्वामी, पुत्र श्री पी. पापनासन	टीएनवीसी/3624/06	39, सेक्रेटरिएट कॉलोनी, ॥ स्ट्रीट, केलीज, चेन्नई 600010, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन एयू/78	15.05.51
1595	पी. मेथिली, पुत्र श्री एस. पलानिअप्पन	टीएनवीसी/2222/05	447/1, नल्लूर कंडम पलायम डाक, नमक्कल जिला, पिन- 637203	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/00	26.06.76



क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1596	पी. नागराजन, पुत्र श्री पेरु मल	डीवीसी/0625/04	फ्लैट न. एच-16, नेशनल इस्टी. ऑफ इम्यूनोलॉजी, जेएनयू कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110067	बीवीएससी/टीएन नयूवीएस/97	01.04.74
1597	पी. नेदुनचेजियान, पुत्र श्री ए. पलानीयप्पन	टीएनवीसी/0969/05	11, थोमई अम्मल नगर, कॉवेरी नगर दक्षिण, छटी स्ट्रीट, थंजावूर 6136005	बीवीएससी/टीएन एयू/84	18.04.61
1598	पी. निशा	केरलएसवीसी/3194/06	न. 1, सुब्बाम्मल क्लोविस स्ट्रीट, उप्पालम, पॉण्डीचेरी, केरल	बीवीएससीएडएएच/पॉण्डीविवि/06	03.07.84
1599	पी. पलराज, पुत्र श्री यू. परमनांधन	टीएनवीसी/3587/06	एफ 2, विनय नगर अपार्टमेंट, 10-ए, गांधी रोड, वेलाचेरी, चेन्नई- 42, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन एयू/86	12.02.62
1600	पी. पवाई, पुत्र श्री जी. आर. पुगाजेंडी	टीएनवीसी/3650/06	672, पनीर सेल्वन स्ट्रीट, पेरिया नगर, व्यासारोपडी, चेन्नई- 39, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन नयूवीएस/97	26.06.73
1601	पी. पेरियासामी, पुत्र श्री एम. पलानीसामी	टीएनवीसी/1644/05	वगुरमपट्टी, वसंतपुरम डाक, नमक्कल तालुक एवं जिला, पिन- 637001	बीवीएससी/टीएन नयूवीएस/02	01.05.79
1602	पी. प्रभारन, पुत्र श्री एम. पोन्नुसामी	टीएनवीसी/3653/06	40-बी, वलायलकारा स्ट्रीट, सेंदामंगलम डाक, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन नयूवीएस/92	31.05.69
1603	पी. प्रभाकरन, पुत्र श्री पोन्नुसामी पी.	टीएनवीसी/2089/05	47 सी, कुट्टई स्ट्रीट, एस.पी. पुधुर नमक्कल 637002, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन नयूवीएस/95	15.06.72
1604	पी. प्रभाकरन, पुत्र श्री के. पलानीचामी	टीएनवीसी/3574/06	1/370, न्यू स्ट्रीट, समायानल्लूर, मदुरै- 625402, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन नयूवीएस/01	20.05.76
1605	पी.आर. सुब्रमण्यन, पुत्र श्री टी.एस. रामास्वामी	टीएनवीसी/0819/05	3/5, चेंगलवरायन स्ट्रीट, पहली मंजिल, शेनॉय नगर डाक, मद्रास 600030	बीवीएससी/टीएन एयू/81	10.02.57
1606	पी. राजासुब्रमण्यन, पुत्र श्री एस. पोन्नुसामी	टीएनवीसी/3290/05	न. 11, मदुरै, मनावलन नगर, पोन्नियम्मन मेडु, चेन्नई 600110	बीवीएससी/टीएन एयू/78	30.01.51

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1607	पी. श्रवणन, पुत्र श्री एम. पलानीयंडी	टीएनवीसी / 2045 / 05	47/3, मेन रोड, गवर्न. अस्पताल के सामने, तित्तागुडी, कुडालूर जिला 606106	बीवीएससी / टीएए नयूवीएएस / 95	20.07.72
1608	पी. सेल्वन, पुत्र श्री एम. पोन्नुरमन	टीएनवीसी / 2106 / 05	9ए18सी, ओप्पीलथा अम्मन कोइल स्ट्रीट, अरियालूर 621704, पेराम्बलूर जिला	बीवीएससी / टीएए नयूवीएएस / 99	19.06.74
1609	पी. सेल्वाराज, पुत्र श्री पी. पलानीसामी	टीएनवीसी / 0725 / 05	4 / 222, एफ-टाइप, 4 मेन रोड, सिडको नगर, विलिवक्कम, चेन्नई 600049	बीवीएससी / टीएए नयूवीएएस / 95	13.05.72
1610	पी. श्रवणन, पुत्र स्व. श्री एम. परमसिवम	यूवीसी / 180 / 06	वैज्ञानिक, आईवीआरआई, मुक्केश्वर, नैनीताल, उत्तरांचल	बीवीएससी / टीएए वीएएसयू / 95	05.03.72
1611	पी. श्रीराम, पुत्र श्री वी. पद्मनाभन	टीएनवीसी / 1981 / 05	एफ-2, पहली मंजिल, प्राइमरोज अपार्टमेंट, 15 व 16, इल्लाइअम्मन कोइल स्ट्रीट, शास्त्री नगर, अदयार, चेन्नई 600020	बीवीएससी / टीएए एयू / 83	28.02.60
1612	पी. सुब्रमण्यम, पुत्र श्री के. पलानीअप्पन	टीएनवीसी / 2982 / 05	पोन्नेरीपट्टी, एस. वजावंथी डाक, डाक वेलूर (तालुक), नमक्कल 637017	बीवीएससी / टीएए नयूवीएएस / 02	12.04.79
1613	पी. सुरेश कुमार, पुत्र श्री पी. पलानीमुथु	टीएनवीसी / 1267 / 05	भारतियार स्ट्रीट, पूलाम्बाडी डाक, पेराम्बलूर जिला 621110	बीवीएससी / टीएए नयूवीएएस / 97	07.07.74
1614	पी. सुरेश, पुत्र श्री ई.के. पोन्नुसामी	टीएनवीसी / 1949 / 05	98ए-6, कलारमपट्टी मेन रोड, देवी थिएटर के निकट, किचीपकथम डाक, सलेम 636015	बीवीएससी / टीएए नयूवीएएस / 98	04.04.74
1615	पी. तेनसिंह ज्ञानराज, पुत्र श्री ए. पौलपंडी	टीएनवीसी / 2890 / 05	161, सीनिवासगाम नगर, तिरुनेलवेली 627011	बीवीएससी / टीएए नयूवीएएस / 95	28.02.69
1616	पी. थंगाराजू, पुत्र श्री ए. पलानीमुथु	टीएनवीसी / 2218 / 05	रामनाथपुरम डाक (वाया), सेंदामंगलम 637409, नमक्कल जिला	बीवीएससी / मद्रासविदि / 71	13.08.46

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1617	पी. थेंजोमूर्ति, पुत्र श्री पी. श्रीरामुलु चेट्टी	टीएनवीसी / 1262 / 35	अबिरामी कैंसल, बी-4, न. 5, वयासर स्ट्रीट, पूर्वी ताम्बरम, चेन्नई 600059	बीवीएससी / टीए नयू / 78	01.07.54
1618	पी. थिलाकर, पुत्र श्री एस. पोन्नइयाह	टीएनवीसी / 0827 / 05	110, गणपति कॉलोनी, सेंट थॉमस मार्ग, चेन्नई 600016	बीवीएससी / टीए नयूबीएस / 01	24.02.77
1619	पी. वेतरीवेल, पुत्र श्री सी. पवुन	टीएनवीसी / 1898 / 05	146, टीटी-एक्सटेंशन, करूर ड्राइव, धर्मापुरी जिला- 636903	बीवीएससी / टीए नयूबीएस / 98	15.06.75
1620	पी. विजया कुमार, पुत्र श्री पसौपाथ्या	डीवीसी / 0680 / 06	श्री विद्यालय, ब्लॉक- जी, मैदान गढी, नई दिल्ली- 68	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डीविधि / 99	18.03.77
1621	पी. विशा, पुत्र श्री वी. सम्पत कुमार	टीएनवीसी / 2423 / 05	9, वैस्ट स्ट्रीट, गंगावल्ली तालुक, सलेम जिला 636105	बीवीएससी / टीए नयूबीएस / 96	24.08.73
1622	पी.सी. सक्तिवेल, पुत्र श्री आर.सिवालिंगम	टीएनवीसी / 0889 / 05	4 / 25, परायपकडु, डाक पिल्लनाथम, तालुक तिरुचेनगोडे, नमक्कल जिला 637205	बीवीएससी / टीए नयूबीएस / 01	05.06.77
1623	पी.डी. जगन्नाथन, पुत्र श्री पी. डोराईस्वामी	टीएनवीसी / 2607 / 05	22 / सी, प्रबोध नीलायम फ्लैट्स, पोन्नियमन कोइल स्ट्रीट, उरूर, अदयार, चेन्नई 600020	बीवीएससी / मद्रासविधि / 57	04.07.33
1624	पी. हरिहरन, पुत्र श्री एन. पचइयप्पन	टीएनवीसी / 1811 / 05	न. 127, सक्तिवेल नगर, 7वां क्रॉस स्ट्रीट, पेरावेल्लोर, चेन्नई 600082	बीवीएससी / टीए नयू / 79	23.11.56
1625	पी.आई गनेसन, पुत्र श्री पी. इरुलप्पन	टीएनवीसी / 2385 / 05	कीलाराजा कुलारमन डाक, राजापलायम तालुक, विरुधुनगर जिला	बीवीएससी / टीए नयू / 80	15.05.57
1626	पी.के. परमेश कुमार, पुत्र श्री के.एम. करुपासामी	टीएनवीसी / 3608 / 06	कोविया मेन रोड, करुक्कन कट्टूर, पी. ओलापलायम डाक, पेरुंदुरई -638052, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीए नयूबीएस / 91	24.05.67
1627	पी.एल. कौल	गुजएसवीसी / 2782 / 06	83, करन नगर, श्रीनगर (कश्मीर), बी/2, एस.के. नगर- 3855506, जिला बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / पीएच / 68	13.05.96

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1628	पी.एम. नटराजन, पुत्र श्री पी.के. मुथुसामी	टीएनवीसी/ 1147/05	एच-20, अंबू नगर, मोहानूर रोड, नमक्कल 637001	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/96	08.11.72
1629	पी. महालिंगम, पुत्र श्री पी. पलावेश कोनार	टीएनवीसी/ 2697/05	न. 3, हुसैन स्ट्रीट, कृष्णापुरम, अम्बाटूर, चेन्नई 600053	बीवीएससी/ मद्रासविधि/55	25.04.32
1630	पी. मुथुसामी, पुत्र श्री के. पलानीअप्पन	टीएनवीसी/ 2272/05	अंडीपट्टीपुडुर, कीराम्बूर (डाक), नमक्कल (तालुक व जिला), 637207	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/94	10.05.70
1631	पी.एन. रामनाथ, पुत्र श्री पी.टी. नगेंद्रन	टीएनवीसी/ 3175/05	21 ए, लक्ष्मी नायकन स्ट्रीट, रासीपुरम 637408, नमक्कल जिला	बीवीएससी/टीएन एयू/88	26.07.65
1632	पी.एन. रिचर्ड जगदीसन, पुत्र श्री गेब्रियल पिचई	टीएनवीसी/ 1605/05	पुडुकोट्टई ग्राम, थिरूमलपडी डाक, अरियालूर, पेराम्बलूर जिला 621851	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/92	12.07.69
1633	पी.आर. अंबूमनी, पुत्र श्री पी.ए. राधाकृष्णन	टीएनवीसी/ 3617/06	29, वेंकटसामी लेआउट, विलानकुरिची रोड, पीलामेदू, कोयम्बतूर— 641004, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/94	25.09.71
1634	पी.आर. हेमंत कुमार, पुत्र श्री पी.टी. राजगोपाल	टीएनवीसी/ 1468/05	19, 14वां क्रॉस स्ट्रीट, शास्त्री नगर, अदयार, चेन्नई 600020	बीवीएससी/टीएन एयू/82	18.10.55
1635	पी.आर. निशा, पुत्र श्री पी. राघवन	टीएनवीसी/ 2723/05	प्लॉट न. 47, मोहन पुरी, चौथी स्ट्रीट, अडमबक्कम, चेन्नई 600088	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/94	10.09.70
1636	पी.एस. राहुमथुला, पुत्र श्री पी.यू. सैयद मसूद	टीएनवीसी/ 1694/05	58 (176), बिग स्ट्रीट, कडायानल्लूर— 627751, तिरुनेलवेली जिला	बीवीएससी/टीएन एयू/75	01.01.53
1637	पी.एस.थिरुनावुक्करासू, पुत्र श्री पी.आर. सुब्रमण्यन	टीएनवीसी/ 0751/05	23, सेशाचला मुदाली स्ट्रीट, सइदापेट, चेन्नई 600015	बीवीएससी/टीएन एयू/74	30.07.56
1638	पी.एस. कृष्णामूर्ति, पुत्र श्री पी.एन. सुंदरम	टीएनवीसी/ 2247/05	पुराना न. 4, नया न. 7, सौंदराराजन स्ट्रीट, टी. नगर, चेन्नई 600017	बीवीएससी/ मद्रासविधि/65	01.04.41

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1639	पी.एस.एल. सेश, पुत्र श्री पी.एन. लक्ष्मणमूर्ति	टीएनवीसी / 2202 / 05	"आदित्य", 10-7 / 30, मेन रोड, महात्मा गांधी नगर, मदुरै 625014	बीवीएससी / टीए नयूवीएएस / 94	03.01.71
1640	पी.एस. वेंकटेशन, पुत्र श्री पी. सम्पथ	टीएनवीसी / 3291 / 05	न. 7 / 12, 10वीं स्ट्रीट, टीवीएस नगर, पडी, चेन्नई- 50	बीवीएससी / टीए नयूवीएएस / 98	9.04.74
1641	पी. सुंदरराज, पुत्र श्री एस. पलानी गौंडेर	टीएनवीसी / 3408 / 06	57, चिन्नातिरुपति, कन्नन कुरिची, मेन रोड, सलेम, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीए नयू / 84	27.03.58
1642	पी. थिरुनावुक्करासु, पुत्र श्री पी.पी. पलानीसामी	टीएनवीसी / 0647 / 05	पेरुमपलायम, नागालूर डाक, अथानी वाया- इरोडे जिला- 638502, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीए नयूवीएएस / 01	29.06.74
1643	पब्बावर रवीन्द्र श्रीनिवासराव	महाएसवीसी / 7251 /	पेथमरापुर गली, देगूर, तालुक देगलूर, जिला नांदड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 03	27.03.77
1644	पचाडे वैभव राजेंद्र	महाएसवीसी / 7702 /	ए / पी लंघापुर-रोही, तालुक मुर्तियाजपुर, जिला अकोला- 444601, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	10.05.82
1645	पढार नारनभाई नरसिंहभाई	गुजएसवीसी / 2729 / 06	एटी एवं डाक चिभादा, दरबार वास, तालुक देवदार, जिला बी. के., गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसडीएयू / 06	01.06.81
1646	पैठनपागारे यशपाल मुरलीधर	महाएसवीसी / 7708 /	ए / पी शिवूर, तालुक वैजापुर, जिला औरंगाबाद - 431116, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	20.03.84
1647	पलाश हंसदा, पुत्र श्री पूर्ण च. हंसदा	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3268 / 06	ग्राम बेगमपुर, थाना एवं डाक केशियारी, जिला मिदनापुर- 721133, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	01.10.82
1648	पाल्हे हर्षवर्धन साहेबराव	महाएसवीसी / 7244 /	444, बवाडा, तालुक इंद्रपुर, जिला पुणे- 413103, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	07.04.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1649	पाल्वे अविनाश प्रहलाद	महाएसवीसी / 7239 /	"पारिजातक", प्लॉट नं. 7, म्हास्के कॉलोनी (बाउत कॉलोनी), पठादी, तालुक पाठरदी, जिला अहमदनगर -414102, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	01.11.80
1650	पामेला हलदर, पुत्री श्री सुधीन्द्र नाथ हलदर	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3239 / 06	4, सिराज मॉडल लेन, कॉलेज एप्रोच, डाक कांचरा पारा, जिला 24 परगना(उ.)- 743145, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	22.09.82
1651	पांचाल धीरेन्द्र कुमार	गुजएसवीसी / 2751 / 06	एटी / डाक नंदीसर, तालुक गोधरा, जिला पंचमहल- 388710, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 06	06.12.83
1652	पांडे अशोक भास्करराव	महाएसवीसी / 7693 /	ए-4, ईस्ट कॉलोनी, सीआरएस बीएआईएफ, उरुलीकंचन, तालुक हवेली, जिला पुणे- 412202, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 7 8	28.04.55
1653	पांडे जयंत भास्करराव	महाएसवीसी / 7308 /	गुरू-कृपा, मिसर नगर, जितूर रोड, परभनी- 431401, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएयूए परभनी / 82	08.11.61
1654	पनेह किशोर भारती, पुत्र स्व. श्री बनारसी प्रसाद सिंह	बीवीसी / 2697 / 05	ग्राम मिलिक जोदारी, डाक मुश्कीपुर, थाना असारगंज / तारापुर- 813201, जिला मुंगेर, बिहार	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएस यू / 05	10.02.81
1655	पनगांवकर लक्ष्मी कांत अशोकराव	महाएसवीसी / 7545 /	'नरसिम्हा कृपा', त्रिमूर्ति नगर (पूर्व), परभनी- 431401, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 03	07.01.79
1656	पानिला टी., पुत्री श्री तुलसीरामे गौडा टी.	कर्नाएसवीसी / 38 80 / 06	मारी देवी रोड, मिरले- 571603, के.आर. नगर, तालुक मैसूर, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	30.04.82
1657	पंकज भारद्वाज, पुत्र श्री शंकर लाल	राजएसवीसी / 3262 / 06	2-बीए-7, धीरगढ़, दादाबारी एक्सटेंशन, कोटा, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 04	03.07.76

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1658	पंकज कुमार वर्मा, पुत्र श्री जगदेव प्रसाद वर्मा	यूपीवीसी / 4397 / 06	म.न. 19, प्रगति नगर, हरदोई, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 06	03.07.77
1659	पंकज कुमार, पुत्र स्व. श्री बालकृष्ण प्रसाद	बीवीसी / 2707 / 05	ग्राम कागजी, डाक बिहार शरीफ, थाना बिहार शरीफ— 803101, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएटी / 05	16.09.78
1660	पंकज कुमार, पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद	बीवीसी / 2645 / 05	ग्राम सिहौता बाजार, डाक महाराजगंज, थाना महाराजगंज— 841238, जिला सीवन, बिहार	बीवीएससीएंडएच / बीएयू / 05	05.02.79
1661	पंकज कुमार, पुत्र श्री रामेश्वर दत्त	एचपीएसवीसी / 7 80 / 06	ग्राम एवं डाक अपर—हारेत, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेकेवीवी / 06	20.09.74
1662	पंकज पांडे, पुत्र श्री एच. सी. पांडे	यूपीवीसी / 4461 / 06	357, एच-2, दूसरी मंजिल, किदवई नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 00	24.07.77
1663	पंकज शर्मा, पुत्र श्री अमी दत्त शर्मा	एचपीएसवीसी / 7 58 / 06	ग्राम जंदराना, डाक गुमरली, थाना बडसर, जिला हमीरपुर, हि. प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेकेवीवी / 06	22.03.82
1664	परब वैभव प्रदीप	महाएसवीसी / 7233 /	सातेरी मंदिर के निकट, वेंगुरला, सिधुदुर्ग— 416516, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएफएसयू / 04	27.01.80
1665	परमिता मैती, पुत्री श्री अनंत कुमार मैती	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3253 / 06	ग्राम बजबैजा, डाक दक्षिण कलामदान, जिला पी / मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	04.06.81
1666	पारते सुरेंद्र भगवान	महाएसवीसी / 7697 /	द्वारा बी.एन. पारते, पार्वती नगर, जोशी प्लॉट, पुलगांव, तालुक देवली, जिला वर्धा— 442302, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएफएसयू / 06	23.05.84
1667	परदेशी गौरव दिलीप	महाएसवीसी / 7452 /	उत्तरी मेन रोड, लेन—डी, कोरेगांव पार्क, तालुक हवेली, जिला पुणे— 411001, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएफएसयू / 05	30.06.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1668	पारधी सीमा मुखरन	महाएसवीसी / 7146 /	द्वारा एम.एन. पारधी, ज्ञानेश्वर मंदिर के निकट, विद्या नगर, भंडारा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	19.12.81
1669	परेश प्रसाद सिंह, पुत्र श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह	बीवीसी / 2728 / 06	ग्राम राजापकार, डाक राजापकार, थाना राजापकार, जिला वैशाली, बिहार	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएसएंड डटी / 75	01.08.52
1670	पारीजात कबिराज, पुत्र श्री परिमल कुमार कबिराज	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3272 / 06	ग्राम एवं डाक पातीराम, जिला डी/दीनाजपुर- 733133, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएसएस / 06	04.01.83
1671	पारिख सूर्यकांत सोमभाई	गुजएसवीसी / 2703 / 06	44, इंदिरा पार्क, गुरुकुल स्कूल के सामने, कंसा रोड, विसनगर, जिला मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसडीएयू / 06	05.02.84
1672	परिमल रॉय, पुत्र श्री गोपाल चंद्र रॉय	टीएनवीसी / 1362 / 05	बी 1, यूनीक शेल्टर, प्लॉट न. 10/946, 69वीं स्ट्रीट, 11 सेक्टर, के.के. नगर, चेन्नई- 600078	बीवीएससीएंडएच / बीसीकेवी वी / 86	03.12.61
1673	परमार वसंतभाई रमेशभाई	गुजएसवीसी / 2704 / 06	75, पारस सोसायटी, मेघराज रोड, मोदासा, जिला साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसडीएयू / 06	20.06.84
1674	परमार विजय कुमार कलाभाई	गुजएसवीसी / 2774 / 06	20, प्रमुख स्वामी सोसायटी, दाकोर रोड, कपाडवंज, जिला खेड़ा- 387620, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 06	03.07.83
1675	प्रवीण, पुत्र श्री कौशलेन्द्र प्रताप सिंह	बीवीसी / 2647 / 05	ग्राम इंद्रापुरी, डाक केशरी नगर, थाना केशरी नगर- 800024, जिला पटना, बिहार	बीवीएससीएंडएच / बीएयू / 05	23.11.78
1676	परवीन के. शर्मा, पुत्र श्री बदरी दास	एचपीएसवीसी / 754 / 06	ग्राम डबरोग, डाक एवं तहसील सरकाघाट, जिला मंडी, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेकेबीवी / 06	22.02.69
1677	परवीन कुमार परवीन, पुत्र श्री आनंदी प्रसाद	बीवीसी / 2721 / 06	ग्राम शेरगढ़, डाक शेरगढ़, थाना गोगरी- 851203, जिला खगरिया, बिहार	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएसएंड एफएस / 05	01.03.77



क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1678	पाशमवर सुरेश लिंगन्ना	महाएसवीसी/ 7250/	ए/पी पेठ अमरापुर गली, देगलूर, जिला नांदेड़- 431717, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 03	10.05.78
1679	पटेल अखिल रमेशभाई	गुजएसवीसी/ 2705/06	एफ/28/385, उत्सव अपा., भवसार होस्टल के निकट, नवा वडाज, अहमदाबाद -380013 गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एसडीएयू/06	06.09.84
1680	पटेल अमित कुमार कनुभाई	गुजएसवीसी/ 2706/06	एटी नारना मुवाडा, तालुक कपाडवंज, डाक गारोद, जिला खेड़ा- 387620, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एसडीएयू/06	27.12.82
1681	पटेल अतुल कुमार महेन्द्रभाई	गुजएसवीसी/ 2707/06	ओला, तालुक कलोल (एन.जी.), जिला गांधीनगर- 387721, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एसडीएयू/06	01.04.83
1682	पटेल अतुल कुमार बच्चूभाई	गुजएसवीसी/ 2752/06	डी/104, पायल नगर सोसायटी, नरोदा, अहमदाबाद - 382330, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/06	09.12.84
1683	पटेल भाविका रमेशभाई	गुजएसवीसी/ 2753/06	बी-23, उर्मी सोसायटी, जगन्नाथ महादेव के निकट, आनंद- 388001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/06	30.01.84
1684	पटेल बिंदु बाबूलाल	गुजएसवीसी/ 2708/06	15, मारुति पार्क, बस स्टैंड रोड, पाटन (एन.जी.), गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एसडीएयू/06	28.09.83
1685	पटेल धर्मेश कुमार चंद्रकांत	गुजएसवीसी/ 2709/06	कोटावाडिया पुरा, ढोलवास, डाक एवं तालुक चनसामा, जिला पालन, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एसडीएयू/06	21.03.84
1686	पटेल हर्षद कुमार बाबूलाल	गुजएसवीसी/ 2710/06	वंडावालू मढ, एटी एवं डाक उमता, तालुक विसनगर, जिला मेहसाना (एन.जी.)- 383340, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एसडीएयू/06	18.06.84
1687	पटेल हीरेन नागिन भाई	गुजएसवीसी/ 2711/06	एटी एवं डाक जालमपुरा, तालुक बयाद, जिला टी.एस.के.- 383340, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एसडीएयू/06	07.08.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1688	पटेल जामिन कुमार रमेशभाई	गुजएसवीसी / 2755 / 06	11, मनीश पार्क सोसायटी, माई मंदिर रोड, नाडियाड- 387002, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / एएयू / 06	09.08.84
1689	पटेल जतिन कुमार अमृतलाल	गुजएसवीसी / 2712 / 06	सी / 25, विक्रम का तपोवन बंगला, कनसा एन.ए., विसनगर, जिला मेहसाना (एन.जी.), गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / एसडीएयू / 06	15.07.84
1690	पटेल जयंत चमनलाल	गुजएसवीसी / 2713 / 06	20, अम्बिका सोसायटी-2, मनसा, महाकाली मंदिर के निकट, मनसा- 382845, जिला गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / एसडीएयू / 06	16.03.84
1691	पटेल जिग्नेश कुमार विष्णुभाई	गुजएसवीसी / 2757 / 06	एटी रामपुरालाट, डाक कथाना, तालुक कथलाल, जिला खेड़ा; 387640, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / एएयू / 06	15.10.83
1692	पटेल जिनाल दिनेशभाई	गुजएसवीसी / 2714 / 06	द्वारा पटेल गीताबेन, पी 3, साईकृपा सोसायटी, पंचशील सोसायटी के निकट, बेचरपुरा, पालनपुर (ब्लॉक), गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / एसडीएयू / 06	12.11.83
1693	पटेल कल्पेश कुमार चंदूलाल	गुजएसवीसी / 2758 / 06	प्लॉट न. 944 / 1, सेक्टर 5-सी, वावोल रोड, गांधीनगर - 382005, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / एएयू / 06	17.07.84
1694	पटेल मंदार किसन	महाएसवीसी / 7710 /	सी-101, केशव धाम, पटेलपदा, दहानू रोड, दहानू जिला थाणे 401602, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच / एमएएफएसयू / 06	02.02.80
1695	पटेल नयन अमृतलाल	गुजएसवीसी / 2715 / 06	67, प्रीतम नगर, नए मार्केट यार्ड के निकट, पाटन रोड, दीसा, जिला बनासकंठा- 385535, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / एसडीएयू / 06	09.07.84
1696	पटेल प्रीतेशकुमार बिलालभाई	गुजएसवीसी / 2759 / 06	झुंड, तालुक वीरभगाम, जिला अहमदाबाद- 382185, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / एएयू / 06	30.11.83
1697	पटेल रवीन्द्र किशोरभाई	गुजएसवीसी / 2773 / 06	एटी एवं डाक नाना चेखाला, तालुक टालोड, जिला साबरकंठा- 383305, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / एएयू / 06	01.06.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1698	पटेल रिकेश कुमार भूदरभाई	गुजएस्वीसी / 2716 / 06	सी / 1 / 2, एस.के. नगर, दांतीवाडा, जिला बी.के.— 385506, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसडीएयू / 06	28.07.82
1699	पटेल संजयकुमार भागुभाई	गुजएस्वीसी / 2760 / 06	72, रंगकृपा सोसायटी, एटी एवं डाक किम, तालुक ओलपड, जिला सूत, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 06	30.03.84
1700	पटेल श्रेयस कुमार खोडीदास	गुजएस्वीसी / 2772 / 06	गो. अनुसंधान केंद्र (जीएयू), एटी डाक एवं तालुक वीजापुर, जिला मेहसाना— 382870, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 06	17.10.83
1701	पटेल सुनील कुमार महेश भाई	गुजएस्वीसी / 2717 / 06	प्लॉट नं. डी / 1, सेक्टर 7—बी, निम्न नगर, अहमदाबाद—382481, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसडीएयू / 06	03.08.84
1702	पटेल तृपेश जयंति लाल	गुजएस्वीसी / 2719 / 06	77, अयोध्या नगर सोसायटी, काकोशी रेलवे फाटक के निकट, तालुक सिद्धपुर, जिला पाटन, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसडीएयू / 06	12.12.82
1703	पटेल तुशार कुमार भाईलाल भाई	गुजएस्वीसी / 2718 / 06	प्लॉट नं. 1402 / 1, सेक्टर 3—बी, चर्च के निकट, गांधीनगर—382006, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसडीएयू / 06	25.01.84
1704	पटेल विजय कुमार बाबूलाल	गुजएस्वीसी / 2761 / 06	मांडवी चौक, एटी एवं डाक रनधेजा, जिला गांधीनगर— 382620, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 06	26.09.83
1705	पटेल विपुल कुमार नरोत्तम भाई	गुजएस्वीसी / 2762 / 06	एटी एवं डाक पुड्याम, तालुक विसनगर, जिला मेहसाना (उ.गो.)— 384310, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 06	30.05.84
1706	पटेल विपुल कुमार प्रहलाद भाई	गुजएस्वीसी / 2728 / 06	एटी एवं डाक कंसा, ग्राम नविओल, तालुक विसनगर, जिला मेहसाना— 384315, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसडीएयू / 06	05.11.81
1707	पाठक नयनज्योति, पुत्र श्री त्रिदाश पाठक	असम / 2274 / 07	द्वारा श्री त्रिदाश पाठक, डाक तमूलपुर, जिला बक्सा— 781367, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 07	31.12.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1708	पठान इमरान मलिक हमीद मलिक	महाएसवीसी/ 7279/	सूर्य सोसायटी, इनायत नगर के पीछे, मवलाना आजाद स्कूल के निकट, परभनी, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 04	12.06.81
1709	पठान इमरान खान हूर खान	महाएसवीसी/ 7305/	परकोटा गली, पुराना डाक घर रोड, पारतूर, जिला जालना, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 04	01.05.81
1710	पठान मोहसिन खान मुस्तफा खान	गुजएसवीसी/ 2720/06	ब्लॉक न. 10/9, स्टाफ क्वार्टर्स, एस.डी.ए.यू., एस.के. नगर, तालुक दांतीवाड़ा, जिला बी.के., गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एसडीएयू/06	16.06.84
1711	पाटिल अजय विठ्ठल	महाएसवीसी/ 7611/	बी-2, तारा टैरेस, इंगले नगर, कोल्हापुर, तालुक करवीर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 06	02.09.84
1712	पाटिल अजीत महादेव	महाएसवीसी/ 7608/	रामकृष्ण लेन, 760-ए, वार्ड, करवीर, तालुक करवीर, जिला कोल्हापुर- 416012, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 06	27.09.82
1713	पाटिल अमित अशोक	महाएसवीसी/ 7457/	द्वारा श्री ए.एस. पाटिल, गूजरपुरा, ए/पी चाहर्दी, तालुक घोपडा, जिला जलगांव- 425434, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 05	15.10.82
1714	पाटिल अमित रमेश	महाएसवीसी/ 7696/	कुमार नगर, ब्लॉक नं. 0/9-7, सेंट्रल बैंक के निकट, साकरी रोड, धुले-424001, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 06	03.09.83
1715	पाटिल अमोल अशोकराव	महाएसवीसी/ 7348/	'शिवालय', बस डिपो के निकट, गणेश नगर, औसा, तालुक औसा, जिला लातूर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 05	24.08.82
1716	पाटिल अमोल प्रमोद	महाएसवीसी/ 7438/	राजहंस बिल्डिंग, चैतन्यवाडी, तालुक जिला बुलदाना- 443001, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 05	15.09.82
1717	पाटिल अर्चना राजकुमार	महाएसवीसी/ 7508/	द्वारा श्री आर.टी. पाटिल, मांजरा, एस.एस.के. लि., विलासनगर, तालुक जिला लातूर- 413531, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 05	15.02.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1718	पाटिल अतुल विष्णु	महाएसवीसी / 7206 /	ए/पी सतापेवाडी, तालुक वात्वे, जिला सांगली, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	25.05.82
1719	पाटिल दीपाली पांडुरंगराव	महाएसवीसी / 7126 /	'गीतई', 25-रामदास नगर, कोरेगाव रोड, परभनी, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	24.10.82
1720	पाटिल द्रोणाचार्य जगताराव	महाएसवीसी / 7470 /	ए/पी मधगावहन, तालुक अमलनेर, जिला जलगाव, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	17.11.79
1721	पाटिल कमलाकर मधुकर	महाएसवीसी / 7235 /	एटी काती, डाक खुपरी, चिंचघर रोड, काती, तालुक वडा, जिला थाणे, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	01.06.78
1722	पाटिल लीना विजय	महाएसवीसी / 7360 /	ओमकार, 'ए', श्रीकृष्णा अस्पताल के निकट, द्वारका, तालुक नासिक, जिला नासिक, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	27.12.82
1723	पाटिल मचनूरकर राव वैजेंद्र प्रसाद माधवराव	महाएसवीसी / 7276 /	मचनूर, तालुक बिलोली, जिला नांदेड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	01.05.82
1724	पाटिल मंजूषा	महाएसवीसी / 7129 /	शिवकृपा, शास्त्री नगर, परभनी, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	25.04.82
1725	पाटिल मुकेश सुभाष	महाएसवीसी / 7650 /	द्वारा सुभाष चिंतामन पाटिल, ए/पी कसोदा, तालुक इरानूल, जिला जलगाव- 425110, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	20.05.83
1726	पाटिल नीलेश रामदास	महाएसवीसी / 7469 /	ए/पी खामपिमरी, तालुक शिवगांव, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	28.08.81
1727	पाटिल पादन्या अशोक	महाएसवीसी / 7695 /	वरुणपुष्प बिल्डिंग, कमरा न. 5, शास्त्री नगर, खोपोली, तालुक खालापूर, जिला रायगढ, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	17.09.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1728	पाटिल परिशा भारत	महाएसवीसी / 7509 /	17/2, सेंट्रल कॉलोनी, सीएचएस लि., चेम्बूर फ्लाईओवर, चेम्बूर, मुम्बई— 400071, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 03	17.11.79
1729	पाटिल प्रदीप भादू	महाएसवीसी / 7210 /	अपर्णा राज हाउसिंग को. सोसायटी, सी-4/3, जल टंकी के निकट (टीएमके), काल्वा (खोरगांव), काल्वा (पू.), जिला धाणे, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 04	08.08.82
1730	पाटिल राहुल जयवंत राव	महाएसवीसी / 7578 /	प्लॉट न. 3, श्री कृष्ण नगर, वाडीमोकर रोड, देवपुर, जिला धुले, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 06	21.09.82
1731	पाटिल राजाश्री नामदेव	महाएसवीसी / 7474 /	द्वारा नामदेव पाटिल राज टेलर, 2501, न्यू सम्भाजी नगर, तालुक गोहिंगलाज, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 05	12.04.83
1732	पाटिल सागर नेताजी	महाएसवीसी / 7401 /	ए/पी करवडी, तालुक करड, जिला सतारा— 413105, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 05	08.01.83
1733	पाटिल सतीश लक्ष्मण	महाएसवीसी / 7680 /	'मनोरथ', चैतन्यवाडी, मलकापुर, जिला बुलदाना— 443101, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 06	29.09.80
1734	पाटिल श्रीकांत सोमा	महाएसवीसी / 7299 /	ए/पी अरालगुंडी, तालुक भूदरगढ, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 02	22.06.80
1735	पाटिल शुभांगी बाबूराव	महाएसवीसी / 7347 /	विजयनगर बिदर रोड, उदगीर, जिला लातूर— 431517, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 05	01.07.82
1736	पाटिल उमेश मधुकर	महाएसवीसी / 7368 /	मारुति मंदिर के निकट, एटी/डाक कोल्पेवाडी, तालुक कोपरगांव, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 05	03.03.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1737	पाटिल विजय कुमार मल्लिकार्जुन	महाएसवीसी/ 7391/	ए/पी उमादी, तालुक जाठ, जिला सांगली- 416413, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 05	01.06.83
1738	पाटिल विनायक नरेश	महाएसवीसी/ 7481/	न्यू सम्पत निवास, एस/6, हनुमान नगर, बांडरेकर वाडी, जोगेश्वरी (पू), मुम्बई, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 05	24.06.82
1739	पटवर्धन देवश्री श्रीकृष्णा	महाएसवीसी/ 7572/	राम मंदिर के सामने, पंढारपुर रोड, मिराज, जिला सांगली- 416410, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 06	04.03.84
1740	पवन कुमार के.एन., पुत्र श्री नागराजा के.	कर्नाएसवीसी/39 17/06	पुत्र श्री नागराजा के., वकील एवं नोटरी, कोर्ट सर्कल, अलूर- 573213, हसन जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू /06	18.03.84
1741	पवन कुमार तिवारी, पुत्र श्री के.डी. तिवारी	एमपीएसवीसी/2 374/06	पॉलीटेक्निक कॉलेज के पीछे, ढोंगा रोड, टीकमगढ़, म.प्र.- 472001	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/0 6	31.03.80
1742	पवन कुमार, पुत्र श्री बलवीर सिंह	डीवीसी/0670/ 06	बीजी-7/29, पश्चिम विहार, नई दिल्ली	बीवीएससीएंडएच /सीएसएयूएंडट ी/95	15.01.67
1743	पवित्रा बी.एच., पुत्री श्री हनुमंथा बी.एच.	कर्नाएसवीसी/38 72/06	3779/3, 8वां क्रॉस 'बी' ब्लॉक, गायत्रीनगर, बंगलौर- 560021, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू /06	13.11.83
1744	पवन कुमार सिंह, पुत्र श्री राम नारायण सिंह	बीवीसी/2709/ 05	ग्राम शंकरपुर, डाक शंकरपुर, थाना रोजेरा- 848117, जिला समस्तीपुर, बिहार	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएस यू /05	01.02.82
1745	पवन कुमार सिंह, पुत्र श्री एस.पी. सिंह	यूपीवीसी/4558 /07	ग्राम एवं डाक मेओपुर, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /सीएसकेकेवीवी /06	05.02.80
1746	पवन कुमार उपाध्याय, पुत्र श्री एस.जे. उपाध्याय	यूपीवीसी/4458 /06	वार्ड न. 24, मेन, बाजार, थाने के निकट, म.न. 285 वार्ड, जलालपुर, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /डब्ल्यूबीयूएफए स/06	15.04.79

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1747	पवन कुमार, पुत्र श्री रामेश्वर दास	एचवीसी/ 1932 /	ग्राम एवं डाक बालसमंद, वार्ड न. 5, जिला हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 06	24.12.83
1748	पवन कुमार, पुत्र श्री साजू राम	एचपीएसवीसी / 7 66 / 06	ग्राम बर्दवान, डाक कनैद, थाना सुंदर नगर, मंडी- 175137, हि. प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेकेवीवी / 06	28.07.82
1749	पवंकर कर्णसाई नरसिंगराव	महाएसवीसी / 7462 /	पवन फोटो स्टूडियो, मेन रोड, बिलोली, तालुक बिलोली, जिला नांदेड़- 431710, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	18.06.80
1750	पवार ए. अलाप नटवरलाल	गुजएसवीसी / 2763 / 06	31, न्यू गिरिराज सोसा., आर. आर. त्रिवेदी हाईस्कूल के सामने, वेजलपुर, सीटैलाइट, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 06	07.05.84
1751	पवार अमोल बच्चन साहेब	महाएसवीसी / 7255 /	एटी हसाला, डाक बुधोदा, तालुक औसा, जिला लातूर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 03	20.06.80
1752	पवार आशीष बारुराव	महाएसवीसी / 7333 /	हेमदीप, प्लॉट न. 25, गारेखेडा रोड, सांरग सोसायटी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	11.08.82
1753	पवार दिनेश हरि	महाएसवीसी / 7613 /	लाहाने लेआउट, सामर्थ नगर, बुलधाना- 443001, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	17.04.83
1754	पवार दिनेश वामन	महाएसवीसी / 7297 /	नाना सावंत चौक, कमरा न. 3, सवारदे, तालुक चिपलून, जिला रत्नागिरि, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 02	14.03.80
1755	पवार गौरी अशोकराव	महाएसवीसी / 7195 /	लक्ष्मी माधव अपार्टमेंट, फ्लैट न. 9, मंगलवार पेठ, सतारा, जिला सतारा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	06.06.81
1756	पवार राहुल मोहनचंद्र	महाएसवीसी / 7154 /	"पवार सदन", लोकोशेड के निकट, प्राइमरी स्कूल, सिविल लाइन, गोंडिया, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	23.11.81



क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1757	पवार सचिन कुमार शिवाजीराव	महाएसवीसी / 7207 /	395, जिवहाला निवास, लक्ष्मी कॉलोनी, वरुनजी, तालुक खुर्द, जिला सतारा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	19.08.81
1758	पवार संजय जीवन	महाएसवीसी / 7238 /	कंदार, तालुक करमला, जिला सोलापुर- 413202, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	31.05.82
1759	पवार शिवाजी अशोकराव	महाएसवीसी / 7517 /	राम पुरवाता केंद्र, कांडरे तलीम के निकट, पंढारपुर- 413304, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	01.05.82
1760	पवार वैभवी विजय	महाएसवीसी / 7475 /	नवोदय पार्क, फ्लैट न. 21, होतगी रोड, मोहिते नगर के निकट, तालुक जिला सोलापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	12.01.83
1761	पवार विनायक हेमा	महाएसवीसी / 7736 /	द्वारा यू.जे. राठौड़, आई/ओ हनुमान मंदिर, पिंगले नगर, धनोरा रोड, बीड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	01.02.78
1762	पवार विशाल मधुकर	महाएसवीसी / 7719 /	19, सप्तश्रृंगी, प्रसाद नगर, गलवाडे रोड, अमलनेर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	21.05.84
1763	पवार योगेश जेनाबा	महाएसवीसी / 7313 /	एटी भडवडे, डाक शिवाजी नगर, तालुक खंडाला, जिला सतारा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	27.01.82
1764	पवारा मनोज वेस्ता	महाएसवीसी / 7675 /	एटी सिरसानी, तालुक अकरानी, जिला नंदूरबार- 425414, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 02	01.06.77
1765	पेचे सोहन सखाराम	महाएसवीसी / 7652 /	ए/पी सौतादा, तालुक पटोडा, जिला बीड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	26.03.84
1766	पेंढारकर अभिषेक आनंद	महाएसवीसी / 7672 /	पंचायत समिति, क्वा. न. 3, डोंडियाचा रोड, शाहदा, जिला नंदूरबार- 425409, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	28.03.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1767	पेरुमल केशवन, पुत्र श्री सी. पेरुमल	टीएनवीसी / 1584 / 05	26 / 3 / 105ई, एम.बी.टी.रोड, बेलियम्पा नगर, वलजापेट डाक व तालुक, वेल्डोर जिला, तमिलनाडु 632513	बीवीएससी / मद्रासविधि / 73	31.01.50
1768	फाल्के नंदकुमार भारत	महाएसवीसी / 7705 /	एम-11 / 516, ए / पी वालचंद नगर, तालुक इंदापूर, जिला पुणे- 413114, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	14.11.83
1769	फांगेहो एथोनी नाकसो, पुत्र श्री बोरसिंग फांगेहो	असम / 2273 / 07	ग्राम चेकारतो, जंगखू, जिला कारबी, अंगलॉग- 782448, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 07	20.11.82
1770	फिलेटलबस मारक, पुत्र श्री गिल्बर्ट मारक	मेघएसवीसी / 243 / 06	अपर रॉंगखोन, पश्चिमी गारो पहाड़ियां, तुरा, मेघालय	बीवीएससीएंडएच / एमएयू / 83	1.11.60
1771	फोंडबा भूपेंद्र तुलशीदास	महाएसवीसी / 7214 /	धुशीवाडा, तालुक मालवन, जिला सिंधुदुर्ग- 411606, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	30.08.82
1772	पिचाड तुकाराम मोहन	महाएसवीसी / 7201 /	सावित्री सदन, कमरा न. 3, तालुक अकोला, जिला अहमदनगर- 422601, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	01.10.81
1773	पिनाकी साहा, पुत्री श्री प्रदीप साहा	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3259 / 06	ग्राम इंद्र नारायण पुर कॉलोनी, डाक गंगारामपुर, जिला द. / दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	01.09.83
1774	पिसे प्रवीन मोरेश्वर	महाएसवीसी / 7185 /	वखार निम्बलकर, तालुक फाल्टन, जिला सतारा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	17.02.82
1775	पीयूश गोयल, पुत्र श्री अविनाश गोयल	यूवीसी / 167 / 07	48 / 3, नेशनल रोड, लक्ष्मन चौक, देहरादून, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 96	18.08.72
1776	पोघाडे देवेंद्र नारायणराव	महाएसवीसी / 7335 /	अवदूत कृपा निवास, संतोषी माता कॉलोनी, करंजा लाड, जिला वाशिम, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	22.10.79

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1777	पूजा कंवर, पुत्री श्री एम. एस. कंवर	एचपीएसवीसी / 764 / 06	फ्रैंड्स कॉलोनी, होलता, पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेकेवीवी / 06	20.04.83
1778	पूनम उनियाल, पुत्री श्री राधे श्याम उनियाल	यूवीसी / 185 / 06	एफ-22, टीएचडीसी कॉलोनी, मोधूरवाला रोड, देहरादून, उत्तरांचल प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 03	25.11.78
1779	पूनम यादव, पत्नी श्री विनोद कुमार	यूपीवीसी / 4531 / 06	ग्राम एवं डाक मिर्जापुर, जिला रायब्रीर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 00	28.05.77
1780	पूनमल्ली प्रसाद, पुत्र श्री पी. सुब्रह्मण्य	एपीएसवीसी / 4472 / 06	मिथानूर (ग्राम एवं डाक), वाया स्टोन हाउस रोड, नेल्सोर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	09.06.81
1781	पोटे ज्ञानेश एकनाथ	महाएसवीसी / 7588 /	ए / पी बालेगांव, तालुक अकोट, जिला अकोला- 444101, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएफएसयू / 06	02.07.83
1782	प्रभाकर ज्ञानमुधु एडविन, पुत्र श्री एडविन डॉसन	टीएनवीसी / 3107 / 05	20 / 43, प्रथम क्रॉस स्ट्रीट, ट्रस्टपुरम, कोडाम्बक्कम, चेन्नई 600024	बीवीएससी / टीएन एयू / 74	24.10.47
1783	प्रभदीप कौर, पुत्री श्री इंदरजीत सिंह	राजएसवीसी / 3340 / 06	23, एन-ब्लॉक, श्रीगंगा नगर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / सीएसके एचपीकेवी / 06	25.02.82
1784	प्रबीना प्रधान, पुत्री श्री गोपाबंधु प्रधान	ओवीसी / 2055 / 06	एटी बादेनाजू, डाक मलिकापुरी, जिला कंधमल, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 06	16.05.81
1785	प्रवीर चंद्र प्रधान, पुत्र श्री कार्तिक च. प्रधान	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3271 / 06	ग्राम एवं डाक शिवनगर आबाद, जिला 24 परगना (द.), थाना नामखाना- 743357, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	21.11.81
1786	प्रदीप जगलान, पुत्र श्री रामेश्वर सिंह जगलान	एचवीसी / 1923 /	म.न. 412, सेक्टर-7, अर्बन एस्टेट, करनाल, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 06	05.01.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1787	प्रदीप कुमार जेना, पुत्र श्री राम चंद्र जेना	ओवीसी/2109/07	एटी पधानी, डाक मामडिला, जिला भदरक, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/07	05.01.80
1788	प्रदीप कुमार एस., पुत्र श्री सिद्धप्पा एस.	कर्नाएसवीसी/3927/06	सिद्धारुद्ध आश्रम के पीछे, अमरज्योथी नगर, कुनीगल रोड, तुमकुर-5, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/06	13.05.83
1789	प्रदीप कुमार, पुत्र श्री भूप सिंह	राजएसवीसी/3322/06	ग्राम नरेश खुर्द, डाक अकलीमपुर, तहसील बेहरोर, अलवर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /एचएयू/05	15.07.80
1790	प्रदीप शर्मा, पुत्र श्री गंगा राम शर्मा	राजएसवीसी/3297/06	नांगा हाउस, मोहल्ला नाडिया, भरतपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/06	30.10.79
1791	प्रदीप सिंह संघु, पुत्र श्री सुखवंत सिंह संघु	पीबीएसवीसी/2684/06	383, ब्लॉक - I, बी.आर.एस. नगर, लुधियाना-141012, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /जीएडीवीएसयू/06	18.03.83
1792	प्रदीप सिंह तंवर, पुत्र श्री पदम सिंह	एचवीसी/1906/	4, भाई प्रिटिंग प्रैस वाली गली, पलवल, फरीदाबाद, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच /सीसीएसएचएयू/03	13.12.79
1793	प्रदीप सोनी, पुत्र श्री बजरंग लाल	राजएसवीसी/3266/06	गवर्न. अस्पताल के निकट, डाक विदासर, चुरु, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/06	15.10.77
1794	प्रधान मनोज श्रवनजी	महाएसवीसी/7495/	पलांडुर (घ.), तालुक लखानी, जिला भंडारा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/05	06.07.81
1795	प्रदीप कुमार मंडल, पुत्र श्री लक्ष्मण मंडल	डब्ल्यूबीएसवीसी/3293/07	ग्राम बूदाबनपुर, डाक मेचादा, थाना केटीपीपी, जिला पूर्वी मिदनापुर-721137, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच /डब्ल्यूबीयूएफएस/06	25.10.83
1796	प्रहलाद मीना, पुत्र श्री शिवो राम मीना	राजएसवीसी/3312/06	ग्राम दलवासा, डाक थानवाला, तहसील देवली, टोंक, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/06	01.03.74
1797	प्रजापति भारत कुमार वीरामाई	गुजएसवीसी/2721/06	एटी एवं डाक मोतासदी, तालुक दांता, जिला बी.के.-385120, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एसडीएयू/06	13.04.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1798	प्रकाश भट्ट, पुत्र श्री राधा बल्लभ भट्ट	यूवीसी / 182 / 06	57, फील्ड होस्टल, जीबीपीयूएंडटी, पंतनगर, जिला यू.एस. नगर, उत्तरांचल	बीबीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 98	06.03.77
1799	प्रकाश बिस्वास, पुत्र श्री प्रोदुत बिस्वास	ओवीसी / 2115 / 07	क्वा.न. एच / 12 / 1, टाइप- 2, रेल कॉलोनी, ई.कं.रेलवे, मानचेश्वर, भुवनेश्वर-17, उड़ीसा	बीबीएससीएंडएच / ओयूएटी / 07	20.04.82
1800	प्रकाश देव, पुत्र श्री राम संतोष राम	बीवीसी / 2644 / 05	ग्राम होरित, डाक होरित छपरा, थाना साहपुर, जिला भोजपुर, बिहार	बीबीएससीएंडएच / बीएयू / 05	08.11.79
1801	प्रकाश हेब्बर, पुत्र श्री महाबलेश्वर हेब्बर	टीएनवीसी / 1972 / 05	बेड़डाबेलागोंडापल्ली डाक, (वाया), थल्ली डेंकानीकोट्टा तालुक, कृष्णागिरि जिला, पिन-635114	बीबीएससी / यूएए सबंगलौर / 88	01.06.61
1802	प्रकाश कुमार बेऊरा, पुत्र श्री त्रिलोचन बेऊरा	ओवीसी / 2119 / 07	एटी / डाक बाबूजंग, वाया तार्येंडाकुरा, जिला कटक, उड़ीसा	बीबीएससीएंडएच / ओयूएटी / 07	05.07.79
1803	प्रकाश कुमार नायक, पुत्र श्री भिकारी नायक	ओवीसी / 2075 / 06	एटी लक्ष्मी प्रसाद, डाक बारापल्ली, जिला नयागढ़, उड़ीसा	बीबीएससीएंडएच / ओयूएटी / 06	16.05.82
1804	प्रकाश एम., पुत्र श्री महादेवप्पा एम.	कर्नाएसवीसी / 38 94 / 06	उदय रवि, 14वां क्रॉस, कौशिक हाई स्कूल, वी.वी. नगर, मांड्या, मांड्या जिला, कर्नाटक	बीबीएससीएंडएच / केवीएएफएसयू / 06	18.03.79
1805	प्रकाश मिश्रा, पुत्र श्री आर. के. मिश्रा	यूपीवीसी / 4375 / 06	लाइन पार, साहूकारा पूरनपुर, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश	बीबीएससीएंडएच / एनडीएयूएंडटी / 06	05.08.81
1806	प्रमील कुमार, पुत्र श्री मोहिंदर सिंह	एचवीसी / 1921 /	ग्राम एवं डाक बुटाना खेतान, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा	बीबीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 06	30.12.82
1807	प्रमोद कुमार सिंह, पुत्र श्री मुंसी सिंह	यूवीसी / 222 / 06	न.-70, नागला डेयरी फार्म, पंतनगर, जिला यू.एस. नगर, उत्तरांचल	बीबीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 88	05.03.59

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1808	प्रमोद कुमार, पुत्र श्री बंस राज	यूपीवीसी/4398/06	ग्राम एवं डाक मछली गांव, जिला अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 06	06.02.77
1809	प्रमोद एस.	केरलएसवीसी/3198/06	मदाथिल, इलिप्पाकुलम डाक, पल्लीकल (वाया), अलपुजाह -690503, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू/06	07.01.82
1810	प्रमोद शर्मा, पुत्र श्री विजय राम शर्मा	एमपीएसवीसी/2356/06	वैशांकर भवन, ईदगाह के सामने, गांधी रोड, मुरार, ग्वालियर, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी/04	28.11.79
1811	प्रणय मिश्रा, पुत्र श्री प्रभात मिश्रा	यूपीवीसी/4411/06	बाली गंज, रायबरेली, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीएयूएंडटी / 06	16.05.82
1812	प्रशांत कुमार मोहालिक, पुत्र श्री महेंद्रनाथ मोहालिक	ओवीसी/2126/07	एटी- अलपुर (ओआरआई -प्लास्ट के निकट), डाक/ जिला बालासौर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी/07	14.08.82
1813	प्रसांथी कटरागडडा, पुत्री श्री भास्कर राव	एपीएसवीसी/4453/06	डी.न. 42-1-191(5ए), तुरपु कम्मापलेम, आंगोल, प्रकासम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू/06	03.02.82
1814	प्रशांत सिंह, पुत्र श्री धरम वीर सिंह	यूपीवीसी/4493/06	मौह. कृष्णा कुटीर किरात नगर, लखीमपुर खेरी, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएंडटी / 06	01.08.80
1815	प्रशांत वर्मा, पुत्र श्री आर. सी. वर्मा	यूपीवीसी/4392/06	ग्राम एवं डाक मरथुआ सरिया, जिला अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 06	01.07.82
1816	पृथ्वीराज, पुत्र श्री रविकांत	कर्नाएसवीसी/3906/06	हनमशेट्टी, नंदगांव 585329, हुम्नाबाद तालुक, बिदर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	23.05.83
1817	प्रतीक्षा भुनजिया, पुत्री श्री नत्थूलाल	एमपीएसवीसी/2383/06	घोघरबुध मार्ग, शारदा स्कूल के निकट, इंडियन कॉलोनी, रीवा, म.प्र. 486001	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी/06	01.06.80

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1818	प्रवीण अग्रवाल, पुत्र श्री महावीर प्रसाद	एचवीसी/1938 /	पुरानी मंडी, तालाब के निकट, नारनौल जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 06	19.12.81
1819	प्रवीण कुमार गुप्ता, पुत्र श्री शिवनाथ सौं	यूपीवीसी/4536 /06	डी-65/477ए, लहरतारा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएंडटी / 06	11.08.80
1820	प्रीति तिवारी, पुत्री श्री उदय शंकर तिवारी	एमपीएसवीसी/2 342/06	251, शारदा टाकीज के पीछे, गोरखपुर, जबलपुर, म.प्र. - 482001	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेकेवीवी / 06	22.07.78
1821	प्रीतिन्दर राना, पुत्री श्री जनक सिंह राना	पीबीएसवीसी/ 2679/06	ग्राम बरनाला, डाकघर एवं जिला गुरदासपुर- 143521, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएसयू / 06	01.03.83
1822	प्रीति पी. फिलिप	महाएसवीसी/76 06/	मिलिंद कॉम्प्लेक्स, 78, हिल रोड, रामनगर, नागपुर- 10, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	06.11.83
1823	प्रेम चंद यादव, पुत्र श्री रामेश्वर दयाल	राजएसवीसी/ 3255/06	ग्राम एवं डाक बावडसाकेत पुरा, तहसील मूंडावर, अलवर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू/06	07.07.79
1824	प्रेम चंद, पुत्र श्री राम जीत	यूपीवीसी/4431 /06	ग्राम बराही कला, डाक बराहे नेवादा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीएयूएंडटी / 06	01.04.76
1825	प्रेम लता मीना, पत्नी श्री मुकेश चंद	राजएसवीसी/ 3281/06	ग्राम एवं डाक कुंजेला, वाया शहर, तहसील नादोती, करौली, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू/06	11.05.80
1826	प्रेम नारायण पांडे, पुत्र श्री जे.एस.पी. पांडे	यूपीवीसी/4362 /06	ग्राम भाङ्गीगावा, डाक भाईटोली, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएंडटी / 94	14.06.67
1827	प्रेमनारायण सक्सेना, पुत्र श्री छुट्टो लाल सक्सेना	एमपीएसवीसी/2 411/07	नेहरू कॉलोनी, स्टेशन रोड, सिहोर, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / विक्रमविवि / 62	18.02.34
1828	प्रेम नाथ ढींगरा, पुत्र श्री वेद प्रकाश ढींगरा	डीवीसी/0621/ 03	बी-1/63, फेस-11, अशोक विहार, नई दिल्ली- 110052	बीवीएससीएंडएच / पीएयू/64	14.05.41

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1829	प्रेम प्रकाश चौधरी, पुत्र श्री परमेश्वरी प्रसाद चौधरी	बीवीसी/2682/05	ग्राम महेशपुर, डाक महेशपुर, थाना पीपरा- 852109, जिला सुपौल, बिहार	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएंडएफएसयू/05	02.12.78
1830	प्रिंस मेनन के.एस.	केरलएसवीसी/3196/06	कट्टुपरम्बिल कार्थिका, थञ्जक्कारा डाक, मावेलीकारा अलपुजाह- 690102, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू/06	20.12.79
1831	प्रितांगिनी अरुखा, पुत्री श्री भगवान अरुखा	ओवीसी/2046/06	एटी नुआसाही (नागपाल), डाक उदाला, जिला मयूरभंज, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी/06	08.03.79
1832	पृथ्वी नाथ पांडे, पुत्र श्री रघुबीर पांडे	यूपीवीसी/4365/06	ग्राम एवं डाक पाली, वाया ज्ञानपुर, जिला मदीनी, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी/73	23.07.52
1833	प्रिया दर्शिनी वन्ना, पुत्री श्री वी. देवदास	एपीएसवीसी/4508/06	डी.न. 7-17-449/6, रत्नापुरी कॉलोनी का अंतिम छोर, कवितानगर, अरुंडेल पेट, गुंटूर-2, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू/06	12.08.83
1834	प्रिया के.टी.	केरलएसवीसी/3153/06	आशीर्वाद हाउस, पावुक्कोनम डाक, आनंगडी, ओट्टापलम, पलक्कड- 679522, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू/06	24.08.80
1835	प्रियदर्शि देबाशीष राउत, पुत्र श्री श्याम सुंदर राउत	ओवीसी/2080/06	एटी पोटेल्, जिला/डाक जगतसिंहपुर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी/06	30.06.81
1836	प्रियदर्शिनी गोविंद, पुत्र श्री आर. गोविंद	टीएनवीसी/1273/05	पुराना न. 4, नया न. 11, वासु स्ट्रीट, किलपौक, चेन्नई 600010	बीवीएससी / टीएनयूवीएस/96	26.01.70
1837	प्रियंकर कुमार, पुत्र श्री बच्चू सिंह	बीवीसी/2723/06	ग्राम सलेमपुर, डाक बढ, थाना बढ- 803213, जिला पटना, बिहार	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू /05	01.03.82
1838	प्रोभाकर बिस्वास, पुत्र श्री स्वप्न कुमार बिस्वास	डब्ल्यूबीएसवीसी /3234/06	प्राच्या भारती रोड, बलूरघाट, जिला द./दीनाजपुर- 733101, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस/06	01.04.83
1839	प्रोवाश अधिकारी, पुत्र श्री प्राण कृष्ण अधिकारी	डब्ल्यूबीएसवीसी /3235/06	ग्राम एवं डाक गोपालपुर (उत्तरपारा), दुर्गापुर- 713212, जिला बर्दवान, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस/06	06.03.82



क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1840	पूजा, पुत्री श्री स्वर्ण सिंह	पीबीएसवीसी / 2643 / 06	पत्नी श्री हरमनप्रीत सिंह, रामपुरा, नारायणपुरा, तहसील अबोहर, जिला फिरोजपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 06	10.03.80
1841	पूजा, पुत्री श्री स्वर्ण सिंह	राजएसवीसी / 3328 / 06	यूटीआई क्वार्टर्स के सामने, इंदिरा कॉलोनी, बीकानेर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 06	10.03.80
1842	पुकाले कैलास ज्ञानू	महाएसवीसी / 76 42 /	ए/पी निम्बवाडे, तालुक अटपडी, जिला सांगली, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	20.05.82
1843	पुलक कुमार मॉडल, पुत्र श्री बंकिम विहारी मॉडल	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3284 / 06	ग्राम नरवेदी चाक, डाक मगूरी, जगन्नाथचक, थाना पंसकुरा, जिला पूर्वा मिदनापुर - 721152, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	13.03.77
1844	पुंडेकर ऋषिकेश दादाराव	महाएसवीसी / 74 48 /	'हृषिकेश निवास', श्री कॉलोनी, शाह पेट्रोल पम्प, अकोला रोड, अकोट, जिला अकोला, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	27.04.83
1845	पुंडेकर स्नेहल नाजुकराव	महाएसवीसी / 76 17 /	उज्जवल नगर, दरयापुर रोड, अकोट, जिला अकोला- 444101, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	03.07.83
1846	पुनीत अग्रवाल, पुत्र श्री धनयाम दास	डीवीसी / 0649 / 05	93सी, सिद्धार्थ एक्सटेंशन, नई दिल्ली- 65	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 95	27.06.78
1847	पुनीत कुमार, पुत्र श्री के. एल. भट्ट	यूवीसी / 240 / 06	बी-53, कुम्हार गली, अजबपुर कलां, देहरादून, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 00	23.2.77
1848	पुनीत महाजन, पुत्र श्री बाल कृष्ण	पीबीएसवीसी / 2682 / 06	48 / 11, प्रभात सिनेमा के सामने, टिबरी रोड, गुरदासपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएएसयू / 06	08.04.82
1849	पुनीत तिरुके, पुत्र श्री एन. तिरुके	एमपीएसवीसी / 2 330 / 06	क्वा.न. 144, एन-2एआर, डी-सेक्टर, बरखेडा, भेल, भोपाल, म.प्र.- 462021	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 0 5	08.09.80

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1850	पुनुरु विजयरामी रेड्डी, पुत्र श्री श्रीनिवासुलु रेड्डी	कर्नाएसवीसी/39 03/06	2, डीसी-140, नरसिम्हा नीलया, 28, v मेन, x क्रॉस, आरजीआई कॉलोनी, एलएन पुरा, श्रीरामपुरा, बंगलौर -560021, कर्नाटक	बीवीएससी/ एपीएयू/75	15.07.49
1851	पून्या जे., पुत्र श्री जवाराजे गौडा	कर्नाएसवीसी/39 08/06	352, ब्राहिमन स्ट्रीट फोर्ट, अराकलगुडा- 573102, हसन जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएएच /केवीएफएसयू /06	15.05.83
1852	पूरन सिंह मौर्या, पुत्र श्री अमर सिंह मौर्या	एमपीएसवीसी/2 379/06	155, बाहेटी कॉलोनी, सानावाड, खारगोन, म.प्र.- 451111	बीवीएससीएंडएएच /जेएनकेवीवी/0 6	02.10.79
1853	पुरुषोत्तम शर्मा, पुत्र श्री श्याम आशु	राजएसवीसी/ 3257/06	10-बी, छाया दीप, महेश नगर, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच /आरएयू/06	14.03.79
1854	पुष्कर नाथ भट्ट, पुत्र श्री महेश्वर नाथ भट्ट	डीवीसी/0607/ 02	डी-1/102ए, सत्या मार्ग, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली- 110021	बीवीएससीएंडएएच /आगराविधि/59	09.10.37
1855	पुष्प सागर, पुत्र श्री बी.के. सागर	यूपीवीसी/4447 /06	ब्लॉक न. 3 के निकट, बीडीए कॉलोनी, कारगोन, बरेली, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच /जीबीपीयूएटी/ 06	10.05.77
1856	पुष्पेंद्र सिंह क्षत्रिय, पुत्र श्री जगदीश सिंह	एमपीएसवीसी/2 372/06	ग्राम एवं डाक गोर, टीकमगढ़, म.प्र.- 472001	बीवीएससीएंडएएच /जेएनकेवीवी/0 6	20.07.82
1857	पुष्कर सिंह हयंकी, पुत्र श्री मोहन सिंह	यूवीसी/242/06	मल्ली बाजार, ग्राम सिरका, तहसील धारघुला, जिला पिथौरागढ़, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएएच /जीबीपीयूएटी/ 98	21.09.73
1858	आर. अमुथा, पुत्र श्री वी. रामासामी	टीएनवीसी/1552 /05	27-बी, को-ऑपरेटिव कॉलोनी स्ट्रीट, गांधी नगर, मोहानुर रोड, नमक्कल 637001	बीवीएससी/टीएए नयूवीएस/91	31.07.68
1859	आर. आनंद राजा, पुत्र श्री एम. रामालिंगम	टीएनवीसी/0963 /05	कुलामंगलम (उ.) डाक, कीरामंगलम वाया, अलगुडी तालुक, पुडुक्कोट्टई जिला 614624	बीवीएससी/टीएए नयूवीएस/00	23.06.77

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1860	आर. अनिल कुमार, पुत्र श्री एल. ऋषिपाल	टीएनवीसी/1493/05	'द नैस्ट', 955/डी/4-5, रोहिणी थिएटर के पीछे, ऊटी, मैसर रोड, ऊटी- 643237	बीवीएससी/टीएन न्यूवीएएस/92	16.06.69
1861	आर. आरुमुगम, पुत्र श्री एस. रांगासामी पिल्लै	टीएनवीसी/2412/05	117-118, राजीव गांधी नगर, सोवरीपलायम, कोयम्बतूर 641028	बीवीएससी/टीएन न्यूवीएएस/91	01.06.67
1862	आर. बालागोपाल, पुत्र श्री जी. रामाचंद्रन	टीएनवीसी/1238/05	358/10, 18वां मेन रोड, ईश्वर्या फ्लैट्स, अन्ना नगर पश्चिम, चेन्नई 600040	बीवीएससी/टीएन एयू/77	21.03.55
1863	आर. बालासुब्रमण्यम, पुत्र श्री वी.एस. रामासामी	टीएनवीसी/3647/06	डी-4/144, ए इन्डियन एअर फोरसेस, परमेश्वरन विहार, 38, आर्कट रोड, सालिग्रामम, चेन्नई- 93, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/73	30.04.51
1864	आर. चंद्रन, पुत्र श्री एस. राज	टीएनवीसी/3800/07	119/2, थॉमस नगर, इल्लुपईयुरानी, कोविलपट्टी - 628502, थूथुकुडी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन न्यूवीएएस/89	16.05.66
1865	आर. चित्रा, पत्नी श्री एस. राजेंद्रन	टीएनवीसी/3159/05	4/52, इरानियनकट्टू सलई, थालीगई डाक, नमक्कल तालुक व जिला 637212	बीवीएससी/टीएन न्यूवीएएस/00	02.06.75
1866	आर. फातिमा बी., पुत्री श्री बोकाररी सैयद सरदार	टीएनवीसी/3649/06	124, छठा क्रॉस, एमकेबी नगर, व्यासारपट्टी, चेन्नई- 39, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन न्यूवीएएस/83	07.03.58
1867	आर. फ्रांसिस अरपुथा दास, पुत्र श्री ए. राजू	टीएनवीसी/3596/06	बी-31, वर्धराजा नगर, डाक थेनी, जिला 625562, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन न्यूवीएएस/05	30.06.82
1868	आर. गणेश, पुत्र श्री डी. रामालिंगम	टीएनवीसी/0779/05	न. 64 बी, वेलाला स्ट्रीट, अयानावरम, चेन्नई- 600023	बीवीएससी/टीएन एयू/76	08.09.53
1869	आर. ज्ञानसेकर, पुत्र श्री के. राजादुरई	टीएनवीसी/2428/05	210-ई, राजालक्ष्मी इल्लम, नेताजी नगर, पलानी 624601, डिंडीगल जिला	बीवीएससी/टीएन न्यूवीएएस/96	10.04.73

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1870	आर. ज्ञानसेकर, पुत्र श्री एन. रंगासामी	टीएनवीसी/2315/05	74, सीएचबी कॉलोनी, पश्चिमी तिरुचेनगोडे, नमक्कल जिला, पिन-637211	बीवीएससी/एंडएच / डॉ. पीआर डीकेवी/98	10.05.76
1871	आर. गोपीनाथ, पुत्र श्री के. राजा मनिक्कम	टीएनवीसी/3616/06	73/ए, अन्नदापट्टी ग्राम, करुपानूर डाक, तिरुपथूर तालुक, वेल्लोर जिला- 635601, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/02	09.09.77
1872	आर. गोविंद राजन, पुत्र श्री डी.टी. राजगोपाल	टीएनवीसी/0722/05	डी-125, 18वीं स्ट्रीट, पेरियार नगर, चेन्नई 600082	बीवीएससी/टीएन एयू/74	14.12.48
1873	आर. जगदीश विलफ्रेड, पुत्र श्री एम. राजारत्नम	टीएनवीसी/0890/05	43/22, नेसाविल्ली राघव स्ट्रीट, चूलई, चेन्नई 600112	बीवीएससी/ मद्रासविधि/65	19.09.37
1874	आर. जयकुमार, पुत्र श्री डी. राजा मनिक्कम	टीएनवीसी/0695/05	न. 10/28, बालाजी नगर, कीलकट्टलई, चेन्नई- 600117	बीवीएससी/ मद्रासविधि/74	01.07.48
1875	आर. जयाप्रकाश, पुत्र श्री ए. रामामूर्ति	टीएनवीसी/2929/05	न. 22/1, एलिगेंट अपार्ट., 12वीं क्रॉस स्ट्रीट, इन्द्रा नगर, अदयार, चेन्नई 600020	बीवीएससी/ टीएनएयू/81	15.03.57
1876	आर. जोनात, पुत्र श्री एस. रंगासामी	टीएनवीसी/1105/05	475/1-1, थामिरापराणी स्ट्रीट, विश्वशांति नगर, मदुरै	बीवीएससी/टीएन एयू/82	22.05.60
1877	आर. कालीराजन, पुत्र श्री के. रबीन्द्रनाथ टैगोर	टीएनवीसी/1430/05	55-डी, अशोक नगर, चौथी स्ट्रीट, मौहमदशाहपुरम, तिरुमंगलम, मदुरै जिला	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/96	15.05.73
1878	आर. कुमारसन, पुत्र श्री पी. राजू	टीएनवीसी/3644/06	एम. मेट्टुपट्टी, डाक नमक्कल -637020, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/06	10.06.79
1879	आर. माधेश्वरन, पुत्र श्री पी. राजामनिक्कम	टीएनवीसी/1276/05	कम्मानईचकमपट्टी, पुडुथामपट्टी डाक, धर्मापुरी जिला 636808	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/00	07.04.75
1880	आर. मनिक्कम, पुत्र श्री के. रामागौडेर	टीएनवीसी/2783/05	6/160, बी. काथिरचेट्टी पट्टी, पगलपट्टी डाक, ओमालूर तालुक, सलेम जिला, पिन 636304	बीवीएससी/ मद्रासविधि/68	15.06.44

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1881	आर. मधिवनन, पुत्र श्री रंगासामी	टीएनवीसी/1553/05	कल्लानगट्टू पुडुर, कोंडारासम पलायम डाक, नमक्कल जिला 637203	बीवीएससी/टीएनयूवीएस/93	05.06.70
1882	आर. मुरुगेश्वरी, पुत्र श्री वी. मथाईलागन	टीएनवीसी/3575/06	पोथीरामंगलम डाक, तिट्टागुडी तालुक, कुडालूर जिला— 606111, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनयूवीएस/00	28.03.76
1883	आर. नरेंद्र बाबू, पुत्र श्री एन. रवीन्द्रन	टीएनवीसी/0671/05	38, स्टेट बैंक कॉलोनी, इज़िल नगर, तिरुनेलवेली 627007	बीवीएससी/टीएनयूवीएस/95	03.05.72
1884	आर. पलानी डोरई, पुत्र श्री एस.एन. रामालिंगम	टीएनवीसी/1698/05	न. 155/2, सेक्रेटेरिएट कॉलोनी, किलपीक, चेन्नई— 600010	बीवीएससी/टीएनयू/88	18.11.61
1885	आर. पार्थासारथी, पुत्र श्री आर. रामाकृष्णन	टीएनवीसी/3593/06	490, छठी स्ट्रीट, भारती नगर, दक्षिणी कुम्भकोनम, डाक थंजावूर, जिला तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/70	12.02.47
1886	आर. प्रभाकरन, पुत्र श्री ए. राजामनिक्कम	टीएनवीसी/1522/05	डब्ल्यू-510, 9वीं स्ट्रीट, 'सी' सेक्टर, अन्ना नगर, वेस्टर्न एक्सटेंशन, चेन्नई 600101	बीवीएससी/टीएनयू/79	05.10.57
1887	आर. राजेंद्रन, पुत्र श्री वी. जी. रामानुजम	टीएनवीसी/1569/05	49/5, ए2-आरसी, विश्रान्ति, कारट्टैक रोड, मधुवनकरई, गुंडी, चेन्नई 600032	बीवीएससी/टीएनयूवीएस/93	16.05.70
1888	आर. राजेश नायर	केरलएसवीसी/3106/06	कालेली हाउस, इडाक्कुलंगारा डाक, करुनागपल्ली, कोल्लम जिला— 690562, केरल	बीवीएससीएंडएच/ओयूएंडटी/06	28.05.82
1889	आर. राजकुमार, पुत्र श्री एन. रामासामी	टीएनवीसी/0825/05	18 ए1, चिन्नान्नन स्ट्रीट, एस.पी. पुडुर, नमक्कल, तमिलनाडु 637001	बीवीएससी/टीएनयूवीएस/01	20.05.77
1890	आर. राजकुमार, पुत्र श्री आर. वेंकट राव	एपीएसवीसी/4483/06	1-35, चिनाबेथापुडी (ग्राम), स्टुअर्टपुरम (डाक), बपातला (एम), गुटूर जिला, आंध्रप्रदेश	बीवीएससीएंडएच/एसवीवीयू/06	01.11.80
1891	आर. रामाराज, पुत्र श्री सी. रथिनासामी	टीएनवीसी/3776/06	67, सुब्रमण्या कोइल स्ट्रीट, कामाचीपुरम डाक, थेनी— 625520, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनयूवीएस/93	08.05.72

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1892	आर. रामासामी, पुत्र श्री रामासामी	टीएनवीसी/3586/06	19, कैलासा ऊरानी स्ट्रीट, अरुप्पुकोट्टई, विरुधुनगर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/73	11.07.46
1893	आर. रामप्रभु, पुत्र श्री राजा अरुणाचलम	टीएनवीसी/1466/05	4/94 सी, सिधार स्ट्रीट, मेट्टूर डाक, अम्बासमुद्रम तालुक, तिरुनेलवेली जिला, पिन-627436	बीवीएससी/टीएनयूवीएस/92	24.07.69
1894	आर. रवि, पुत्र श्री जी. राजागोपाल	टीएनवीसी/3272/05	न. 37ए, को-ऑप. कॉलोनी, मोहानूर रोड, नमक्कल, पिन-637001	बीवीएससी/टीएनएयू/79	22.05.56
1895	आर. रवीन्द्रन, पुत्र श्री डी. रंगासामी	टीएनवीसी/1677/05	एफ-12, राजेंद्र प्रसाद सेलई, ब्लॉक 27, नेवेली, पिन-607803	बीवीएससी/टीएनएयू/78	20.01.56
1896	आर. रविसंकर, पुत्र श्री पी. राजारथिनम	टीएनवीसी/3120/05	प्लॉट न. 54, दूसरी स्ट्रीट, अन्नामलई नगर, एमसी रोड, थंजावूर-613007	बीवीएससी/टीएनयूवीएस/93	17.06.70
1897	आर. श्रवन्न, पुत्र श्री रामासामी	टीएनवीसी/1570/05	बंगाला कडु, मल्लूर डाक, सलेम जिला, तमिलनाडु, पिन-636203	बीवीएससी/टीएनयूवीएस/00	10.05.75
1898	आर. सेल्वाकुमार, पुत्र श्री पी. रामासामी	टीएनवीसी/2112/05	3/51, नॉर्थ स्ट्रीट, खनसापुरम डाक, विरुधुनगर जिला 626133	बीवीएससी/टीएनयूवीएस/01	26.06.76
1899	आर. सेल्वम, पुत्र श्री एस. रथिनासामी	टीएनवीसी/2769/05	न. 7, एनजीओ कॉलोनी, श्रीपेरुम्बुदूर, कांचीपुरम	बीवीएससी/टीएनयूवीएस/00	13.06.77
1900	आर. सेंथिलकुमार, पुत्र श्री एस. रामासामी	टीएनवीसी/2118/05	मलई गौडेर थोट्टम, बेलुकुरिची डाक, नमक्कल 637402	बीवीएससी/टीएनयूवीएस/96	03.06.70
1901	आर. शानमुगम, पुत्र श्री सी. रामालिंगम	टीएनवीसी/3770/06	मुदियानूर ग्राम, वेणिलेई पट्टी डाक, मंगलपुरम वाया, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनयूवीएस/92	10.05.68
1902	आर. सिदसंकर, पुत्र श्री एस. रामाकृष्णन	टीएनवीसी/2951/05	21, टी.एल. रघुपति स्ट्रीट, सुमाष नगर, क्रोमपेट, चेन्नई 600044	बीवीएससी/टीएनयूवीएस/01	23.04.77

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1903	आर. श्रीनिवास रेड्डी, पुत्र श्री आर. चंद्रा रेड्डी	एपीएसवीसी / 4471/06	लोडीपल्ली डाक, ओरवाकल, कुनूल जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी/एंडएच /एसवीवीयू/06	05.05.80
1904	आर. सुरेश, पुत्र श्री वी. रामानाथन	टीएनवीसी /3566 /06	ए.पी. 1391, 31वीं स्ट्रीट, छठा सेक्टर, के.के. नगर, चेन्नई— 600078	बीवीएससी /टीएन एयू/82	09.08.52
1905	आर. थिरुमावलावन, पुत्र श्री ए. रामासामी	टीएनवीसी /2123 /05	4/69, आठवां क्रॉस स्ट्रीट, कट्टुकुडलोर रोड, विरुधाचलम 606001	बीवीएससी /टीएए नयूवीएएस/01	24.06.77
1906	आर. उमाराणी, पुत्र श्री पी. वेंकटचलपथि	टीएनवीसी /2940 /05	17, कन्नाधासन मेन स्ट्रीट, एस. एस. कॉलोनी, मदुरै— 10	बीवीएससी /टीएए नयूवीएएस/93	11.06.70
1907	आर. वसंत कुमार, पुत्र श्री वी.पी. रामामूर्ति	टीएनवीसी /1600 /05	प्लॉट न. 26, डोर न. 5, अनसूया नीलायम, बालाजी नगर एक्स. III, पुजहल चेन्नई—66	बीवीएससी /मद्रा सविवि /64	17.03.43
1908	आर. वेंकटेश एन., पुत्र श्री रामा सामी टी.	डीवीसी /0626/ 04	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, अरुणा आसफ अली मार्ग, जेएनयू कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली	बीवीएससी /टीएए नयूवीएएस/97	06.05.74
1909	आर. विजयकुमार, पुत्र श्री एम. रंगनाथन	टीएनवीसी /2701 /05	प्लॉट न.113, अरिहंत गरुडा, दूसरी मंजिल, 17/2, पुलिस मनिक्कम स्ट्रीट, अयानावर, चेन्नई 600023	बीवीएससी / मद्रासविवि /68	01.02.46
1910	आर. वियजलक्ष्मी, पुत्र श्री आर.एम. रंगनाथन	टीएनवीसी /1419 /05	वी.एस.वी. हाउस, अयान कोइल स्ट्रीट, पुलानकुरिची, सिवंगंगई जिला	बीवीएससी /टीएए नयूवीएएस/92	13.12.67
1911	आर. विवेकानंदन, पुत्र श्री सी. रामाकृष्णन	टीएनवीसी /1578 /05	4/52, पेरुमल कोइल स्ट्रीट, वीरापंडी डाक, 605758, तमिलनाडु	बीवीएससी /मद्रा सविवि /70	10.07.48
1912	आर. यसोथई, पत्नी श्री ए. एस. रामालिंगम	टीएनवीसी /0883 /05	आलमपलायम डाक, मुथुर वाया, इरोडे जिला, पिन— 638105	बीवीएससी /टीएए नयूवीएएस/00	14.06.75

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1913	आर. आनंदन, पुत्र श्री वी. रंगास्वामी	टीएनवीसी/3508/06	2/355, सिरुवानी रोड, कलमपलायम डाक, कोयम्बतूर-10, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/67	2.05.42
1914	आर. अन्नलविली, पुत्र श्री आर. राजगोपालन	टीएनवीसी/1761/05	11/266-2, अरुमुगा नगर, रणसिंगापुम रोड, तिरुपतूर 630211, सिवागंगा जिला	बीवीएससी/टीएनएयू/88	10.01.66
1915	आर.सी. राजा सुंदरम, पुत्र श्री आर. चंद्रसेखरन	टीएनवीसी/2879/05	बिग स्ट्रीट, पलानीचेट्टीपट्टी, थेनी जिला	बीवीएससी/टीएनएयू/81	04.06.58
1916	आर. इलंग, पुत्र श्री टी. के. राजामनिक्कम	टीएनवीसी/3430/06	थोरानामपथी ग्राम व डाक, तिरुपथूर तालुक, पिन- 620017, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनएयू/81	7.05.55
1917	आर.के. थमीज सेल्वी, पुत्री श्री आर. कलियापेरुमल	पॉण्डीएसवीसी/287/06	न. 47, अय्यानार कोइल स्ट्रीट, थट्टानाचावडी, पॉण्डीचेरी-9	बीवीएससीएंडएच/पॉण्डीविदि/06	21.12.83
1918	आर. कनगराजन, पुत्र श्री के. रामासामी	टीएनवीसी/1819/05	नावाराथु थोट्टम, कलाकुरिची डाक, बेलुकुरिची वाया, नमक्कल जिला, सलेम जिला, पिन 637402	बीवीएससी/टीएनएयू/84	04.07.59
1919	आर. करुणाकरन, पुत्र श्री एस. रामासामी	टीएनवीसी/3478/06	न. 197, सी-81, कम्पाउंड नार्थ माधवी रोड, पेराम्बूर डाक व तालुक व जिला, पिन- 621212, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनएयू/78	5.06.51
1920	आर. कुमारराज, पुत्र श्री पी.डी. राजन	टीएनवीसी/1762/05	न.10, साउथ मदा स्ट्रीट, श्रीनगर कॉलोनी, सइदापेट, चेन्नई 600015	बीवीएससी/मद्रासविदि/71	12.10.47
1921	आर. लीना राजथी पोर्ट लुइस, पुत्री श्री पी. रोयासामी	पॉण्डीएसवीसी/283/06	न. 34, थर्ड मेन स्ट्रीट, चेलापप्पु नगर, रेडिडयार पलायम, पॉण्डीचेरी	बीवीएससीएंडएच/पॉण्डीविदि/05	14.11.83
1922	आर.पी. संधिल कुमार, पुत्र श्री आर. पेरियासामी	टीएनवीसी/0758/05	3/36, नल्लूर, कंडापलायम डाक, परमाथी वेलूर तालुक, नमक्कल जिला, पिन- 637203	बीवीएससी/टीएनयूवीएस/97	30.07.73



क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1923	आर. प्रेमानंद, पुत्र श्री के. रामकुमार	पॉण्डीएसवीसी/2 88/06	न.1, प्रथम मेन रोड, कुरुजी नगर, एक्सटेंशन, लॉसपेट, पॉण्डीचेरी-8	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डीविवि / 06	08.08.81
1924	आर. रविचंद्रन, पुत्र श्री जी. राजू	टीएनवीसी/3502 /06	निलावूर डाक, येलागिरि हिल्स, वेल्सीर जिला - 635853, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/97	10.09.72
1925	आर.एस. साजी	केरलएसवीसी/3 203/06	उलाकन विलाकोम हाउस, कोडमपल्ली वक्कोम डाक, त्रिवेंद्रम, केरल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएंडए फएसयू/06	
1926	आर. सैमुअल जोन्स रुहडी, पुत्र श्री डी.एस.पी. रुहडी	टीएनवीसी/3431 /06	41, ऑफिसर्स कॉलोनी, पुथुर, त्रिची- 620017, तमिलनाडु	बीवीएससी/ मद्रासविवि/65	18.12.38
1927	आर. श्रीधर, पुत्र श्री टी. एस. रामासामी	टीएनवीसी/2096 /05	प्लॉट न. 38ए, जसवंत नगर, मुगापेयर पश्चिम, चेन्नई-37	बीवीएससी/टीएन एयू/87	10.10.62
1928	आर.वी. सुरेश, पुत्र श्री आर.एन. वाडिवेल	टीएनवीसी/0762 /05	नया.न. 9, पुराना न. 18-बी, सर्वमंगल नगर, मेन रोड, सर्वमंगल नगर, नंगनल्लूर डाक, चेन्नई 600061	बीवीएससी/टीएन एयू/80	20.12.53
1929	आर.वी. विजय कुमार, पुत्र श्री आर. वेलुसामी	टीएनवीसी/1140 /05	19, उत्तरी मोहामाधियर स्ट्रीट, सेंदामंगलम 637409, नमक्कल जिला	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/97	28.03.73
1930	आर.ए. मुरलीधरन, पुत्र श्री एम.जी. रामादौस	टीएनवीसी/0818 /05	16, कुप्पड़याह स्ट्रीट, पश्चिम माम्बलम, चेन्नई 600033	बीवीएससी/टीएन एयू/76	10.10.50
1931	राबड़ी जयेश कुमार भीखामाई	गुजएसवीसी/27 64/06	जलसान, राबरीवास, हाई स्कूल के सामने, तालुक खममात, जिला आनंद- 388580, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू/06	28.08.84
1932	राघव चंद्र सयान, पुत्री श्री दशरथी सयान	ओवीसी/2064/ 06	एटी जगन्नाथपुर, डाक तसारदा, जिला मयूरभंज, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी/06	11.09.80
1933	राघवत्वन युवराज शिवाजी	महाएसवीसी/72 84/	121/5, गायकवाड़ चॉल, वार्ड न. 2, दापोली, पुणे- 411012, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू /04	11.02.80

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1934	रघुनाथ सिंह, पुत्र श्री सरबा सिंह	ओवीसी/2100/07	एटी जामघाटी, डाक सियादीमल, जिला बालासौर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/07	11.05.82
1935	राघवेंद्र प्रताप सिंह, पुत्र श्री एल.एन. सिंह	यूपीवीसी/4514/06	ग्राम जंजीराहा, डाक बलुआ, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएंडटी/01	01.01.79
1936	राहनडेल प्रफुलचंद भीकमचंद	महाएसवीसी/7180/	ए/पी पंढारवानी, तालुक सालेकासा, जिला गोंडिया, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/04	17.02.79
1937	रहमान मौह. जियाउर, पुत्र मौह. मफीबुर रहमान	असम/2252/06	ग्राम बिलोटिया न. 3, डाक बींग, जिला नागांव- 782123, असम	बीवीएससीएंडएच /एएयू/06	31.12.78
1938	रहमान यासमीना, पुत्री मौह. तबीबुर रहमान	असम/2276/07	द्वारा मौह. तबीबुर रहमान, कल्याणपुर, गणेशगुरी, गुवाहाटी-6, असम	बीवीएससीएंडएच /एएयू/07	05.06.80
1939	राहुल सती, पुत्र श्री आनंद बल्लभ सती	यूवीसी/207/06	म.न.111/755-बी, झा कॉलोनी, पंतनगर, जिला यू.एस. नगर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएटी/06	15.11.82
1940	राहुल शेहर, पुत्र श्री हरि राम शेहर	एमपीएसवीसी/2389/06	27/298, चावडा कॉलोनी, गुना, म.प्र.- 473001	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/06	13.04.83
1941	रायबोले राजरत्न दौलतराव	महाएसवीसी/7363/	राष्ट्रीय स्कूल और नई जल टंकी के निकट, मोठी, उमरी, तालुक जिला अकोला, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/05	08.06.82
1942	रायमोन मैथ्यू	केरलएसवीसी/3117/06	कल्लियाकट्टू मुरिकल, मलपुरम, जिला- 679334, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/06	21.10.81
1943	राज हिंभाशु, पुत्र श्री बालोराम डेका	असम/2290/07	वार्ड न. 7, बरुआपारा, मंगलदोई, जिला दारंग- 784125, असम	बीवीएससीएंडएच /एएयू/07	01.03.83
1944	राज कमल शर्मा, पुत्र श्री परसा राम शर्मा	एचपीएसवीसी/755/06	ग्राम एवं डाक राजपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच /सीएसकेकेवीवी/06	05.12.62

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1945	राज कुमार दोहारे, पुत्र श्री जियालाल	यूपीवीसी/4479/06	नगर कदौरा, एन.एन 44, मूली कटरा, जालौन, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएंडटी / 06	08.12.76
1946	राज कुमार खन्ना, पुत्र श्री बोध राज खन्ना	डीवीसी/0639/04	जेयू-36-ए, पीतमपुरा, दिल्ली-110088	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 04	14.11.78
1947	राज कुमार मित्तल, पुत्र श्री एस.सी. मित्तल	यूपीवीसी/4451/06	पेट्रोल पम्प के सामने, बाइपास रोड, खैरा गढ़, आगरा, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएसयू / 06	04.09.77
1948	राज कुमार यादव, पुत्र श्री आर.आर. यादव	यूपीवीसी/4394/06	कृष्ण नगर कॉलोनी, परिक्रमा रोड, जनौरा, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीएयूएंडटी / 06	03.05.80
1949	राज नारायण, पुत्र श्री सीताराम	यूपीवीसी/4399/06	ग्राम एवं डाक चानपुरवा, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीएयूएंडटी / 06	05.07.77
1950	राज रतन सिंह, पुत्र श्री रतन सिंह	पीबीएसवीसी/2686/06	कौलर फैक्टरी के निकट, गली न. 10, गुरु गोविंद सिंह नगर, भटिंडा, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएसयू / 06	27.12.82
1951	राजा राम सिंह, पुत्र श्री विष्णुदेव सिंह	बीवीसी/2726/06	ग्राम मोहजम्मा, डाक लक्ष्मीपुर, बिहार	बीवीएससीएंडएच / जेएनएयू/02	30.11.77
1952	राजा उदय मानु रोउत, पुत्र श्री उपेंद्र नाथ रोउत	ओवीसी/2090/06	प्लॉट न. एन/1-94, आईआरसी ग्राम, भुवनेश्वर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी/06	11.03.80
1953	राजन गुप्ता, पुत्र श्री विजय गुप्ता	पीबीएसवीसी/2651/06	358, नंगल कोटली मंडी, गुरदासपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएसयू / 06	02.03.83
1954	राजन कंसल, पुत्र श्री मोहिंदर पाल कंसल	पीबीएसवीसी/2648/06	671, स्ट्रीट न. 1, शक्ति नगर, भटिंडा- 151005, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / पीएयू/03	08.06.78
1955	राजन उत्तम गजबे, पुत्र श्री यू.ए. गजबे	एमपीएसवीसी/2360/06	पीएन- 322, संजीवनी नगर, गढ़ा, जबलपुर, म.प्र.- 482003	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी/06	20.04.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1956	रजनी कांत पांडा, पुत्र श्री मायाधर पांडा	ओवीसी/2078/06	एटी/डाक अरचीकाना, वाया नामौजा, जिला केंद्रपाड़ा, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/06	04.06.81
1957	राजशेखर आर.	केरलएसवीसी/3120/06	पोन्नम नीलायम, यूएनआरए, सी-9, पोंडीकोनम डाक, त्रिवेंद्रम- 695587, केरल	बीवीएससीएंडएच /केयू/06	08.08.81
1958	राजबोंगशी जयंत, पुत्र श्री गोजेन राजबोंगशी	असम/2260/06	अंधेरीघाट, सिपाझर, दारंग, असम	बीवीएससीएंडएच /एयू/06	03.03.80
1959	राजीव कुमार, पुत्र श्री राजेंद्र सिंह	यूवीसी/206/06	मेन मार्केट, चीनी मिल, नदाही, जसपुर, जिला यू.एस. नगर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएटी/06	01.04.83
1960	राजीव रंजन सिन्हा, पुत्र श्री राम नारायण सिन्हा	डीवीसी/0674/06	डब्ल्यूजेड-235, III मंजिल, इंदरपुरी, नई दिल्ली- 12	बीवीएससी /टीए नयूवीएस/03	16.01.79
1961	राजेंद्र कुमार सक्सेना, पुत्र श्री परमा नंद सक्सेना	डीवीसी/0620/03	सीबीएमई, आईआईटी, हौज खास, नई दिल्ली- 110016	बीवीएससीएंडएच /पीएयू/67	23.04.43
1962	राजेंद्र कुमार शर्मा, पुत्र श्री एन.एल. शर्मा	एमपीएसवीसी/2359/06	महिमा भवन, वार्ड न. 32, लश्कर चौक, ग्वालटोली, होशंगाबाद, म. प्र.- 461001	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/06	02.11.72
1963	राजेंद्र कुमार, पुत्र श्री जयपाल	यूपीवीसी/4471/06	ग्राम भिंडौरा, डाक छवाई, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /सीएसएयूएंडटी/06	05.04.79
1964	राजेंद्र कुर्मी, पुत्र श्री लल्ला प्रसाद कुर्मी	एमपीएसवीसी/2403/06	ग्राम पीपरगौर, रेहली सागर, म. प्र.- 470227	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/06	12.04.79
1965	राजेंद्र प्रसाद बहुगुणा, पुत्र श्री एस.के. बहुगुणा	यूवीसी/239/06	24/3, सर्कुलर रोड, देहरादून, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच /आगरावि वि/70	8.02.48
1966	राजेंद्र प्रसाद, पुत्र स्व. श्री रामावतार यादव	बीवीसी/2669/05	ग्राम बरबदा, डाक बरबदा, थाना साहेबपुर, कमल- 851217, जिला बेगुसराय, बिहार	बीवीएससीएंडएच /बीएयू/81	20.11.55

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1967	राजेंद्र राम, पुत्र श्री करम राम	यूवीसी/205/06	ग्राम चंटोला, डाक नरकोटी, जिला बागेश्वर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 06	18.12.66
1968	राजेंद्र सिंह बिष्ट, पुत्र श्री एच.एस. बिष्ट	यूवीसी/271/07	ग्राम पाटली गांव, डाक मलान, जिला पिथौरागढ़, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 03	01.10.79
1969	राजेंद्र यादव, पुत्र श्री सूबे सिंह यादव	एचवीसी/1931 /	ग्राम नंगल पीपा, डाक कमनिया, थाना नारनौल, (महेंद्रगढ़), हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	01.11.81
1970	राजेश अल्हन, पुत्र श्री सतबीर सिंह	एचवीसी/1947 /	म.न. 562/3, गली न. 1, हनुमान नगर, नरवाना, जिला जींद, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 06	08.09.78
1971	राजेश गोयल, पुत्र श्री जगदीश प्रसाद	राजएनवीसी/3264/06	गोयल बिल्डिंग मॅटीरियल, नीम का गेट, सर्कुलर रोड, भरतपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू/06	20.05.77
1972	राजेश गुप्ता, पुत्र श्री आर. पी. गुप्ता	यूपीवीसी/4355 /06	ग्राम एवं डाक रानीपुर, मौह. देवरी, झांसी, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एएनजीआरएयू / 05	25.01.82
1973	राजेश जादोन, पुत्र श्री एन.एस. जादोन	एमपीएसवीसी/2397/06	ग्राम जैतपुरा, तहसील गोहाद, भिंड, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी/06	21.08.81
1974	राजेश कुमार जोशी, पुत्र श्री मोहन जोशी	यूपीवीसी/4352 /06	बी-12, नरेंद्र नगर, कुमार गंज, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 86	26.06.64
1975	राजेश कुमार रंजन, पुत्र श्री राम भजन यादव	बीवीसी/2715/05	ग्राम मधिया, डाक मधिया, थाना बासोपट्टी- 847225, जिला मधुबनी, बिहार	बीवीएससीएंडएच / टीएनवीएएसयू / 05	18.07.80
1976	राजेश कुमार, पुत्र श्री बिशुनदेव शर्मा	बीवीसी/2720/06	ग्राम पीर दामरिया, मारुफगंज, थाना मलसलामी 800008, जिला पटना, बिहार	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएंडएफएस/05	01.03.80

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1977	राजेश कुमार, पुत्र श्री कौशलेंद्र कुमार	बीवीसी / 2683 / 05	ग्राम जियान बीघा, डाक जियान बीघा, थाना शेखपुरा, जिला शेखपुरा, बिहार	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएंडएफएसयू / 05	15.10.81
1978	राजेश कुमार, पुत्र श्री भैया लाल	यूपीवीसी / 4372 / 06	ग्राम फिरोजपुर, डाक फतेहगंज, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीएयूएंडटी / 06	25.06.78
1979	राजेश सिंगाठिया, पुत्र श्री प्रकाश सिंगाठिया	एचवीसी / 1930 /	म.न. 503, ब्लॉक न. 11, एन.ए. कीर्ति नगर, सिरसा, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 06	05.06.83
1980	राजेश ठाकुर, पुत्र श्री गोरेलाल	एमपीएसवीसी / 2 357 / 06	रानू भवन, विध्यवासनी मंदिर, बेरघाट रोड, सिओनी, म.प्र.— 480661	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 0 6	03.07.73
1981	राजगुरु अशोक सुभाष	महाएसवीसी / 73 74 /	मालेवाडी न.1, पलासदेव, तालुक इंदापूर, जिला पुणे— 413132, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएफएसयू / 05	01.06.82
1982	राजी ई.एस.	केरलएसवीसी / 3 199 / 06	इडट्टुपराम्बिल हाउस, मन्नुथी डाक, थिसूर— 680651, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	27.05.77
1983	राजीब कांति साहा, पुत्र श्री रमन साहा	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3289 / 06	बलिया (पूर्व), गरिया स्टेशन रोड, गरिया, कोलकाता— 700064, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	21.02.84
1984	राजिन्दर सिंह, पुत्र श्री हरभजन सिंह	पीबीएसवीसी / 2673 / 06	500, गली न. 6, गोपाल पार्क, कपूरथला— 144601, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएसयू / 06	01.01.82
1985	राजीव रंजन, पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद यादव	बीवीसी / 2713 / 05	ग्राम मोहनपुर, पुनियाचाक, डाक व थाना शास्त्रीनगर— 23, जिला पटना, बिहार	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएसएंडटी / 04	15.02.79
1986	रजनीश कुमार पाठक, पुत्र श्री अजीत कुमार पाठक	यूवीसी / 251 / 06	द्वारा श्री अजीत कुमार पाठक, ग्राम फुलसुंगा, डाक ट्राजिट कैम्प, यू.एस. नगर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 01	06.08.75

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1987	रजनीश पठानिया, पुत्र श्री दीना नाथ	एचपीएसवीसी/761/06	ग्राम एवं डाक टिहरा, जिला मंडी, हि.प्र.— 175026	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेकेवीवी / 06	19.10.81
1988	रजनी, पुत्री श्री चौधरी एन.आर.	कर्नाएसवीसी/3947/06	टी-314/3, छठा कैम्प, एयर फोर्स स्टेशन, जलहल्ली (पूर्व), बंगलौर, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	19.10.83
1989	रजनी, पुत्री श्री एन.आर. चौधरी	राजएसवीसी/3325/06	ग्राम बसनी खारिया, डाक पालरी सिद्धा, जोधपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएस / 06	19.10.83
1990	रजनीश कुमार त्यागी, पुत्र श्री जगत सिंह त्यागी	डीवीसी/0608/02	टी-16/2, यूआरआई एन्कलेव, दिल्ली कैंट	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 02	17.04.78
1991	राजपूत अतुल भगवान सिंह	महाएसवीसी/7412/	"माँ अम्बिका निवास", शिवशंकर नगर, चिखाली रोड, बुलदाना-443001, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	15.10.81
1992	राजपूत मंजुनाथ सिंह, पुत्र श्री राजपूत शिवा सिंह	एपीएसवीसी/4500/06	नायडुपेटा, पहली लेन, म.न. 4-12-9, गुंटूर, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	06.04.81
1993	राजू सैकिया, पुत्र स्व. श्री चंद्र सैकिया	मेघएसवीसी/241/06	द्वारा श्रीमती हिमा दास, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नीग्रिम्स, शिलोंग (मवाडियांगडियांग), मेघालय	बीवीएससीएंडएच / एएसयू / 02	29.6.76
1994	राकेश कुमार वर्मा, पुत्र श्री डी.आर. वर्मा	यूपीवीसी/4472/06	ग्राम एवं डाक मार्तनुआ सराना, जिला अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएंडट / 06	12.07.80
1995	राकेश कामकर, पुत्र श्री चंदन कामकर	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3279 / 06	बी-1/4, फ्लैट न. ए/11, डाक कल्याणी, जिला नादिया-741235, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	10.08.83
1996	राकेश कुमार सिंह, पुत्र श्री वीरेंद्र कुमार	यूपीवीसी/4549/06	सीएम 1/19, जेडीए कॉलोनी, वीरनगाह नगर, झांसी, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 06	08.08.80

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1997	राकेश कुमार सोनी, पुत्र श्री एस.एस. सोनी	एमपीएसवीसी/2 371/06	मुसाफिरखाना, गल्ला मंडी रोड, नौगांव, छतरपुर, म.प्र.— 471201	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/0 6	20.06.82
1998	राकेश कुमार तिवारी, पुत्र श्री गिरिजाशंकर तिवारी	एमपीएसवीसी/2 335/06	ब्लॉक कॉलोनी, मेहदवानी, डिंडोरी, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/8 6	12.09.63
1999	राकेश कुमार, पुत्र श्री राम सिंह	डीवीसी/0653/ 05	संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर, राजा गार्डन, नई दिल्ली— 27	बीवीएससीएंडएच /सीसीएसएचएयू /01	25.08.78
2000	राकेश कुमार, पुत्र श्री हरि प्रसाद	यूपीवीसी/4506 /06	मौह, चर्खीवाल, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /सीएसएयूएंडट ी/06	01.06.82
2001	राकेश मलिक, पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण	यूपीवीसी/4502 /06	सी-457, बृज विहार, डाक चंदर नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /सीएसएयूएंडट ी/06	12.12.78
2002	राकेश नायर, पुत्र श्री राज कुमार नायर	एचपीएसवीसी/7 70/06	स्माइल डेंटल केयर क्लिनिक, मिनहास अस्पताल चौक के सामने, नादौन, हमीरपुर, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच /सीएसकेकेवीवी /06	01.10.82
2003	राकेश शर्मा, पुत्र श्री राम निवास शर्मा	एमपीएसवीसी/2 328/06	द्वारा श्री ए.के. दंडोटिया; टोरखेडावाले, सिविल अस्पताल के निकट, दत्तपुरा, मोरैना, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/0 5	03.10.77
2004	राकेश सिंह नेगी, पुत्र श्री अतर सिंह नेगी	यूवीसी/181/06	स्टूडियो लॉज, कुरली, मसूरी, जिला देहरादून, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएटी/ 91	19.12.67
2005	रवशे अमोल अरविंद	महाएसवीसी/ 7366/	ए/पी साखरवाडी, तालुक फाल्टन, जिला सतारा — 415522, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /05	08.07.83
2006	राम चंदर सोनी, पुत्र श्री जगदीश चंदर सोनी	पीबीएसवीसी/ 2692/06	द्वारा जगदीश चंदर सोनी, संगम ज्वैलर्स, मुखर्जी मार्केट, अबोहर, जिला फिरोजपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/03	07.05.78



क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2007	राम गोपाल, पुत्र श्री नगेंद्र रे	बीवीसी / 2690 / 05	ग्राम बंगराहा, डाक बंगराहा, थाना बाजमती- 843301, जिला सीतामढ़ी, बिहार	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएस यू / 05	12.12.76
2008	राम जीत दूबे, पुत्र श्री सदानंद दूबे	यूपीवीसी / 4349 / 06	ग्राम एवं डाक भठार, जिला जोनपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / यूपीएयू / 69	26.06.48
2009	राम कुमार सिंह तोमर, पुत्र श्री बख्श सिंह	एमपीएसवीसी / 2 338 / 06	ग्राम पटेल का पुरा, अम्बाह, मोरैना, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवी / 0 6	20.03.79
2010	राम लखन पतेरिया, पुत्र श्री प्यारेलाल पतेरिया	एमपीएसवीसी / 2 361 / 06	ग्राम एवं डाक मवई, टीकमगढ़, म.प्र.- 472001	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 06	10.06.65
2011	राम निवास मांगे राम	एचवीसी / 1936 /	ग्राम एवं डाक सदलपुर, थाना आदमपुर, जिला हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएच एयू / 06	21.04.83
2012	राम प्रसाद गुरुनाथ कुलकर्णी, पुत्र श्री गुरुनाथ कोनहर कुलकर्णी	कर्नाएसवीसी / 3823 / 05	रोहिणी, फोर्ट हरिहर, दावणगेरे, कर्नाटक	बीवीएससी / यूएए सबंगलौर / 88	15.04.65
2013	राम प्रसाद मीना, पुत्र श्री बदरी नारायण	राजएसवीसी / 3254 / 06	ग्राम विजय पुरा, डाक राजवास, तहसील नेवाई, टोंक, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 06	10.08.76
2014	राम स्वरूप, पुत्र श्री संतोष सिंह	एचपीएसवीसी / 7 67 / 06	ग्राम बड़ी दरौला, डाक बहाना जट्टा, थाना जुनडाटा, बिलासपुर, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेकेवीवी / 06	05.12.81
2015	रामगोपाल रेड्डी, पुत्र श्री के. सत्य नारायण रेड्डी	एपीएसवीसी / 4450 / 06	बासवी रेड्डी सेंटर, कुथुकुलूर, अनापारथी (एम), पू.गो. जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	19.04.81
2016	रामकृष्णइयाह, पुत्र श्री केमपइयाह	कर्नाएसवीसी / 3955 / 07	केटी 608, दूसरा क्रॉस, बासवेश्वर स्ट्रीट, कॉवेरी नगर, माण्ड्या- 571401, कर्नाटक	बीवीएससी / यूएए सबंगलौर / 87	01.06.63

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2017	राम मोहन कूसानापुडी, पुत्र श्री वेंकटेश्वरलु	एपीएसवीसी/ 4480/06	डी.न. 18-1-49, स्टेशनपेट, दावी राजू के घर के निकट, नरसापुरम, प.गो. जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/06	29.07.81
2018	रमनदीप सिंह, पुत्र श्री गुरदेव सिंह	पीबीएसवीसी/ 2687/06	1715/13, स्ट्रीट न. 10, डाकघर के निकट, शिमला पुरी, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /जीएडीवीएसयू /06	12.02.81
2019	रमनदीप सिंह, पुत्र श्री मलकियत सिंह	पीबीएसवीसी/ 2681/06	365, वार्ड न. 5, स्ट्रीट न. 11, बस्ती गोबिंदगढ़, मोगा, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /जीएडीवीएसयू /06	20.04.82
2020	रमेश बाबू पी., पुत्र श्री पी. रंगा स्वामी	एपीएसवीसी/ 4477/06	म.न. 3-1-13, एसआरएच स्कूल के सामने, बेतामचेरला, कुर्नूल जिला- 518599, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/06	05.10.80
2021	रमेश डी., पुत्र श्री डोरेस्वामी	कर्नाएसवीसी/ 3925/06	भारती नगर, मददूर तालुक, माण्ड्या जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू /06	12.01.84
2022	रमेश कुमार नगोसिया, पुत्र श्री फेतवा नगोसिया	एमपीएसवीसी/2 329/06	म.न. 2929, बेरखेडा पढानी, होलीबाड़ा के निकट, भेल, भोपाल, म.प्र.-462021	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/0 5	08.05.77
2023	रमेश कुमार सिंह, पुत्र श्री गोपीकृष्ण प्रसाद सिंह	बीवीसी/2622/ 05	ग्राम ताजू बीधा, डाक मिरचीगंज, थाना नालंदा- 803111, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडएच /एएयू/05	10.01.80
2024	रमेश कुमार तिवारी, पुत्र श्री भोला तिवारी	बीवीसी/2706/ 05	ग्राम कुलहारिया, डाक कुलहारिया, थाना परबत्ता, जिला खगरिया, बिहार	बीवीएससीएंडएच /डब्ल्यूबीयूएंडए फएस/05	10.10.79
2025	रमेश कुमार, पुत्र श्री राम चंद्र महतो	बीवीसी/2648/ 05	ग्राम माघोपुर, डाक सातनपुर, थाना उमियारपुर- 848132, जिला समस्तीपुर, बिहार	बीवीएससीएंडएच /बीएयू/05	05.04.79
2026	रमेश कुम्बोजू, पुत्र श्री नंदइयाह के.	एपीएसवीसी/ 4441/06	म.न. 1-108, गरशाकुर्धी डाक, गंगाधारा (एम), करीमनगर जिला- 505445, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/06	17.08.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2027	रमेशा सी.बी., पुत्र श्री बासवराजप्पा एन.	कर्नाएसवीसी / 3890 / 06	चिक्कनांगला डाक, तारीकेरे तालुक, चिकमगलूर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	02.06.83
2028	रामगोपाल लाहा, पुत्र स्व. श्री जगोबधु लाहा	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3216 / 06	ग्राम आला, डाक धनिया -खली, जिला हुगली- 712302, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / बीसीकेवी / 86	02.01.63
2029	रामू के.सी., पुत्र श्री चंद्रशेखर के.सी.	कर्नाएसवीसी / 3881 / 06	16 / 24, शिवानुभाव कल्याण मंडप के पीछे, बासवेश्वर ब्लॉक, के.आर.नगर 571802, मैसूर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	04.10.83
2030	राना प्रीत गिल, पुत्री श्री करमजीत सिंह गिल	पीबीएसवीसी / 2646 / 06	म.न. 290, स्ट्रीट न. 2, प्रीत नगर, नकोदर, जिला जालंधर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / पीएयू / 05	26.12.81
2031	रणदिवे दीपक शंकर	महाएसवीसी / 7548 /	भवानीशंकर अपार्टमेंट, ए/2, पोखारनगर, मजोरली, बदलापुर (प.), जिला धाणे, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	10.10.82
2032	रणदिवे प्रसेनजीत श्रीपति	महाएसवीसी / 7306 /	तांदुलवाडी रोड, कल्पना नगर, तालुक कल्लम, जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	16.12.80
2033	राने गौरव उदय	महाएसवीसी / 7291 /	हिंदुकुश क., एचएसजी के सामने, कमरा न. 11, लिबर्टी गार्डन के निकट, रमाबाई मार्ग, मलाड (प.), मुम्बई, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 02	03.01.79
2034	रंगनाथ जी.जे., पुत्र श्री जयरामइयाह जी.एन.	कर्नाएसवीसी / 3943 / 06	गोपीकुंटे, बारगुर- 572113, सिरि तालुक, तुमकूर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	21.07.83
2035	रंजन कुमार साहू, पुत्र श्री सुमाष चंद्र साहू	ओवीसी / 2082 / 06	एटी मथुरा, जिला / डाक गंजम, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 06	15.05.81
2036	रंजन सुरेंद्र कुमार, पुत्र श्री नौनीत राम रंजन	डीवीसी / 0656 / 05	म.न. 334, न्यू राजेंद्र नगर, नई दिल्ली- 60	बीवीएससीएंडएच / एयू / 56	13.10.34

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2037	रणजीत, पुत्र श्री मूला राम	राजएसवीसी/3310/06	वार्ड न. 4, नीम का धाना, सीकर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/05	15.06.76
2038	रणजीत, पुत्र श्री मोल्हूराम	यूपीवीसी/4510/06	ग्राम फूलपुर, डाक उतरेथू, जिला अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /सीएसएयूएंडट/06	05.10.74
2039	रणजीत कुमार झा, पुत्र श्री हरिहर झा	डीवीसी/0594/02	पुरानी डबल स्टोरी, जे-64, दूसरी मंजिल, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली	बीवीएससीएंडएच /एएयू/90	01.06.76
2040	रानुम दबास, पुत्र श्री पी. एस. दबास	यूपीवीसी/4423/06	18, म्यूनिसिपैलिटी क्वा., कंपनी गार्डन के निकट, दक्षिण सिविल लाइन, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएटी/06	10.01.84
2041	राव वेंकटेश्वरे, पुत्र श्री ब्रह्मइयाह मोरला	डीवीसी/0630/04	212, बैंक विहार अपार्टमेंट, प्लॉट न. 16, सेक्टर-22, द्वारका, नई दिल्ली 110075	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/66	02.07.43
2042	रश्मि के.एम., पुत्री श्री मल्लिकार्जुनइया ए.	कर्नाएसवीसी/3910/06	23/5, सातवां क्रॉस, दूसरी मंजिल, मगदी रोड, बंगलौर - 560023, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/06	10.07.83
2043	रश्मि महंता, पुत्र श्री अमल चंद्र महंता	डीवीसी/0647/05	पैट कन्सर्स, डी-26, निचली मंजिल, लाजपत नगर-11, नई दिल्ली- 24	बीवीएससीएंडएच /एएयू/99	02.03.77
2044	रश्मि, पुत्री श्री सामेंद्र सिंह	राजएसवीसी/3329/06	कोठी गुलज़ार बाग, आगरा रोड, भरतपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/06	01.01.80
2045	रासकार सीम उत्तमराव	महाएसवीसी/7193/	ताथे नगर, धर्माधिकारी मेला के निकट, सावेदी, अहमद नगर-414002, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/04	14.10.81
2046	रश्मिता माली, पुत्री श्री दुर्योधन माली	ओवीसी/2045/06	एटी सरलापडार, डाक बालुगांव, जिला खुर्दा, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/06	12.06.81
2047	रतनदीप सिंह, पुत्र श्री जी.पी. सिंह	यूपीवीसी/4513/06	ग्राम एवं डाक बागाहन, चुनार, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसडीएयू/06	17.09.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2048	राठौड़ अकोस सीताराम	महाएसवीसी / 7556 /	237, गंगानगर, उदय कॉलोनी, (कुरुदवाडी), हिंगोली, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 03	15.09.76
2049	राठौड़ महेंद्र देवजी भाई	गुजएसवीसी / 2778 / 06	डॉ. अम्बेडकर स्ट्रीट, नाना कालोदरा, तालुक खम्भात, जिला खम्भात, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 06	05.07.81
2050	राठौड़ प्रवीन रामदास	महाएसवीसी / 7230 /	एटी अन्वी, डाक कौधारी, बडानगर, जिला जलगांव— 421203, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	05.05.82
2051	राठौड़ संदीप किशनराव	महाएसवीसी / 7647 /	द्वारा के.वी. राठौड़, स्वामी विवेकानंद नगर, सेलू, तालुक सेलू, जिला परभनी, 431503, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	16.03.83
2052	राठौड़ सतीश लक्ष्मणराव	महाएसवीसी / 7405 /	एटी / डाक कौथाली (टांडा), कौथाली, तालुक पारली(प.), जिला बीड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	25.06.80
2053	राठौड़ शैलेंद्र सिंह उदय सिंह	महाएसवीसी / 7440 /	द्वारा रामदा के. जाधव, एटी पिम्पलखूटा, डाक आलंदा, तालुक बारशी तकाली, जिला अकोला, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	07.11.82
2054	राठौड़ विशाल हीरामन	महाएसवीसी / 7635 /	कौलखेड रोड, बंजारा नगर, अकोला— 444004, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	19.05.80
2055	राउत अश्विन सदाशिवराव	महाएसवीसी / 7353 /	कन्नमवर नगर, बिल्ड कॉलोनी के पीछे, चार्मोशी रोड, गढ़चिरोली, जिला गढ़चिरोली ।।, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	13.07.82
2056	राउत अविनाश एकनाथ	महाएसवीसी / 7182 /	19, मित्र हाउसिंग सोसायटी, केशव नगर, अकोला महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	12.02.81
2057	राउत भारती मनोहर	महाएसवीसी / 7148 /	60, नबीरा लेआउट, पंचवटी, कटोल, जिला नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	12.06.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2058	राउत कविता अनिल	महाएसवीसी / 7397 /	एस.टी. डिपो, शेवगांव रोड, पथार्डी, तालुक पथार्डी, जिला अहमदनगर-414107, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	01.06.82
2059	राउत प्रांजलि भानुदास	महाएसवीसी / 7616 /	माधव नगर, गौरक्षण रोड, अकोला- 444004, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	30.11.81
2060	राउत सचिन शालिग्राम	महाएसवीसी / 7589 /	नवदुर्गा नगर, शमटेक पुरा, अकोट, जिला अकोला- 444101, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	12.01.84
2061	रवि गिरधर पुत्र श्री चंदर प्रसाद गिरधर	डीवीसी / 0672 / 06	एफ-1129, दूसरी मंजिल, सीआर पार्क, नई दिल्ली	बीवीएससीएंडएच / एचएयू / 88	14.04.65
2062	रवि कांत गुप्ता, पुत्र श्री श्रीकांत गुप्ता	एमपीएसवीसी / 2 339 / 06	द्वारा विनायक टेलीकॉम, इंदिरा चौक, शाहडोल, म.प्र.- 484001	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवी / 0 6	12.10.79
2063	रवि सुंदर जार्ज, पुत्र श्री डी. जार्ज	टीएनवीसी / 0705 / 05	6, सैवंटी फीट रोड, जवाहर नगर, चेन्नई 600082	बीवीएससी / टीएन एयू / 84	30.07.60
2064	रविदेव पटेल, पुत्र श्री रामावतार सिंह	बीवीसी / 2685 / 05	ग्राम नोखा, डाक नोखा, धाना नोखा- 802215, जिला रोहतास, बिहार	बीवीएससीएंडएच / जेएनएयू / 05	05.05.82
2065	रवीन्द्र कुमार, पुत्र श्री राज कुमार	एचवीसी / 1933 /	ग्राम एवं डाक मनका मनकी, जिला अम्बाला, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 06	15.01.77
2066	रवीन्द्र सिंह, पुत्र श्री बलविंदर सिंह	पीबीएसवीसी / 2660 / 06	ग्राम धानी चिराग, डाक नोकरियन, तहसील फरक्का, जिला फिरोजपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएसयू / 06	15.12.81
2067	रवीन्द्र डोम्बर, पुत्र श्री बासप्पा बोम्बर	कर्नाएसवीसी / 3868 / 06	डाक निपानाल, रायबाग तालुक, बेलगाम जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	01.04.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2068	रवीन्द्र कुमार रवीन्द्र, पुत्र स्व. श्री खुशीलाल मंडल	बीवीसी / 2630 / 05	ग्राम पतवार टोला, डाक बड़ीकोडारजन्ना, थाना साहिबगंज— 816109, जिला साहिबगंज, बिहार	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 02	21.04.72
2069	रवीन्द्र कुमार सिसोदिया, पुत्र श्री एन.एस. सिसोदिया	एमपीएसवीसी / 2 407 / 07	ग्राम एवं डाक दोभी, नरसिंघपुर, म.प्र.— 487334	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 0 6	10.10.79
2070	रवीन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, पुत्र श्री के.एम.	राजएसवीसी / 3341 / 06	केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / सीएसएकेईपी / 80	01.01.55
2071	रवीन्द्र यादव, पुत्र श्री राम जीत यादव	यूपीवीसी / 4463 / 06	ए / पी लक्ष्मीगंज, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एमएएफएसयू / 06	12.01.80
2072	रिगो निकोल लीसा मेरी ओवेन	महाएसवीसी / 7271 /	3 / 19, वेस्ट व्यू एस.वी. रोड, सांताक्रुज (वेस्ट), मुंबई— 400054, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएफएसयू / 04	18.09.81
2073	रेखे धनजंजय शामराव	महाएसवीसी / 7622 /	मोरेस्वर कॉलोनी, आकोला— 444005, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएफएसयू / 06	27.07.83
2074	रेमी जोसेफ	केरलएसवीसी / 3 136 / 06	थाकंडीपुरथ हाउस, मेक्कड डाक, करियड, अंकामली, अर्नाकुलम— 683589, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	01.05.81
2075	रेमया एम.ए.	केरलएसवीसी / 3 159 / 06	50 / 1484, रेमया, न्यू गार्डन्स, अय्यानथोले डाक, थिसूर— 680003, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	06.06.81
2076	रेमया वी.	केरलएसवीसी / 3 146 / 06	जयचंद्र स्मारन, पनामथोट्टम डाक, कूराली, कोट्टायम— 686522, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	26.01.83
2077	रेनु, पुत्री श्री सुरेश कुमार	पीबीएसवीसी / 2642 / 06	डिपार्ट. ऑफ इमि.प्री मेड., सीओवीएस, जीएडीएवीएसयू, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 99	27.09.77

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2078	रेशमी टी.एस.	केरलएसवीसी/3 113/06	श्रीकृष्णा भवन, टी.सी. 55/414, कैमनोम नॉर्थ, रम्पानमकोड डाक, त्रिवेंद्रम- 695018, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/06	25.05.82
2079	रेवंत राम, पुत्र श्री प्रहलाद राम	राजएसवीसी/ 3252/06	ग्राम एवं डाक चोकरी कलां, वाया पाइपर सिटी, जोधपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/06	03.05.77
2080	रिची, पुत्र श्री राय साहिब	पीबीएसवीसी/ 2680/06	म.न. 16/715, संत विहार, मेन बाजार, स्ट्रीट वैद तीर्थ राज, मोगा, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /जीएडीवीएसयू /06	07.03.82
2081	रिदीप कुमार दास, पुत्र श्री क्षितिज चंद्र	डीवीसी/0610/ 02	इंचार्ज, पीएफए गौसदन, बवाना, दिल्ली- 110039	बीवीएससीएंडएच /एएयू/01	01.03.72
2082	रिधे संदीप नारायण	महाएसवीसी/ 7633/	तिरुपति बालाजी नगर, बोथा रोड, सुंदरखेड, तालुक/जिला बुलदाना- 443001, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएएफएसयू /06	29.12.83
2083	रिकु नारायण, पुत्र श्री महेश नारायण	यूपीवीसी/4426 /06	ग्राम एवं डाक स्वांगीपट्टी, दुमारी हाट, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएटी/ 06	25.10.79
2084	रिपुदमन सिंह, पुत्र श्री गुरचरन सिंह	पीबीएसवीसी/ 2695/07	वार्ड न. 17, म.न. 31, मलौत, मुक्तसर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /जीएडीवीएसयू /06	14.05.83
2085	रीता कुमारी, पुत्री श्री रोशन लाल	एचपीएसवीसी/7 59/06	ग्राम देहरा, डाक हटवार, तहसील घुमारविन, जिला बिलासपुर, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच /सीएसकेकेवीवी /06	07.04.84
2086	रीता नारायण, पत्नी श्री वी.आर. बास्कर	टीएनवीसी/1799 /05	32/बी, अजीज़ नगर, 11 स्ट्रीट, कोडाम्बक्कम, चेन्नई 600024	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/94	31.10.68
2087	रितेश रॉय, पुत्र श्री टी.के. रॉय	एचपीएसवीसी/7 76/06	म. न. 37, रैस्ट हाउस के निकट, ग्राम एवं डाक इंदोरा, जिला कांगड़ा, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच /सीएसकेकेवीवी /06	19.05.80
2088	रितुपर्णा दास, पुत्री श्री शम्भूनाथ दास	डब्ल्यूबीएसवीसी /3251/06	ए-9/98, कल्याणी, जिला नाडिया- 741235, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच /डब्ल्यूबीयूएफए स/06	24.06.83



क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2089	रितुराज पाल, पुत्र श्री मदन चंद्र पाल	डब्ल्यूबीएसवीसी /3290/07	पी-25/1, सरतपल्ली, मिदनापुर (डाक)- 721101, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच /डब्ल्यूबीयूएफएस /06	23.11.82
2090	रियेश टी.	केरलएसवीसी/3 185/06	थाचमवल्ली डाक, आरईसी डाक, चथामंगलम, कोजीकोड- 673601, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/06	30.05.82
2091	रॉबर्ट आशा रजिनी, पुत्र श्री केशवन चक्रवर्ती	टीएनवीसी/2306 /05	न.11, दूसरा क्रॉस स्ट्रीट, राधाकृष्णन नगर, तिरुवनमियूर, चेन्नई 600041	बीवीएससी/टीएन एयू/78	25.10.55
2092	रोबिंदर सिंह, पुत्र श्री राजिन्दर सिंह	पीबीएसवीसी/ 2693/06	358, फेज-1, अर्बन एस्टेट, पटियाला- 147002, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /एसकेयूएसएंड टी/06	23.07.82
2093	रोबिनसन जे.जे. अब्राहम, पुत्र श्री एस. अब्राहम	टीएनवीसी/2917 /05	324, छठा मेन रोड, वेंकटरमन नगर, हस्तिनापुरम, चेन्नई 600064	बीवीएससी/टीएन एयू/81	11.01.57
2094	रोहनकर राहुल उपासराव	महाएसवीसी/ 7273/	उपासराव विला, सरकारी रैस्ट हाउस के निकट, प्रलादपुर नगर, पारतूर, तालुक पारतूर, जिला जालना, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /03	01.09.81
2095	रोही नीलेश रवीन्द्र	महाएसवीसी/ 7176/	5, 'इंदिरा', रिंग रोड, अकोला, तालुक जिला अकोला, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /04	22.01.81
2096	रोहित कुमार सोनी, पुत्र श्री कुदन लाल सोनी	यूपीवीसी/4551 /07	ग्राम गाजीपुर, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /सीएसकेकेवीवी /06	16.07.82
2097	रोहित माथुर, पुत्र श्री गोविंद स्वरूप माथुर	डीवीसी/0661/ 05	ई-70, छोटे सिंह ब्लॉक, एशियाड गेम्स विलेज सोसायटी, नई दिल्ली- 49	बीवीएससीएंडएच /सीसीएसएसएयू /05	23.05.78
2098	रोहित सिंह, पुत्र श्री वीरेंद्र पाल सिंह	राजएसवीसी/ 3337/06	2-बी-2, महावीर नगर-III, कोटा, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/0 6	30.12.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2099	रोहमेहत्रा सतीश कुमार, पुत्र श्री लक्ष्मीचंद	महाएसवीसी / 7694 /	ग्रीनफील्ड फार्म, रेलवे क्रॉसिंग, थियूर, तालुक हवेली, जिला पुणे-412110, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीकेईपीवी वी / 76	20.03.53
2100	रोहताश मित्तल, पुत्र श्री पवन कुमार मित्तल	पीबीएसवीसी / 2675 / 06	25, मोटां सिंह नगर, तेज बाग कॉलोनी के निकट, सानौर रोड, पटियाला, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएसयू / 06	17.07.83
2101	राजन पी.एम.	केरलएसवीसी / 3127 / 06	पलाकट्टिल, कोजायूर डाक, पट्टाम्बी, पलक्कड जिला- 676303, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	04.01.81
2102	रुन मरियन मथाई	केरलएसवीसी / 3133 / 06	पुथियाडाथु सुरमी, डीबीआरए 29(ए), नानथेनकोड, कौडियार डाक, त्रिवेंद्रम- 695003, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	05.01.83
2103	रोशनी बुध, पुत्री श्री आनंद बुध	ओवीसी / 2104 / 07	एटी / डाक सोरदा, वाया पूर्णपानी, जिला सुंदरगढ़, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 07	10.08.83
2104	रुबिना कुमारी बैठालु, पुत्री श्री जोगेन्द्र नाथ बैठालु	ओवीसी / 2067 / 06	द्वारा जे.एन. बैठालु, एटी / डाक खलारदा, जिला कटक, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 06	07.06.82
2105	रुबी ऑगस्टाइन	केरलएसवीसी / 3 139 / 06	प्रोविडेंशिया, म.न. 28 / 790, चेवायूर डाक, कोजीकोड- 673017, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	27.01.82
2106	रुचि तिवारी, पुत्री श्री जे. एल. तिवारी	एमपीएसवीसी / 2 392 / 06	बी.टी.आई. क्वार्टर्स, शाहडोल, म. प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 0 6	19.10.82
2107	रुचि त्रिपाठी, पुत्री श्री रविकांत त्रिपाठी	एमपीएसवीसी / 2 384 / 06	जे-10, इन्द्रप्रस्थ, एयरपोर्ट रोड, लालघाटी, भोपाल, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 0 6	24.03.81
2108	रूपाली सक्सेना, पुत्री श्री अशोक कुमार सक्सेना	डीवीसी / 0640 / 04	115, वसुधा अपार्टमेंट, सेक्टर-9, रोहिणी, दिल्ली- 110085	बीवीएससीएंडएच / पीएयू / 02	14.03.77
2109	एस. अरुणाचलम, पुत्र श्री ए. श्रीनिवास नादर	टीएनवीसी / 0837 / 05	1444, तिरुवल्लुवर नगर, अन्ना नगर, वेस्ट एक्सटेंशन, मोगापेर, चेन्नई 600037	बीवीएससी / मद्रासविवि / 69	02.10.44

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2110	एस. अरुण कुमार, पुत्र श्री आर. सेल्वरयार	टीएनवीसी/3021/05	नं. 4/666, पलायमकोर्टई नॉर्थ डाक, कट्टूमन्नार कोइल (तालुक), कुडालूर जिला, पिन-608701	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/95	04.06.71
2111	एस. अशोक कुमार, पुत्र श्री जे.वी. सुंदरराजन	टीएनवीसी/3589/06	प्लॉट नं. 4333, वाई ब्लॉक नं. 2, व मेन रोड, अन्ना नगर, चेन्नई-600040, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमवीसी/84	09.09.59
2112	एस. अय्यप्पन, पुत्र श्री वी. सुब्रामनुजम	टीएनवीसी/0740/05	पुरावा नं. 4, नया नं. 10, 'एन' स्ट्रीट, किलपीक गार्डन कॉलोनी, चेन्नई 600010	बीवीएससी/टीएन एयू/86	02.03.63
2113	एस. अय्यप्पन, पुत्र श्री वी. यू. सुरुलिवेल	टीएनवीसी/3784/07	एस वी क्लिनिक, वैयप्पामलाई डाक, तिरुचेनगोडू तालुक नमक्कल जिला 637410, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/92	14.03.70
2114	एस. बेगन, पुत्र श्री एम. सबापति	टीएनवीसी/2980/05	प्लॉट नं. 198/7, 'ग्रीन फील्ड्स', आर-30ए, अन्ना नगर वेस्ट एक्सटेंशन, चेन्नई 600101	बीवीएससी/टीएन एयू/81	09.10.57
2115	एस. बालाचंद्रन, पुत्र श्री एस. सुबइयाह	टीएनवीसी/3097/05	8/7, श्री राम स्वयेयर, एनजीओ 'ए' कॉलोनी, तिरुनेलवेली 627007	बीवीएससी/मद्रासविदि/71	20.10.47
2116	एस. बालासुदम, पुत्र श्री एस. श्रीनिवासन	टीएनवीसी/2220/05	3362 एआर, 8वीं स्ट्रीट, ए.एफ. ब्लॉक, 11वां मेन रोड, अन्ना नगर, चेन्नई 600040	बीवीएससी/मद्रासविदि/63	17.06.40
2117	एस. बेंजामिन रत्नासिंह, पुत्र श्री ए.एस. पीटर	टीएनवीसी/3618/06	602/ए6, किरुबाई इल्लम, सुल्तानपेट, फिगरपोस्ट, उथागमंडलम-643001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन एयू/87	02.02.59
2118	ए. धंदापानी, पुत्र श्री एन. एस. सुब्रमण्यन	टीएनवीसी/1542/05	नेगानूर एवं डाक, जिंजी तालुक, विल्लुपुरम जिला 604202	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/96	05.06.73
2119	एस. धर्मासीलन, पुत्र श्री एस.ए. श्रवनामुथु	टीएनवीसी/1290/05	62, एनजीओ न्यू कॉलोनी, जवाहर नगर, तिरुनेलवेली -7	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/95	23.05.72

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2120	एस. ईश्वर, पुत्र श्री ए. सोमासुंदरम	टीएनवीसी/3793/07	सिंगालंदापुरम डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल- 637412, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएए न्यूवीएस/93	10.06.70
2121	एस. इलांगोवन, पुत्र श्री एस.सी. सुब्रामनी	टीएनवीसी/1294/05	न. 57, कुट्टईमले स्ट्रीट, नमक्कल 637001	बीवीएससी/यूएए सबंगलौर/91	11.06.68
2122	एस. गंगाराज, पुत्र श्री एस. श्रीनिवासन	टीएनवीसी/1230/05	214/6, तीसरी स्ट्रीट, राजीवनगर, कोविलपट्टी- 628501, थूथुकुडी जिला	बीवीएससी/टीएए एयू/80	09.05.58
2123	एस. ज्ञानलक्ष्मी, पुत्र श्री के. सुब्बियन	टीएनवीसी/2435/05	14, बजाना कूडा स्ट्रीट, नया बाजार, अरुप्पुकोट्टई 626101, विरुधुनगर जिला	बीवीएससी/टीएए न्यूवीएस/98	15.03.74
2124	एस. हेमलता, पुत्र श्री टी. सैथिलनायगम	टीएनवीसी/3576/06	न. 15, राम फ्लैट, साउथमदा स्ट्रीट, श्रीनगर कॉलोनी, सइदापेट, चेन्नई- 15, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएए न्यूवीएस/91	07.04.68
2125	एस. जयशंकर, पुत्र श्री टी.एम. सेत्वारराजन	टीएनवीसी/2004/05	प्लॉट न. 251, अरुल नगर, गुडुवानचेरी, कांचीपुरम जिला, पिन 603202	बीवीएससी/टीएए न्यूवीएस/99	19.05.74
2126	एस. जयरमन, पुत्र श्री संगवा नायकर	टीएनवीसी/2388/05	65/3, चिदाम्बरम गार्डन, जवाहरलाल नेहरू स्ट्रीट, श्रीविलिपुथूर 626125	बीवीएससी/टीएए एयू/81	04.03.58
2127	एस. जेयाकुमार, पुत्र श्री एस.आर.एस. सक्तिवेल	टीएनवीसी/3622/06	4-1-110, वेलमूपेर स्ट्रीट, रामनगर एक्सटेंशन, तालुक कल्लूपट्टी, मदुरै- 625702, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएए न्यूवीएस/95	01.06.72
2128	एस. कलईयारासु, पुत्र श्री पी. सेम्मान्नन	टीएनवीसी/3584/06	चेक्कुमेदु चिन्नापमपट्टी डाक, ओमालूर तालुक, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएए न्यूवीएस/05	15.04.82
2129	एस. काथिरवेल, पुत्र श्री आर. शानमुगम	टीएनवीसी/1289/05	8/41, गुरुसामीपलायम डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला 637403	बीवीएससीएंडएएच / डॉ.पीडी आरकेवीपी/95	24.05.72

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2130	एस. कविधा, पुत्र श्री ए. साधनाकुमार	टीएनवीसी/0749/05	प्लॉट न. 4, एम.जी. रोड, सेंदिल नगर एक्सटेंशन (द.), क्रोमपेट, चेन्नई- 600044	बीवीएससी/टीएन नयूवीएस/95	19.06.72
2131	एस. मनोहरन, पुत्र श्री एम. शानमुगावेल	टीएनवीसी/3195/05	4/165, रामसन नगर, II स्ट्रीट, पुडुकोट्टई, थूथुकुडी जिला, पिन 628103	बीवीएससी/टीएन नयूवीएस/96	13.06.73
2132	एस. मनोहरन, पुत्र श्री आर. सीरालन	टीएनवीसी/2944/05	नॉर्थ स्ट्रीट, उलागनकथान डाक, कल्लाकुरिची तालुक, विल्लुपुरम जिला, पिन 606202	बीवीएससी/टीएन नयूवीएस/92	15.05.69
2133	एस. मनोकरन, पुत्र श्री ए. सक्तिवेल	टीएनवीसी/3656/06	46-सी, कुलाथु स्ट्रीट, सेथमपलायम, सलांगापलायम डाक, काविदापाडी वाया, इरोडे- 638455, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन नयूवीएस/00	05.05.75
2134	एस. मोहनराज, पुत्र श्री एस. सेल्वाराज	टीएनवीसी/2870/05	3/7, संगलियापन नगर, वी.के रोड, पीलामेडु, कोयम्बतूर-4	बीवीएससी/टीएन नयूवीएस/00	19.03.75
2135	एस. नागराजन, पुत्र श्री वी. शानमुगा सुंदरम	टीएनवीसी/2409/05	161/126, स्टेट बैंक कॉलोनी III, सलेम 636004	बीवीएससी/टीएन नयूवीएस/95	01.05.72
2136	एस. नागराजन, पुत्र श्री वी. सुब्रमण्यम	टीएनवीसी/2955/05	ई-4, स्टाफ क्वार्टर्स, पशुधन अनुसंधान संस्थान, कट्टुपक्कम- 603203	बीवीएससी/टीएन एयू/83	06.03.56
2137	एस. नागराजन, पुत्र श्री एस. सादायन	टीएनवीसी/3614/06	32/ए, 93-बी, गांधी नगर, सलेम कैंप डाक, मेट्टूर डैम, सलेम- 636456, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन नयूवीएस/92	04.04.67
2138	एस. नटराजन, पुत्र श्री के. शानमुगम	टीएनवीसी/3638/06	11, सुब्रमनिया शिव स्ट्रीट, पौपारापट्टी डाक, धर्मापुरी जिला- 636809, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन नयूवीएस/06	02.06.62
2139	एस. नेदुनचेलियान, पुत्र श्री यू. सिगारवेलू	टीएनवीसी/0718/05	28, एस.आर.पी. कॉलोनी, पेपर मिल्स रोड, चेन्नई 600082	बीवीएससी/मद्रासविधि/69	09.05.47
2140	एस. पंचापकेसन, पुत्र श्री संकरा सुब्रमण्यन	टीएनवीसी/2796/05	न. 9, नॉर्थ मदाविलागम, थिरुवड्यारु डाक, थंजावूर जिला- 613204	बीवीएससी/टीएन एयू/76	09.06.53

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2141	एस. पन्नीरसेल्वम, पुत्र श्री एन. सांधम	टीएनवीसी/3632/06	11-ई/2, स्वामी सिवानंद सलई, रासीपुरम डाक, नमक्कल-637408, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन एयू/79	29.06.56
2142	एस. पार्थसारथी, पुत्र श्री सुधांशु भूषण स्वेइन	ओवीसी/2120/07	एटी/डाक बायरी, जिला जयपुर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएएच /ओयूएटी/07	07.07.83
2143	एस. प्रभाकरन, पुत्र श्री जे. सेमुअल राज	टीएनवीसी/1488/05	258/डी. डॉ. रफस स्ट्रीट, जोधी नगर, अददूर, सलेम जिला पिन 636102	बीवीएससी/टीएए नयूवीएएस/00	17.06.74
2144	एस. प्रथाबन, पुत्र श्री पी. सेथुपंडियान	टीएनवीसी/0771/05	88, तीसरा मेन रोड, गांधी नगर, अदयार, चेन्नई 600020	बीवीएससी/टीएन एयू/80	10.07.57
2145	एस. राजामोहन परमसिवन, पुत्र श्री पी. सुबइयाह	टीएनवीसी/2739/05	11-2/9, कामराज स्ट्रीट, कोम्बई, थेनी जिला 625522	बीवीएससी/टीएए नयूवीएएस/95	29.07.72
2146	एस. राजारमन, पुत्र श्री वी. संकरन	टीएनवीसी/1617/05	पुराना न. 11/77, नया न. 11/21, सैम टावर्स, मुनुसामी सलई, के.के. नगर (पश्चिम), चेन्नई 600078	बीवीएससी/टीएन एयू/88	23.03.66
2147	एस. राजसेगरन, पुत्र श्री एस.पी. संकरनारायणन	टीएनवीसी/2852/05	14/3, कंडासामी लेआउट, प्रथम स्ट्रीट, के.के रोड, विल्लुपुरम 605602	बीवीएससी/मदासविवि/73	15.09.47
2148	एस. रामाकृष्णन, पुत्र श्री एम. सुब्रमण्यम	टीएनवीसी/3232/05	साउथ सेल्लापमपलायम इरुक्कुर डाक, परमाथी वेलूर तालुक, नमक्कल जिला पिन 637204	बीवीएससी/टीएए नयूवीएएस/94	25.04.70
2149	एस. रमेश, पुत्र श्री टी. सिद्धान	टीएनवीसी/1524/05	38/72, 13, गांधी नगर, धर्मापुरी, पिन 636701	बीवीएससी/टीएए नयूवीएएस/02	31.07.79
2150	एस. रवि वीरप्पा, पुत्र श्री वी. सेकर	टीएनवीसी/3590/06	कुरुक्कराम्बई डाक, पीरावुरानी तालुक, थंजावुर जिला-614802, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएए नयूवीएएस/04	31.05.80

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2151	एस. संकरन, पुत्र श्री एम. सुब्रमण्यन	टीएनवीसी/0942/05	न.1, पुरानी जुलाहा कॉलोनी, प्रथम स्ट्रीट, वीरालक्ष्मी नगर, अरुप्पुकोट्टई डाक, विरुधुनगर जिला	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/95	09.06.72
2152	एस. संकरलिगम, पुत्र श्री एम.पी. सदाचिव नादर	टीएनवीसी/3655/06	65/40, राजू नगर, जोधीपुरम, डाक कोयम्बतूर- 641047, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/68	15.05.46
2153	एस. श्रवनन, पुत्र श्री एम. के. सेलाप्पन	टीएनवीसी/3142/05	कडापल्लई रोड, मुदालईपट्टी पुडुर, मुदलईपट्टी डाक, नमक्कल जिला 637003	बीवीएससीएंडएच/एमएयू/95	30.05.73
2154	एस. श्रवनन, पुत्र श्री एस. सेंगोट्टियन	टीएनवीसी/2762/05	108, राना नगर, टीचर्स कॉलोनी, इरोडे- 638011	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/02	20.11.77
2155	एस. श्रवनन, पुत्र श्री आर. सुब्रमण्यन	टीएनवीसी/0816/05	6/846, ईबी. कॉलोनी, परमाथी रोड, नमक्कल 637001	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/98	25.06.74
2156	एस. सरगुनम, पुत्र श्री जी. सदानंदन	टीएनवीसी/3635/06	5/5, मुल्लई नगर, पंथम क्रॉस स्ट्रीट, रामापुरम, चेन्नई- 600089, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/06	28.12.80
2157	एस. सतीश कुमार, पुत्र श्री आर. सौंदरा पांड्या	टीएनवीसी/2960/05	6, नर्मदा स्ट्रीट, यागप्पा नगर, थंजावूर 613007	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/94	18.12.70
2158	एस. सेल्वाकुमार, पुत्र श्री पी. शानमुगम	टीएनवीसी/2751/05	4/13, सेरुक्कलई डाक, वेलांगौडेनपट्टी वाया, नमक्कल जिला, पिन- 637212	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/00	16.07.75
2159	एस. सेत्वम, पुत्र श्री ई. सीथाराम रेड्डी	टीएनवीसी/1243/05	वलइयापट्टी, हिरायनमंगलम डाक, कुलिथलई तालुक, करूर जिला- 639145	बीवीएससी/टीएन एयू/82	18.01.57
2160	एस. सेत्वामरिअप्पन, पुत्र श्री एम. सुब्रमण्यन	टीएनवीसी/3794/07	2/57, चेट्टी स्ट्रीट, परक्कई, कन्याकुमारी- 629601, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/97	15.07.74

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2161	एस. सेल्वारज, पुत्र श्री के. सोलिया गौडेर	टीएनवीसी/3610/06	20, कृष्णा राजा नगर, न्यू थिल्लई नगर के निकट, पी.एन. पुडुर डाक, कोयम्बतूर -641041, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन एयू/84	21.01.61
2162	एस. सेल्वा सुब्रमण्यन, पुत्र श्री एस. स्वामीनाथन	टीएनवीसी/0787/05	बी3 प्रथम मंजिल, सुभिक्षा अपार्ट. मेंट्स, पुराना नं. 26 (नया नं. 22), शर्फुद्दीन स्ट्रीट, चूलइमेडु, चेन्नई 600094	बीवीएससी/टीएन एयू/78	08.10.55
2163	एस. सेनाधिराजा, पुत्र श्री एस. सिवालिंगम	टीएनवीसी/2719/05	अन्ना नगर, कुलामंगलम(उ.), डाक अलगुडी तालुक, पुडुक्कोट्टई जिला, पिन-614624	बीवीएससी/टीएन नयूवीएस/98	04.07.75
2164	एस. सेंथिलकुमार, पुत्र श्री पी. सेथु	टीएनवीसी/2449/05	3/538, सुदराजा पट्टिनम, परमकुडी 623707, रामनाथपुरम जिला	बीवीएससी/टीएन नयूवीएस/97	19.05.74
2165	एस. सेंथिल कुमार, पुत्र श्री ए. सुब्रमण्यम	टीएनवीसी/1275/05	3/25, भारती नगर, रिलांस कार्यालय के निकट, मोहानूर रोड, नमक्कल 637001	बीवीएससी/टीएन नयूवीएस/01	17.07.78
2166	एस. सेंथिल कुमार, पुत्र श्री सी. सुब्रमण्यम	टीएनवीसी/1743/05	13/10, लैदर गोडाउन स्ट्रीट, अरियालूर 621704, पेराम्बलूर जिला	बीवीएससी/टीएन नयूवीएस/97	08.06.73
2167	एस. शानमुगावेल, पुत्र श्री एस. सुबइयाह	टीएनवीसी/3602/06	कोरुककमपट्टी, वडाकराई डाक, राजापलायम तालुक, विरुधुनगर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन नयूवीएस/91	07.09.64
2168	एस. सिवज्ञानम, पुत्र श्री एम. शानमुगासुंदरम	टीएनवीसी/1251/05	1/3- नार्थ स्ट्रीट, समियारपट्टी डाक, गांधीग्राम वाया, डिंडीगल- 624312	बीवीएससी/टीएन नयूवीएस/01	17.12.74
2169	एस. सिवाकुमार, पुत्र श्री के. सारगुरुनाथन	टीएनवीसी/3131/05	13, कन्निमार कोइल स्ट्रीट, डाक वाडुगापट्टी, तालुक पेरियाकुलम, थेनी जिला	बीवीएससी/टीएन नयूवीएस/98	06.05.75
2170	एस. सिवासीलन, पुत्र श्री एस. सौंदरापडियान	टीएनवीसी/0733/05	डब्ल्यू-2, मस्जिद वाली गली, गुडालूर 625518, थेनी जिला	बीवीएससी/टीएन नयूवीएस/93	31.10.69



क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2171	एस. श्री साई, पुत्र श्री वी. जेसुदास सेल्वाराज	टीएनवीसी/0865/05	18, कोवालन नगर, 11 स्ट्रीट, टी. वी.एस. नगर, पलांगनाथम, मदुरै-3	बीवीएससी/टीएन न्यूवीएस/98	15.02.74
2172	एस. सुब्रत्रा, पत्नी श्री जी. आर. बाराणीधरन	टीएनवीसी/1859/05	पुराना न. 66, नया न. 20, प्रथम मेन रोड, सी.आई.टी. नगर, चेन्नई 600035	बीवीएससी/टीएन न्यूवीएस/98	04.05.74
2173	एस. सुकुमार, पुत्र श्री एस. सुंदरामूर्ति	टीएनवीसी/1867/05	क्यू-35, अगाथियार नगर, विलिवक्कम, चेन्नई 600049	बीवीएससी/टीएन एयू/74	01.12.51
2174	एस. सुमथि, पत्नी श्री के. थंगारासू	टीएनवीसी/1191/05	46/54, थिल्लईपुरम, प्रथम स्ट्रीट, नमक्कल 637001	बीवीएससी/टीएन न्यूवीएस/98	25.07.74
2175	एस. सुरेश कुमार, पुत्र श्री एस. सुंदरम	टीएनवीसी/0652/05	4/1, अनाईपलायम ग्राम, अंडागलूर गेट डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला 637401	बीवीएससी/टीएन न्यूवीएस/96	30.06.73
2176	एस. स्वामीनाथन, पुत्र श्री पी. सुब्रमण्यम	टीएनवीसी/3779/07	मन्नाथमपलायम डाक, इरोडे-638153, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/61	01.12.37
2177	एस. थॉमासिना, पत्नी श्री जी. राजा	टीएनवीसी/1511/05	6/1 बी, पुराना कटपडी रोड, वेल्लोर 632004	बीवीएससी/टीएन न्यूवीएस/96	20.04.72
2178	एस. उषा कुमारी, पुत्र श्री सी.पी. चंद्रा मोहन	टीएनवीसी/2245/05	59, स्त्राहांस रोड, आर.सी. ग्रीनबुड्स, प्लैट डी 2, पट्टलम, चेन्नई-12	बीवीएससी/टीएन एयू/88	28.06.66
2179	एस. वैरामुथु, पुत्र श्री आर. सुब्रह्मय्याह	टीएनवीसी/1505/05	30, थिरुमलईगई स्ट्रीट, नानगुनेरी-627108, तिरुनेलवेली जिला	बीवीएससी/टीएन एयू/88	15.03.64
2180	एस. वसंतकुमार, पुत्र श्री वी. स्वामीदास	टीएनवीसी/0885/05	प्लॉट न. 10, डी.न. 12/883 बी, 28वीं स्ट्रीट, 11 क्रॉस, शांति नगर, तिरुनेलवेली 627002	बीवीएससी/टीएन न्यूवीएस/00	25.05.75
2181	एस. वासुकी, पुत्र श्री के. सुब्रमण्यम	टीएनवीसी/1926/05	5-बी 2, अम्बू नगर, मनक्काडु, हस्तमपट्टी, सलेम-636007	बीवीएससी/टीएन न्यूवीएस/1995	25.07.71

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2182	एस. वेंकटेशन, पुत्र श्री ए. सुंदरम	टीएनवीसी/2461/05	42 (2), अन्नई सत्या नगर, नामगिरिपेट डाक, नमक्कल जिला 637406	बीवीएससी/टीएन न्यूवीएस/93	12.06.70
2183	एस.ए. असोकन, पुत्र श्री एस.एम. अरुणाचलम	टीएनवीसी/2316/05	68, IV स्ट्रीट, सेक्रेटरिएट कॉलोनी, लक्ष्मीपुरम, चेन्नई 600099	बीवीएससी/टीएन एयू/84	15.08.57
2184	एस.ए. जोसेफ, पुत्र श्री ए. एम. सावेरीनाथन	टीएनवीसी/1872/05	2/4, 10वां ट्रस्ट क्रॉस स्ट्रीट, मंडावलीपक्कम, चेन्नई 600028	बीवीएससी/मद्रासविधि/58	16.11.32
2185	एस. अनिथा, पुत्री श्री सेल्वराज	पॉण्डीएसवीसी/282/06	न. 7, अन्ना स्ट्रीट, डॉ. आर.के. नगर, काथिरकामम, पॉण्डीचेरी	बीवीएससीएंडएच/पॉण्डीविधि/05	3.12.83
2186	एस.सी. भारतीय, पुत्र श्री महावीर भारतीय	यूपीवीसी/4370/06	ग्राम अट्टा, डाक बाबू गंज, (धियानगर), इलाहबाद, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/एनडीएयूएंडटी/06	12.05.77
2187	एस. देवादीस, पुत्र श्री आर. स्वामीनाथन	टीएनवीसी/1795/05	4/2, गांधी नगर, I स्ट्रीट, मेलूर, मदुरै जिला	बीवीएससी/टीएन एयू/88	22.05.61
2188	एस. एजिल वलावन, पुत्र श्री एन. सुब्रह्मय्याह	टीएनवीसी/2265/05	रोज नगर, इलाम्बलूर रोड, पेराम्बलूर डाक, पिन 621212	बीवीएससी/टीएन न्यूवीएस/97	05.06.74
2189	एस.जी. कनगा सुहिला, पत्नी श्री जे. कैनेडी लिंगम	टीएनवीसी/2775/05	5, वेलायुथा पंडियान स्ट्रीट, पुराना वाशरमैनपेट, चेन्नई 600021	बीवीएससी/टीएन न्यूवीएस/94	17.05.71
2190	एस.के. प्रकाश, पुत्र श्री के. कंडासामी	टीएनवीसी/3657/06	1/2-ई, पेरियापट्टी रोड, पन्नारसंकर नगर, नमक्कल - 637041, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन न्यूवीएस/92	04.06.68
2191	एस.के. सिंह, पुत्र श्री आर. एन. सिंह	यूपीवीसी/4382/06	पानी की टंकी के निकट, एम. एन. 1373/9, विवेकानंद नगर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/एनडीएयूएंडटी/06	11.12.81
2192	एस.के. सिंघल, पुत्र श्री आर.एस. सिंघल	यूपीवीसी/4546/06	19-ए, उत्तरी अर्जुन नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/जेएनकेवीवी/06	01.07.76

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2193	एस.के. श्रीवास्तव, पुत्र श्री के.एल. श्रीवास्तव	यूपीवीसी/4527/06	ग्राम एवं डाक गोरारिया, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएंडट 1/06	15.08.79
2194	एस.एम. सक्तिवेलन, पुत्र श्री एस. मसिलामनि	टीएनवीसी/2738/05	552, केवीके सामी स्ट्रीट, पेरियार नगर, चेन्नई 600039	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/95	13.04.72
2195	एस.एम.के. कार्तिकेयन, पुत्र श्री एम. कन्नियाप्पन	टीएनवीसी/1470/05	101, चिन्नामनियकारा स्ट्रीट, चेंगलपट्टूर, 603001	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/93	17.06.70
2196	एस. मौहम्मद आजमतुल्ला शरीफ, पुत्र श्री सलार शरीफ	पॉण्डीएसवीसी/294/06	न. 27, जैसमिन स्ट्रीट, पैट्रिक स्कूल के सामने, धनधाल पेरियार नगर, पॉण्डीचेरी	बीवीएससीएंडएच / एपीएयू/79	14.10.56
2197	एस.एन. सिवासेल्वम, पुत्र श्री सी. नागालिंगम	टीएनवीसी/1372/05	35/3, पुराना न. 16/3, अमीरजान स्ट्रीट, चूलाईमेडु, चेन्नई 600094	बीवीएससी/टीएन एयू/79	24.10.57
2198	एस.पी. अम्बुजानी, पुत्र श्री पेरियासामी	टीएनवीसी/1900/05	पुराना न. 1853, नया न. 148, छटा एवेन्यू, अन्नानगर पश्चिम, चेन्नई 600040	बीवीएससी/ मद्रासविधि/62	12.01.39
2199	एस.पी. राजकुमार, पुत्र श्री एस. पोन्नुस्वामी	टीएनवीसी/3016/05	ए 162, एन.जी.ओ. कॉलोनी, गांधी नगर, नगरकोडल 629002, कन्याकुमारी जिला	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/95	04.04.72
2200	एस.पी. विनिल, पुत्र श्री एच. सामराज	टीएनवीसी/2100/05	21/28, डबल स्ट्रीट, थिरुवट्टूर डाक, पिन 629177, कन्याकुमारी जिला	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/00	06.06.76
2201	एस.आर.श्रीनिवासन, पुत्र श्री एस.डी. रामास्वामी	टीएनवीसी/0767/05	प्लॉट न. 46, के.के.आर. नगर, माधवरम, चेन्नई 600060	बीवीएससी/टीएन एयू/79	01.12.55
2202	एस. रमेश, पुत्र श्री एम. सुब्रामनी	पॉण्डीएसवीसी/281/06	न. 27, इयनार कोडल स्ट्रीट, कुयावरपलायम, पॉण्डीचेरी- 13	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डीविधि/05	12.5.84
2203	एस.एस. चौधरी, पुत्र श्री गजराज चौधरी	यूपीवीसी/4473/06	ग्राम पोखरभिटवा, डाक सालटोवा, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएंडट 1/06	17.08.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2204	एस. संतोष कुमार, पुत्र श्री सी. सिवनाथन	टीएनवीसी/0655/05	एमआईजी- 412, टीएनएचबी, वेन्मपट्टी रोड, धर्मापुरी- 636705	बीवीएससी/टीएनयूवीएएस/01	17.1.76
2205	एस. संधिल कुमार, पुत्र श्री जी. सेल्वराज	पोंडिएसवीसी/282/06	8, सिवन कोइल स्ट्रीट, थक्कालूर, तिरुनल्ला डाक, कराईकल तालुक, पोंडिचेरी	बीवीएससीएंडएच/पोंडिचिदि/05	25.11.80
2206	एस. सिवाकुमार, पुत्र श्री एम. शानमुगम	टीएनवीसी/3651/06	8/39, कंडासामीपुरम स्ट्रीट, मुडुकुलाथूर, समनद स्ट्रीट, तमिलनाडु	एमएसवी/एमएसएवीएमएंडबीटीमॉस्को/01	5.05.73
2207	एस.वी. वीराराघवन, पुत्र श्री एस. वेदागिरि	टीएनवीसी/2090/05	351/89, गांधी रोड, श्रीपेराम्बुदूर 602105	बीवीएससी/मद्रासविदि/65	01.07.38
2208	एस. वादीयुकरासी, पुत्र श्री एस. सिवाप्रगासम	पोंडिएसवीसी/288/06	न. 5, करपगा, विनयगार कोइल स्ट्रीट, कुरिजी नगर, लॉसपेट, पोंडिचेरी	बीवीएससीएंडएच/पोंडिचिदि/05	5.10. 83
2209	एस. विजिल अंबियाह, पुत्र श्री ए. सधियायाकू	टीएनवीसी/2256/05	न. बी 1, आर.एस.ए. हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, अन्नामलई विश्वविद्यालय, अन्नामलई नगर 608002	बीवीएससी/टीएनयूवीएएस/94	27.06.71
2210	एस. वाटविल्सन लिंगडोह (एम), पुत्र स्व.श्री पी.एस. खार गोनकोर मिलियेम	मेघएसवीसी/247/07	सिलई-यू-लोर, शिलौंग- 9, मेघालय	बीवीएससीएंडएच/एएयू/07	14.10.78
2211	साबाले सिद्धार्थ सूर्यकांत	महाएसवीसी/7703/	द्वारा फाल्के बी.एस., मेन कॉलोनी, एम-11/518, ए/पी वालचंदनगर, तालुक इंदापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच/एमएएफएसयू/06	16.10.83
2212	सबाले वर्षा विष्णु	महाएसवीसी/7341/	कोलवाडी कुकाडी कॉलोनी, कोलवाडी रोड, कोलवाडी तालुक, करजात, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच/एमएएफएसयू/05	27.03.83
2213	सधिन कुमार जैन, पुत्र श्री एन.के. जैन	एमपीएसवीसी/2419/07	म.न. 446, नन्हे जैन मंदिर के निकट, हनुमान ताल, जबलपुर, म.प्र.- 482002	बीवीएससीएंडएच/जेएनकेवीवी/06	04.01.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2214	सचिन सामइया, पुत्र श्री संतोष सामइया	एमपीएसवीसी/2 390/06	किराना मर्चेट, मेन रोड, कर्रापुर, सागर, म.प्र.- 470337	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/0 6	09.01.79
2215	सचीन्द्र कुमार शर्मा, पुत्र श्री त्रिलोक चंद्र शर्मा	यूवीसी/223/06	बी-5, पशुलोक फार्म, ऋषिकेश, जिला देहरादून, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएटी/ 91	03.08.66
2216	सदाराव भारत लोटन	महाएसवीसी/ 7153/	एटी जोतवाडे, तालुक शिदखेडा, जिला धुले, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /04	17.08.80
2217	सदारिया कमलेश अमरशीभाई	गुजएसवीसी/ 2765/06	एटी व डाक नवगाम (पटेल नगर), तालुक मलिया (एम), जिला राजकोट- 363670, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/06	01.06.83
2218	साह बाजलु रहमान ओजेर, पुत्र श्री साह हवीलुर रहमान	बीवीसी/2667/ 05	ग्राम लखमीकियां, डाक बलिया, थाना बलिया, जिला बेगुसराय, बिहार	बीवीएससीएंडएच /तंण।ण्/79	06.03.56
2219	साहाने अरुण महादेव	महाएसवीसी/ 7215/	ए/पी आले, तालुक जुन्नेर, जिला पुणे- 413412, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /04	24.10.81
2220	साहारे महेश गजानन	महाएसवीसी/ 7447/	सर्वेयर कॉलोनी, म.न. 11, नया गुरुद्वारा रोड(तुकुम), जिला चंद्रपुर- 442401, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /05	11.02.82
2221	साहित्य भूषण यादव, पुत्र श्री होतीराम यादव	यूपीवीसी/4494 /06	ग्राम गोविंद यापुर, डाक मौजपुर, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /सीएसएयूएंडट /06	24.04.80
2222	साई प्रकाश एस., पुत्र श्री श्रीराम रेड्डी एस.एन.	कर्नाएसवीसी/ 3940/06	संगतापल्ली ग्राम, पाथपाल्या 561212, बागापल्ली तालुक, कोलार जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू /06	18.06.83
2223	सैकिया मनस्विनी, पुत्री श्री प्रभात सैकिया	असम/2264/07	नॉर्थ हैबोरगांव, नागांव- 782002, असम	बीवीएससीएंडएच /एएयू/07	23.10.79

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2224	सैकिया तरुण कुमार, पुत्र श्री जीनाराम सैकिया	असम / 2276 / 07	बराथियाबारी, डाक जनाराम चोइका, जिला दारंग- 784125, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 07	30.06.82
2225	सजेश एम.जी.	केरलएसवीसी / 3 169 / 06	मारमचेरी हाउस, वासुपुरम, मट्टाधिकुन्नु डाक, थिसूर- 680684, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	20.03.82
2226	साकेत के. निरंजन, पुत्री श्री केशव दास	एचपीएसवीसी / 7 83 / 06	एनआईआरएस गरसा (वाया मुंटेर), जिला कुल्लू, हि.प्र. 175141	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएंडटी / 00	20.06.76
2227	साकेत यादव, पुत्र श्री बाजी राम यादव	यूपीवीसी / 4419 / 06	ग्राम खेमवपुर, डाक चंदेसर, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएंडटी / 06	24.04.81
2228	सखाराम कनासिया, पुत्र श्री बाधा	एमपीएसवीसी / 2 368 / 06	वैकुंठ नगर, एसएसएम स्कूल के निकट, जसवारी रोड, खांडवा, म. प्र.-450001	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 0 6	11.05.79
2229	साखारे मीराबाई पुंडलीकराव	महाएसवीसी / 7277 /	दत्ता नगर, परभनी, तालुक जिला परभनी, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	26.12.81
2230	सैलेंद्र सिंह बिष्ट, पुत्र श्री टी.एस. बिष्ट	यूवीसी / 269 / 07	मालवीय उद्यान, कोटद्वारा जिला पौरी गढ़वाल, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएंडटी / 81	09.02.58
2231	सलगार सुहास बीरप्पा	महाएसवीसी / 7711 /	ए/पी गुंजेगांव, तालुक मंगलवेधा, जिला सोलापुर- 413305, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	19.07.84
2232	सलिल कृार जैन, पुत्र श्री एस.सी. जैन	एमपीएसवीसी / 2 347 / 06	44, गोरखपुर, जबलपुर, म.प्र.- 482001	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 7 5	27.09.52
2233	सात्के दिनकर बबनराव	महाएसवीसी / 7466 /	जय भवानी ट्रांसपोर्ट, पाटिल माला, ए/पी जवाला, तालुक पारनेर, जिला अहमदनगर- 414306, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	29.05.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2234	सालुंखे आनंदराव	महाएसवीसी / 7268 /	भाई कोतवाल रोड, चोपडा, तालुक चोपडा, जिला जलगांव-425107, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच / एमएएफएसयू / 04	25.07.81
2235	सालुंखे समाधान चंद्रकांत	महाएसवीसी / 7715 /	एटी अकोला (वासुद), तालुक संगाला, जिला सोलापुर-413307, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच / एमएएफएसयू / 06	07.05.83
2236	सालुंखे विशाल आनंदराव	महाएसवीसी / 7281 /	भाई कोतवाल रोड, चोपडा, तालुक चोपडा, जिला जलगांव-425107, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच / एमएएफएसयू / 02	29.12.79
2237	समरविध पी. कुरुप	केरलएसवीसी / 3 176 / 06	गायत्री, इडापल्ली डाक, कोचीन- 682024, केरल	बीवीएससीएंडएएच / केएयू / 06	09.01.83
2238	समरेंद्र नारायणन, पुत्र विंग कर्मा., के.पी.ए. नारायणन	टीएनवीसी / 0379 / 04	8, भूतपूर्व सैनिक एन्कलेव, सेलईयूर, चेन्नई 600073, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएएच / जीबीपीयूएंडटी / 80	19.01.58
2239	समता रमेश भूमइयाह	महाएसवीसी / 7671 /	डिग्वी बालाजी मंदिर, परमनी, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच / एमएएफएसयू / 06	18.06.84
2240	समीर डे, पुत्र ले. जोगेश घ. डे	त्रिपुराएसवीसी / 1 64 / 06	द्वारा ले. जोगेश च.डे, पुराना थाना रोड, बनमालीपुर, अगरतला, त्रिपुरा	बीवीएससीएंडएएच / बीसीकेवी वी / 79	25.01.52
2241	समीर कुमार मैती, पुत्र श्री शशांक शेखर मैती	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3221 / 06	ग्राम पश्चिमबेटा, डाक भागीरथपुर, जिला पश्चिम मिदनापुर- 721136, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 05	01.03.83
2242	समित घोष, पुत्र श्री नताई चंद्र घोष	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3266 / 06	ग्राम मोहेशपुर, डाक जगलगरी, थाना जंगीपारा, जिला हुगली-712403, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	01.01.83
2243	सैमुअल विजयसेकर मुथइयाह, पुत्र श्री एन.एस. मुथइयाह	टीएनवीसी / 3634 / 06	14 / 33, ध्यागराजा ग्रामनी स्ट्रीट, (उत्तरी उस्मान रोड), टी. नगर, चेन्नई- 17, तमिलनाडु	बीवीएससी / एमयू / 72	20.06.47

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2244	सनाप महारुद्र जगन्नाथ	महाएसवीसी / 7691 /	एटी तागडगांव, तालुक शिरूर (केए), जिला बीड- 431122, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएफएसयू / 06	07.07.82
2245	सनातन माझी, पुत्र श्री हजम चरन माझी	ओवीसी / 2092 / 06	एटी इचिंदा रोड, डाक रायरंगपुर, जिला मयूरभंज, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 06	28.03.80
2246	संदीप गुलिया, पुत्र श्री राजबीर सिंह	एचवीसी / 1934	द्वारा विजया बैंक, संतपुरा सिटी, कैथल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएंडटी / 06	21.11.82
2247	संदीप कुमार	डीवीसी / 0597 / 02	210 / 3ए, मौहल्ला दूनाघर, शाहदरा, दिल्ली	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 01	22.06.77
2248	संदीप कुमार, पुत्र श्री राम बारन	यूपीवीसी / 4498 / 06	ग्राम सिंकी खुर्द, डाक हंडिया, जिला इलाहबाद, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएंडटी / 06	10.08.76
2249	संदीप, पुत्र श्री शीष राम	एचवीसी / 1908 /	म.न. 501, बिजली के ट्रांसफॉर्मर के पास, मेन गली, आजाद नगर, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 06	24.08.81
2250	सदेश कुमार, पुत्र श्री इतपाल सिंह	यूपीवीसी / 4369 / 06	म.न. 111 ए / 1, बसंत विहार, किला रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीएयूएंडटी / 06	28.06.76
2251	संध्या रानी एस., पुत्री श्री लिंगइयाह	एपीएसवीसी / 4486 / 06	एलआईजी-13, एपीएचबी कॉलोनी, मुनुगोड रोड, नालगोंडा- 508001, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	31.08.81
2252	संदीप भुस्कत, पुत्र श्री निकांतराव भुस्कत	राजएसवीसी / 3294 / 06	"नीलपंच" 17-बी, जीरो लाइन, सरस्वती कॉलोनी, कोटा, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / पीआरकेवीपी / 94	14.1.73
2253	संदीप पटनायक, पुत्र श्री गिरीश चंद्र पटनायक	ओवीसी / 2061 / 06	एटी / डाक खाउपदा, स्ट्रीट डंडा साही, जिला नयागढ़, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 06	28.07.80



क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2254	साने दीपक सुभाष	महाएसवीसी / 7404 /	पोहरेगांव, तालुक रेनापुर, जिला लातूर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	01.02.82
2255	संगमा गौडा कोण्ड, पुत्र श्री कराबासप्पा	कर्नाएसवीसी / 3870 / 06	यरनाल डाक, बासवना बागेवाडी तालुक, बीजापुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 08	22.07.82
2256	संगमा सुधीर, पुत्र श्री गजेन संगमा	असम / 2241 / 06	द्वारा श्री न्यूटन संगमा, ग्राम एवं डाक नेपेरपट्टी, डाक बोकाजन, जिला कारबी— अगलॉग, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 06	20.12.79
2257	संग्राम केशरी बेहेरा, पुत्र श्री चम्पे बेहेरा	ओवीसी / 2088 / 06	एटी सर्नदापली, वाया बीजेपुर, जिला बरगढ़, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 06	28.05.81
2258	संजय कुमार बंधु, पुत्र श्री रामचंद्र यादव	बीवीसी / 2679 / 05	ग्राम बेलाही, डाक परवा, थाना जयनगर— 847226, जिला मधुबनी, बिहार	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएंडएफएसयू / 05	15.05.78
2259	संजय कुमार भारती, पुत्र श्री बी. चंद	यूपीवीसी / 4442 / 06	ग्राम उसरा बाजार, डाक तिवई, तहसील रुद्रपुर, देवरिया, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 06	10.06.81
2260	संजय कुमार मीना, पुत्र श्री राम चरन	राजएसवीसी / 3273 / 06	ग्राम रामसिंह पुरा, डाक शफीपुरा बामनवास, सवाईमाधोपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 06	04.06.79
2261	संजय कुमार सिंह, पुत्र श्री भगवत प्रसाद सिंह	बीवीसी / 2712 / 05	ग्राम दत्तु बीघा, डाक थाने के सामने, एकंगरसराय— 801301, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 00	15.07.75
2262	संजय कुमार, पुत्र श्री कामेश्वर प्रसाद सिन्हा	बीवीसी / 2694 / 05	ग्राम नकदोयी, डाक आँगरी— 801301, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 05	25.05.81
2263	संजय कुमार, पुत्र श्री कृष्ण बल्लभ झा	बीवीसी / 2657 / 05	ग्राम गौतम नगर, डाक सहरसा, थाना सहरसा— 852201, जिला सहरसा, बिहार	बीवीएससीएंडएच / बीएयू / 05	15.08.79

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2264	संजय शर्मा, पुत्र श्री के. डी. शर्मा	यूपीवीसी/4454/06	म.न. 392, सी-काजी खेरा, लाल बाग, कानपुर -7, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एनडीएयूएंडटी /06	13.08.77
2265	संजय सिंह तोमर, पुत्र श्री शेर सिंह तोमर	एमपीएसवीसी/2340/06	ग्राम एवं डाक साथोना मोरैना, म.प्र.- 476115	बीवीएससीएंडएच /सीएसकेकेवीवी /06	06.05.75
2266	संजय सिंह, पुत्र श्री जे. एस.पी. सिंह	यूपीवीसी/4361/06	ग्राम बमहानियो, डाक धानापुर, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एएयू/06	12.12.79
2267	संजीव कुमार बुजरक, पुत्र श्री वेंकप्पा	कर्नाएसवीसी/3866/06	होसूर डाक (राबकावी), जामखंडी तालुक, बगलकोट जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू /06	10.01.83
2268	संजीव पंत, पुत्र श्री डी.डी. पंत	यूवीसी/250/06	त्रिलोक नगर, मल्ला बामोरी, डाक भोटिया, परवा, हलद्वानी, जिला नैनीताल, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएटी/00	11.03.75
2269	संजीव शर्मा, पुत्र श्री सुरेश चंद्र	एमपीएसवीसी/2398/06	ग्राम एवं डाक बीरखंडी, तहसील गोहाद, मिड, म.प्र.- 477116	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/06	07.06.78
2270	संजीव डेका, पुत्र श्री पुष्पा डेका	डीवीसी/0648/05	द्वारा डॉ. संजीव काकोती, एसजीएसीसी, राजा गार्डन, सिवजी कॉलेज के निकट, नई दिल्ली- 27	बीवीएससीएंडएच /एएयू/01	01.04.77
2271	संजीव काकोती, पुत्र श्री विपिन काकोती	डीवीसी/0637/04	संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर, शिवाजी कॉलेज के निकट, राजा गार्डन, नई दिल्ली- 110027	बीवीएससीएंडएच /एएयू/97	01.03.75
2272	संजीत कुमार, पुत्र श्री बीरेंद्र प्रसाद	बीवीसी/2680/05	ग्राम कारु बीघा, डाक कारु बीघा, थाना नीमचाक, बचानी- 803116, जिला गया, बिहार	बीवीएससीएंडएच /डब्ल्यूबीयूएंडएफएसयू/05	15.11.78
2273	संजीव कुमार, पुत्र श्री रामचंद्र प्रसाद	बीवीसी/2686/05	ग्राम धौसा, डाक धौसा, थाना शेखपुरा- 811105, जिला शेखपुरा, बिहार	बीवीएससीएंडएच /ओयूएंडटी/05	01.03.80

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2274	संकल्प संदीप सोपान	महाएसवीसी / 7420 /	एटी / डाक रंजनगांव (संदास), तालुक शिरूर, जिला पुणे-412211, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	25.06.82
2275	सन्मत जैन, पुत्र श्री प्रेम चंद्र जैन	डीवीसी / 0643 / 04	2760, गली न. 3, बिहारी कौलोनी, शाहदरा, दिल्ली-110094	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 0.4	29.03.80
2276	संतोष कुमार, पुत्र श्री सोमशेखर एस.के.	कर्नाएसवीसी / 3888 / 06	28, वीरमद्र नीलया, वीएमएस गार्डन, मेन रोड, थिंडलु, विद्यारण्यपुरा, बंगलौर- 97, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	25.01.84
2277	संतोष बसन्नावर, पुत्र श्री शिवन्ना	कर्नाएसवीसी / 3869 / 06	हिरूर डाक- 586214, मुददेबिहाल तालुक, बीजापुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	15.07.82
2278	संतोष कुमार बुधानी, पुत्र श्री कैलाश चंद्र बुधानी	यूवीसी / 209 / 06	म.न. 23, नागला पंतनगर, जिला यू.एस. नगर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 06	01.11.78
2279	संतोष कुमार जायसवाल, पुत्र श्री पी.एन. जायसवाल	यूपीवीसी / 4412 / 06	ग्राम एवं डाक नाई बाजार, इलाहबाद बैंक के निकट, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीएयूएंडटी / 06	03.11.77
2280	संतोष कुमार ओझा, पुत्र श्री बीरेंद्र प्रसाद ओझा	बीवीसी / 2658 / 05	ग्राम नेमेज, डाक निमेज, थाना ब्रह्मपुर, जिला बक्सर, बिहार	बीवीएससीएंडएच / बीएयू / 05	31.10.77
2281	संतोष कुमार साहू, पुत्र श्री अभिमन्यु साहू	ओवीसी / 2057 / 06	एटी / डाक शेरगडा, जिला गंजम, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 06	02.07.81
2282	संतोष कुमार शुक्ला, पुत्र श्री गया प्रसाद शुक्ला	यूवीसी / 259 / 06	म.न. 1 / 25, फूल बाग, पंतनगर, यू.एस. नगर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 77	07.12.56
2283	संतोष कुमार यादव, पुत्र श्री एन.एस. यादव	यूपीवीसी / 4519 / 06	ग्राम तिलौरा, डाक पाली, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएंडटी / 06	30.05.80

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2284	संतोष कुमार, पुत्र स्व. श्री लखन देव प्रसाद	बीवीसी / 2693 / 05	ग्राम शेख अली, डाक वेशवाक, थाना इस्लामपुर- 801303, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएस यू / 05	11.01.80
2285.	संतोष राजपाल, पुत्र श्री छोटेलाल पाल	यूपीवीसी / 4489 / 06	फाफून चौराहा, औरइया रोड, डिबियापुर, औरइया, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएंडटी / 06	13.08.80
2286	सरबजीत सिंह जायसवाल, पुत्र श्री पी.एस. जायसवाल	एचवीसी / 1900 /	म.न. 28, विशाल नगर, यमुना नगर, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 05	04.07.81
2287	सारदा प्रसन्ना साहू, पुत्र श्री दुर्गा चरण साहू	ओवीसी / 2143 / 07	एटी / डाक मालपटना, वाया पट्टामुंडई, जिला केंद्रपाड़ा, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 07	10.07.84
2288	सराग अम्बादास नामदेवसा	महाएसवीसी / 7329 /	एटी / डाक वासादी, तालुक नांदूर, जिला बुलघाना, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / पीकेवी अकोला / 75	22.09.51
2289	सरजू कु. मोहंता, पुत्र श्री मधुसूदन मोहंता	ओवीसी / 2137 / 07	एटी भ्रमरगोला, डाक दहीकोटी, वाया बी. साथिलो, जिला मयूरभंज, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 07	04.06.83
2290	सर्बशीष मंडल, पुत्र श्री सुनील कुमार मंडल	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3230 / 06	240, ए.सी. रोड (एस), डाक खगरा, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	17.10.83
2291	सरदारी लाल, पुत्र श्री शिव राम	डीवीसी / 0663 / 05	सीवीओ / कमांड. (वेट), प्रोविजनिंग डाय., वेट विंग, एफएचक्यू, बीएसएफ, ईस्ट ब्लॉक-9, लेवल-4, सेक्टर -1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 66	01.06.53
2292	सरीपल्ली देवाराजू, पुत्र श्री एस. सत्यनंदम	एपीएसवीसी / 4505 / 06	डी.न. 7-63, प्रशासननगर, पेंडुर्था, विशाखापटनम जिला 531173, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	19.08.81
2293	सरिता अन्ना शोभा भेंगरा, पुत्री श्री जॉन भेंगरा	ओवीसी / 2047 / 06	सी / 18, कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी, हमीरपुर, राउरकेला-3, जिला सुंदरगढ़- 769003, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 06	30.11.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2294	सरिता जेना, पुत्री श्री भासकर जेना	ओवीसी/2125/07	.एटी- सास्त्री नगर, तीसरी लेन, डाक गोसानिनुआगाम, बरहामपुर-3, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/07	07.04.83
2295	सरिथा एन.एस., पुत्र श्री सान्ने गौडा	कर्नाएसवीसी/3914/06	नेलमकानाहल्ली- 871430, मलादल्ली तालुक, माण्ड्या जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू /06	07.05.84
2296	सरला सिंह, पुत्री श्री कोमल सिंह	एमपीएसवीसी/2382/06	क्वान. 814, मनोज किराना, चंद्रास शेखर वार्ड, रांझी, जबलपुर, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/06	28.06.71
2297	सरमा धनजिता, पुत्री श्री मोनदीप सर्मा	असम/2279/07	द्वारा श्री एन. सर्मा, डाउनटाउन, मधुरा नगर, थाना दिसपुर, गुवाहाटी, असम	बीवीएससीएंडएच /एएयू/07	14.02.80
2298	सरमाह हीरामनि, पुत्र स्व. श्री भुवन च. सरमाह	असम/2247/06	द्वारा कुंती देवी, ग्राम मेटापाड़ा, डाक डेकीपाड़ा, जिला दारंग-784145, असम	बीवीएससीएंडएच /एएयू/06	31.03.80
2299	सरोद भूषण शामकांत	महाएसवीसी/7124/	सफल्य, 185, फ्रैंड्स कॉलोनी, कटोल रोड, नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /04	10.06.82
2300	सर्वेश के., पुत्र श्री कृष्णप्पा	कर्नाएसवीसी/3883/06	कोंडासांद्रा ग्राम, होलूर जिला, कोलार तालुक एवं जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू /06	20.07.83
2301	सशांक सेखर दत्ता, पुत्र श्री कमलेश्वर दत्ता	डीवीसी/0619/03	1181-ए, अपर ग्राउंड फ्लोर, अरुण नगर, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली- 110003	बीवीएससीएंडएच /एएयू/97	22.02.74
2302	सत पाल गौतम, पुत्र श्री राम चंदर शर्मा	डीवीसी/0631/04	डी-34, साउथ एक्सटेंशन-1, नई दिल्ली- 110034	बीवीएससीएंडएच /पीएयू/69	05.10.44
2303	सत प्रकाश सिंगल, पुत्र श्री मुकंद लाल सिंगल	डीवीसी/0632/04	बी-29, पंचशील एकलेव, नई दिल्ली	बीवीएससीएंडएच /पीयू/54	07.09.32

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2304	साताले श्रीकांत भीमशंकर	महाएसवीसी / 7155 /	"दत्ताकृपा" सर्वे न. 39, म.न. 375, शिंदे वस्ती, केशवनगर, ए/पी मुंधोवा, तालुक हवेली, पुणे महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	31.05.82
2305	सतलकार अस्मिता अमृतराव	महाएसवीसी / 7431 /	सोनल निवास, पद्मावती अस्पताल के सामने, देगलूर रोड, तालुक उदगीर, जिला लातूर— 413517, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	05.05.83
2306	सातव जयकुमार सतवाजी	महाएसवीसी / 7334 /	द्वारा एस.एन. सातव, माली गली, कलमनुरी, तालुक कलमनुरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	01.06.81
2307	साठे प्रदन्या माधवराव	महाएसवीसी / 7332 /	"श्री कृपा", गणेश चौक, चिंचोडी पाटिल नगर, अहमदनगर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	01.06.83
2308	सतीश कुमार बी.एम., पुत्र स्व. श्री मूर्ति बी.एम.	कर्नाएसवीसी / 3938 / 06	मेन रोड, तीसरा ब्लॉक, शनिवारसांथे— 571235, सोमवारपेट तालुक, उत्तरी कुर्ग, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	27.07.83
2309	सतीशा के.बी., पुत्र श्री बेट्टास्वामी	कर्नाएसवीसी / 3921 / 06	केलाना डाक, कुनिगल तालुक, तुमकुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	02.06.83
2310	सतीश चंद माथुर, पुत्र श्री पी.एल. माथुर	डीवीसी / 0604 / 02	गेट न. 32, नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली— 110003	बीवीएससीएंडएच / विक्रमविदि / 60	01.01.39
2311	सतीश कुमार इदाकुला, पुत्र श्री रामा सुब्रमण्यम	एपीएसवीसी / 4546 / 07	बोम्मांगी, प्रथीपडु (एम), पू.गो. जिला— 534430, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 07	04.05.81
2312	सतीश एम.पी., पुत्र श्री एम.सी. परमेश्वरन	डीवीसी / 0618 / 03	क्वार्टर न. 1092, सेक्टर-4, आर. के. पुरम, नई दिल्ली	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 00	04.07.76
2313	सतीश, पुत्र श्री धूलप्पा	कर्नाएसवीसी / 3829 / 06	अनुसूया निवास, #9-11-142, वी.एन. कॉलोनी, बिदर— 585401, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	08.07.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2314	सतपाल सिंह चौहान, पुत्र श्री तेज सिंह	राजएसवीसी / 3321 / 06	एटी डाक पीठ, तहसील सिमलवाड़ा, डूंगरपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच / एएयू / 06	30.06.83
2315	सतपुते अभिजीत भारत	महाएसवीसी / 7643 /	'कोडन', वी.जे.अरकनगर, बीड रोड, मोरेवाडी, अम्बाजोगई, डाक सदर बाजार, तालुक अम्बाजोगई, जिला बीड—431517, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच / एमएएफएसयू / 06	04.03.84
2316	सतपुते सीतेंद्र भागोजीराव	महाएसवीसी / 7544 /	सतपुते निवास, एच-448, जीरे गली, अम्बेजोगई, तालुक अम्बेजोगई, जिला बीड—431517, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच / एमएयू / 00	06.02.70
2317	सतपुते विकास शाहूराव	महाएसवीसी / 7667 /	ए / पी मोगरा, तालुक माजलगांव, जिला बीड—431131, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच / एमएएफएसयू / 06	09.04.83
2318	सतवीर सिंह पंगल, पुत्र श्री राम चंद्र पंगल	एचवीसी / 1948	म.न. 755, सेक्टर-21, पंचकुला, हरियाणा	बीवीएससीएंडएएच / एचएयू / 79	26.04.53
2319	सत्य नारायण कर, पुत्र श्री केदारनाथ कर	ओवीसी / 2139 / 07	एटी राम कृष्णा नगर, डाक लोचापदा, बरहामपुर, जिला गजम, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएएच / ओयूएटी / 07	28.06.83
2320	सत्य प्रकाश आर्य, पुत्र श्री डी.पी. आर्य	यूपीवीसी / 4380 / 06	ग्राम एवं डाक पिंडरा, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / एनडीएयूएंडटी / 06	08.12.75
2321	सत्य प्रकाश दूबे, पुत्र स्व. श्री जी.एल. दूबे	एमपीएसवीसी / 2422 / 07	बी-2 / 38, विनय नगर, सेक्टर-3, ग्वालियर, म.प्र.	बीवीएससीएंडएएच / जेएनकेवीवी / 64	10.01.43
2322	सत्य नारायण स्वेइन, पुत्र श्री राठी स्वेइन	ओवीसी / 2073 / 06	द्वारा राठी स्वेइन, फॉरेस्ट चैक गेट के निकट, जिला / डाक नयागढ़, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएएच / ओयूएटी / 06	04.07.82
2323	सत्यरंजन पृष्ठि, पुत्र श्री सुदाम चंद्र पृष्ठि	ओवीसी / 2069 / 06	एटी जनखराई, डाक चाशखंड, जिला बालासौर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएएच / ओयूएटी / 06	16.05.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2324	सत्येंद्र कुमार गुप्ता, पुत्र श्री के.एल. गुप्ता	एमपीएसवीसी/2 367/06	मेन मार्केट, बाजार क्षेत्र, सिरमौर रीवा, म.प्र. - 486448	बीवीएससीएंडएएच /जेएनकेवीवी/0 6	12.05.80
2325	सौफा मंसूर, पुत्र श्री मनसुरुल हक	बीवीसी/2649/ 05	ग्राम पाड़, डाक चाकबहाउद्दीन, थाना दलसिंघसराय, जिला समस्तीपुर, बिहार	बीवीएससीएंडएएच /बीएयू/05	14.02.79
2326	सौरभ आनंद, पुत्र श्री सचिदानंद सिंह	बीवीसी/2692/ 05	ग्राम दयारा, डाक बिहार शरीफ, थाना बिहार 803101, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडएएच /जेएनकेवीवी/0 5	21.12.80
2327	सौरभ चतुर्वेदी, पुत्र श्री वी. के. चतुर्वेदी	यूपीवीसी/4444 /06	330, संजय गांधी पुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच /सीसीएसएचएयू /06	06.01.83
2328	सौरभ कुमार, पुत्र श्री अचल कुमार	यूपीवीसी/4518 /06	ग्राम सिमरोथी टप्पल, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच /सीएसएयूएंडट /06	05.06.82
2329	सौरभ मनीश, पुत्र श्री अनिल कुमार सक्सेना	डीवीसी/0668/ 05	फ्लैट न. 2, पॉकेट ए-3, सेक्टर-8, रोहिणी, नई दिल्ली	बीवीएससीएंडएएच /सीसीएसएचएयू /05	23.02.80
2330	सौरभ शर्मा, पुत्र श्री जग मोहन शर्मा	राजएसवीसी/ 3295/06	ए-2, विजय पथ, तिलक नगर, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच /सीसीएसएचएयू /06	22.01.82
2331	सौरव कुमार पाणिग्रही, पुत्र श्री हिमंशु शेखर पाणिग्रही	डब्ल्यूबीएसवीसी /3291/07	ग्राम घोरतालिया, डाक व थाना मारिशदा, जिला मिदनापुर डाक-- 721449, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएएच /डब्ल्यूबीयूएफए स/06	25.06.84
2332	सविथा जे.वी., पुत्री श्री वेंकट रेड्डी जे.एम.	कर्नाएसवीसी/ 3900/06	सुजानहल्ली, कोटागल-- 563125, चिंतामणि तालुक, कोलार जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएएच /केवीएएफएसयू /06	24.01.84
2333	सविथा एन.	केरलएसवीसी/3 151/06	एम.एम.के. हाउस, इरामन डाक, पयानूर बाया, कन्नूर-- 670307, केरल	बीवीएससीएंडएएच /केएयू/06	20.02.81



क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2334	सवाईमूल अविरात देवानंद	महाएसवीसी / 7445 /	उपाली कॉलोनी, 34वां आगने लेआउट, खामला, तालुक जिला नागपुर— 440025, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	07.06.83
2335	स्वंडकार पांडुरंग गणेशराव	महाएसवीसी / 7498 /	सिचाई कैम्प, बासमथनगर, तालुक बासमथ, जिला हिंगोली— 431512, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	03.01.82
2336	सावंत मनीश नरेंद्र	महाएसवीसी / 7213 /	ए/पी केंसारी, दानोली, तालुक सावंतवाडी, जिला सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	16.12.81
2337	सावंत सागर चंद्रकांत	महाएसवीसी / 7298 /	लक्ष्मी निवास, कडावल, तालुक कुडाल, जिला सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 02	14.03.80
2338	सायंती दास, पुत्र श्री सुभाष चंद्र दास	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3250 / 06	ए-10 एक्स / 26, कल्याणी, जिला नादिया— 741235, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	11.02.83
2339	सायिल हेमलता रमाकांत	महाएसवीसी / 7259 /	प्लॉट न.14, सचिन हाउसिंग को-ऑप. सोसायटी, नर्मदा कॉलोनी, कटोल रोड, नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 02	03.10.80
2340	सैयद मुश्ताक महबूब	महाएसवीसी / 7336 /	द्वारा सैयद साहेब दूध डेयरी वाले, लक्ष्मन नगर, बीड— 431122, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	15.03.82
2341	सीमा मीना, पुत्री श्री एच. एम. मीना	राजएसवीसी / 3320 / 06	ग्राम एवं डाक मीना बरोदा, तहसील गंगपुर सिटी, बाया बजीरपुर, सवाईमाधोपुर राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 06	07.07.83
2342	सीना के.एम.	केरलएसवीसी / 3141 / 06	कीरीक्काटेल हाउस, मज्जूर डाक, कोट्टायम— 686603, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	30.05.81
2343	सीना एन.पी.	केरलएसवीसी / 3190 / 06	वीनस हाउस, पिलाथरा डाक, कन्नूर— 670501, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	28.02.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2344	सेंथामरई एम., पुत्री श्री कोलांची जे.	कर्नाएसवीसी / 3950 / 06	98 / 2, एम.टी.डिपो क्वार्टर्स, एम. टी. कॉय, एमईजी सेंटर, बंगलौर, कर्नाटक	बीवीएससी / टीएन वीएससयू / 05	19.04.80
2345	सिरीन जेवियर	केरलएसवीसी / 3 150 / 06	पोराथूर कित्तान हाउस, डॉ. कोराथ लेन, ईस्ट फोर्ट डाक, थिरुसूर-680005, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएसयू / 06	29.04.82
2346	शफीकुर रहमान अब्दुल गफूर	महाएसवीसी / 7156 /	बडाई पौरा, वार्ड न.4, डाक मंगरूलपुर, तालुक मंगरूलपुर जिला वाशिम, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएसएसयू / 04	05.01.82
2347	शाहारे तुलसीदास यशवंत	महाएसवीसी / 7248 /	ए / पी महागांव / सुकाली, तालुक साकडी, जिला भंडारा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएसएसयू / 04	13.05.76
2348	शाहिद वसीम एस.ए., पुत्र श्री सैयद अब्दुल रहीम	कर्नाएसवीसी / 3877 / 06	1769, अमजद बिल्डिंग, मुजावर मौह, मूलबागल -563131, कोलार जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएसएसयू / 06	15.07.83
2349	शैफुद्दीन एन.टी.	केरलएसवीसी / 3 126 / 06	नशीदा मंजिल, चंदापदी डाक, पोन्नानी, मलप्पुरम- 679577, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएसयू / 06	19.03.79
2350	शेख अनीस शेख अशरफ	महाएसवीसी / 7294 /	ए / पी भाटवडगांव, तालुक माजुलगांव, जिला बीड- 411144, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएसएसयू / 03	01.07.80
2351	शेख मुबारक अब्दुल	महाएसवीसी / 7400 /	न्हावरे, तालुक शिरूर, जिला पुणे- 412211, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएसएसयू / 05	29.07.82
2352	शेख शबीरुद्दीन हसनोद्दीन	महाएसवीसी / 7123 /	94, मुमताज नगर, धार रोड, परमनी, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएसएसयू / 04	15.10.79
2353	शैलेश कुमार पिल्लै, पुत्र श्री जी.एस. पिल्लै	एमपीएसवीसी / 2 408 / 07	सी.बी. क्वार्टर्स, कैंट पुलिस स्टेशन के निकट, सदर बाजार, जबलपुर, म.प्र.- 482001	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 0 6	17.08.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2354	शैलेंद्र सोनकर, पुत्र श्री होरी लाल सोनकर	यूपीवीसी/4409/06	मौह. नाईगंज, डाक काचेहारी, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 06	04.08.79
2355	शैलजा शर्मा, पुत्री श्री वी. एस. शर्मा	यूपीवीसी/4415/06	वशिष्ठ अस्पताल, जनसथ रोड, आतम कुंज कॉलोनी, मुजफ्फरनगर कॉलोनी, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / आरएयू/06	19.05.81
2356	शंकर कुमार सिंह, पुत्र श्री बांके सिंह	बीवीसी/2702/05	ग्राम कोदार, डाक बगौरा, थाना एम.एच.नगर-841404, जिला सीवन, बिहार	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएस यू / 05	25.10.80
2357	शक्ति कांत दास, पुत्र श्री आर.के. दास	ओवीसी/2142/07	प्लॉट न. 49, जयदुर्गा नगर, कटक रोड, मुबनेश्वर- 751006, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 07	14.06.83
2358	शक्ति प्रताप, पुत्र श्री महाकर सिंह	यूपीवीसी/4405/06	ग्राम वारसपुर, डाक कैलसा, जिला जे.पी. नगर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 06	16.11.81
2359	शक्ति रंजन पाणिग्रही, पुत्र श्री ज्ञानरंजन पाणिग्रही	ओवीसी/2056/06	एटी पूर्वाकच्चा, डाक मध्यकच्चा, जिला कटक, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 06	18.11.81
2360	शाम सुंदर राजपाल, पुत्र श्री दीवान चंद राजपाल	डीवीसी/0651/05	एच-47/4, शंकर विहार, नई दिल्ली	बीवीएससीएंडएच / एचएयू/73	02.02.50
2361	शामला बी.आर., पत्नी गुरुराज एम.	कर्नाएसवीसी/3897/06	बीईएल ऑफिसर्स कॉलोनी, जलाहल्ली डाक, बंगलौर, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएएफएसयू / 06	26.03.83
2362	शम्भू शर्मा, पुत्र श्री जी.डी. सारस्वत	यूपीवीसी/4379/06	9, कावेरी विहार, फेज़-1, शमसाबाद रोड, आगरा, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी/68	15.06.47
2363	शमीम ए.	केरलएसवीसी/3135/06	शा निवास, मेलाथूर डाक, मलप्पुरम- 679326, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू/06	30.05.82
2364	शामिक पॉली, पुत्र श्री अरबिंदा पॉली	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3246 / 06	ग्राम एवं डाक उत्तर मनसरी, जिला हावड़ा- 711412, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	02.07.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2365	शंकर, पुत्र श्री विठल राव	कर्नाएसवीसी / 3855 / 06	राजेश्वर- 585331, बासवकल्याण तालुक, बिदर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	19.07.81
2366	शंकरइयाह के., पुत्र श्री रामन्ना के.	एपीएसवीसी / 4512 / 06	राजोली, वाडेपल्ली एम, महबूबनगर जिला-509126, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	26.05.82
2367	शंखपाल सचिन सुरेशराव	महाएसवीसी / 7724 /	विद्या रैस्टोरेंट, बुलघाना रोड, बस स्टैंड के सामने, मलकापुर, जिला बुलघाना, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	19.04.82
2368	शांत कुमार, पुत्र श्री वीरशेट्टी	कर्नाएसवीसी / 3858 / 06	नंदगांव- 585329, हुमनाबाद तालुक, बिदर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	01.04.84
2369	शरद कुमार भंडारी, पुत्र श्री हेमंत कुमार भंडारी	यूवीसी / 228 / 06	महेश्वरी भवन, पूर्वी पोखाखली, अल्मोड़ा, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 88	18.04.64
2370	शरद कुमार सिंह, पुत्र श्री आर.बी. सिंह	यूपीवीसी / 4368 / 06	ग्राम एवं डाक कुमिया, रसूलाबाद, जिला फैजाबाद, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीएयूएंडटी / 06	10.07.79
2371	शरदइंदु शाह, पुत्र स्व. श्री मोहन शाह	यूपीवीसी / 4356 / 06	उत्तर प्रदेश पशु पालन विभाग, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 92	21.12.64
2372	शर्मा कल्पेशकुमार चंदूभाई	गुजएसवीसी / 2779 / 06	महादेव मंदिर के साकने, भदकाड तालुक, सोजित्रा जिला, आनंद- 387380, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 06	08.05.81
2373	शर्मा रिंकी, पुत्री श्री डी. एस. शर्मा	असम / 2293 / 07	द्वारा डी. शर्मा, नवपुर, बोरभेटा डाक, जोरहाट एयर फील्ड, जोरहाट- 785005, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 07	17.10.82
2374	शशांक नाथ, पुत्र श्री एस. सी. वर्मा	यूपीवीसी / 4418 / 06	550 / 6, जागृति विहार, मेरठ, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएंडटी / 06	16.03.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2375	शशि रंजन प्रभात, पुत्र श्री राधा कांत सिंह	बीवीसी/2700/05	ग्राम चतुरचाक, डाक उधडीह, थाना सुल्तानगंज- 813213, जिला भागलपुर, बिहार	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएटी / 05	18.11.81
2376	शशिधारा एम.डी., पुत्र श्री महेंद्रप्पा एम.	कर्नाएसवीसी / 3852 / 06	द्वारा बी. ओंकारप्पा प्रशांत नीलया ।। क्रॉस, पुराना शहर, गांधीनगर, भद्रावती, शिमोगा, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	01.04.84
2377	शशिकला एच., पुत्री श्री होनप्पा बी.	कर्नाएसवीसी / 3942 / 06	होसाहल्ली पलया, थिरुमलपुरा डाक, हुलियार होबली, सी.एन. हल्ली, तुमकुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	01.06.84
2378	शशिकांत सिंदगी, पुत्र श्री मल्लाना सिंदगी	कर्नाएसवीसी / 3835 / 06	भंटानूर- 586214, मुददेबिहाल तालुक, बीजापुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	22.07.83
2379	शष्टि बल्लभ पांडे, पुत्र श्री सी.वी. पांडे	यूवीसी / 237 / 06	खन्ना फार्म, इंडस्ट्रियल एस्टेट, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 88	13.09.64
2380	शेखे मौह. गौस मौह. हुसैन	महाएसवीसी / 7492 /	एटी साकरला, डाक दहेगांव, पारशिओनी-खापा रोड, तालुक पारशिओनी, जिला नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / पीकेवी अकोला / 71	01.07.42
2381	शेख मुबारिक, पुत्र श्री शेख बफती खान	एमपीएसवीसी / 2 412 / 07	पुराने धाने के निकट, पालेरा, टीकमगढ़, म.प्र.- 472221	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेकेवीवी / 06	13.07.66
2382	शेलर किरन रोहीदास	महाएसवीसी / 7676 /	3 / 203, सिद्धिविनायक पार्क, लोकमान्यनगर, पद न. 4, थाणे (प.)- 400605, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	26.09.83
2383	शेलर नीलेश काचरु	महाएसवीसी / 7191 /	सप्तत्र्यंगी नगर, घोटी तालुक, इगतपुरी, जिला नासिक- 422402, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	26.10.81
2384	शेलर पंकज दगाडु	महाएसवीसी / 7480 /	खानदेश भवानी, 1870 गोकुल कॉलोनी, राहुरी, तालुक राहुरी, जिला अहमद नगर-413705, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	06.06.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2385	शेल्के सचिन कभारी	महाएसवीसी / 7324 /	एटी हंगेवाडी, डाक मालुंजा, तालुक संगमनेर, जिला अहमदनगर- 422605, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	23.09.81
2386	शेनदारा राहुल चिंतामन	महाएसवीसी / 7150 /	भागचंद नगर, वार्ड न. 2, घमनगांव रेलवे, जिला अमरावती, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	07.10.81
2387	शेंडे अमोल निवृत्ति	महाएसवीसी / 7699 /	ए/पी कावी, तालुक इंदापुर, जिला पुणे- 413120, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	13.01.84
2388	शेंडे गिरधारी पितुजी	महाएसवीसी / 7152 /	ए/पी मंडोखल/टोकी, अर्जुनी/मोरगांव, जिला गोंडिया, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	10.04.79
2389	शेंडे नितिन सेवक राम	महाएसवीसी / 7587 /	प्लॉट न. 24, उत्कर्ष गृह, निर्माण सोसायटी, रिंग रोड, दाभा, नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	15.05.83
2390	शेंडे तेजस चंद्रकांत	महाएसवीसी / 7312 /	ए/पी शिरतार, तालुक मान, जिला सतारा- 415509, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	20.07.81
2391	शेटे शंकर मोहन	महाएसवीसी / 7734 /	शेटे वस्ती, बवाडा, तालुक इंदापुर, जिला पुणे- 413101, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	03.01.84
2392	शेटे विजय कुमार अर्जुन	महाएसवीसी / 7437 /	ए/पी निघोज, तालुक पारनेर, जिला अहमदनगर- 414306, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	24.09.81
2393	शिजिन ए.	केरलएसवीसी / 3 142 / 06	ग्रेस विला, डाक चेलावूर, कोजीकोड- 372571, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएसयू / 06	23.10.81
2394	शिल्पा बी.एन. पुत्र श्री नयाल बी.जी.	कर्नाएसवीसी / 3878 / 06	12, एमआईजी, 11 केएचबी कॉलोनी, हुसूर, मैसूर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	28.01.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2395	शिल्पा श्री ए., पुत्री श्री आनंद	कर्नाएसवीसी / 3912 / 06	112, गंधर्व गिरि, वार्ड न. 1, एपीएमसी यार्ड के निकट, नन्दूर तालुक, माण्ड्या जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	02.08.82
2396	शिंदे आकाश राव सवाता	महाएसवीसी / 7234 /	एटी मीरेवाडी, डाक रावाडी (ब्लॉक), तालुक फाल्टन, जिला सतारा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	16.05.82
2397	शिंदे अशोक सरजेराव	महाएसवीसी / 7673 /	ए/पी पिम्पलवाडी, तालुक पटोडा, जिला बीड- 413229, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 02	07.05.79
2398	शिंदे मनीश शिवाजी	महाएसवीसी / 7723 /	"शिवम", प्लॉट न. 23, सांगली कुपवाड रोड, विश्रामबाग (एस. वी.एच. सोसायटी), तालुक मिराज, जिला सांगली, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / पीकेवी अकोला / 92	11.08.70
2399	शिंदे प्रकाश रामभाऊ	महाएसवीसी / 7714 /	एटी जावाले, डाक निर्गुदसार, तालुक अम्बेगांव, जिला पुणे- 413406, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	15.07.84
2400	शिंदे संतोष अरुणराव	महाएसवीसी / 7302 /	टीपीएस कॉलोनी, ओल्डे- 104, पारली वैजनाथ, तालुक पारली वैजनाथ, जिला बीड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	06.03.81
2401	शिंदे सरोज भगवानराव	महाएसवीसी / 7535 /	विवेकानंद नगर, माजलगांव, तालुक माजलगांव, जिला बीड- 431131, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	03.06.83
2402	शिरोदकर क्षमा दिलीप	महाएसवीसी / 7476 /	"औदुम्बर छाया", 1, कोपती कॉलोनी, धाणे पूर्व, जिला धाना- 400603, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	12.10.81
2403	शिशोदिया जयसिंग मदनसिंग	महाएसवीसी / 7340 /	एटी इंदेवई, डाक पोखरनी, जिला परभनी- 431401, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	07.06.82
2404	शिसोदे मानसिंग गुलाबराव	महाएसवीसी / 7644 /	ए/पी मखानी, तालुक गंगाखेड, जिला परभनी- 413514, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	25.11.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2405	शिव कुमार सिंह, पुत्र श्री राम प्रयाग सिंह	बीवीसी / 2632 / 05	ग्राम कामला बारी (गोट), डाक कामला बारी (गोट), थाना जयनगर— 847226, जिला मधुबनी, बिहार	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 05	01.03.78
2406	शिव कुमार, पुत्र श्री राम चंद्र सिंह	यूपीवीसी / 4559 / 07	ग्राम एनएनपी नागली, डाक रघुनाथपुर, बुलंद शहर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएंडटी / 99	15.07.67
2407	शिव नंदन सिंह परमार, पुत्र स्व. श्री गंगारामसिंह परमार	एमपीएसवीसी / 2 337 / 06	जी-4, वेटेरिनरी कॉलेज कैम्पस, जबलपुर, म.प्र.— 482001	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 7 8	17.06.55
2408	शिव प्रसाद, पुत्र श्री जय नारायण	यूवीसी / 263 / 06	प्रोफेसर, फार्मेकोलॉजी, सी.वी. एससी., पंतनगर, जिला यू.एस. नगर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 84	08.04.61
2409	शिव राज मट्टा, पुत्र श्री आर.एस. मट्टा	यूवीसी / 195 / 06	4 / 5, मोहिनी रोड, देहरादून, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / आगरा विवि / 60	10.01.33
2410	शिव शंकर कुमार, पुत्र श्री बिजय कुमार	बीवीसी / 2626 / 05	ग्राम कालीबाजार हिलसा, डाक हिलसा, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडएच / यूएससबंगलौर / 04	10.10.78
2411	शिव कुमार ए.एम., पुत्र श्री मुरुगेंद्र गौडा	कर्नाएसवीसी / 3952 / 07	प्रबंध निदेशक, डी.के. मिल्क यूनियन, कुलशेकर, मंगलोर जिला, कर्नाटक	बीवीएससी / यूएस सबंगलौर / 72	01.07.49
2412	शिव प्रसाद के.वी., पुत्र श्री के.वी. बासवन्ना	कर्नाएसवीसी / 3828 / 06	कुरुबुरु, तालुक नरसीपुरा, जिला मैसूर, कर्नाटक	बीवीएससी / यूएस सबंगलौर / 87	10.05.64
2413	शिवानंद मगदूम, पुत्र श्री सिदन्ना बी. मगदूम	कर्नाएसवीसी / 3843 / 06	सुल्तानपुर, हुक्केर तालुक, बेलगाम जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएएफएसयू / 06	15.05.83
2414	शिवानी गडारिया, पुत्र श्री मोहन लाल गडारिया	एमपीएसवीसी / 2 331 / 06	द्वारा श्री एम.एल. गडारिया, विनोद कुंज के निकट, टीकमगढ़, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 0 5	27.07.80



क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2415	शिवपुत्र बादामी, पुत्र श्री वीरप्पा बादामी	कर्नाएसवीसी / 3838 / 06	नीलागुडा, बादामी तालुक, बगलकोट जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	01.06.82
2416	शिवशरणप्पा एन., पुत्र श्री बालप्पा नायक वाडी	कर्नाएसवीसी / 3847 / 06	गाजरकोट- 585284, यादगिरि तालुक, गुलबर्गा जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	01.07.83
2417	शिवप्रसाद जी.आर. पुत्र श्री राजइय्यन जी.वी.	कर्नाएसवीसी / 3853 / 06	गौरापुरा, अज्जमपुरा- 577547, तारीकेरे तालुक, चिकमगलूर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	18.09.83
2418	शोभना सिंह, पुत्र श्री बीरेंदर सिंह	एचवीसी / 1913 /	द्वारा श्री जगजीत सेरावत, ग्राम कुलताना, जिला रोहतक, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 06	29.10.83
2419	शोमीर भटनागर, पुत्र श्री एच.के. भटनागर	यूपीवीसी / 4357 / 06	14 / 1, प्रताप पार्क, मथुरा कैंट, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 9 2	22.01.68
2420	श्रीमाली मेहुल कुमार धर्ममाई	गुजएसवीसी / 2722 / 06	डीई-3 / 1, एस.डी.ए.यू. एस.के. नगर, तालुक दांती वाडा, जिला बी.के.- 385506, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसडीएयू / 06	26.06.82
2421	श्रीराव राजेश गुलाबराव	महाएसवीसी / 7252 /	गुल्लाने ट्रेडर्स के निकट, 4, माधव नगर, संताजी नगर के निकट, अमरावती, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / पीकेवी अकोला / 94	26.06.85
2422	शुमाशीष मोहपात्रा, पुत्र श्री रमेश चंद्र मोहपात्रा	ओवीसी / 2049 / 06	एटी / डाक सानापदार, जिला खुर्दा, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 06	10.07.82
2423	श्याम बाबू सिंह, पुत्र श्री राम बचन सिंह	यूपीवीसी / 4434 / 06	ग्राम एवं डाक जलालपुर माफी चुनार, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीएयूएंडटी / 06	16.01.78
2424	श्याम किशोर मिश्रा, पुत्र श्री पी.डी. मिश्रा	यूपीवीसी / 4376 / 06	ग्राम घोरा काटा, डाक मेंडवाल, जिला संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीएयूएंडटी / 06	10.07.78

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2425	श्याम सुंदर केश, पुत्र श्री सिब रामा केश	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3254 / 06	ग्राम गोपालपुर, डाक व थाना कोटलपुर, जिला बंकुरा— 722141, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	29.03.82
2426	श्यामोतिमा साहू, पुत्र श्री रासबिहारी साहू	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3248 / 06	18/2/1, रामनबमिताला लेन, डाक बल्ली, जिला हावड़ा, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	22.01.83
2427	शिजु पी.	केरलएसवीसी/3 107 / 06	आमबाडी (हाउस), मेलपुरी डाक, युलासेरी वाया, पलक्कड— 679307, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	21.05.79
2428	श्यामा वी.	केरलएसवीसी/3 154 / 06	वारोक्कोटिल हाउस, पश्चिम पमपडी डाक, थिसूर— 680597, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	15.05.81
2429	सिद्धेश आर., पुत्र श्री राचाशेट्टी डी.एल.	कर्नाएसवीसी / 3918 / 06	45, केईबी कॉलोनी, 11 बोरवैल, 11 क्रॉस, चामुंडेश्वरी नगर, माण्ड्या— 571401, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएएफएसयू / 06	14.08.83
2430	सिद्धीनेनी वेंकट किरन, पुत्र श्री श्रीमन्नारायण	एपीएसवीसी / 4527 / 06	द्वारा ए. अंजनेयुलु, प्लॉट न. 198, भवानी नगर, ईसीआईएल 'एक्स' रोड, कापरा, रंगा रेड्डी जिला— 500062, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	07.04.82
2431	सिद्धार्थ देशमुख, पुत्र श्री एस. देशमुख	पीबीएसवीसी / 2701 / 07	डिप. ऑफ वेट. पैथोलॉजी, जीएडीवीएसयू, लुधियाना— 141004, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / एचपीकेवीवी / 00	01.10.77
2432	सिद्धेश्वर यादव, पुत्र स्व. श्री राम स्वरूप लाल यादव	बीवीसी / 2666 / 05	ग्राम हसनपुर, डाक हसनपुर शुगर मिल, थाना हसनपुर, जिला समस्तीपुर, बिहार	बीवीएससीएंडएच / मगधवि / 70	29.09.33
2433	सिधे वैभव मधुकरराव	महाएसवीसी / 7415 /	एटी मंजरी (घाट), डाक पचांगरी, तालुक पटोडा, जिला बीड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएफएसयू / 05	12.05.80
2434	सिंह शोभा, पुत्री श्री राम ललित सिंह	असम / 2257 / 06	द्वारा आर.एल. सिंह, उप प्रधानाध्यापक, के.वी., दुलियाजान, जिला डिब्रूगढ़, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 06	13.10.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2435	सिंह तरुण कुमार चोखे सिंह	गुजएसवीसी / 2775 / 06	ए-137, पारस नगर, न्यू कमल कुंज सोसायटी, आईओसी रोड, चांदखेड़ा, जिला गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / एएयू / 06	09.01.84
2436	सिरसत प्रीति राजाभाऊ	महाएसवीसी / 7433 /	गोपाल नगर, परातवाड, तालुक अचलपुर, जिला अमरावती-444805, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच / एमएएफएसयू / 05	10.03.83
2437	शिवा श्रीनिवासुलु रेड्डी बी., पुत्र श्री चिन्ना मल्ला रेड्डी बी.	एपीएसवीसी / 4443 / 06	वासुदेवपुरम (एम), राजूपलेम (एम), कडपा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / एसवीवीयू / 06	21.04.82
2438	सिवकुमार एस., पुत्र श्री शानमुगम एम.	पीबीएसवीसी / 2696 / 07	डिपा. ऑफ लाइवस्टॉक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, सीओवीएस, जीएडीवीएएसयू, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएंडएएच / टीएनवीएंडएएसयू / 00	10.04.76
2439	एस.के. जबीर अली, पुत्र श्री एस.के. सलीम	ओवीसी / 2086 / 06	एटी मालातीरा, डाक पधानपाड़ा, जिला मद्रक, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएएच / ओयूएटी / 06	01.05.81
2440	स्मृतिरेखा मलिक, पुत्री श्री पूर्णानंद मलिक	ओवीसी / 2054 / 06	एटी कसोटी, डाक मार्शाघई, जिला केंद्रपाड़ा, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएएच / ओयूएटी / 06	15.02.81
2441	संतोश कुमार बिरादर, पुत्र श्री शांतागौडा	कर्नाएसवीसी / 3837 / 06	अंगदगरे, बासवना बागेवाडी तालुक, बीजापुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएएच / केवीएएफएसयू / 06	22.06.83
2442	सोबरन सिंह माहोर, पुत्र श्री कुंदन सिंह	एमपीएसवीसी / 2 400 / 06	233, महेश बाग कॉलोनी, इंदौर, म.प्र.- 452008	बीवीएससीएंडएएच / जेएनकेवीवी / 06	20.04.79
2443	सोजा एस.	केरलएसवीसी / 3 188 / 06	वैसाख, थलाप्पडी, पुथुपल्लु डाक, कोट्टायम- 686011, केरल	बीवीएससीएंडएएच / केएयू / 06	25.09.81
2444	सोलंकी भगवंत सिंह मालाजी	गुजएसवीसी / 2766 / 06	एटी व डाक मंडल, तालुक धानेरा, जिला बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / एएयू / 06	28.08.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं.	जन्मतिथि
2445	सोलंकी हिमांशु अमृतलाल	गुजएसवीसी/ 2687/06	137, गुजरात हाउसिंग बोर्ड, सोमनाथ रोड, मेहसाना— 384001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/06	14.12.91
2446	सोमनाथ रोशन देवड़ाजी	महाएसवीसी/ 7165/	शेहलनगर, यार्ड न. 7, सेवाग्राम रोड, प्रमोद हॉटे के मकान के निकट, वर्धा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /04	07.12.81
2447	सोनाक्षी चौधरी, पुत्री श्री नरेंद्र कुमार	यूपीवीसी/4456 /06	ग्राम एवं डाक टानघेरा, थाना जनसाठी, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएटी/ 06	19.09.82
2448	सोनार बिपिन प्रदीप	महाएसवीसी/ 7577/	द्वारा पी.एल.सोनार, आरबी -11-10414, 15-ब्लॉक, भुसावल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /06	01.05.84
2449	सोनावने जीवन परशराम	महाएसवीसी/ 7456/	ए/पी पारेगांव ब्लॉक, तालुक संगमनेर, जिला अहमदनगर— 422611, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /05	13.03.83
2450	सोनावने सचिन रवीन्द्र	महाएसवीसी/ 7576/	द्वारा चंद्रकांत कुलकर्णी पारिजात, विकास कॉलोनी, नाहटा कॉलेज के निकट, भुसावल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/ 06	15.09.83
2451	सोनी प्रशांत कुमार सुरेशभाई	गुजएसवीसी/ 2767/06	देसाई स्ट्रीट, तालोघ, बिलिमोरा, तालुक गाडेवी, जिला नवसारी— 398321, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/06	21.08.83
2452	सोनू देवी, पुत्री श्री दलजीत सिंह	एचवीसी/1920 /	म.न. 1279, सेक्टर-10, पार्ट-1, कैथल, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच /सीसीएसएचयू /06	26.01.83
2453	सोमा मुरलीधरन पी.	केरलएसवीसी/3 160/06	प्रतीक्षा, चेरुमुक्कु मंदिर के निकट, चेम्बुकायु, थिसूर— 680020, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/06	18.04.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2454	सौरव काति शर्मा, पुत्र श्री आनंदी रतन शर्मा	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3264 / 06	ग्राम बलियाडांगा, डाक डी/बारासात, थाना जॉयनगर, जिला 24 परगना (द.), पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	21.03.83
2455	सौरव रंजन दाश, पुत्र श्री सुदर्शन दाश	ओवीसी / 2091 / 06	प्लॉट-एफ/843, सेक्टर-6, सीडीए, कटक, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 06	16.7.82
2456	सौविक कर्माकर, पुत्र श्री रनजुत कुमार कर्माकर	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3267 / 06	26 / 15, अशोक एवेन्यू, दुर्गापुर-4, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	30.11.82
2457	सौम्या नारायण, पुत्री श्री नारायण एस.	कर्नाएसवीसी / 3896 / 06	सी-2-(2), फिल्टर हाउस के पीछे, त्रिवेणीनगर, टी. नरसीपुर तालुक, मैसूर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	18.01.83
2458	श्रीजा लक्ष्मी पी.	केरलएसवीसी / 3 114 / 06	नेदीयाथु वीडू, पडा नॉर्थ, मरुनागपल्ली, कोल्लम-690518, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	31.05.81
2459	श्रीजीत राधाकृष्णन	केरलएसवीसी / 3 166 / 06	सौभाग्यम, टीसी 38 / 1220, पोर्टटायिल लेन, एम.जी. रोड, धिसूर-680004, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	21.07.82
2460	श्रीधर आर.एन., पुत्र श्री नारायणस्वामी आर.	कर्नाएसवीसी / 3931 / 06	पेरुमचानहल्ली, चिन्नासान्द्र डाक, काईवाड़ा होबली, चिंतामनि तालुक, कोलार जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	25.08.82
2461	श्रीकर राजू भट्ट, पुत्र श्री बी. गुंडइयाह	एपीएसवीसी / 4437 / 06	आर/ओ इचोडा (एम), आदिलाबाद जिला- 504307, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	15.05.84
2462	श्रीनिवास अचारी, पुत्र श्री नबीन चंद्र अचारी	ओवीसी / 2124 / 07	एनएसी फ्लैट, क्वान. एफ-26, यूनिट- III, खारवेल नगर, मुबनेश्वर- 751001, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 07	11.12.82
2463	श्रीनिवास सिंह, पुत्र श्री चंद्र भूषण सिंह	बीवीसी / 2665 / 05	ग्राम बड़ा तेलया, नई बस्ती, डाक छपरा, थाना छपरा सदर-841301, जिला छपरा, बिहार	बीवीएससीएंडएच / टीएनवीएसयू / 05	10.02.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2464	श्रीनिवास रावदा, पुत्र श्री आदि नारायण रायवदा	एपीएसवीसी / 4473 / 06	डोर न. 7-303, हनुमंतवाका (जं.क.), डेरी फार्म (डाक), विशाखापटणम- 530040, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसबीवीयू / 06	10.02.80
2465	एस.एस. अरासू, पुत्र श्री एस. शानमुगम	टीएनवीसी / 3652 / 06	क्वा.न. 19, नया न. 45, रामूथेवर स्ट्रीट, अरुप्पुकोटई - 626101, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 92	30.06.68
2466	सुभाष च. मोहंती, पुत्र श्री बुधिराम मोहंती	ओवीसी / 2134 / 07	एटी बरताना, डाक सिमुलिया, जिला बालासौर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 07	03.04.81
2467	सुबोध कुमार सक्सेना, पुत्र श्री बनारसी प्रसाद	बीवीसी / 2698 / 05	ग्राम गोडापर, डाक पेंगरी, थाना वारशिलीगंज 805130, जिला नवादा, बिहार	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएस यू / 05	15.03.77
2468	शुभ करन कुम्हार, पुत्र श्री राम कुमार	एमपीएसवीसी / 2 365 / 06	ग्राम रौरा, डाक संसारपुर, तहसील सिरमौर, रीवा, म.प्र. 486001	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 06	20.06.82
2469	सुभाष बाबू, पुत्र श्री तुलसी राम	यूपीवीसी / 4540 / 08	ग्राम एवं डाक हतीसा, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएंडट / 01	31.12.76
2470	सुभाष चंद्र, पुत्र श्री पवन कुमार	एचवीसी / 1945 /	ग्राम एवं डाक ओधान, तहसील डाबवाली, जिला सिरसा, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 06	10.10.80
2471	सुभाष चंद्र मेहता, पुत्र श्री शांति स्वरूप मेहता	डीवीसी / 0654 / 05	यू-15, हुडको प्लेस, एंड्रयूज गंज, नई दिल्ली- 49	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 68	15.12.45
2472	सुभाष चंद्र प्रसाद सिंह, पुत्र श्री श्याम नंदन मयूर	बीवीसी / 2620 / 05	ग्राम इकतारा, डाक इकतारा, थाना अरेर 847222, जिला मधुबंत, बिहार	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 05	15.02.80
2473	सुभाष चंद्र त्रिपाठी, पुत्र श्री आर.आर. त्रिपाठी	एमपीएसवीसी / 2 364 / 06	ग्राम एवं डाक बारोन, वाया मऊगंज, रीवा, म.प्र.- 486331	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 06	30.06.79

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2474	सुभाशीष दास, पुत्र श्री विवेकानंद दास	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3286 / 06	ग्राम संग्राम चाक, डाक जांगीरचाक, जिला मिदनापुर (प.)-721644, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	14.04.84
2475	सुभाशीष घोष, पुत्र श्री सुभाष च. घोष	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3261 / 06	मदर डेरी, क्या.न. ए-8, डाक दानकुनी सी.सी., जिला हुगली-712310, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	01.03.83
2476	शुभ्रानील बारिक, पुत्र श्री तिमिर बारिक	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3282 / 06	ग्राम एवं डाक रोहिणी, जिला मिदनापुर (प.)- 721143, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	15.12.83
2477	सुबिन एम.बी.	केरलएसवीसी / 3 112 / 06	मधमपलक्कल हाउस, चेरुवली, कावुम्भगम डाक, कावाला, कोट्टायम- 686519, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएस / 06	02.05.83
2478	सुबोध कुमार सिंह, पुत्र श्री आर.बी. सिंह	यूपीवीसी / 4483 / 06	418, एडब्ल्यू 2, दामोदर नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसएसएएंडटी / 06	24.07.79
2479	सुब्रत कुमार दास, पुत्र स्व. श्री के.एस. दास	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3218 / 06	51, ब्लॉक- II, श्रीराम नगर, आवासीय कॉम्प्लेक्स, वीआईपी रोड, कोलकाता -52, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / सीयू / 68	03.03.47
2480	सुदर्शी सुधाकर, पुत्र श्री एस. कोडइयाह	एपीएसवीसी / 4522 / 06	चाकीचरला डाक उलावापडु (एम), प्रकासम जिला- 523292, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	07.05.79
2481	सुदेश के., पुत्र श्री बालाकृष्णन	कर्नाएसवीसी / 3928 / 06	55, प्रथम मेन, 8वां क्रॉस, मारुथिनगर, येलाहंका, बंगलौर-560064, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	08.11.81
2482	सुधांशु शेखर ठाकुर, पुत्र स्व. श्री जय गोपाल ठाकुर	बीवीसी / 2695 / 05	ग्राम जगन्नाथपुर, डाक हारपुर फातिकवाड़ा, थाना माहनेर-844501, बिहार	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 05	01.01.81
2483	सुधीरा एन., पुत्र श्री निजलिंगप्पा	कर्नाएसवीसी / 3933 / 06	बिदाराकरे-577521, जगलूर तालुक, दावणगेरे जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	01.08.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2484	सुधी श्रीवास्तव, पुत्री श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	यूपीवीसी/4555/07	मौह, संचारही, डाक नवाब गंज, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच /जेएनएयू/06	07.01.82
2485	सुधिन जॉर्ज	केरलएसवीसी/3193/06	35/3, तीसरा क्रॉस स्ट्रीट, कलेक्टर कॉलोनी, अमिन्तीकरई, चेन्नई- 600029, केरल	बीवीएससीएंडएएच /केएयू/06	04.06.82
2486	सुधीर कुमार, पुत्र श्री सूरज प्रसाद	यूपीवीसी/4501/06	म.न. 7, सावित्री नगर, सनिगावन रोड, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच /सीएसएयूएंडेंट/06	29.06.80
2487	सुधीश यादव, पुत्र श्री जगदीश चंद्र	राजएसवीसी/3306/06	इंद्रा गांधी नगर, गायत्री भवन के निकट, कोटा, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच /केवीएफएसयू/06	26.06.82
2488	सुधीश यादव, पुत्र श्री जगदीश चंद्र यादव	कर्नाएसवीसी/3876/06	द्वारा अजय कुमार ओला, कमरा न. 123, वीसीएच, बंगलौर- 560024, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएएच /केवीएफएसयू/06	26.06.82
2489	सुदीप्त महतो, पुत्री श्री कालीपदा महतो	डब्ल्यूबीएसवीसी /3292/07	119, अखिल मिस्त्री लेन, कोलकाता- 700009, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएएच /डब्ल्यूबीयूएफएस/06	06.12.81
2490	सुरेंद्र नाथ मौर्या, पुत्र स्व. श्री आर.के. मौर्या	यूवीसी/260/06	ग्राम कमलागंज, डाक हरिपुनायक, हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएएच /जीबीपीयूएटी/64	11.11.43
2491	सुहासिनी साहू, पुत्र श्री गोलक बिहारी साहू	ओवीसी/2138/07	फ्लैट न. 104, ब्लॉक-डी, ओकिलाबाग एन्क्लेव, लक्ष्मीसागर, भुवनेश्वर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएएच /ओयूएटी/07	30.04.83
2492	सुजाता कुमारी पांडा, पुत्री श्री अधिकंदा पांडा	ओवीसी/2093/07	एटी-2, स्वीटी हाउसिंग काम्प्लेक्स, फेज-11, गंगानगर, भुवनेश्वर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएएच /ओयूएटी/06	05.04.81
2493	सुजाता मौर्या, पुत्री श्री कालू राम मौर्या	राजएसवीसी/3249/06	55, कल्याण नगर, करतारपुरा, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच /आरएयू/06	21.01.79



क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2494	सुजाता सिंह	गुजएसवीसी / 2725 / 06	भूपू. जेडब्ल्यूओएस सिंह 54, सेना नगर, जामनगर- 361006, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसडीएयू / 06	18.08.84
2495	सुजीत कुमार सतपथी, पुत्र श्री बनमाली सतपथी	ओवीसी / 2071 / 06	एटी पदमपुर, राजबोरसाम्बर, जिला बारगढ़, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 06	30.08.80
2496	सुजीत कुमार, पुत्र श्री सुरेश कुमार वर्मा	बीवीसी / 2672 / 05	ग्राम गंगजला, डाक सहरसा, थाना सहरसा- 852201, जिला सहरसा, बिहार	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएसएंड डटी / 05	18.09.79
2497	सुजॉय बिसाई, पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण बिसाई	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3285 / 08	ग्राम गोढ़मल, डाक नयाग्राम (बिनासुली), जिला मिदनापुर (प.)- 721102, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएसएस / 06	16.01.81
2498	सुकारे प्रशांत गणेश	महाएसवीसी / 7427 /	ए/पी मोटेगांव, तालुक चिमूर, जिला चंद्रपुर- 442904, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएसयू / 05	01.07.82
2499	सुलोचना मीना, पुत्री श्री फूला राम	राजएसवीसी / 3292 / 06	कोलिंदा का बास (दक्षिण), झुंझुनू, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 06	05.02.80
2500	सूमा के.	केरलएसवीसी / 3157 / 06	अम्बानाथ हाउस (स्वाति), XI / 585 सी, डाक आर.वी. पुरम- 680631, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	25.07.81
2501	सुमन बी. एस.	केरलएसवीसी / 3162 / 06	अंजलि, सिवनकोइल के निकट, कोट्टप्पना, नेय्याट्टीकारा, त्रिवेंद्रम- 695121, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	16.05.83
2502	सुमन कुमार, पुत्र श्री सच्चिदानंद लाल दास	बीवीसी / 2722 / 06	ग्राम मैना, डाक मैना, थाना सोनबर्शा- 852129, जिला सहरसा, बिहार	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएसएंडएस / 05	01.07.78
2503	सुमन तालुकदार, पुत्र श्री सुब्रत तालुकदार	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3233 / 06	ग्राम कायडांगा, डाक कल्याणगढ़, जिला 24 परगना (उ.) पश्चिम बंगाल- 743272	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएसएस / 06	19.06.82
2504	सुमन, पुत्री श्री गन्नु सिंह	यूपीवीसी / 4438 / 06	108 / 26, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी, रामपुर गार्डन, बरेली, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 06	07.07.78

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2505	सुमी चेरियन	केरलएसवीसी/3 179/06	कल्लुपुरक्कल, कलारकोडे, अलपुजाह— 688003, केरल	बीवीएससीएंडएएच /केएयू/06	02.04.83
2506	सुमित कौशिक, पुत्र श्री एन.एल. शर्मा	यूपीवीसी/4452 /06	ग्राम एवं डाक मैसाकुर, तहसील सियाना, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच /जीबीपीयूएटी/ 06	05.06.82
2507	सुमित विरमानी, पुत्र श्री यशपाल विरमानी	डीवीसी/0638/ 04	सी-3/303-ए, (एसएफ एस), पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली— 110058	बीवीएससीएंडएएच /आरएयू/99	11.09.73
2508	सुंदर मूर्ति वी.एस., पुत्र श्री वी.आर. श्रीनिवासन	कर्नाएसवीसी/ 3874/06	171, 4 'बी'मेन रोड, 4 स्टेज, 4 ब्लॉक, बासवेश्वर नगर, बंगलौर-79, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएएच /केवीएफएसयू /06	03.06.48
2509	सुनील कुमार, पुत्र श्री शीष पाल सिंह	यूपीवीसी/208/06	ग्राम नगाला कोयला, डाक गुरकुल नरसान, रुड़की, हरिद्वार, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएएच /जीबीपीयूएटी/ 06	04.08.81
2510	सुनील कुमार बी.एस., पुत्र श्री शंकरप्पा बी.डी.	कर्नाएसवीसी/ 3895/06	चिरादोनी, चन्नागिरे तालुक, दावणगेरे जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएएच /केवीएफएसयू /06	04.02.84
2511	सुनील कुमार रजाक, पुत्र श्री बिहारी लाल बैठा	बीवीसी/2643/ 05	ग्राम मंडार, डाक मंडार, थाना हथौड़ी— 848117, जिला समस्तीपुर, बिहार	बीवीएससीएंडएएच /बीएयू/05	05.01.82
2512	सुनील कुमार साहू, पुत्र श्री बेनुधर साहू	ओवीसी/2122/ 07	एडी पधान पटना, डाक बनमालीपुर, जिला खुर्दा, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएएच /ओयूएटी/07	07.06.82
2513	सुनील कुमार सिंह, पुत्र श्री इकशानदेव सिंह	यूपीवीसी/4491 /06	ग्राम जलालपुर मैदान, डाक मारेहथा, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच /सीएसएयूएंडए /06	06.05.79
2514	सुनील कुमार, पुत्र श्री लाल चंद	राजएसवीसी/ 3256/06	वसंत विहार कॉलोनी, पुलिस लाइन के निकट, अजमेर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच /आरएयू/06	20.03.79
2515	सुनील कुमार, पुत्र श्री राज करन मोर	एचवीसी/1912 /	ग्राम एवं डाक बास (खुर्द), जिला हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएएच /सीसीएसएचएयू /06	15.11.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2516	सुनील कुमार, पुत्र श्री रामेश्वर सिंह	बीवीसी / 2705 / 05	ग्राम रघुनाथपुर, डाक भलुआही, थाना नोखा- 802215, जिला रोहतास, बिहार	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएस यू / 05	25.12.77
2517	सुनील कुमार, पुत्र श्री सूरज भान	एचवीसी / 1928 /	331 / 17, गली न. 8, उत्तम नगर, पावर हाउस के निकट, गोहाना, सोनीपत, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएस यू / 06	19.01.81
2518	सुनीरमल सरेन, पुत्र स्व. श्री बानशिंग सरेन	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3273 / 06	ग्राम डोलुईबासा, डाक बीरखम, जिला बंकुरा, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 06	05.09.81
2519	सुनीत कुमार बिस्वाल, पुत्र श्री प्राणबल्लभ बिस्वाल	ओवीसी / 2065 / 06	एटी शासंगा, डाक चेनापडी, जिला केओन्झर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 06	20.06.82
2520	सुनीता बेहेरा, पुत्री श्री नदा बेहेरा	ओवीसी / 2105 / 07	एटी तोरानिया- सामिल- पहाडचूला, डाक रायचक्रधरपुर, जिला पुरी, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 07	10.06.80
2521	सुरादकर उमेश शालिग्राम	महाएसवीसी / 7625 /	द्वारा एस.डी. सरदकुमार, कुंतल निवास, विष्णुवाडी, बुलदाना-443001, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	01.04.83
2522	सूरज कुमार, पुत्र श्री अर्जुन प्रसाद सिंह	बीवीसी / 2671 / 05	ग्राम हाजीपुर, डाक बिहारशरीफ, थाना बिहारशरीफ, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएसएंड डटी / 05	17.10.78
2523	सुरजीत कुमार हाजोंग, पुत्र श्री सुरेंद्र च. हाजोंग	मेघएसवीसी / 242 / 06	द्वारा श्री सुरेंद्र च. हाजोंग, ग्राम गोलगांव, डाक न्यू मैताबारी, जिला प. गारो हिल्स, मेघालय	बीवीएससीएंडएच / एएसयू / 06	31.7.81
2524	सुराम रसागना, पुत्री श्री सुरम नारायण रेड्डी	एपीएसवीसी / 4494 / 06	कलानुथला, पेड्डारावीडु (एम), प्रकासम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	08.06.82
2525	सूरे गणेश प्रकाश	महाएसवीसी / 7138 /	गजानन कलॉथ स्टोर्स, हरसूल, अजंता रोड, हरसूल, ए/पी हरसूल, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	21.09.80

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2526	सुरेंद्र कुमार, पुत्र श्री राजपाल	एचवीसी / 1917 /	ग्राम एवं डाक बिगोवा, तहसील च. दादरी, जिला भिवानी, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 06	22.12.78
2527	सुरेंद्र सिंह आर्या, पुत्र श्री मोहिन्दर सिंह आर्या	डीवीसी / 0664 / 05	48, डिफेंस अपार्ट., इंदर एन्कलेव के निकट, नई दिल्ली-87	बीवीएससीएंडएच / आरकेवी / 87	01.02.64
2528	सुरेंद्र कुमार गुप्ता, पुत्र स्व. श्री ब्रह्म बिहारी लाल गुप्ता	डीवीसी / 0659 / 05	फ्लैट न. 752 / जी, एच-13, पश्चिम विहार, नई दिल्ली- 87	बीवीएससीएंडएच / एयू / 60	16.01.37
2529	सुरेंद्र नारायण श्रीवास्तव, पुत्र श्री आर.एन. श्रीवास्तव	एमपीएसवीसी / 2 413 / 07	सी-124, मीनल रेजीडेंसी, भोपाल, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 6 7	01.02.44
2530	सुरेश चंद सिंघाई, पुत्र स्व. श्री डी.सी. सिंघाई	एमपीएसवीसी / 2 417 / 07	श्रीमती एच.बाई जैन का घर, 1025, गोल बाजार, रानीताल, जबलपुर, म.प्र. - 482002	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 8 3	25.05.59
2531	सुरेश कुमार सोनी, पुत्र श्री राम लाल सोनी	एमपीएसवीसी / 2 358 / 06	एच-04, वैशाली नगर, दामोह, म.प्र.- 470661	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 0 6	19.07.67
2532	सुरेश कुमार तिवारी, पुत्र श्री डी.पी. तिवारी	यूपीवीसी / 4553 / 07	ग्राम पूरे खुशली दूबे, एच-10, विनायकपुर नंदौली, वाया-अमानी गंज, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 9 5	24.11.67
2533	सुरेश कुमार, पुत्र श्री पूरनमारी राम	यूपीवीसी / 4492 / 06	ग्राम हारपुर, डाक जमानिया, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएंडट / 06	12.05.77
2534	सुरिंदर कुमार तेहरिया, पुत्र श्री मंगत राय	डीवीसी / 0657 / 05	म.न. 167, गिरि नगर, बालमुकुंद खंड, कालकाजी, नई दिल्ली-19	बीवीएससीएंडएच / एचपीकेवी / 05	10.10.82
2535	सुरुचि साहू, पुत्री श्री लोकनाथ साहू	ओवीसी / 2089 / 06	प्लॉट न. एन / 1-94, आईआरसी ग्राम, भुवनेश्वर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 06	10.01.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2536	सुरवे विनायक जगन्नाथ	महाएसवीसी / 7478 /	44, ए/पी तुलसानी, तालुक सगमेश्वर, जिला रत्नगिरि-415804, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	22.08.82
2537	सूर्यवंशी अमोल साहेबराव	महाएसवीसी / 7559 /	द्वारा सत्यभामा साहेबराव सूर्यवंशी, ए/पी बहल (कस्बे), तालुक चालीसगांव, जिला जलगांव, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	25.03.83
2538	सूर्यवंशी प्राजक्ता बालाजी	महाएसवीसी / 7174 /	द्वारा बेलसारे, "भाग्यश्री", 25-बी, आदिवासी कॉलोनी, तुकदोही चौक, मानेवदा रोड, नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	18.07.81
2539	सूर्यवंशी प्रशांत रामराव	महाएसवीसी / 7660 /	3, 'छायाकुंज', तरोदा (बी), महसूल नगर, नांदेड-431605, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	02.06.81
2540	सूर्यवंशी विजयकुमार मुरारी	महाएसवीसी / 7562 /	द्वारा सूर्यवंशी मुरारी किशन, बोडक माध्यमिक आश्रम शाला, मरवालीटांडा, तालुक नयागांव, जिला नांदेड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 03	01.04.79
2541	सूर्यवंशी विकास ढोंडीराम	महाएसवीसी / 7286 /	किंडारवाडी, तालुक तासगांव, जिला सांगली, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	11.08.81
2542	सूर्यवंशी युवराज रघुनाथ	महाएसवीसी / 7525 /	5, जयहिंद कॉलोनी, धेकुसिम रोड, अमाहरे, जिला जलगांव, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / केकेवी दापोली / 79	24.03.53
2543	सुषमा आर्या, पुत्री श्री डी. पी. आर्या	राजएसवीसी / 3295 / 06	ए-64, पूनिया हाउस, कैलाश नगर, झोतवाडा, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 06	24.07.79
2544	सुशील कुमार तिवारी, पुत्र श्री एस.के. तिवारी	यूपीवीसी / 4410 / 06	म.न. 2096, टैक्सी स्टैंड के निकट, करौदिया, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 06	06.06.80
2545	सुशील दाहिया, पुत्र श्री फूल कुमार	एचवीसी / 1943 /	ग्राम एवं डाक मनदोरा, थाना खारखोदा, जिला सोनीपत, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 06	25.10.80

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2546	सुशील कुमार सिन्हा, पुत्र श्री राजेंद्र मोहन सिन्हा	त्रिपुराएसवीसी / 1 65 / 06	द्वारा राजेंद्र मोहन सिन्हा, घालेश्वर के दक्षिण में, बी.ओ.सी. जिला (प.), त्रिपुरा	बीवीएससीएंडएच / एमएयू / 84	24.11.58
2547	सुशील कुमार मेहता, पुत्र श्री वेद प्रकाश	राजएसवीसी / 3243 / 06	वेटरिनरी अस्पताल, तापुकडा, अलवर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीएयूएंडटी / 51	17.08.68
2548	सूत्रधार अरुण कुमार, पुत्र श्री नरेंद्र कुमार सूत्रधार	असम / 2259 / 06	द्वारा नरेंद्र कुमार सूत्रधार, जेल रोड, बारपेटा, असम— 781314	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 06	18.02.80
2549	सुवाजीत सामंता, पुत्र श्री सुमाष सामंता	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3245 / 06	ग्राम एवं डाक बक्शी, थाना बगनान, जिला हावड़ा— 711303, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफए स / 06	09.04.84
2550	स्वर्णलता सोधी, पुत्री श्री बाबजी	एपीएसवीसी / 4462 / 06	द्वारा: जी.टी.नायडू, एमआईजी —178, एपीएचबी कॉलोनी, जिला परिषद कार्यालय के सामने, श्रीकाकुलम—532001, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	04.06.82
2551	स्वाति ओमनवर, पुत्री श्री पी.के. ओमनवर	डीवीसी / 0666 / 05	457, हवा सिंह ब्लॉक, एशियाड विलेज, नई दिल्ली— 49	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीएयूटी / 95	17.01.72
2552	सैयद मोहमूद सैयद नवाजुद्दीन	महाएसवीसी / 7316 /	सैयद मंजिल, 1—1—29, फोर्ट स्ट्रीट, उदगीर, जिला लातूर— 41517, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	21.01.79
2553	सैयद कय्यूम अली, पुत्र श्री हबीबुल हसन	एमपीएसवीसी / 2 350 / 06	गोविंद नगर, छोटे—शीटोले कोठी, झांसी रोड, शिवपुर, म.प्र. — 473551	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 7 5	05.05.51
2554	सिनशरलांग खोंगस्टी, पुत्र श्री ओ. नोंगखलाव	मेघएसवीसी / 238 / 06	द्वारा खोंगस्टी, अपर नोंगथिमई, नोंगखिरिएम, शिलोंग— 14, मेघालय	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 06	8.11.82
2555	टी. अरोकिया सेल्वारानी, पुत्र श्री जे. अरोकिया राज	टीएनवीसी / 2961 / 05	कल्लू वाजी (ग्राम), आंतिची ऊरानी (डाक), सिवागंगई जिला	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 94	14.03.71

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2556	टी. अवादियप्पन, पुत्र श्री ए. दामोदरन	टीएनवीसी/1985/05	13ए, ईस्ट स्ट्रीट, थेरूर डाक (वाया), सुचिदम, कन्याकुमारी जिला तमिलनाडु 629704	बीवीएससी/टीएन एयू/75	02.09.49
2557	टी. बालासुंदम, पुत्र श्री पी. शेवारबीरन	टीएनवीसी/2894/05	11!19, बजानई कोइल स्ट्रीट, थाथमकुप्पम विलिवक्कम, चेन्नई 600049	बीवीएससी/टीएन एयू/76	14.10.51
2558	टी. देवी, पुत्री श्री जी. नरेंद्रन	टीएनवीसी/3764/06	31-सी, महानाडु धर्मारयार स्ट्रीट, कांचीपुरम, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन नयूवीएस/02	26.07.78
2559	टी. जयसओबर्स, पुत्र श्री आर.थिरुनावक्कुरासु	टीएनवीसी/2308/05	1/87, अरुणा थिएटर के सामने, अंडीमाडम डाक, 621801	बीवीएससी/टीएन नयूवीएस/97	07.07.71
2560	टी. पलानीचामी, पुत्र श्री के. थिरुमल	टीएनवीसी/2029/05	7, पट्टाराइवक्कम रोड, वरदशजपुरम, अम्बत्तूर, चेन्नई-53	बीवीएससी/मद्रासविवि/70	24.12.40
2561	टी. पोरचेजियान, पुत्र श्री तेकशिना मूर्ति	टीएनवीसी/3597/06	14, श्री कनगा विनयागर कोइल स्ट्रीट, पुलियानगुडी, तिरुनेलवेली- 627855, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन एयू/85	24.05.62
2562	टी.राजा स्वमीनाथन, पुत्र श्री एम. थंगराई	टीएनवीसी/3568/06	25-सी, थिरु नगर, 5वां क्रॉस, वेलायुधनगर एक्सटेंशन, जयाकोंडन- 621802, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन नयूवीएस/95	25.06.72
2563	टी.राजावेलु, पुत्र श्री के. जी. थानजी	टीएनवीसी/0846/05	445, अमीरथम इल्लम, टीएनवीएससी रोड, कामालक्षीपुरम, वेल्लोर 632002	बीवीएससी/टीएन नयूवीएस/97	30.06.74
2564	टी. रामाचंद्र रेड्डी, पुत्र श्री टी. वैकट सुब्बा रेड्डी	एपीएसवीसी/4448/06	म.न. 87/1292, सोमीसेट्टी नगर, बिशप चर्च-2 के सामने, कुर्नूल-2, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/06	01.06.80
2565	टी.रमाथिलंगम, पुत्र श्री वी. वीरापंडियान	टीएनवीसी/3075/05	एसपी 53, तीसरी स्ट्रीट, 1 सेक्टर, के.के. नगर, चेन्नई 600078	बीवीएससी/टीएन नयूवीएस/92	09.06.69
2566	टी. रविमुरुगन, पुत्र श्री टी. थंगाराज	टीएनवीसी/1492/05	51/5, एस.एम. पुरम, दूसरी स्ट्रीट, थूयुकुडी 628003	बीवीएससी/टीएन नयूवीएस/94	14.10.69

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2567	टी. साथियामूर्ति, पुत्र श्री ए. थंगावेल	टीएनवीसी/0960/05	न. 11, स्टाफ क्वार्टर्स, मद्रास वेटरिनरी कॉलेज, वेपेरी, चेन्नई-7	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/95	18.06.70
2568	टी. सीताराम रेड्डी, पुत्र श्री नारायण रेड्डी	एपीएसवीसी/4534/06	पी.न. 31, म.न. 87-1037, गणेश नगर-1, 'सी' कैम्प के निकट, कुर्नूल, आंध्रप्रदेश	बीवीएससी/एपीएस/75	12.08.52
2569	टी. सेगोट्टइयन, पुत्र श्री एम. थासागौंडेर	टीएनवीसी/2841/05	कट्टूपलायम, एस.जी. पलायम डाक, सक्ति नगर, (वाया), इरोडे जिला, पिन- 638315	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/98	16.06.74
2570	टी. सिवकुमार, पुत्र श्री एम.बी. ध्यागराजन	टीएनवीसी/0857/05	19/86, III स्ट्रीट, करपागम एवेन्यू, चेन्नई 600028	बीवीएससी/टीएन एयू/86	24.06.62
2571	टी. श्रीनिवास बाबू, पुत्र श्री थिप्पेस्वामी टी.	कर्नाएसवीसी/3834/06	श्री श्रीनिवास टेक्सटोरियम, परसुरामपुरा- 577538, चत्लाकरे, चित्रदुर्गा जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू /06	01.08.81
2572	टी. उमा, पुत्र श्री डी. पेरियानासामी	टीएनवीसी/1507/05	जी-3, न. 22, इलागोडिगल स्ट्रीट, पदमनाभनगर, चूलईमेडु, चेन्नई 600094	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/97	02.05.74
2573	टी. वसंत कुमार, पुत्र श्री ए. थंगावेल	टीएनवीसी/2911/05	वेस्व वलासु, थोप्पुकुडु, पी.मेट्टूर डाक, नमक्कल 636203	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/02	18.05.77
2574	टी.ए. कन्नन, पुत्र श्री टी. अर्थनारी	टीएनवीसी/2462/05	51 जी II सांथी इल्लम, कुलालूर स्ट्रीट, इडापडी 637101, सलेम जिला	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/94	02.03.71
2575	टी. अन्ना, पुत्र श्री एस. थवासी	टीएनवीसी/2294/05	91/6, भारती स्ट्रीट, तालुक कल्लीकुलम, तिरुनेलवेली	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/93	31.05.70
2576	टी.सी. बालामुरुगन, पुत्र श्री टी. चिन्नासामी	टीएनवीसी/0690/05	402 सी, विनयगापुरम, अट्टूर सलेम, तमिलनाडु 636102	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/00	14.07.75
2577	टी.जी. प्रभाकर, पुत्र श्री टी.के. गोपालन	टीएनवीसी/1573/05	8, पूर्णथिलागम स्ट्रीट, ताम्बरम वेस्ट, चेन्नई 600045	बीवीएससी/टीएन एयू/74	11.03.50



क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2578	टी.जे. हरिकृष्णन, पुत्र श्री टी.सी. जयगोपाल	टीएनवीसी/3025/05	डी-16, 16वीं स्ट्रीट, पेरियार नगर, चेन्नई 600082	बीवीएससी/टीएन एयू/84	13.01.60
2579	टी.के. गोपालकृष्णा मूर्ति, पुत्र श्री टी.एस. रामासामी	टीएनवीसी/3785/07	थिप्पिचेट्टीपलायम, कडायमपट्टी डाक, भवानी वाया, इरोडे-6९38302, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन एयू/88	09.06.66
2580	टी.के. रवीन्द्रनाथ, पुत्र श्री आर. कमलनाथ रेड्डी	टीएनवीसी/1579/05	9, वरदारेड्डी स्ट्रीट, तिमिरी, वेल्लोर जिला, पिन 632512	बीवीएससी/मद्रासविधि/69	16.12.42
2581	टी. लुक्थु रीटा, पुत्र श्री पी.बी थॉमस	टीएनवीसी/1843/05	ए-123, जय नगर, थिरुवेराम्बूर, त्रिची-13, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन नयूवीएएस/96	01.02.73
2582	टी.एम. गौरीशंकर, पुत्र श्री टी.सी. मनिक्कम	टीएनवीसी/2914/05	डी.न. 28/4, टी. वीरमद स्ट्रीट, जी.जी. फ्लैट्स, ब्लॉक I, इरोडे 638003	बीवीएससी/टीएन एयू/80	20.08.57
2583	टी.एम.ए. सेंथिल कुमार, पुत्र श्री सी. अलगेसन	टीएनवीसी/3003/05	फ्लैट न.8ए, ब्लॉक बी 2, ऐश्वर्यम अपार्टमेंट्स, 4 मेन रोड, नोलाम्बूर मोगाप्पेर पश्चिम, चेन्नई 600095	बीवीएससी/टीएन नयूवीएएस/92	18.05.69
2584	टी.एन. गणेशन, पुत्र श्री टी.आर. नरसिम्हुलु	टीएनवीसी/0821/05	फ्लॉट न. 245, श्रीकृष्णा नगर, मदुरावोयल, चेन्नई-602102	बीवीएससी/टीएन एयू/78	05.12.55
2585	टी.एन. वर्धराजन, पुत्र श्री टी.पी. नागसुब्रमण्यम	टीएनवीसी/1370/05	246/2, रोहिणी फ्लैट्स, सैवंध एवेन्यू, अन्नानगर वेस्ट, चेन्नई 600101	बीवीएससी/मद्रासविधि/59	15.09.35
2586	टी.पी. सेकर, पुत्र श्री टी. पार्थसारथी	टीएनवीसी/0651/05	13, गिरि स्ट्रीट, वेस्ट माम्बलम, चेन्नई 600033	बीवीएससी/टीएन एयू/81	22.06.57
2587	टी.पी. पुगाजैथी, पुत्र श्री आर.टी. रंगासामी	टीएनवीसी/0713/05	6-3-37, इन्द्रा नगर, उथमपलायम डाक (तालुक), थेनी जिला 625533	बीवीएससी/टीएन नयूवीएएस/95	29.05.72
2588	टी. राजू, पुत्र श्री एस. थेनियल	टीएनवीसी/3474/06	280, के.सी. रोड, मेलूर, सेनगोट्टई, तिरुनेलवैली, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन एयू/74	2.01.50

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2589	टी.एस. श्रवणन, पुत्र श्री टी.आर. संकरन	टीएनवीसी/1580 /05	बी-53, टीएनएचबी, करई, रानीपेट, वेल्लोर	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/98	03.03.75
2590	टी. सत्या बामा, पुत्र श्री वी.आर.पर. मुरलीकृष्णन	टीएनवीसी/2273 /05	न. 94, राजाजी कॉलोनी, अट्टूर - 636102, सलेम जिला	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/97	15.05.74
2591	टी. सैथिलकुमार, पुत्र श्री आर. थयालन	टीएनवीसी/2113 /05	न. 28/55 ए1, जयापुरम, नई पुलिस लाइन के सामने, टिंडीवनम 604002	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/96	15.05.73
2592	टी. सुजाथा, पत्नी एम. तमिलवनन	टीएनवीसी/1763 /05	10/23, नई कॉलोनी, सलापेट, पेरनाम्बुत, वेल्लोर जिला, पिन 635810	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/00	30.05.75
2593	टी.वी. राजकुमार, पुत्र श्री टी.जी. वेनुगोपाल	टीएनवीसी/3550 /06	382, 5वां मेन रोड, एम.बी.के. नगर, व्यासरपदी, चेन्नई- 039, तमिलनाडु	बीवीएससी/ मद्रासविधि/65	5.07.38
2594	ताडवी सलीम बशीर	महाएसवीसी/ 7186/	संगवी ब्लॉक, तालुक यवल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /04	06.08.81
2595	तजानी सुजीत कुमार त्रिकममाई	गुजएसवीसी/ 2726/06	7, सोमनाथ सोसायटी, कपोदरा, चार रास्ता, वरछा रोड, सूरत- 395006, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एसडीएयू/06	24.04.84
2596	टाके सतीश मानिकराव	महाएसवीसी/ 7351/	द्वारा सुनील सोलुके, आईटीआई कॉलेज के सामने, सेलुजितूर कॉलोनी, जिला परभनी, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /05	15.05.82
2597	तमालिका चौधरी, पुत्री श्री जयंता चौधरी	डब्ल्यूबीएसवीसी /3262/06	9, डी.एन. सान्याल लेन, कृष्णनगर, जिला नाडिया, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएच /डब्ल्यूबीयूएफएस/06	20.09.82
2598	तामलाम उमा मनोहर	महाएसवीसी/ 7183/	84, सुमरती नगर, दत्तावाडी, अमरावती रोड, नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /04	12.11.81
2599	टांडेल शिवाजी दिलीप	महाएसवीसी/ 7219/	3/11, ए-धीरज अपार्टमेंट, पैड्डर रोड, मुम्बई, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /04	17.09.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2600	सगडे सुयश उत्तमराव	महाएसवीसी / 7243 /	"रघुकृष्ण", रामकृष्ण नगर, वासमत रोड, परभनी- 431401, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	31.05.81
2601	तांगकमलेसले एन. संगमा, पुत्र श्री एफ.आर. मारक	मेघएसवीसी / 248 / 07	बोलसाल अडिंग, दक्षिण गारो हिल्स, मेघालय	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 07	5.11.79
2602	नानपुरे तुषार नामदेव	महाएसवीसी / 7395 /	द्वारा जाधव दत्तात्रेय रामचंद्र, ए/पी कोथुरे, तालुक निफद, जिला नासिक, 422303, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	21.10.81
2603	तनवीर अहमद, पुत्र मौह. हसीम	बीवीसी / 2714 / 05	अंसारी बाच कं., ग्राम हसनपुर सूरत, डाक पटोरी, थाना पटोरी- 848504, जिला सनस्तीपुर, बिहार	बीवीएससीएंडएच / टीएनवीएसयू / 05	20.11.80
2604	तपन कुमार पलई, पुत्र श्री मधु सूदन पलई	ओवीसी / 2132 / 07	प्लॉट नं. 567, सहोद नगर, भुवनेश्वर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 07	19.07.82
2605	तपस्विनी नायक, पुत्री श्री गंगाधर नायक	ओवीसी / 2108 / 07	जिला पुलिस कार्यालय, गजपति नगर, बरहामपुर- 10, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 07	10.07.82
2606	तारसिंह ऋंगखवाल, पुत्र श्री प्रभाई च. ऋंग खवाल	त्रिपुराएसवीसी / 168 / 06	द्वारा पी.सी. ऋंगखवाल, ग्राम रंगमुरा, डाक एनकेआर (पारा), थाना तेलियामुरा जिला (प.), त्रिपुरा	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएंडएफएसयू / 06	15.7.84
2607	तेजिन्दर सिंह, पुत्र स्व. श्री अछर सिंह	यूपीवीसी / 4348 / 06	412, रा बाजार, मेरठ कैंट, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 06	10.05.82
2608	तेजिन्दर सिंह, पुत्र श्री अछर सिंह	पीबीएसवीसी / 2641 / 06	द्वारा श्री सुरजीत सिंह, म.न. 2318/39, अब्दुल्ला पुर बस्ती, फौजी मौह., लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 06	10.05.82
2609	टंकाले गजेंद्र कुमार शामराव	महाएसवीसी / 7345 /	एस.बी. टेकाले, द्वारा मुले सर, श्रीकृष्ण नगर (म्हादे), नया मोंधा रोड, जालना, जिला जालना, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	16.08.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2610	टेकाले मंगेश शेषराव	महाएसवीसी / 7249 /	ए/पी पेठ अमरापुर गली, देगलूर, जिला नांदेड- 431717, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच / एमएफएसयू / 03	09.02.80
2611	ठाकरे हर्षदकुमार अयाजीमाई	गुजएसवीसी / 2776 / 06	एटी व डाक धावलीडोड, तालुक अहवा, जिला डांग- 394710, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / एएयू / 06	21.06.82
2612	ठाकरे विवेक सम्भाजी	महाएसवीसी / 7505 /	प्लॉट न. 48, शिव कॉलोनी, जामनेर, तालुक जामनेर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच / एमएफएसयू / 05	30.03.83
2613	ठक्कर रूपेश कुमार वर्धीलाल	गुजएसवीसी / 2768 / 06	1-ए, मधुरम फ्लैट, पेट्रोल पम्प के पीछे, जीवराज पार्क, अहमदाबाद-380051, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / एएयू / 06	09.09.83
2614	ठाकुर रश्मि रामसिंह	महाएसवीसी / 7411 /	सहारा हाउस, शैलहल रोड, निदेबन, तालुक उदगीर, जिला लातूर- 413517, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच / एमएफएसयू / 05	01.10.82
2615	धंगा धमिलवनन, पुत्र श्री वी. धंगाराजन	टीएनवीसी / 1568 / 05	सी-6, रानी वाहिनी फ्लैट्स, 36, नचियप्पा स्ट्रीट, माइलापुर, चेन्नई-4	बीवीएससी / टीएन एयू / 89	15.02.66
2616	धंगराज रथिनासामी, पुत्र श्री डी. आरोग्यम	टीएनवीसी / 3246 / 05	282, 5वीं स्ट्रीट, बसितयां नगर, बेटानियापुरम, मदुरै- 625016	बीवीएससी / मद्रासविधि / 68	11.07.43
2617	धंगे हेमंत प्रदीप	महाएसवीसी / 7579 /	पारेख बिल्डिंग, 7, प्लॉट न. 237, रोड न. 32, सिओन कोलीवाडा, तालुक सिओन (पू.), मुम्बई, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच / एमएफएसयू / 06	01.06.84
2618	धवाली श्वेता देवीदास	महाएसवीसी / 7598 /	द्वारा श्री दीपक ए. ठाकरे, पुराना सूबेदार लेआउट, प्लॉट न. 6, नागपुर-24, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच / एमएफएसयू / 06	03.03.83
2619	धियागराजा अच्युतन, पुत्र श्री एन.वी. धियागराजन	टीएनवीसी / 0813 / 05	1667 ए, 9वीं स्ट्रीट, 15वां मेन रोड, अन्ना नगर, चेन्नई 600040	बीवीएससी / मद्रासविधि / 68	03.04.43

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2620	धोम्बरे नंदकुमार नाना	महाएसवीसी / 7511 /	एटी मीरेवाडी, डाक रवाडी (ब्लॉक), तालुक फाल्टन, जिला सतारा- 415522, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	01.06.82
2621	धोम्बरे राहुल नागनाथ	महाएसवीसी / 7410 /	ए/पी संगवी (मारदी), तालुक तुलजापुर, जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	02.04.83
2622	थोराट वैशाली कांडु	महाएसवीसी / 7229 /	404, साईकृपा हाउसिंग सोसायटी, सेक्टर-19, प्लॉट न. 27, नेरुल (नवी मुम्बई), जिला धाणे, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	02.05.81
2623	थोराट वर्षन देवीदास	महाएसवीसी / 7307 /	डी. फार्मसी इंस्टीट्यूट के निकट, उस्मानाबाद- 413501, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	15.06.82
2624	थोटा श्रीलता, पुत्री श्री टी. किशन	एपीएसवीसी / 4515 / 06	द्वारा डॉ. सुनील मंगलम, एमआईजी-31, विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद- 500057, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	10.08.82
2625	थुबे हर्षला अप्पा साहेब	महाएसवीसी / 7573 /	ए/पी कनहूर पाथर, तालुक पारनेर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	16.10.83
2626	थुम्बेर घनश्याम रजनीकांत	गुजएसवीसी / 2780 / 06	घनश्याम कृपा, जनक नगर, गायत्री स्कूल, सागर अपार्ट. के निकट, जंजर्दा रोड, जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 06	14.11.81
2627	तिजारे गौरव सुभाषचंद्र	महाएसवीसी / 7638 /	ए-4 / जी-4, गोविंद गौरखेडे कॉम्प्लेक्स, सेमिनरी हिल्स, नागपुर- 440006, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	02.06.83
2628	टीकेकर विकास प्रभाकर राव	महाएसवीसी / 7516 /	कोर्णाक अपार्टमेंट, वडगाव पुलिस चौकी के पीछे, बापट नगर, चंदपुर- 442401, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / पीकेवी अकोला / 75	19.07.51
2629	तिपले अश्विनी विजयकुमार	महाएसवीसी / 7596 /	द्वारा विजयकुमार पी. टिपले, 94-लता कुंज, खानखोजे नगर, मानेवडा रोड, नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	13.04.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2630	तीर्थबासी साहू, पुत्र श्री बसंत कुमार साहू	ओवीसी/2136/07	एटी खामर साही, डाक/ जिला ढेंकनाल, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएएच /ओयूएटी/07	19.07.83
2631	तिस्ता मॉडल, पुत्र श्री भाबा सिंधु मॉडल	डब्ल्यूबीएसवीसी /3237/06	ग्राम एवं डाक कालीनगर, थाना संदेशखली, जिला 24 परगना (उ.), पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडएएच /डब्ल्यूबीयूएफएस/06	10.11.83
2632	तिवारी शैलेंद्र सतीश चंद्र	महाएसवीसी/7639/	ए/पी उमरी (बाजार), तालुक किनवत, जिला नांदेड़- 431805, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच /एमएफएसयू/06	22.08.81
2633	टोम्पावर कपिल अशोकराव	महाएसवीसी/7373/	एटी राहुर, डाक फुल्सावंगी, तालुक महागांव जिला यवतमाल- 445230, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच /एमएफएसयू/05	02.01.82
2634	टोमेकर अनिल प्रभाकर, पुत्र श्री प्रभाकर राव	कर्नाएसवीसी/3825/06	टोरना- 585443, औरद, बिदर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएएच /एमएफएसयू/98	15.05.76
2635	टोटेवाड गजानन दिगम्बर	महाएसवीसी/7453/	विटठल रूखुमाई मंदिर, सम्राट नगर, दत्ता नगर रोड, गुमास्ता कॉलोनी, नांदेड़, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच /एमएफएसयू/05	01.06.83
2636	ट्रेसी एन. सगमा, पुत्री (स्व.) श्रीमती आई.एस.एन. सगमा	मेघएसवीसी/240/06	लोअर वडनांग, डाक चांदमारी, तुरा, पश्चिमी गारो हिल्स, मेघालय	बीवीएससीएंडएएच /एएयू/06	14.6.81
2637	त्रिभुवन प्रसाद, पुत्र श्री महंगूराम	यूपीवीसी/4517/06	ग्राम व डाक हिसामुद्दीन पुर पीपरा, जिला अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच /जीबीपीयूएंडटी/00	10.04.75
2638	त्रिभुवन यादव, पुत्र श्री राम अवध यादव	यूपीवीसी/4516/06	ग्राम साहिजादपुर, बरहाटा, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच /जीबीपीयूएंडटी/98	07.08.72
2639	त्रिलोचन साहू, पुत्र श्री महेश्वर साहू	ओवीसी/2101/07	एटी/डाक ढेंकनाल, अमरनाथ हॉल के पीछे, जिला ढेंकनाल, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएएच /ओयूएटी/07	06.01.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2640	त्रिनडाडे दाविना जोसेफ	महाएसवीसी/ 7682/	1, कैसाबलांका, लेडी जमशेदजी क्रॉस रोड न. 2, माहिम, मुम्बई-400016, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /06	13.05.83
2641	त्रिप्ती जैन, पुत्र श्री प्रकाश चंद्र जैन	एमपीएसवीसी/2 332/06	गायत्री नगर, एन.के.जे. रोड, जैन कम्पाउंड, कटनी, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/0 5	31.01.81
2642	तुलजाराम पवार, पुत्र श्री राजेंद्र	कर्नाएसवीसी/ 3845/06	हडलागेरी- 586245, मुद्देबिहाल तालुक, बीजापुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू /06	01.06.83
2643	उदय भान वरुण, पुत्र श्री प्रहलाद वरुण	यूपीवीसी/4429 /06	ग्राम एवं डाक रसूलपुर (तारेटा), जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएटी/ 06	02.03.78
2644	उदय शंकर गुप्ता, पुत्र श्री एच.एल. गुप्ता	यूपीवीसी/4523 /06	ग्राम एवं डाक बगाहा (लार रोड), सलेमपुर, देवरिया, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /सीएसएयूएंडट /99	31.12.71
2645	उदयकर अनिरुद्ध पदमाकर	महाएसवीसी/ 7624/	वार्ड न. 20, अरास लेआउट, बुलदाना- 4443001, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /06	23.09.83
2646	उदगीरे दिलीप रामजी	महाएसवीसी/ 7436/	नाली लेन, कलमनुरी, तालुक कलमनुरी, जिला हिंगोली-431702, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /05	05.01.83
2647	उगलमुगले श्रीहरि साजेराव	महाएसवीसी/ 7523/	"श्रीहरि निवास", ध्यानेश्वर नगर, आई.टी.आई.के पीछे, नागपुर रोड, बीड-431122, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /05	17.07.82
2648	उमेश चंद्र, पुत्र स्व. श्री डी.पी. शर्मा	यूपीवीसी/4350 /06	128/163, एच.आई. ब्लॉक, आनंद नगर के पीछे, किदवई नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / आगराविधि/72	17.12.47
2649	उमेश कवाली, पुत्र श्री जगदीशप्पा	कर्नाएसवीसी/ 3842/06	"चिन्मय" सिद्धेश्वरनगर, क्रॉस, शानेबन्नूर- 581115, हायेरी, जिला कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू /06	01.04.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2650	उमेश कुमार त्रिपाठी, पुत्र श्री के.पी. त्रिपाठी	यूपीवीसी/4390/06	ग्राम लौकी, डाक सहजनवाबाबू, जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू /06	01.07.77
2651	उमेश कुमार, पुत्र श्री रति राम	राजएसवीसी/3245/06	ग्राम एवं डाक मालाखेरा, अलवर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/06	11.07.79
2652	उमेश सिंह, पुत्र श्री आर. एस. सिंह	यूपीवीसी/4530/06	बी-14, एमएए भागीरथी नगर, सुंदरपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /सीएसएयूएंडट 1/06	03.07.81
2653	उम्मे आस्मा यू., पुत्री श्री खलील यूआर रहमान खान	कर्नाएसवीसी/3953/07	पम्प हाउस रोड, क्रॉस, बेलूर-573115, हसन जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू /06	19.05.83
2654	उम्मेद सिंह राठोड़, पुत्र श्री राम सिंह	राजएसवीसी/3291/06	चंद्रा ग्राम, 134 जेडएसए बीजेएस कॉलोनी, जोधपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /न्कपचनत न्दप/73	05.04.49
2655	उमरोतिया संदीप धीरजलाल	गुजएसवीसी/2769/06	"बंसारी", एटी मंडलीकपुर, डाक बंधाला, वाया बिलखा, तालुक व जिला जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/06	03.02.84
2656	उतागे संगमेश्वर गणपत राव	महाएसवीसी/7317/	गंगा निवास, शिवाजी सोसायटी, उदगीर-413517, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /04	28.04.80
2657	उत्तम भाटी, पुत्र श्री पूरन चंद भाटी	राजएसवीसी/3313/06	सोफिया स्कूल के सामने, तिलक नगर, बीकानेर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/05	15.04.80
2658	उत्तमकुमार बाजपेई, पुत्र श्री अशोक कुमार बाजपेई	यूपीवीसी/4400/06	118, गंगानगर, पराज्ञान पुरवा, नवाब गंज, कानपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एनडीएयूएंडटी /06	20.06.81
2659	उत्तम कुमार, पुत्र श्री अवधेश प्रसाद	यूपीवीसी/4364/06	डी-54, सेक्टर-पी, अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएटी/00	15.09.76
2660	उत्तर सरकार, पुत्र श्री सुखमोय सरकार	त्रिपुराएसवीसी/169/06	विद्यासागर चौमुहानी डाक-जोगेन्द्र नगर, अगरतला (प.), त्रिपुरा	बीवीएससीएंडएच /सीएसएकेईपीवी वी/90	12.08.68



क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2661	वी. एंटोनी सैमसन, पुत्र ॥ विसेंट जेवियर	टीएनवीसी/3145 /05	4/25, 5वां मेन रोड, रेंगा नगर, तिरुची- 2	बीवीएससी/टीएन एयू/78	08.07.52
2662	वी. अनुराज कुमार, पुत्र श्री ए. वसीमलई	टीएनवीसी/3623 /06	ए/3, पांजुरंग अपार्टमेंट, बी. कोइल, त्रिची- 621216, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएए नयूवीएएस/01	28.06.77
2663	वी. अप्पा राव, पुत्र श्री वी. कृष्णइयाह	टीएनवीसी/0649 /05	प्लॉट नं. 60, ॥॥ मेन रोड, दक्षिण जगन्नाथ नगर, विलिवक्कम, चेन्नई 600049	बीवीएससीएंडएच /एपीएयू/89	01.07.66
2664	वी. अरुण, पुत्र श्री वैकुण्ठवासन	टीएनवीसी/3592 /06	111, जोधी नगर, भारतीदासन सलई, कोडूर, कुडालूर-2, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएए नयूवीएएस/00	28.06.76
2665	वी. बालाकृष्णन, पुत्र श्री के.सी. सेन	टीएनवीसी/0756 /05	139/24, कैलाश कॉलोनी, अन्ना नगर पश्चिम, चेन्नई 600101	बीवीएससी/टीएन एयू/81	22.04.56
2666	वी. भास्कर, पुत्र श्री वी. डोराईसामी रेड्डी	टीएनवीसी/1530 /05	नं. 41, मलाथन्नी कुलम स्ट्रीट, गांधी रोड एक्स., तिरुत्तनी 631209, तिरुवल्लूर जिला	बीवीएससी/टीएए नयूवीएएस/90	10.06.64
2667	वी. ज्ञानप्रकासम, पुत्र श्री एस. वैलायुधम	टीएनवीसी/2217 /05	डब्ल्यू-436, नया नं. 13, 'वेलंधम', सेक्टर-सी, 5वीं स्ट्रीट, अन्ना नगर वेस्टर्न एक्सटेंशन, चेन्नई 600101	बीवीएससी/ मद्रासविधि/59	20.06.37
2668	वी. जगन्नाथ वर्मा के., पुत्र श्री वर्मा के.यू.जे.आर.	एपीएसवीसी/ 4529/06	एमआईजी-॥-113, फेज-॥, बुडा कॉलोनी, कॅनटोनमेंट, विजियानगरम	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/06	24.04.81
2669	वी. जयचित्रा, पुत्री श्री आर. महेंद्र भूपति	टीएनवीसी/1685 /05	1/218, कंगालक्ष्मी नगर, वयालूर रोड, सोमरसमपेट्टई (डाक), तिरुथिरापल्ली- 60102	बीवीएससी/टीएए नयूवीएएस/95	15.07.72
2670	वी. कन्नन, पुत्र श्री पी. वैलासामी	टीएनवीसी/2321 /05	29/48ए, कामराज नगर, गांधी सेलई, रासीपुरम, नमक्कल जिला 637408	बीवीएससी/टीएए नयूवीएएस/98	10.06.75

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2671	वी. मीनालोचनी, पुत्र श्री एम. वेंकटचलम	टीएनवीसी/1953 /05	4/229, थिरुपथूर रोड, अरासमपट्टी डाक, धर्मापुरी जिला	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/93	29.12.69
2672	वी. पोनमनी, पत्नी श्री ए. मीनाक्षी सुंदरम	टीएनवीसी/0950 /05	न. 1, बंगला III स्ट्रीट, कोविलपट्टी 628501, थूथुकुडी जिला	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/95	30.06.72
2673	वी. पोन्नुचामी, पुत्र श्री आर. वेलुसामी	टीएनवीसी/0896 /05	पलापनपट्टी डाक, कालीमंडयम वाया, डिंडीगल जिला 624616	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/98	15.04.75
2674	वी. प्रभाहरन, पुत्र श्री ए. वइयापुरी	टीएनवीसी/1212 /05	न.11, सेकंड क्रॉस स्ट्रीट, गांधीनगर, मनाघनाल्लूर डाक, त्रिची जिला 621005	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/94	05.07.71
2675	वी. पुरुषोत्तमन, पुत्र श्री वी. वेंकटरत्नम	टीएनवीसी/2869 /05	11/2, II स्ट्रीट, साउथ हाई कोर्ट कॉलोनी, विल्लियक्कन, चेन्नई- 49	बीवीएससी/टीएन एयू/75	04.08.54
2676	वी. रवीन्द्रनाथ, पुत्र श्री वी. वीराराघवन	टीएनवीसी/0798 /05	20, डॉ. नटेशन सलई, अशोक नगर, चेन्नई 600083	बीवीएससी/टीएन एयू/80	08.05.57
2677	वी. राजेंद्रन, पुत्र श्री पी. वेलु	टीएनवीसी/3282 /05	लाडापुरम डाक, पेराम्बलूर तालुक थ जिला, 621121	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/91	26.05.67
2678	वी. रामासामी, पुत्र श्री एन. वेलप्पा गौंडेर	टीएनवीसी/2492 /05	एच-22, हाउसिंग यूनिट, नासियानूर रोड, मनिक्कम पलायम, इरोडे 638011	बीवीएससी/ मद्रासविधि/68	18.02.46
2679	वी. रामास्वामी, पुत्र श्री टी. वेंकटचलम	टीएनवीसी/3604 /06	138 (पुराना न. 102/1), पेराम्बूर हाई रोड, पेराम्बूर, चेन्नई- 600007, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू /73	04.11.50
2680	वी. रमेश, पुत्र श्री पी. वीरामलई	टीएनवीसी/1603 /05	डोर न. 3/236 ए. वी.पी.आर. इल्लम, साउथ स्ट्रीट, इरागुडी डाक, थूरईयूर तालुक, त्रिचिरापल्ली जिला, 621001	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/96	18.06.72
2681	वी. रंगनाथन, पुत्र श्री एम. वर्धन	टीएनवीसी/1241 /05	6/16, पेरियार मनियम्मई नगर, थुवाकुडी मलई, त्रिची- 620022	बीवीएससी/टीए नयूवीएस/98	04.01.74

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2682	वी. संकरनारायण मूर्ति, पुत्र श्री एस. वेलप्पा नाइकर	टीएनवीसी/3583 /06	1/4-सी, भारती नगर, प्रथम स्ट्रीट, कोविलपट्टी, द्यूटिकोरिन जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन एयू/74	15.08.49
2683	वी. संधिल, पुत्र श्री पी.के. वेंकटचलम	टीएनवीसी/3607 /06	7/116, कावेरी ग्रीन फील्ड, कौंगलाथूर, लड्डुवाडी, एस. कराडु डाक, नमक्कल-1, तमिलनाडु	बीवीएससी/केके वीपी/01	01.05.77
2684	वी. श्रीनिवास राव, पुत्र श्री वी. सुब्बा राव	एपीएसवोसी/ 4540/07	सी-1, सिरी एन्कलेव, एडवोकेट कॉलोनी, हनमकोंडा, वारंगल, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच /एपीएयू/91	19.06.68
2685	वी. सुंदरारासु, पुत्र श्री ए. वीरप्पन	टीएनवीसी/2936 /05	आर-25/53, मराई मलई आदिगल स्ट्रीट, एम.एम.डी.ए. कॉलोनी, अरुमबक्कम, चेन्नई 600106	बीवीएससी/ मद्रासविधि/69	03.03.47
2686	वी. धनसीलन, पुत्र श्री टी. वेलाईसामी	टीएनवीसी/2322 /05	कीलक्कारीसालकुलम, रायागिरि डाक, सिवागिरि, तालुक तिरुनेलवेली, पिन- 627764	बीवीएससी/टीएन एयू/86	09.07.62
2687	वी. टाइटस जॉर्ज, पुत्र श्री वी.टी. जॉर्ज	टीएनवीसी/2887 /05	54 /4 पलायाकरन स्ट्रीट, कोडामबक्कम, चेन्नई 600024	बीवीएससी/ मद्रासविधि/69	07.11.45
2688	वी. उमा, पुत्री श्री के. वेलायुधसामी	टीएनवीसी/1738 /05	8/241, रिवरवे, काल्सीपट्टी डाक, इरोडे जिला 638505	बीवीएससी/टीएए नयूवीएस/01	05.04.77
2689	वी. वीरापंडियान, पुत्र श्री ए. वीरन	टीएनवीसी/3076 /05	एसपी 53, III स्ट्रीट, प्रथम सेक्टर, के.के. नगर, चेन्नई 600078	बीवीएससी/टीएन एयू/89	08.04.62
2690	वी. वेंकटरामानुजम, पुत्र श्री के.वी. वेंकडासामी	टीएनवीसी/3106 /05	न.22, 26वां क्रॉस स्ट्रीट, वेंसंत नगर, चेन्नई 600090	बीवीएससी/ मद्रासविधि/73	04.05.47
2691	वी. विजय आनंद, पुत्र श्री एस. वर्दराजन	टीएनवीसी/2749 /05	प्लॉट न. 4525, "वाई" ब्लॉक, डोर न. 196, अन्ना नगर, चेन्नई 600040	बीवीएससी/टीएए नयूवीएस/95	21.09.71

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2692	वी.ए. माणिकानंद, पुत्र श्री वी. अर्चनारी	टीएनवीसी/0659/05	10, ब्रह्मदेसम, सक्ति नगर वाया, इरोडे जिला- 638315, तमिलनाडु	बीवीएससी/एंडएच /डॉ.पीआर डीकेवीपी/97	9.05.75
2693	वी.डी. पद्मनाभन, पुत्र श्री वी. दुराईस्वमी	टीएनवीसी/2260/05	पुराना न. 89, नया न. 184, हबीबुल रोड, टी.नगर, चेन्नई 600017	बीवीएससी/ मद्रासविवि/61	01.11.39
2694	वी.जी. सोमासुंदरम, पुत्र श्री एस. गोविंदराजन	टीएनवीसी/2599/05	विमंडम पलायम डाक, गोबी तालुक, रोडे जिला 638462	बीवीएससी/टीएन एयू/76	10.08.49
2695	वी.जी. वासुदेवन, पुत्र श्री वी. गनेसन	टीएनवीसी/3791/07	23, चेल्लामुथु स्ट्रीट, अरियालूर, पेराम्बलूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन एयू/84	12.07.58
2696	वी.के. वीरेश्वरन, पुत्र श्री वी. कल्याणी चेट्टियार	टीएनवीसी/3768/06	21, चर्च रोड, थिरुपारूर मेन रोड, गुडुवानचेरी, चेन्नई तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू /67	15.06.42
2697	वी. लीला, पत्नी श्री एम. एस. रमेश	टीएनवीसी/1791/05	पुराना न. 6, नया न. 11, दूसरी क्रॉस स्ट्रीट, रामाकृष्णनगर, चेन्नई 600028	बीवीएससी/टीएन एयू/88	22.06.65
2698	वी. मोहन, पुत्र श्री एन. वेलइयाह	टीएनवीसी/2345/05	14-111 क्रॉस स्ट्रीट, ओरमीज रोड, किलपोक, चेन्नई 600010	बीवीएससी/टीएन एयू/82	07.09.55
2699	वी.एन. अप्पाजी राव, पुत्र श्री के.एस. कृष्णास्वामी	टीएनवीसी/0775/05	1/एल ब्लॉक, मंदिरा अपार्टमेंट, न.53, नॉर्थ बोआग रोड, चेन्नई 600017	बीवीएससी/ मद्रासविवि/69	15.7.37
2700	वी.एन. सेशगिरि, पुत्र श्री वी.जी नरसिगा राव	टीएनवीसी/0772/05	फ्लैट न. ई, पुराना न. 3, नया न. 9, ट्वंटी फर्स्ट स्ट्रीट, नागानल्लूर चेन्नई 600061	बीवीएससी/ मद्रासविवि/65	18.08.39
2701	वी. नागराजन, पुत्र श्री वेंकटरमन	टीएनवीसी/1862/05	न.11, यमुनाई स्ट्रीट, भारती नगर, आदमबक्कम, चेन्नई 600088	बीवीएससी/ मद्रासविवि/62	07.09.39
2702	वी. पूवान्नन, पुत्र श्री जी. वेंकटरत्नम	टीएनवीसी/0814/05	12/47, नागोजी स्ट्रीट, ट्रिप्लिकेन, चेन्नई- 600005, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन एयू/78	9.04.52

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2703	वी.आर. कन्नइय्यन, पुत्र श्री के.वी. रामानुजम	टीएनवीसी / 2088 / 05	276 / 2, संगम अपार्टमेंट, बैली एरिया, अन्ना नगर, चेन्नई 600040	बीवीएससी / मद्रासविधि / 64	10.06.39
2704	वी.एस. गोमती, पुत्र श्री पी. सुकुमारन	टीएनवीसी / 2305 / 05	16 / 3, थंडवा आचारी स्ट्रीट, पुरासवाल्कम, चेन्नई 600007	बीवीएससी / टीएन एयू / 81	31.07.56
2705	वी.एस. पंवार, पुत्र श्री धान सिंह	यूपीवीसी / 4535 / 06	बी.आर. हाउस, ए 1 / 26, डिफेंस एन्कलेव, कंकर खेरा, मेरठ; उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 68	05.09.45
2706	वी. श्रीनिवास राघवन, पुत्र श्री एस. वासुदेवन	टीएनवीसी / 0958 / 05	प्लॉट न. 7, डी.न. 1144 / 5, III क्रॉस स्ट्रीट, डॉ. राममूर्ति नगर, माडीपक्कम, डाक कीलाकट्टई, चेन्नई-600117	बीवीएससी / टीएन नयूवीएस / 00	02.10.75
2707	वाडे नरेश, पुत्र श्री आनंथरामइयन	एपीएसवीसी / 4473 / 06	कमलापुरम डाक कोरेपल्ली एम, खम्मम जिला- 507210, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	06.08.82
2708	वाघ आरशी अर्जन भाई	गुजएसवीसी / 2770 / 06	एटी गामा (गिर), तालुक तलाला (गिर), जिला जूनगढ- 362150, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 06	03.07.83
2709	वैभव कुमार हरसोला, पुत्र श्री नवीन	राजएसवीसी / 3300 / 06	वॉटर वर्क्स के सामने, भवानी मंडी, झालावाड़, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 06	29.12.80
2710	वैद्य पांडुरंग निवृत्ति	महाएसवीसी / 7190 /	ए / पी सुगांव खुर्द, तालुक अकोले, जिला अहमदनगर- 422601, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	26.12.81
2711	वीरागर संदीप हीरामन	मह एसवीसी / 7450 /	मोशी (शिवाजी वाडी), तालुक हवेली, जिला पुणे- 412105, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	21.09.82
2712	वैशाली भट, पुत्र श्री पुष्कर नाथ भट	डीवीसी / 0641 / 04	डीवी-58, विशाखा एन्कलेव, पीतमपुरा, दिल्ली- 88	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 98	15.04.74

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2713	वाजीरावेलु जयकुमार, पुत्र श्री वी.पी. वाजीरावेलु	टीएनवीसी / 0738 / 05	न. 3/9, भास्कर स्ट्रीट, रंगराजपुरम, कोडाम्बक्कम, चेन्नई 600024	बीवीएससी / मद्रासविवि / 73	15.11.49
2714	वाला करसन भगवानभाई	गुजएसवीसी / 2771 / 06	एटी छपरा, डाक अछिन्द्र, तालुक वेरावल, जिला जूनागढ़— 362255, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 06	01.04.83
2715	वाल्मिकी प्रकाश शंकरभाई	गुजएसवीसी / 2781 / 06	53, मंगल मिलन पार्क, बोरसाड क्रॉसिंग, आनंद— 388001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 06	27.11.80
2716	वाल्मी अशोक गनजी	महाएसवीसी / 7555 /	पांडेसरा गुजरात हाउसिंग बोर्ड, डीआईजी 336, ब्लॉक न. 98, सूरत, जिला सूरत— 394221, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	14.09.76
2717	वंदना सांगवान, पुत्र श्री एस.एस. सांगवान	पीवीएसवीसी / 2697 / 07	डिपा. ऑफ क्लिनिकल सर्विसेज कॉम्प्लेक्स, सीओवीएस, जीएडीवीएएसयू, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 01	24.09.78
2718	वानी टी.के., पुत्री श्री कृष्णा नाइक	कर्नाएसवीसी / 3879 / 06	मुरगोन कॉलोनी, जूनियर कॉलेज के पीछे, कडूर— 577548, चिकमगलूर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	11.07.82
2719	वन्जारी सचिन शशिकांत	महाएसवीसी / 7518 /	ए/पी किल्लेमछीन्द्रगड, तालुक वाल्वा, जिला सांगली, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	01.05.79
2720	वरुण कुमार चौधरी, पुत्र श्री लखन चौधरी	बीवीसी / 2681 / 05	ग्राम बारही, डाक बारही, जयनगर— 847226, जिला मधुबनी, बिहार	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएंडएफएसयू / 05	15.02.79
2721	वसुंधरा गरबियाल, पुत्री स्व. श्री जामन सिंह कटियाल	यूवीसी / 227 / 06	द्वारा श्री प्रदीप गरबियाल, मल्ली बाजार, धारचुला, पिथौरागढ़, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 96	12.06.70
2722	वेदपाठक हरेश्वर सुभाष	महाएसवीसी / 7678 /	36—डी, नरेंद्र सदन, कमरा न. 39—40, तीसरी मंजिल, मुगभात क्रॉस लेन, गिरगाव, मुंबई, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	05.09.83

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2723	वेदरत्न सक्सेना, पुत्र स्व. श्री वी.पी. सक्सेना	यूपीवीसी / 4539 / 06	190, मालवीय नगर, गुरुद्वारे के सामने, गोंडा, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 91	21.09.67
2724	वेंगस रेड्डी सौम्या, पुत्री श्री वी. संजीवा रेड्डी	एपीएसवीसी / 4487 / 06	म.न. 3-85 / 2, संगमेश्वर दोमाकोंडा (एम), निजामाबाद जिला- 503123, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	01.07.82
2725	वेंकन्ना बालगनूर, पुत्र श्री नागप्पा	कर्नाएसवीसी / 3860 / 06	द्वारा. एल.के. बालागनूर, अनुशा निवास, हाउसिंग कॉलोनी, मुधोल- 587313, बगलकोट, जिला कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	01.01.83
2726	वेंकट जगदीश गाडिगे, पुत्र श्री कृष्णा मूर्ति	एपीएसवीसी / 4518 / 06	म.न. 18-1-400, दूसरी मजिल, भयानी नगर, तिरुपति- 517502, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	26.10.82
2727	वेंकट रामी रेड्डी गुडा, पुत्र श्री वेंकटेश्वर रेड्डी	एपीएसवीसी / 4501 / 06	संथागुडीपडु रोम्पीचेरला (एम), गुंटूर जिला -522615, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	25.05.81
2728	वेंकट राव पोनुगोटी, पुत्र श्री वास्कर राव	एपीएसवीसी / 4475 / 06	फायर ऑफिस, पहली रोड, कंसारीगुटा कॉलोनी, कडुकर, प्रकासम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	01.07.79
2729	वेंकटरामू एम.एन., पुत्र श्री नरसिमइया एम.एल.	कर्नाएसवीसी / 3951 / 07	निदेशक (पशुपालन), केएमएफ, सेंट्रल ऑफिस, एमएच मारीगौडा रोड, बंगलौर-29, कर्नाटक	बीवीएससी / यूएए सबंगलौर / 75	24.07.53
2730	वेंकट गिरि, पुत्र श्री बासवराज	कर्नाएसवीसी / 3856 / 06	मुट्टांगी- 585227, हुम्नाबाद तालुक, बिदर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	01.08.83
2731	विभा रानी, पुत्री श्री आर. एस. सोलंकी	यूपीवीसी / 4422 / 06	ग्राम जियना गुलयान, बागपत, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 06	10.02.84
2732	विभा यादव, पुत्री श्री राम चंद्र यादव	यूपीवीसी / 4383 / 06	ग्राम पीपरपुर (नसीरपुर), डाक शिवतारा, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीएयूएंडटी / 06	10.07.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2733	विचार नेमा, पुत्र श्री बी. नेमा	एमपीएसवीसी/2 373/06	523, विवेकानंद वार्ड, यादव कॉलोनी, जबलपुर, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/0 6	10.01.81
2734	विचारे अभिजीत सुरेश	महाएसवीसी/ 7267/	कामेरकर चॉल, नटराज नाला, बुरारपेठ, दापोली, तालुक दापोली, जिला रत्नगिरि, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /डॉ.बीएस केकेवी/01	14.01.78
2735	विक्टो जुबिन वर्धोज	केरलएसवीसी/3 181/06	कडालिकाटिटल हाउस, साउथ मराठी डाक, मुवाट्टुपुजा, अर्नाकुलम- 686673, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/06	06.05.81
2736	विक्टोरिया, पुत्री श्री किशन गोपाल	पीबीएसवीसी/ 2678/06	म.न. डी-- xiv 145-बी, गली धोबियों वाली, नंगल कोटली, गुरदासपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /जीएडीवीएसयू /06	05.01.83
2737	विभा सिंह, पुत्र श्री किशन सिंह	बांवीसी/2662/ 05	ग्राम जसौली टोला, जूरीहाट, डाक जसौली, बाया पचरुखी, थाना पचरुखी, जिला सीवन, बिहार	बीवीएससीएंडएच /टीएनवीएसयू /05	05.03.80
2738	विद्या पी.	केरलएसवीसी/3 192/06	कृष्णा कृपा, केएमएस के निकट, थालीकाविल, कन्नूर-670001, केरल	बीवीएससीएंडएच, /केएयू/06	07.03.76
2739	विद्यापति दीक्षित, पुत्र श्री एच.एन. दीक्षित	यूवीसी/229/06	प्रोफेसर बी.पी.एच., सीबीएससी, पंतनगर, जिला यू.एस. नगर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएटी/ 76	01.01.53
2740	विजय कशनिया, पुत्र श्री लाल चंद कशनिया	पीबीएसवीसी/ 2691/06	ग्राम एवं डाक कुल्लर, तहसील अबोहर, जिला फिरोजपुर, पंजाब- 152116	बीवीएससीएंडएच /सीएसएयूएंडड 1/00	20.07.76
2741	विजय कुमार कुशवाहा, पुत्र श्री राम दरश	राजएसवीसी/ 3279/06	ए-25, कर्णी नगर, पवनपुरी कॉलोनी, बीकानेर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/06	26.04.80
2742	विजय कुमार पहाड़िया, पुत्र श्री यादराम	राजएसवीसी/ 3276/06	जुलाहा पारा, भुसावर, भरतपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/06	25.12.80



क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2743	विजय कुमार शर्मा, पुत्र श्री एन.के. शर्मा	राजएसवीसी / 3286 / 06	ग्राम मकरो, तहसील सिंगाना, झुंझुनू राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 93	20.10.68
2744	विजय कुमार श्रीवास्तव, पुत्र श्री सतीश चंद	यूपीवीसी / 4462 / 06	878 / 8, मौह. कटरा, गांधी नगर, बस्ती, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	30.04.79
2745	विजय कुमार, पुत्र श्री मारू राम	पीबीएसवीसी / 2655 / 06	ग्राम एवं डाक बजीदपुर, कटियां वाली, तहसील फाजिल्का, जिला फिरोजपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 06	03.01.80
2746	विजय कुमार, पुत्र श्री ओम प्रकाश	एचवीसी / 1951 /	ग्राम एवं डाक सिवाना, थाना बेरी, जिला झज्जर, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 06	20.12.80
2747	विजय कुमार, पुत्र श्री तारा चंद	राजएसवीसी / 3324 / 06	ग्राम शिवपुरा, डाक मालसीसर, झुंझुनू राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 06	26.04.80
2748	विजय कुमार, पुत्र श्री राम दरस यादव	यूपीवीसी / 4545 / 06	ग्राम तिवारीपुर, डाक कोडरा, वाया मझौली, देवरिया, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 00	26.04.80
2749	विजय सिंह यादव, पुत्र श्री ज्ञान चंद यादव	डीवीसी / 0611 / 02	132, पुलिस कॉलोनी, आईआईटी गेट, हॉज खास, नई दिल्ली— 110016	बीवीएससीएंडएच / एचएयू / 01	30.03.77
2750	विजेंद्र सिंह राजौरा, पुत्र स्व. श्री बसंत सिंह	यूपीवीसी / 261 / 06	1 / 37, फूल बाग, पंतनगर, जिला यू.एस. नगर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 78	11.04.56
2751	वीरेंद्र सिंह, पुत्र श्री राजवीर सिंह	यूपीवीसी / 4443 / 06	ग्राम करनपुर, डाक कुरी रावन, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 06	15.08.83
2752	विकास गौरीशंकर	महाएसवीसी / 7161 /	गोमतो अपार्ट., प्लॉट न. 301, वैस्ट हाई कोर्ट रोड, विधि कॉलेज, धर्मापेठ, नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	22.03.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2753	विकास कुमार गोयल, पुत्र श्री अमर नाथ	पीबीएसवीसी / 2649 / 06	वार्ड न. 3, मास्टर कॉलोनी, ग्राम एवं डाक मूनाक, जिला संगरूर, पंजाब- 148033	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएसयू / 06	15.06.83
2754	विकास कुमार, पुत्र श्री दयानंद सिंह	राजएसवीसी / 3302 / 06	ग्राम- शिवपुर, डाक मालसीसर, झुंझुनू, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 06	10.7.80
2755	विकास मेहता, पुत्र श्री कृष्ण लुमाया मेहता	पीबीएसवीसी / 2683 / 06	45 / 11, शंकर नगर, टिबरी रोड, गुरदासपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएसयू / 06	12.10.81
2756	विकास आर.	केरलएसवीसी / 3 173 / 06	मनासेरिल हाउस, मुथुकुलम साउथ डाक, अलपुजाह- 690506, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	14.04.82
2757	विकास रानता, पुत्र श्री ओम प्रकाश रानता	एचपीएसवीसी / 7 75 / 06	ग्राम द्राती, डाक टिक्कर, तहसील रोहरो, जिला शिमला, हि.प्र.- 171203	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेकेवीवी / 06	22.09.80
2758	विकास शर्मा, पुत्र श्री बी. डी. शर्मा	एचपीएसवीसी / 7 56 / 06	काली बाड़ी मंदिर के पीछे, घुग्गर, पालमपुर, कांगड़ा, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेकेवीवी / 06	18.01.83
2759	विकास शर्मा, पुत्र श्री राम प्रसाद शर्मा	डीवीसी / 0652 / 05	क्वा.न. टी-58 / डी. सराय फूस, रेलवे कॉलोनी, तीस हजारी, दिल्ली- 54	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 03	29.12.78
2760	विकास त्यागी, पुत्र श्री पी. के. त्यागी	एचवीसी / 1915 /	म.न. 1282, सेक्टर-6, करनाल, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 06	20.11.81
2761	विकास वर्मा, पुत्र श्री लालाराम वर्मा	यूपीवीसी / 4474 / 06	ग्राम एवं डाक गौसगंज, जिला. बलौड़ी, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएंडट / 06	04.12.79
2762	विकाश गुप्ता, पुत्र श्री प्रमोद कुमार गुप्ता	यूपीवीसी / 4503 / 06	128 / 283, देवकी नगर, यशोदा नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएंडट / 06	05.10.79

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2763	विकाश जायसवाल, पुत्र श्री पी.एल. गुप्ता	यूपीवीसी / 4453 / 06	547के / 65, शिवपुरिब राजाजी पुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	09.11.80
2764	विक्रम जीत, पुत्र श्री ऋषि पाल इंदोरा	एचवीसी / 1922 /	म.न. 467, सेक्टर-16, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 06	26.10.79
2765	विक्रान्त गिल, पुत्र श्री बचन सिंह	यूपीवीसी / 4524 / 06	ग्राम मुकारी, डाक मुधा खेरा, जिला जे.पी. नगर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 05	01.01.83
2766	विमल कुमार एन.बी.	केरलएसवीसी / 3 195 / 06	मलप्पलाते हाउस, वडाकलकेनीरप्पु डाक, नजेरूर, कोट्टायम- 686612, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	16.10.80
2767	विनय कुमार तंवर, पुत्र स्व. मेज. डी.एस. तंवर	यूवीसी / 253 / 06	एलपीटी, जीबीपीएयू, पंत नगर, जिला यू.एस. नगर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 78	04.05.54
2768	विनय कुमार, पुत्र श्री उदयभान सिंह	बीवीसी / 2725 / 06	ग्राम रामपुरवा, डाक वृंदावन आश्रम, थाना चनपतिया- 845450, चम्पारन, बिहार	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएटी / 05	05.01.80
2769	विदेश्वरी प्रसाद, पुत्र स्व. श्री द्वारिका प्रसाद	बीवीसी / 2730 / 06	ग्राम गौदाह, डाक गौदाह, थाना शाहपुर, जिला भोजपुर, बिहार	बीवीएससीएंडएच / मगधविवि / 66	05.04.36
2770	विनीत कुमार भारद्वाज, पुत्र श्री सुरेश चंद भारद्वाज	एमपीएसवीसी / 2 394 / 06	म.न. 160, जीवाजी गंज, मोरैना, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 0 6	01.06.82
2771	विनीता अलमदी, पुत्री श्री पिशोरी लाल अलमदी	डीवीसी / 0634 / 04	द्वारा श्री विजय चोपड़ा, सी-2 / 81, जनकपुरी, नई दिल्ली	बीवीएससीएंडएच / एचपीकेवी / 00	21.11.75
2772	विनीता सिंह, पुत्र श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह	डीवीसी / 0676 / 06	ई-5, लाजपत नगर- I नई दिल्ली 29	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 9 2	31.08.69

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2773	विनेश पी.वी., पुत्र श्री वेंकटरामना जे.	कर्नाएसवीसी / 3886 / 06	पिलिकुंटे ग्राम, मणिगनाहल्ली - 563135, श्रीनिवासपुर तालुक, कोलार जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएएफएसयू / 06	12.06.83
2774	विनीता गर्ग, पुत्री श्री रमेश चंद गर्ग	पीबीएसवीसी / 2650 / 06	म.न. 2026, फेज-11, अर्बन एस्टेट, पटियाला, पंजाब- 147002	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएएसयू / 06	20.10.83
2775	विनोद कुमार बिसेन, पुत्र श्री बी.एल. बिसेन	एमपीएसवीसी / 2 418 / 07	ए-86, पद्मनाभ नगर, भोपाल, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 8 3	01.01.59
2776	विनोद कुमार सिंह, पुत्र श्री राम लखन सिंह	यूपीवीसी / 4435 / 06	ग्राम बिसौरा-खुर्द, डाक पठरौरा, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीएयूएंडटी / 06	16.01.78
2777	विनोद कुमार टी.जी.	केरलएसवीसी / 3 161 / 06	क्वा.न. 39, एमसीएल टाउनशिप, वायलर डैम डाक, पलक्कड- 678624, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 06	20.07.81
2778	विनोद कुमार, पुत्र श्री एस.एस. सिंह	यूपीवीसी / 4532 / 06	ग्राम एवं डाक मिर्जापुर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 00	09.08.75
2779	विनोद शर्मा	डीवीसी / 0616 / 02	जीवाश्रम, गेट. हॉस्पिटल, राजोकरी, नई दिल्ली	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 93	
2780	विपिन कौशिक, पुत्र श्री नरेंद्र कुमार	राजएसवीसी / 3287 / 06	346, विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 06	15.08.79
2781	विपिन कुमार, पुत्र श्री अनिल कुमार गुप्ता	राजएसवीसी / 3338 / 06	क्लॉथ मर्चेट, पीएनबी के निकट, मनिया, धौलपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 05	03.05.80
2782	विपिन कुमार, पुत्र श्री वीर सिंह	यूपीवीसी / 4464 / 06	ग्राम एवं डाक सरूरपुर, बागपत, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसके एचपीकेवी / 06	17.03.81
2783	वीरेंद्र कुमार सिंह, पुत्र श्री पी.एन. सिंह	यूपीवीसी / 4459 / 06	एमएम-312, सेक्टर डीआई, एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एमएएफएसयू / 06	11.09.81

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2784	वीरेंद्र प्रताप, पुत्र श्री राम जतन	यूपीवीसी/4436/06	986/1, उन्चाओ गढी, राजापुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीएयूएंडटी / 06	05.08.83
2785	वीरेंद्र सिंह, पुत्र श्री पुष्कर सिंह	यूवीसी/231/06	ग्रसम किरासा, डाक मुनदावल, जिला रुद्रप्रयाग, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीवीपीयूएटी / 99	26.07.74
2786	वीरुपाक्षी अददानगौ, पुत्र श्री चंद्रप्पा	कर्नाएसवीसी/3844/06	चिक्काबागेवाडी- 591109, बेलहोगल तालुक, बेलगाम जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	26.09.83
2787	विशाल बी.एन., पुत्र श्री नागराज बी.ए.	कर्नाएसवीसी/3919/06	"नागराज फार्म", 29 किमी., कनकपुरा मेन रोड, बोलारे डाक, बंगलौर- 560062, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	04.10.83
2788	विशाल सिधवानी, पुत्र श्री नरिंदर सिधवानी	एचवीसी/1935 /	मैसर्स दीपक मेडिकल स्टोर, इस्मालियाबाद, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 06	03.10.82
2789	विश्व दीप राठौड, पुत्र श्री कृष्ण सिंह	एचपीएसवीसी/778/06	श्री के.एस. राठौड, म.न. 55, वार्ड न. 1, हमीरपुर, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेकेवीवी / 06	06.06.82
2790	विष्णु कुमार गुप्ता, पुत्र श्री रामजी लाल गुप्ता	एमपीएसवीसी/2393/06	रैस्ट हाउस के निकट, एम.एस. रोड, कैलारस, मोरैना, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 06	02.06.79
2791	विष्णुदेव कुमार, पुत्र श्री ब्रजनंदन प्रसाद साह	बीवीसी/2696/05	ग्राम सूर्यगंज, डाक गमहारिया, थाना गमहारिया -852108, जिला माधेपुरा, बिहार	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 05	05.01.79
2792	विश्वजीत सिंह, पुत्र श्री राम सिंह राना	यूपीवीसी/4554/07	ग्राम रुदयान, डाक सासानी, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / सीएसएयूएंडटी / 94	14.08.71
2793	विश्वनाथ के.एन., पुत्र श्री नारायणप्पा बी.	कर्नाएसवीसी/3935/06	4.1 क्रॉस, सी.एन. हल्ली, एस.एस.ए. रोड, हेब्बल, बंगलौर- 560024, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	12.05.84

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2794	विश्वनाथ यू. पुत्र श्री कचनगौडा यू	कर्नाएसवीसी / 3904 / 06	कामथाहल्ली, हडप्पनहल्ली तालुक, दावणगरे जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 06	25.07.83
2795	विवेक अरोड़ा, पुत्र श्री दर्शन लाल अरोड़ा	डीवीसी / 0642 / 04	ई-103, सरिता विहार, नई दिल्ली- 110076	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 04	30.09.80
2796	विवेक चौहान, पुत्र श्री भोपाल सिंह	डीवीसी / 0669 / 06	आरवीसी, ए.एच.क्यू., आर.के. पुरम, नई दिल्ली- 61	बीवीएससीएंडएच / पीएयू / 86	28.11.63
2797	दिवेक कुमार गौरव, पुत्र श्री विजय कुमार	यूपीवीसी / 4384 / 06	म.न. 465, मोह. भूर, डाक प्रेम नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीएयूएंडटी / 06	09.05.81
2798	विवेक कुमार सिंह, पुत्र श्री बिजय कुमार	राजएसवीसी / 3301 / 06	त्रिमूर्ति ट्रेडर्स, अत्रु बाराण, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	30.08.80
2799	विवेक सक्सेना, पुत्र श्री सत्य प्रकाश सक्सेना	एचवीसी / 1899 /	म.न. 88, सेक्टर-13, पार्ट-2, हिंसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 98	19.10.75
2800	विवेक सिंह, पुत्र श्री राम किशोर	यूपीवीसी / 4367 / 06	ग्राम द्वारी कपूर जट्ट, डाक कोराजिहानाबाद, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीएयूएंडटी / 06	30.07.80
2801	बुप्पाला स्वप्न, पुत्री श्री नरसिम्हा रेड्डी	एपीएसवीसी / 4520 / 06	पत्नी जी. श्रीधर, 3-4-110, ए. पी. कॉलोनी, मल्लापुर, हैदराबाद-76, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	11.04.80
2802	व्यवहारे श्रीकांत हरि	महाएसवीसी / 7720 /	18, आर्शावाद, शिव कॉलोनी, जामनेर, जिला जलगांव- 424206, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	28.10.83
2803	डब्ल्यू.पी.आर्काबाल्ड बलराज डेविड, पुत्र कैप्टन जोब सोलोमन डेविड	टीएनवीसी / 3797 / 07	88-एफ, प्रथम मेन रोड, श्री अयप्पा नगर, चेन्नई- 600092, तमिलनाडु	बीवीएससी / एमयू / 64	25.02.43
2804	डब्ल्यू.एस. सुजन्ना प्रिया, पत्नी श्री पी.आई.आर. कुमार	टीएनवीसी / 2704 / 05	ईजी1, हसा गार्डन, मदम्बक्कम मेन रोड, राजाकिलपक्कम, चेन्नई 600073	बीवीएससी / टीए नयूवीएस / 99	27.03.73

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2805	वाबले राजेंद्र रामदास	महाएसवीसी / 7218 /	द्वारा आर.एस. वाबले, कुम्भार लेन ए/पी देवलाती, प्ररारा, तालुक राहुरी, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /02	19.04.80
2806	वाडे मंगुराम रायसुजी	महाएसवीसी / 7322 /	एटी चिंगाली, डाक मोहाली, तालुक धानोरा, जिला गडचिरोली, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /04	11.09.80
2807	वाडके सुनेत्र श्रीनिवास	महाएसवीसी / 7485 /	प्रियदर्शिनी पार्क, 301, जनकल्याण सहकारी बैंक के निकट, ओम नगर, जेबी नगर, अधेरी (पू.), मुम्बई, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /05	30.10.82
2808	वाघ सोमनाथ भीकनराव	महाएसवीसी / 7224 /	एटी ठाकुर पिम्पलगांव, तालुक शिवगांव, जिला अहमदनगर— 414503, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /04	23.02.82
2809	वाघमबारे सीताराम सदाशिव	महाएसवीसी / 7139 /	एटी ढोंडेवाडी, डाक जयवाडी, तालुक पढारपुर, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /04	01.06.80
2810	वाघाये श्रीकान्त बाबूराव	महाएसवीसी / 7591 /	ए/पी केसलवाडा (वाघ), तालुक लखानी, जिला भंडारा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /06	03.04.83
2811	वाघाये उमेश कुमार गोविंदा	महाएसवीसी / 7620 /	ए/पी केसलवाडा (वाघ), तालुक लखानी, जिला भंडारा—441804, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /06	25.04.82
2812	वाघमारे दिलीप लक्ष्मनराव	महाएसवीसी / 7285 /	ए/पी मासाजोग, तालुक कैज, जिला बीड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /04	01.06.80
2813	वाघमारे रूपेश नगेश	महाएसवीसी / 7136 /	ए/पी संग्रामनगर, अकलुज, मैच वैल हरि स्टाइल, तालुक मालशिरास, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /04	25.01.82
2814	वाकंकर नेहा चंद्रकांत	महाएसवीसी / 7216 /	आंगन, सी-304, ठाकुर ग्राम, कांदीवली (पूर्व), मुम्बई —400101, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /04	21.02.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2815	वाकचासुरे संतोष उत्तम	महाएसवीसी / 7143 /	ए/पी कलास, तालुक अकोले, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /04	17.12.81
2816	वाकचौरे राजेश सुधाकर	महाएसवीसी / 7561 /	"राजनीति" बंगला, कन्या विद्या मंदिर के निकट, दत्तानगर, लोनी, तालुक रहटा, अहमदनगर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /05	28.07.82
2817	वलवलकर दीप्ति शरद	महाएसवीसी / 7684 /	ई-101, यूनिट न. 1, ऋषिकेश, स्वामी सामर्थ नगर, क्रॉस लेन न.1, अंधेरी (प.), मुम्बई, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /06	18.05.83
2818	धानकर आलोक खेमराज	महाएसवीसी / 7636 /	11-आशापुष्प, जयताला रोड, विराज ट्रेडर्स के निकट, नागपुर- 440016, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /06	04.04.83
2819	वानखेडे प्रवीन रामशाय	महाएसवीसी / 7592 /	"पितृछाया", ए/पी जरूद, जिला अमरावती- 444908, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /06	30.04.84
2820	वरहदपाडे शहुल मुकुंदराव	महाएसवीसी / 7491 /	शनिवारपेट, कोंडली, तालुक कटोल, जिला नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /05	15.03.82
2821	वासेमिलिंद प्रभाकर, पुत्र श्री वासे प्रभाकर अम्बादासजी	डीवीसी /0609 / 02	कमाडेट (सीनियर वी एस.), आईटीबीपी फोर्स हायर ब्लॉक- II, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003	बीवीएससीएंडएच /पीकेवीपी /85	23.11.62
2822	वासनिक रोशन लालचंद	महाएसवीसी / 7607 /	द्वारा लालचंद आई., वासनिक, नेहरू वार्ड, सगडी, तालुक साकोली, जिला भंडारा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /06	13.09.81
2823	वट्टमवार मनोज गोविंदराव	महाएसवीसी / 7413 /	ए/पी सानरोली, तालुक बिलोली, जिला नांदेड- 431731, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /05	31.03.82
2824	वावारे विजय अन्नाजी	महाएसवीसी / 7319 /	द्वारा ए.बी. वावारे, ए/पी कोल्हिविहार, तालुक मोरशी, जिला अमरावती, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /डॉ.पीडी केवी /00	15.07.74



क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2825	विश्वे श्रीकांत अशोक	महाएसवीसी / 7350 /	'प्रहलाद प्रसाद', ब्राह्मण लेन, शिगांव, तालुक शिगांव, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	02.09.82
2826	वाई. कृष्णमोहन रेडडी, पुत्र श्री वाई रामाकृष्णन रेडडी	टीएनवीसी / 0707 / 05	जी-2, फर्स्ट फ्लोर, रंगा निवास, डोर न. 40 (पुराना), बारनबी रोड, किलपीक, चेन्नई 600010	बीवीएससी / एपीएयू / 82	26.08.60
2827	यडाला रवि कुमार, पुत्र श्री वाई. मरियन्ना	एपीएसवीसी / 4497 / 06	म.न. 853 / डी. पी.वी. कॉलोनी, मल्लारम (डाक), मुनुगूर (एम), खम्मम जिला- 507125, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	13.03.79
2828	यादव देशमुख अश्विनी वसंतराव	महाएसवीसी / 7557 /	द्वारा वी.आर. यादव सर, ए/पी कडेपुर, तालुक कडेगाव, जिला सांगली- 415305, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	11.11.82
2829	यादव विशाल रामभरोसे	महाएसवीसी / 7151 /	द्वारा आर.एल. यादव, गद्दम प्लॉट्स, संत ध्यानेश्वर मार्ग, अकोला, जिला अकोला, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	21.08.82
2830	यज्जला विजय कुमार, पुत्र श्री वाई. ध्यानेश्वर राव	एपीएसवीसी / 4517 / 06	डी.न. 45-49-1/1/1, आबिद नगर, अक्क्यापलेन, विशाखापट्टणम- 16, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 06	23.10.80
2831	यजुवेंदर शर्मा, पुत्र श्री बिहारी लाल शर्मा	एचपीएसवीसी / 768 / 06	ग्राम दफती, डाक थल्ला, वाया मशोबरा, धाना सुनी, शिमला- 171001, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेकेवीवी / 06	21.05.81
2832	यजुवेंद्र सिंह, पुत्र श्री नरेंद्र बहादुर	यूपीवीसी / 4347 / 06	ग्राम एवं डाक अमानी गंज, बरार, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनडीएयूएटी / 05	15.12.79
2833	यामेकर बालाजी मनु	महाएसटीसी / 7133 /	'शारदा निवास', 2004, शतरंज गली, कुंडाल वाडी, तालुक बिलिली, जिला नांदेड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	05.03.80
2834	यशपाल सिंह चौहान, पुत्र श्री नंदलाल चौहान	एमपीएसवीसी / 2385 / 06	सइनी कम्पाउंड, शंकर मंदिर के निकट, हरदा, म.प्र.- 461331	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 06	13.05.79

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2835	यशवीर सिंह चौहान, पुत्र श्री अतर सिंह चौहान	डीवीसी/0628/ 04	बी-16, वेस्ट ज्योति नगर, लोनी रोड शाहदरा, दिल्ली- 110094	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएंडटी /74	09.07.52
2836	यासमीन सुल्ताना, पुत्री श्री शेख खाजा	एपीएसवीसी/ 4454/06	19-3-20, मस्जिद वाली गली, संगनगुंटा, गुंदूर- 522003, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/06	15.08.80
2837	यशपाल सिंह दवास, पुत्री श्री डी.आर. सिंह	यूवीसी/270/07	11/533, जीबीपीयूएंडटी, पंतनगर, जिला यू.एस. नगर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएटी/ 77	12.09.54
2838	येओतीकर पोर्णिमा बाशीघरराव	महाएसवीसी/ 7275/	'मानिक' बिल्डिंग, पुशरा नगरी, पौडेवाडी नाके के निकट, नांदेड- 431602, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू /04	09.06.82
2839	योगेंद्र सिंह चौहान, पुत्र श्री पृथ्वी	राजएसवीसी/ 3285/06	पुराने अस्पताल के निकट, सरमाथुरा धौलपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/06	04.11.76
2840	योगेंद्र यादव, पुत्र श्री हेमचंदर यादव	डीवीसी/0598/ 02	ग्राम एवं डाक कंगाहेरी, नई दिल्ली- 110071	बीवीएससीएंडएच /पीएयू/01	06.8.76
2841	योगेश चंद्र भारद्वाज, पुत्र श्री ए.वी. शर्मा	यूवीसी/243/06	आदर्श नगर, पीलीकोठी, हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएटी/ 94	06.08.71
2842	योगेश चंद्र दीक्षित, पुत्र श्री दिनेश चंद्र दीक्षित	एमपीएसवीसी/2 362/06	31-12, सिंचाई विभाग-1 के पीछे, शाहडोल, म.प्र.- 484001	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/0 6	01.09.73
2843	योगेश गुप्ता, पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता	डीवीसी/0622/ 03	152, तीसरी मंजिल, राजा गार्डन, नई दिल्ली	बीवीएससीएंडएच /एचएयू/87	13.09.64
2844	योगेश कुमार शर्मा, पुत्र श्री गोपाल लाल	राजएसवीसी/ 3284/06	ए-613, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/06	19.12.80
2845	योगेश कुमार भारद्वाज, पुत्र श्री तरसेम चंद भारद्वाज	पीबीएसवीसी/ 2676/06	म.न. 436, प्रेम बस्ती-3, संगरूर- 148001, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /जीएडीवीएसयू /06	07.09.82

क्र.सं.	नाम	पंजी.सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
2846	योगेश प्रताप सिंह, पुत्र श्री जनार्दन सिंह	यूपीवीसी / 4428 / 06	योगेश मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल रोड, फाजिली नगर, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 06	30.05.83
2847	योगेश शर्मा, पुत्र श्री सुरेश चंद	राजएसवीसी / 3299 / 06	113, नासिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सर्वाइभाधोपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	05.07.82
2848	योगेश, पुत्र श्री अशोक कुमार जंतीकर	कर्नाएसवीसी / 3830 / 06	'वेकटेश कृपा' 28, राव प्राइमरी स्कूल के निकट, शिवनगर उत्तर, बिदर- 585401, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केबीएफएसयू / 06	07.02.84
2849	योगिता ढाका, पुत्री श्री एच.एस. ढाका	राजएसवीसी / 3288 / 06	एफ-19, कांता खदूरिया कॉलोनी, बीकानेर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 06	05.07.79
2850	युगदीप, पुत्र श्री बीरबल	एचवीसी / 1939 /	ग्राम एवं डाक सतरोद, जिला हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 06	09.06.82
2851	जदे भावना अरुन	महाएसवीसी / 7414 /	प्लॉट न. 52, हनुमान नगर, मेडिकल कॉलेज के निकट, नागपुर- 440009, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	19.11.82
2852	जदे प्रशांत राजेश्वर	महाएसवीसी / 7354 /	"मातोश्री", 23, विकास कॉलोनी, रामनगर, बडगांव, तालुक जिला यवतमाल- 445001, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	26.05.81
2853	जाम्बरे विष्णु जयसिंह	महाएसवीसी / 7668 /	द्वारा श्री जयसिंह व्यंकट जाम्बरे, रावलगांव, डाक कोकनगांव, तालुक करजात, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 06	15.12.82
2854	जारेकर अशोक उत्तमराव	महाएसवीसी / 7364 /	योगीराज निवास (मस्के नायब तहसीलदार), तहसील कार्यालय के पीछे, पारतूर, जिला जालना, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 05	09.05.80
2855	जोहरा सैयद, पुत्री श्री सैयद लियाकत अली	एमपीएसवीसी / 2 404 / 06	165, खिजाबाद कॉलोनी, खजुराना, इंदौर, म.प्र.- 452016	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 06	07.09.80

डा. अनुप भौमिक, सचिव

[विज्ञापन III/IV/असाधारण/141/07]

## VETERINARY COUNCIL OF INDIA

## NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2008

**F. No. 10-7/2008-VCI.**—Whereas the Veterinary Council of India in pursuance of sub-section (1) of Section 23 of Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) is required to maintain a register known as Indian Veterinary Practitioners register which shall contain the names of all persons who possess the recognised veterinary qualification and who are for the time being enrolled on State/UT Veterinary Council of the State to which this Act extends.

Now, in exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 23 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) the Secretary, Veterinary Council of India, directs that Supplement to Indian Veterinary Practitioners Register, 2007 shall be published in the Gazette of India for general information.

## Indian Veterinary Practitioner's Register, Supplement—2007

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1	A. Annamalai, S/o Sh. V. Anjapuli	TNVC/3648/06	Thandalai PO No. 734, Sangarapuram Taluk, Villupuram-606202, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/06	05.03.82
2	A. Arulanantha Krishnan, S/o Sh. K. Angamuthu	TNVC/3762/06	North Street, Laddiwadi & PO, Gangavalli Taluk, Salem Distt., Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/95	03.07.72
3	A. ARULJOTHI W/O T.SENTHILKUMAR	TNVC/2853/05	10, BRAMMADESAM POST, SAKTHI NAGAR VIA, ERODE DIST 638 315.	BVSc/TANUVAS/01	09-06-77
4	A. ARUN PRASAD S/o S. ARUN	TNVC/1508/05	1, SHRIDHI ENCLAVE, THIRUVALLUVAR NAGAR RC. D, OLD KATPADI, VELLORE 632 007	BVSc/TANUVAS/96	01-02-73
5	A. ASHOK S/o P.ANANDAKUMAR	TNVC/2087/05	117, SECOND CROSS, PONNAGAR, TRICHY 620 001, TAMIL NADU.	BVSc/TANUVAS/93	13-09-69
6	A. BALASUBRAMANIAM S/o P. ANNAMALAI	TNVC/2745/05	2 / 34, KOPPAMPATTI, MELKALLUPALAYAM POST, RASIPURAM TK, NAMAKKAL DT 637 408.	BVSc/MAU/94	10-06-71
7	A. BHARATHIDHASAN S/o P.AYYADURAI	TNVC/1744/05	3 / 1, LAKSHMANAPURAM IVTH STREET, NANDAVANAM ROAD SOUTHSIDE, WEST GOVINDAPURAM, DINDIGUL - 1	BVSc/TANUVAS/97	31-07-74
8	A. CHELLAPANDI W/o R. MURUGASAN	TNVC/0721/05	MUNIYAPPAR KOVIL III RD CROSS, MELA AGRAHARAM, ARIYALUR 621 704, PERAMBALUR DISTRICT	BVSc/TANUVAS/97	07.07.74
9	A. CLEMENT EBENEZER HENRY S/o H.AZARIAH VETHARAJ	TNVC/0858/05	TF1, J.G. APARTMENTS, ANNA MALAYAR STREET, ARUNA NAGAR, PUTHUR, TIRUCHIRAPALLI 620 017	BVSc/TANUVAS/00	06-04-76

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
10	A. ELANGO S/o C.AYYASAMY	TNVC/0784/05	4 / 5, MASINAICKENPATTI, BEHIND SWAMINATHAN MANDAPAM, AYODHIAPATTINAM, SALEM - 636 103	BVSc/TANUVAS/92	23-05-69
11	A. GABRIEL RAJ S/o S.ADAICKALASAMY	TNVC/2947/05	AP-97, 4TH STREET, AF- BLOCK, 11TH MAIN ROAD, ANNA NAGAR, CHENNAI 600 040	BVSc/Uni of Madras/69	05-06-43
12	A. JAGADEESWARAN S/o S.APPUSAMY	TNVC/0824/05	12-10A, PASUVAREDDIAR LANE, KOLATHUR, METTUR T.K. SALEM DIST. - 636 303	BVSc/TANUVAS/93	24-06-70
13	A. Jayaraman, S/o Sh. Appadurai	TNVC/3786/07	Koradachery, Thiruvarur Distt. 613703, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/82	10.04.55
14	A. JERALD IRWIN S/o Y.AUGUSTIN	TNVC/1257/05	17 / 29, WEST KALLUKUTTAM, KALLUKUTTAM POST, KANYAKUMARI DIST PIN - 629 808	BVSc/TANUVAS/02	17-08-78
15	A. JEYARAJ S/o K.ANDIVEL	TNVC/0899/05	P.KOSAVAPATTY POST, VADAMADURAI VIA, DINDIGUL	BVSc/TANUVAS/96	26-07-73
16	A. KARTHIKEYAN S/o T.V.ARUMUGAM	TNVC/1687/05	B139, N.G.O.B. COLONY, PALAYAMKOTTAI, TIRUNELVELI - 627007	BVSc/TANUVAS/01	12-03-77
17	A. KIRUBAKARAN S/o C.ARUMUGAM	TNVC/0778/05	KURICHI & P.O. BHAVANI T.K. OLAGADAM VIA, ERODE DIST. 638 314	BVSc/TANUVAS/01	04-05-77
18	A. KOIL RAJA S/o D.ABEL PANDIAN	TNVC/3086/05	58, MASI STREET, AZHWARTHIRUN AGARI, THOOTHUKUDI DT. T.N	BVSc/TNAU/88	30-09-66
19	A. KRISHNAMOORTHY S/o B.ATHMANATHAN	TNVC/2819/05	NO.5, UPPUKARA STREET, WALAJAPET, VELLORE DIST 632 402	BVSc/Uni of Madras/74	06-01-50

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
20 A. KUMARESAN S/o M.R.ARUNACHALAM	TNVC/0872/05	8 / 2, EAST STREET, KONNAVELAM PATTI PUDUR PO, RASIPURAM TALUK, NAMAKKAL DISTRICT 637 401.	BVSc/TANUVAS/96	10-05-73
21 A. KUMARESAN S/o T.ARUMUGAM	TNVC/2243/05	NO.35, II CROSS STREET, GOPALAPURAM, MANNAR SAMY KOIL, TINDIVANAM 604 002, VILLUPURAM DT, TAMIL NADU.	BVSc/TANUVAS/97	23-07-74
22 A. MAHALINGA NAINAR S/o K.ARIMUTHU NAINAR	TNVC/0719/05	10 / 14, SANNADHI STREET, THIRUVATTEESWARAN PET, TRIPLICANE, CHENNAI 600 005	BVSc/Uni of Madras/71	06-11-47
23 A. MANICAVASAKA DINAKARAN S/o S.A PILLAY	TNVC/1688/05	26-F, MATHARSANGAM ROAD, RAMANPUTHOOR, NAGERKOIL - 629 004	BVSc/Uni of Madras/73	17-02-51
24 A. MANIVANNAN S/O V.ARUNACHALAM	TNVC/2383/05	5A, LAKSHMI BHAVANAM, THIRUVALLUVAR STREET, BETHANIAPURAM, MADURAI 625 016.	BVSc/TNAU/88	04-05-63
25 A. MANOHARAN S/o A.AYYAVOO	TNVC/2918/05	39 / 12, M.C. ROAD, SHANRORKUPPAM, AMBUR 635 814	BVSc/TANUVAS/94	09-07-70
26 A. MAQBOOL AHMED S/o Md ABDUL LATHEEF	TNVC/3289/05	33 / 4, 1ST FLOOR, SRINIVASA PERUMAL SANNATHI 3RD STREET, ROYAPETTAH, CHENNAI 600 014.	BVSc/TNAU/76	01-06-54
27 A. Maria Arul Irudayaraj, S/o Sh. R.M. Amalaraja	TNVC/3799/07	2844, Irudayarapuram Thanjavur-613001, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/95	31.01.72
28 A. METHAI S/o V.ARUNAGIRIVELU	TNVC/2949/05	NO.300, GANDHI STREET, THIRUVENKATTAPURAM, PONNERI 601 204, THIRUVALLUR DISTRICT	BVSc/TANUVAS/97	25-06-73
29 A. Mohaideen Abdul Cader, S/o Sh. A. Anversha	TNVC/3578/06	25, Shenbegam Nagar, Palayamkottai, Tirunelveli 2, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/98	22.03.74

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
30	A. Muthuselvam, S/o Sh. P. Arumugam	TNVC/3620/06	Nehru Nagar, Vazha Kombai PO Thammampatty Via- Ganguvalli PO, Salem Dt.- 636113, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/06	10.05.81
31	A. NATARAJAN S/o T. AMIRTHALINGAM	TNVC/3271/05	38, SENGALPATTI STREET, NO.1, GUGAI, SALEM-6.	BVSc/TNAU/88	24-05-64
32	A. PADMARAJ S/o D. APPAVU JAIN	TNVC/1585/05	PLOT NO.546, NETHAJI BOSE MAIN ROAD, PHASE III, VALLALAR, VELLORE 632 009.	BVSc/TNAU/80	09-10-56
33	A. RAJENDRAN S/o C. ADAICKALAM	TNVC/2840/05	YADAVAR ST, PALLATHUR POST, OTTANGADU VIA, PATTUKKOTTAI TK, TANJORE DIST, PIN : 614 803.	BVSc/TNAU/85	01-06-61
34	A. RAMANATHAN S/o T. APPANASAMY	TNVC/0672/05	GURUNATHAN KOVIL STREET, KODANGIPATTI, VILATHUKULAM TK, THOOTHUKUDI DT. 628 904	BVSc/TANUVAS/93	08-04-69
35	A. Ramasamy, S/o Sh. R. Avudaiyappa Chettiar	TNVC/3787/07	8-C, Pillaiyar Koli Street, S.S. Colony, Madurai- 18, Tamil Nadu	BVSc/MU/53	31.05.29
36	A. RAMESH S/o S. ARUMUGAM	TNVC/2945/05	NEW NO.64 / OLD NO.39, SANNATHI STREET, JAYANKONDACHOZHAPU RAM, PERAMBALUR DISTRICT, PIN 621 802	BVSc/TANUVAS/93	23-12-69
37	A. RENGASAMY S/o ARUMUGAM	TNVC/0675/05	NEW NO.8, PLOT NO.23, JEEVARATHINAM NAGAR, ADAYAR, CHENNAI 600 020	BVSc/TNAU/79	02-10-54
38	A. SANGARAN S/o A. ARUMUGAM	TNVC/2979/05	R-106, SUDSUN GEMS PARK, MOGAPPAIR ERI SCHEME, CHENNAI 600 037	BVSc/TANUVAS/91	22-06-68
39	A. SENTHIL KUMAR S/o P. ALAGUMALAI	TNVC/0874/05	EAST STREET, ARANMANAIPUDUR, TNENI 625 531.	BVSc/TANUVAS/96	10-05-72

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
40	A. SERMA SARAVANA PANDIAN S/o S. AMARESAN	TNVC/2877/05	33, AB / 1, APPA RAO STREET, KANCHIPURAM 631 502.	BVSc/TANUVAS/97	23-01-74
41	A. SIVAKUMAR S/o P. ANDIAPPA	TNVC/0875/05	PUDHUR ROAD, KOPPAMPATTY POST, THURAYUR TK, TRICHY DISTRICT, PIN : 621 012.	BVSc/TANUVAS/96	12-06-73
42	A. Sivakumar, S/o Sh. M. Ayyamuthu	TNVC/3640/06	Near A-1, Quality Pipes, Kandasamy Nagar, Samarajpet, Mecheri, Salem Dt. Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/93	15.05.70
43	A. SUBRAMANIAN S/o R. ARUNACHALA MUDALIAR	TNVC/1340/05	5 / 825, MOGAPPAIR WEST, CHENNAI 600 037.	BVSc/TNAU/80	04-07-56
44	A. SUNDARARAJ S/o S. AROKIASAMY	TNVC/2983/05	W46, 8TH STREET, 'B' SECTOR, ANNA NAGAR WESTERN EXTENSION, CHENNAI 600 101	BVSc/Uni of Madras/61	08-12-38
45	A. UMAA MAHESWARIE S/o K. KARUPPIAH	TNVC/2754/05	NO.22, 2ND CROSS STRET, KASTURIBAI NAGAR, ADAYAR, CHENNAI 600 020.	BVSc/TNAU/82	15-12-56
46	A. Velmanicka Valli, S/o Sh. C. Vijayasankarapandian	TNVC/3646/06	15-B, Briyant Nagar-II Street East, Thoothukudi- 628008, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/95	17.07.72
47	A. VIJAYALINGA KORANDI S/o T. ALAGAN	TNVC/1395/05	"SHREE ALAGU MEENAKSHI" 3RD STREET EXTN., BHARATHIPURAM, S. ALANGULAM, MADURAI 625 017	BVSc/TANUVAS/94	04-05-71
48	A. WILSON SANTHOSH KUMAR ARUNI (R. ANANDA ARUNI	TNVC/2724/05	H-349, SURYA APARTMENTS, JOY COTTAGE, ELLIS NAGAR, MADURAI - 10.	BVSc/TANUVAS/91	11-04-67
49	A. YASOTHA S/o N. APPAVU	TNVC/0944/05	76 / 68, VELLAKKAL PATTY POST, NAMAGIRIPET VIA, RASIPURAM TK, NAMAKKAL DT 637 406.	BVSc/TANUVAS/98	16-06-75



<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
50 A.C. Saxena, S/o Shri K.C. Saxena	UPVC/4425/06	459-A, Gudaasol Bagh, Near Madan Kuti Kohara Peer, Bareilly, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/0 6	28.09.82
51 A.Chidambaram,S/o K.Arumugham	TNVC/3482/06	32,Thiruvalluvar Street,Pennadam- 606105,Thittagudi, Taluk,Cuddalore Dt,Tamil Nadu	BVSc/TNAU/76	21.10.50
52 A.K. JAMALUDDIN S/o A.KHADER MOHIDEEN	TNVC/1679/05	9 / 5, LAULBEGUM STREET, TRIPPLICANE, CHENNAI 600 005	BVSc/TNAU/82	01-04-54
53 A.K.THIRUVENKADAN S/o A.D.KANNAN	TNVC/0785/05	5 / 71-I, P.G.NAGAR, JAGIRAMMAPALAYAM POST SALEM 636 302	BVSc/TANUVAS/95	15-06-72
54 A.M. RAMASWAMI S/o R.A.MURUGESAN	TNVC/0726/05	NO.505 / 1, PETHAMPALAYAM ROAD, PERUNDURAI 638 052 ERODE DISTRICT	BVSc/Uni of Madras/69	01-01-48
55 A.M. SHANMUGAM S/o A.S.MUTHUSAMY	TNVC/3259/05	34. VIDYA NAGAR, THINDAL, ERODE 638 009.	BVSc/Uni of Madras/65	10-01-40
56 A.Maboobkhan,S/o Sh J.Anwar Khan	TNVC/3735/07	Forest Rd,Bormidl PO- Pappireddipatty Taluk,Dharmapuri,Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/08	15.5.78
57 A.P. JOTHINATHAN S/O A.PONNA GOUNDER	TNVC/2647/05	1288C, PHASE 2, 50TH STREET, SATHUVACHARI, VELLORE 632 009	BVSc/Uni of Madras/61	09-08-38
58 A.P. NAMBI S/o A.R.P.RANGAN	TNVC/0868/05	3052, 13TH BLOCK, J.B. NAGAR, ANNA NAGAR WEST EXTN. CHENNAI - 600 040	BVSc/TNAU/81	08-05-57
59 A.PARAMASIVAM S/o C.ATHINARAYANAN	TNVC/1615/05	OLD NO.40, NEW NO.1737, PUDUNAGAR 4TH STREET, MACHUVADI, PUDUKOTTAI 622 001	BVSc/TANUVAS/91	04-04-68

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
60	A.S. MURUGESAN S/o A.SORNAMUTHU	TNVC/3258/05	215.A, SOUTH STREET, KOTTUR VIA, VEERAPANDI, THENI DIST.	BVSc/TNAU/89	09-07-67
61	A.S. RAJENDIRAN S/o S.SELLAPPAN	TNVC/1560/05	S.N. MANGALAM POST, KARIPATTI VIA, SALEM 636 106.	BVSc/TNAU/88	05-03-66
62	A.SEKAR S/O ARUMUGA PADAIYACHI	TNVC/2299/05	NORTH STREET, KULUMUR POST, SENDURAI TALUK, PERAMBALUR DISTRICT 621 714	BVSc/TANUVAS/01	02-06-77
63	A.THANGAVEL S/O K.ANANTHAPADMANA BHAN	TNVC/2608/05	23, SECOND CROSS STREET, NEW SECRETARIAT COLONY, CHENNAI 600 010	BVSc/TNAU/80	19-05-53
64	A.V. OMPRAKASH S/o A.V KANNAN	TNVC/1235/05	FLAT NO.5, LILLY APARTMENTS, 114-B, B.B. ROAD, PERAMBUR, CHENNAI - 600 011	BVSc/TNAU/86	04-06-63
65	A.VARADHARAJAN S/o R.APPAVU	TNVC/1853/05	ALANGAI VILLAGE, UMAYALPURAM (PO), ATTUR TALUK, SALEM DISTRICT PIN 636 119	BVSc/TANUVAS/96	30-05-73
66	A.VELAVAN S/o R.A.ANBZHGAN	TNVC/1213/05	1 / 391, REHADAHALLI (PO), BOMMIDI (VIA), PAPPIREDDIPATTY (TK), DHARMAPURI - 635301	BVSc/TANUVAS/01	15-05-78
67	A.Vinayagam,S/o P.Annamalai	TNVC/3426/06	4/66,Palappalayam,Koonave lampatti PO,Rasipuram TK,Namakkal Dt,Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/92	31.05.68
68	Aalok Kumar Singh, S/o Late Sh. Avdesh Kumar Singh	BVC/2724/06	Vill. Parbhunath Nagar, PO Tarhi, PS Mufssil Chapra- 841301, Distt. Chapra,Bihar	BVSc&AH/JNAU/05	18.02.79
69	Aalok Ranjan Ghosh, S/o Sh. Parkash Chandra Ghosh	BVC/2664/05	Vill. Jankipur, PO Pawai, PS Amarpur, Distt. Banka,Bihar	BVSc&AH/TNVASU/0 5	03.12.80

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
70	Aanand Kumar Aanandmay, S/o Sh. Ram Sinhasan Singh	BVC/2688/C5	Vill. Pahriya, PO Davth, PS Suryapura, Ditt. Rohtas, Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/0 5	21.07.79
71	Aarti Shrivastava, D/o Sh. N.K. Srivas	RajSVC/3268/06	B-248, 10-B Scheme Gopalpura Bypass, Jaipur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	21.09.77
72	Abdul Muneer Kandangal	KeralaSVC/3184/06	Ongungal House, South Kodiyathur, Kodiyathoor PO, Mukkam (Via.), Kozhikode- 673602, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	25.05.83
73	Abhay Gupta, S/o Shri S.K. Gupta	UPVC/4466/06	31A/59A, Pandit Jangjeet Nagar, Saamsabad, Rajpur, A gra, Uttar Pradesh	BVSc&AH/MAFSU/06	31.11.80
74	Abhayendra Kumar Pandit, S/o Sh. Mahendra Pandit	BVC/2717/06	Vill. Maraiya, PO Dipralatik, PS Parbatta-851212, Distt. Khagriya, Bihar	BVSc&AH/AAU/05	22.02.80
75	Abhishek Kumar Singh, S/o Sh. Sushil Prasad Singh	BVC/2674/05	Vill. Sahu Tola, PO Haweli Khargpur, PS Haweli Khargpur-811213, Dt. Munger, Bihar	BVSc&AH/GBPUAS& T./05	09.02.81
76	Abinash Kumar Pradhan, S/o Sh. Kailash Chandra Pradhan	OVC/2077/06	At/PO Jakeikela, Via Bonai Garh, Distt. Sundergarh, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	25.04.81
77	Abraham Joseph Pellissery	KeralaSVC/3170/06	Pellissery House, Regency Gardens, Kuttanellur PO, Thrissur PO, Thrissur- 680014, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	15.05.81
78	Abu Nasir Munshi Mohammad Umar	MahaSVC/7323/	13-C, Rathod Layout, Beside Noori Masjid, Anant Nagar, Nagpur, Maharashtra	BVSc&AH/Nag. Uni./67	01.01.43
79	Abul Hasan, S/o Late Shri Moh. Hasan	UPVC/4354/06	Dildarnagar, Ghazipur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/7 2	15.07.52

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
80	Acharya Akhila Laxmish	MahaSVC/7390/	Sri Sannidhi, 31, Shantiniketan CHS, Yari Road, Mumbai-400061, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	05.10.81
81	Ade Manoj Jaywant	MahaSVC/7428/	At Dattapur, Post Tah. Ghatanji, Distt. Yavatmal- 445301, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	10.12.82
82	Adeppa, S/o Sh. Jadiyappa	KarSVC/3863/06	Maladgudd, Virupapur Post, Sindhanur Tq., Raichur Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	01.06.83
83	Adesh Singh Chauhan, S/o Sh. Braj Pal	RajSVC/3289/06	Jawahar Nagar, Mahu Kalan, Gangapur City, Sawaimadhopur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	25.09.79
84	Adhiraj Mishra, S/o Sh. Ashok Kumar Mishra	OVC/2042/06	Plot No. 212/A, Satya Nagar, Bhubneswar- 751007, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	10.07.81
85	Aditya Goyal, S/o Shri A.K. Gupta	UPVC/4497/06	Moh. Bhitir Mohammadi, Lakhimpur, Kheri, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/ 06	01.07.81
86	Aditya Kumar, S/o Shri Rajababu Yadav	UPVC/4404/06	Vill. Hajaratpur, PO Dayal Nagar (Nirakhi), Fatehpur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDAUA&T/ 06	10.08.82
87	Adkine Ashok Baliram	MahaSVC/7658/	Shriram Nagar, Karegaon, Road, Parbhani-431401, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	05.10.82
88	Adlak Smita Ashokrao	MahaSVC/7352/	Aisi Plot, Near Vimalabai Aisi School, Akola-444004, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	12.07.82
89	Adsul Navnath Shivaji	MahaSVC/7712/	A/p Kangaon, Tal. Dound, Distt. Pune-412219, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	18.02.84

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
90	Adyasha Priyadarshini, D/o Sh. Anchal Das	OVC/2129/07	At Ambikal, Distt./Po Jajpur, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	28.03.83
91	Agarkar Yogesh Dnyaneshwar	MahaSVC/7575/	'Krushna Kunj' Niwas, Agarkar Chawl, Gulve- Vasti, Bhosari, Tal. Haveli, Dt. Pune, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	31.12.83
92	Agarwal Sanjaykumar Musaram	GUJSVC/2730/06	Vill. Fatepura, Nr. Urban Bank, Ta. Fatepura, Distt. Dahod-389172, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	19.06.84
93	Aghai Imran Khan Aghai Saheb Khan	MahaSVC/7263/	Barood Buse, Mondha Road, Jintur, Tal. Jintur, Distt. Parbhani, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/03	10.09.79
94	Aghav Prakash Laxmanrao	MahaSVC/7409/	At Dawanapur, Post Nugapur, Tal. Pari (V), Distt. Beed-431517, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	04.07.81
95	Ajay Gupta, S/o Shri R.K. Gupta	UPVC/4485/06	Vill. & PO Gausganj, Musnagar, Distt. Kanpur, Dehat, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/ 06	01.07.80
96	Ajay Kumar Singh, S/o Shri Ram Nihal Singh	UPVC/4391/06	Vill. Penda, PO Ojhaganj, Distt. Basti, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/0 6	01.09.80
97	Ajay Kumar Tripathi, S/o Shri S.P. Tripathi	UPVC/4548/06	SA5/159, R-3CH, Ramrerpur, Paharia, Varanasi, Uttar Pradesh	BVSc&AH/AAU/06	01.01.81
98	Ajay Kumar Varun, S/o Shri Lallo Prasad Varun	UPVC/4377/06	H.No. 13, Awas Vikas Colony, Katra Basti, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDAUA&T/ 06	10.07.79
99	Ajay Kumar, S/o Sh. Roshan Lal	HVC/1929/	206/11, Pana Baithan, Beri Distt. Jhajjar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/0 6	26.07.82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
100	Ajay Kumar, S/o Shri Sukhkhan Ram	UPVC/4470/06	Vill. Baghi, PO Belsari, Distt. Ghazipur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/06	03.11.78
101	Ajay Kumra Verma, S/o Shri G.S. Verma	UPVC/4373/06	H.No. 34, The Jarhi Garh Road, Meerut, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/06	21.01.79
102	Ajay Pratap Singh, S/o Shri U.S. Singh	UPVC/4465/06	H.No. 114/18/1, Shivkuti, PO Teliarganj, Allahabad, Uttar Pradesh	BVSc&AH/MAFSU/06	01.04.83
103	Ajay Yadav, S/o Shri Bhim Singh	UPVC/4371/06	Vill. Pahsaiyad Raja, PO Deoria, Tehsil Zamania, Ghazipur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDAUA&T/06	22.11.76
104	Ajit Singh Rana, S/o Shri O.P. Singh Rana	UPVC/4467/06	H.No. 736, Sec-14, Avasth Vikas Colony, Agra, Uttar Pradesh	BVSc&AH/KVAFSU/06	25.04.83
105	Ajith Kumar G.S.	KeralaSVC/3109/06	TC. 15/1101, Gandhi Nr St-II, GNA-215, Cotton Hill, Vazhuthacaud, Tvm, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	01.06.80
106	Ajith M.	KeralaSVC/3137/06	Souparnika, H.No. 12, TC3/25 21(B), Marappalam Gardens, Pattom Palace, PO Tvm-695004, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	22.05.79
107	Akeheel Ahmed, S/o Late Sh. Abdul Hafiz	KarSVC/3937/06	429, 5th D Main, Kalyannagar BL II, Bangalore-560043, Karnataka	BVSc/UAS, B'lore/72	06.11.46
108	Akhade Gajanan Sharad	MahaSVC/7127/	Kusumnagar, Behind S.P. College, Pardi Road, Bhoom, Tal. Bhoom, Dt. Osmanabad, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	26.08.80
109	Akhil Agrawal, S/o Shri S.P. Agrawal	UPVC/4550/06	Moh. Purani Bazaria, PO Rath, Distt. Hamirpur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	27.06.76

<i><b>SNUM</b></i>	<i><b>NAME</b></i>	<i><b>RNUM</b></i>	<i><b>ADD</b></i>	<i><b>QUALIF</b></i>	<i><b>DOB</b></i>
110	Akhil Chandra Kala, S/o Late Sh. Satish Chandra Kala	UVC/254/06	151/9-A, Rajpur Road, Dehradun, Uttaranchal	BVSc&AH/AGRA UNI/64	05.12.42
111	Akhil Kumar Gajbhiye, S/o Shri B.R. Gajbhiye	MPSVC/2410/07	H.No. 623, Gupteshwar Ward, Jabalpur, MP-482001	BVSc&AH/JNKVV/06	06.02.82
112	Akhilesh Kumar, S/o Sh. Mahavir Prasad	BVC/2668/05	Vill. Sheikh Aji, PO Beshbak, PS Ishlampur, Distt. Nalanda, Bihar	BVSc&AH/Raj.A.U/00	05.12.75
113	Akhilesh Kumar, S/o Sh. Rajendra Prasad	BVC/2710/05	Vill. Bahadur, PO Chandi, PS Chandi-803108, Distt. Nalanda, Bihar	BVSc&AH/WBUA&FS/ 05	15.01.83
114	Alam Singh Dhami, S/o Sh. Dev Singh Dhami	UVC/248/06	Village Chaudanpatta, PO Ranibagh, Distt. Nainital, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/7 4	08.11.51
115	Aika, S/o Sh. Lal Bahadur Prashad	DVC/0615/02	H-62, Dharpura, Najafgarh, New Delhi- 110043	BVSc&AH/RAU/03	26.08.77
116	Alley Kidangan	KeralaSVC/3172/06	Kidangan House, Veluthur PO, Thrissur-680016, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	19.09.81
117	Alok Kumar Sahoo, S/o Sh. Rabindra Sahoo	OVC/2118/07	A/PO Kadalibana, Via Choudakulat, Distt. Kendrapara, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	10.01.83
118	Alok Kumar Singh, S/o Shri Meva Ram	UPVC/4401/06	Vill. & PO Gausganj, Distt. Hardoi, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/0 6	20.09.79
119	Aloka Agnibesh, S/o Sh. Dhirendranath Mallick	OVC/2140/07	HIG-27,7Acres, HB Coloney, Phase- I, Chandrasekharpur, Bhubaneswar-16, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	01.04.83

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
120	Alpaarayan Singh, S/o Shri G.P. Singh	UPVC/4433/06	Bhagawatpur Katary, Kuashambi, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDAUA&T/ 06	17.12.79
121	Aman Kumar, S/o Sh. Yogendra Prasad	BVC/2727/06	Vill. Parorra, PO Parorra, PS Cheriya Bariyarpur- 848204, Distt. Begusarai, Bihar	BVSc&AH/CCSHAU/0 5	02.01.79
122	Aman Parkash Dhaka, S/o Sh. J.P. Dhaka	HVC/1918/	H.No. 1496, Sector-9, Karnal, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/0 6	06.07.84
123	Aman Ruetogi, S/o Sh. Vidhya Sagar Rustogi	HVC/1905/	H.No. 7310-A, Bara Hazari, Rewari, Haryana	BVSc&AH/RAU/06	06.04.81
124	Aman Verma, S/o Sh. S.D. Verma	HPSVC/781/06	Reema Verma, SWD Office, CSKHPKV, Palampur, HP	BVSc&AH/CSKVV/0 6	30.11.79
125	Amar Jeet Rai, S/o Shri Jugul Rai	UPVC/4359/06	E-5228/A, Sec-2, Raja Ji Puram, Lucknow, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDAUAT/0 4	30.10.73
126	Amaravathi Pidugu, D/o Shri P. Krishna Moorthy	APSVC/4446/06	20-3-124 I/C8, Sanjay Gandhi Colony, Tirupati- 517501, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	09.11.81
127	Amarbagh Randhawa, D/o Sh. Dilbagh Singh	Pb.SVC/2654/06	VPO Nagoke, Near Milk Plant, Tehsil Khadoor Sahib, Distt. Tarn Taran, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/ 06	06.01.84
128	Amarbir Singh, S/o Sh Gurmit Singh	Pb.SVC/2685/06	179, Bhagat Singh Colony, Basti Gobinggarh, Moga, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/ 06	01.08.82
129	Amarjeet Kumar Sinha, S/o Sh. Kameshwar Parsad Sinha	HVC/1926/	H.No. 486, Old Char Chaman, Karnal, Haryana	BVSc&AH/PRDKV/98	01.01.75



<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
130	Ambekar Namrata Narayanrao	MahaSVC/7387/	"Abhyuday", Plot No. 11, Vakil Colony, Tal. Distt. Parbhani-431401, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	30.05.83
131	Ambore Mahesh Namdevrao	MahaSVC/7459/	Tilak Nagar, Near Nehru English School, Tal. Distt. Nanded-431605, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	31.12.81
132	Ambre Vaibhav Kashinath	MahaSVC/7232/	Gurukulnagar, Chavan Chawl, Opp. Gymkhana, Near Hanuman Mandir, Old Agra Road, Thane(W), Maharashtr a	BVSc&AH/MAFSU/04	12.06.80
133	Ambulgekar Ashok Marotirao	MahaSVC/7735/	32, Bhagwati Jawahar Colony, Behind All India Radio, Aurangabad, Maharashtra	BVSc&AH/KKV, Dapoli/80	27.06.52
134	Amit Jindal, S/o Sh. Achrhu Parkash	Pb.SVC/2667/06	Ward No. 12, 119, Near Jain Mandir, Bareta Mandi, Mansa-151501, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/ 06	08.12.81
135	Amit Kumar Jaiswal, S/o Shri Narendra Jaiswal	UPVC/4507/06	H.No. 113, Sadar Bazar, Bareilly, Bareilly Cantt., Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/ 06	13.10.78
136	Amit Kumar Sharma, S/o Sh. S. Sharma	HPSVC/760/06	PWD Rest House, New Rama Krishna Guest House, O.P. Jawalaji, Distt. Kangra, HP	BVSc&AH/CSKKVV/0 6	19.02.81
137	Amit Kumar Shrivastav, S/o Shri Ram Niwas Shrivastav	MPSVC/2336/06	Vill. Birkhadi, Gohad Bhind, MP	BVSc&AH/IGKV/06	13.06.78
138	Amit Kumar, S/o Sh. Ashwini Kumar	BVC/2661/05	Vill. Nanku Mandal Tola, PO Durgapur, PS Khagari- 851204, Dt. Khagaria, Bihar	BVSc&AH/TNVASU/0 5	09.04.80
139	Amit Nain, S/o Sh. Mohinder Kumar	Pb.SVC/2657/06	Vill. Bodiwala Pitha, P/o Khui-Khera, Tehsil Fazilka, Distt. Ferozepur, Punjab	BVSc&AH/CCS HAU/06	15.03.81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
140	Amit Pal Panwar, S/o Sh. Mohakam Singh Panwar	UVC/210/06	77/8, Purwawali, Ganeshpur, Roorkee, Haridwar, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/06	21.09.83
141	Amit Prasad, S/o Dr. Suresh Prasad	KarSVC/3882/06	Room No. 6, VCH, Bangalore-560024, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	04.11.81
142	Amit Raikwar, S/o Shri Vinod Raikwar	MPSVC/2425/07	1446/2, Ganga Nagar, Garha, Jabalpur, MP-482003	BVSc&AH/JNKVV/06	07.11.79
143	Amit Sachan, S/o Shri K.K. Sachan	UPVC/4543/06	MI-185, Double Storied, Janta Nagar, Barra-2, Kanpur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/JNKVV/06	01.01.81
144	Amit Sharma, S/o Sh. P.C. Sharma	HPSVC/772/06	VPO Sohari TEH. Bangana, Distt. Una, HP	BVSc&AH/CSKKVV/06	01.01.81
145	Amita Sharma, D/o Sh. Yadendra Sharma	DVC/0645/04	Pet's Plantet, 2843, Main Sant Nagar Road, Ranibagh, Delhi	BVSc&AH/UAS Dharwad/01	15.09.79
146	Amitava Roy, D/o Sh. Chandi Charan Roy	WBSVC/3244/06	Vill. Deoly, PO Paschim-naichandrapur, PS Moyna, Distt. Purba Medinipur, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/06	10.05.84
147	Amrendra Kumar Pandey, S/o Sh. Jay Prakash Pandey	BVC/2691/05	Vill. Thakraha, PS Thakraha-841503, Distt. West Champaran, Bihar	BVSc&AH/KAU/05	31.12.79
148	Amrendra Singh, S/o Late Shri Shyam Sunder	UPVC/4509/06	Vill. Sarai Kurmi, PO Bimoura, Distt. Raibareilly, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/06	05.09.76
149	Amresh Yadav, S/o Sh. Rajesh Prasad Yadav	BVC/2628/05	Vill. Futwariya, PO Sahadatpur, PS Lauriya-845453, Distt. West Champaran, Bihar	BVSc&AH/RAU/03	10.01.78

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
150	Amrit Kaur, D/o Sh. Parkash Singh	Pb.SVC/2644/06	Vill. Phullanwal, P/o Model Town, Tehsil & Town Ludhiana-141002, Punjab	BVSc&AH/PAU/05	01.04.77
151	Amrit Priyaranjan Sahoo, S/o Sh. Bailochan Sahoo	OVC/2114/07	At/PO Atasahi, Via Ghasipura, Distt. Keonjhar, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	06.07.82
152	Amrita Chattopadhyay, S/o Sh. Dulal Chandra Chattopadhyay	WBSVC/3232/06	Kalibala, Dakshinpara, Vill. & P.O Bowchigram, Distt. Hooghly, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/06	30.06.82
153	Amrutha Kumar Reddy M., S/o Shri Pulla Reddy Mukkara	APSVC/4444/06	Devaragaram (V), Gadikota (P), Gaddalur (M), Prakasam Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	15.06.80
154	Amrutkar Kiran Bharat	MahaSVC/7179/	A/p Madni (Dindoda), Tal./Distt. Wardha, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	26.05.81
155	Amrutkar Suhas Ashokrao	MahaSVC/7162/	138, Matanagar, Ralegaon, Tal. Ralegaon, Distt. Yavat mal., Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	12.04.81
156	Anakika Mishra, D/o Shri S. Mohana Mishra	APSVC/4543/07	Scientist, Project Directorate on Poultry, Rajendranagar, Hyderabad-30, Andhra Pradesh	BVSc&AH/ANGRAU/97	03.01.75
157	Anand Kumar Gill, S/o Shri Bachan Singh	UPVC/4522/06	Vill. Kukari, PO Mundha Khera, Distt. J.P. Nagar, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/05	01.01.80
158	Anand Kumar Sachchar, S/o Late Sh. Dharam Pal Sachchar	UVC/256/06	29-Shashtrinagar, Ext. PO Defence Coloney, Dehradun, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/82	30.06.56
159	Anand Kumar, S/o Shri Lawatoo Ram	UPVC/4408/06	Rapti Nagar, Ganesh Puram, Gorakhpur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/06	09.06.77

<b>SNUM</b>	<b>NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALIF.</b>	<b>DOB</b>
160	Anand Kumar, S/o Shri Ram Bilas	UPVC/4421/06	Vill. & PO Arajai Amani, Distt. Azamgarh, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDAUA&T/06	15.07.79
161	Anand, S/o Sh. Shrisahil B. Devanavaddgi	KarSVC/3871/06	Sai Prakash Area, Sadashivnagar, Ibrahimpur, Bijapur, Bijapur Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	24.11.82
162	ANDREW CHANDRAMOHAN S/o R.C.SAMUEL	TNVC/0706/05	A-6, SREE NIKETAN APARTMENTS, NO.12, GENGU REDDY ROAD, EGMORE, CHENNAI 600 008	BVSc/TNAU/74	22-11-48
163	Anil Kumar Bantothu, S/o Shri Balaji	APSVC/4496/06	Mylaram, Kothaguda (Parkhal) P&M., Warangal Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	05.06.80
164	Anil Kumar Gour, S/o Shri B.P. Gour	MPSVC/2423/07	F-17, Krishi Nagar, Adhartal, Jabalpur, MP-482004	BVSc&AH/JNKVV/81	25.02.57
165	Anil Kumar H.C., S/o Sh. Chinnarah H.V	KarSVC/3899/06	Hale Peresandra, Peresandra Post, C.B. Pura Tq., Kolar Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	21.08.78
166	Anil Kumar Jaiswal, S/o Shri Rama Shankar	UPVC/4450/06	Uttam Niwas Kasia, Distt. Kushinagar, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GADVASU/06	01.07.81
167	Anil Kumar Singh, S/o Shri	UPVC/4544/06	C/o Munna Singh, Vill. & PO Dewaitha, Ghazipur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/JNKVV/06	15.02.79
168	Anil Kumar Vaishnav, S/o Sh. Arjun Das	RajSVC/3270/06	Bas-Tulisar Tausar, Nagaur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	10.01.80
169	Anil Kumar, S/o Sh. Bhgvat Prasad	BVC/2676/05	Vill. New Area Rana Bigha, PO Rana Bigha, PS Deep Nagar-803101, Dt. Nalanda, Bihar	BVSc&AH/WBUA&FSU/05	08.06.76

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
170	Anil Kumar, S/o Shri R.M. Verma	UPVC/4439/06	Vill. Shampur (Naipura), Itphatganj Tanda, Ambedkarnagar, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDAUA&T/06	03.03.79
171	Anindita Panja, S/o Sh. Janardan Panja	WBSVC/3228/06	7/13, S. Kritibas Road, Durgapur, Distt. Burdwan-713205, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/06	15.10.82
172	Anindita Saha, D/o Sh. Dipak Kumar Saha	WBSVC/3263/06	Vill. Thanacolony, PO Islampore, Distt. Uttar Dinajpur, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/06	12.01.84
173	Anish Kumar S.B.	KeralaSVC/3197/06	Sankaranthadathil, Tjolur PO, Parappur (Via.), Thrissur-680552, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	07.07.77
174	Anita Bharti, D/o Sh. Chander Singh	RajSVC/3304/06	Opp. Nagori Gate, Jodhpur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	30.06.80
175	Anitha M.M., D/o Sh. M.K. Muthappa	KarSVC/3916/06	68/1, Chikattur Vill, Harangi Road, Kudamangalur Post, Kushalanagar, North Coorg, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	21.06.79
176	Anjan Dandapat, S/o Sh. Sri. Satyaranjan Dandapat	WBSVC/3226/06	Abinash Sarani, H.No. 10/6/2, Chandmaridanga, Distt. Bankura-722101, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/06	02.03.83
177	Anjan Ku Malik, S/o Sh. Jagannath Mallik	OVC/2103/07	At Reheng, PO Kuligaon, Distt. Balasore, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	03.05.82
178	Anju Kavia, D/o Sh. Ginwar Dan	RajSVC/3269/06	Plot No. 2/24, New Vidhyadhar Nagar, Jaipur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	12.02.80
179	Anju Pradhan, S/o Sh. Shiv Kumar Pradhan	DVC/0670A/06	WZ-409K, Janak Park, Hari Nagar, New Delhi	BVSc&AH/RAU/03	23.08.74

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
180	Anju Raveendran Nair	KeralaSVC/3129/06	Appinath Kizhakkethil House, Vettiya PO, Mankamkuzhi Via, Alappuzha-690557, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	08.06.82
181	Anjum Jafar, D/o Sh. Jaffarudin	UVC/224/06	IV/1121-D, Jha Coloney, Pantnagar, Distt. U.S. Nagar, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/02	10.01.79
182	Ankan De, S/o Sh. Arun De	WBSVC/3269/06	Vill. & PO Bainchi, Dt. Hooghly-712134, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/06	26.05.83
183	Ankur Gupta, S/o Sh. R.L. Gupta	HPSVC/777/06	V & PO Saloga, TEH & Distt. Solan, HP	BVSc&AH/CSKKVV/06	09.10.82
184	Ankur Sachan, S/o Shri Jagmohan Lal	UPVC/4542/06	EWS-778, Barra-2, Janta Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/JNKVV/06	10.01.79
185	Ankur Sharma, W/o Sh. Vikas	RajSVC/3323/06	H.No. 10/41, MIG B NHB Colony, Shivshingpura, Sikar, Rajasthan	BVSc&AH/MAFSU/04	16.06.81
186	Ankush Hanumant Garoba	MahaSVC/7435/	Fadkule Ploting, Bombale Hanuman Chowk, Hanuman Nagar, Ghatangari Road, Dt Osmanabad, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	08.02.82
187	Anne Basheer B.	KeralaSVC/3119/06	Anas Dale, Attumpurathu, Tejas Nagar, Pantharandu Muri, Thattamala, Kollam-691020, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	16.04.80
188	Anoj Kumar Dimiri, S/o Sh. P.D. Dimiri	UVC/100/06	Near PWD Inspection House, Kamprayag, Chamoli, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/07	18.06.70
189	Anoop Arya	GUJSVC/2733/06	12, Bansari Tenaments, S/H Vaibhav Cinema, Bakrol, Distt. Anand, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	11.05.83

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
190	Anoop Kumar Gautam, S/o Shri Sheo Kumar	UPVC/4402/06	Moh. Gokul Nagar, PO Gandhi Ashram, Bababanki, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/0 6	01.07.81
191	Anoop Singh Negi, S/o Sh Karam Singh Negi	UVC/245/06	Vill. & Post Dharkot, Distt. Tehri, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/7 5	22.12.53
192	Anoopraj R.	KeralaSVC/3187/06	Kaithakktu House, Vadakkennirappu, PO, Njeezoor, Kottayam- 686612, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	11.12.81
193	Anser Md. Salahuddin, S/o Md. Anser Basha	TNVC/3636/06	13, New Bangaru Naidu Colony, West K.K. Nagar, Chennai-600078, Tamil Nadu	BVSc/MU/60	20.12.38
194	Anshu Kumar, S/o Sh. Jhauri Paswan	BVC/2624/05	Vill. Chakhit, PO Manjhaul, PS Bakhtiyarpur-803202, Distt. Patna, Bihar	BVSc&AH/AAU/05	08.01.80
195	Antaryami Barik, S/o Sh. Braja Bihari Barik	OVC/2070/06	At Mallikadeipur, PO Naikanidih, Distt. Bhadrak, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	07.12.81
196	Anu Abraham	KeralaSVC/3130/06	SCT-116, Chalakuzhy Lane, Pattom PO, Tvm- 695004, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	03.12.81
197	Anu Chaudhry, S/o Sh. Arun Dev Chaudhary	DVC/0682/06	E-48, GF Lajpat Nagar-III, New Delhi-24	BVSc&AH/HAU/89	30.05.64
198	Anuj Singh Khare, S/o Shri Sardar Singh	UPVC/4529/06	Moh. Chowck Amroha, J.P. Nagar, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/0 6	15.08.84
199	Anup Kumar Singh, S/o Shri Yasvant Singh	UPVC/4441/06	Vill. Sikti, PO Shuklapur, Distt. Allahabad, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDAUA&T/ 06	15.12.78

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
200	Anupama K.	KeralaSVC/3123/06	Anu Vihar, Patharam PO, Soorana, Kollam- 690567, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	05.10.81
201	Anupama R.	KeralaSVC/3144/06	Owaraka, Poredam (PO), Chadayamangalam, Koljam- 691534, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	10.09.81
202	Anuradha Kumari, D/o Sh. Ashok Kumar	KarSVC/3930/06	UAS Girls Hostel, Room No. 127, Hebbal, Bangalore- 560024, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	20.07.80
203	Anurag Jindal, S/o Sh. Vijay Kumar Jindal	Pb.SVC/2668/06	Vijay Kumar Karyana Store, Near Samshan Ghat, Bareta, Mansa-151501, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/ 06	28.08.83
204	Anurag Sharma, S/o Sh. Ramesh Dutt Sharma	DVC/0667/05	457, Hawa Singh Block Asiad Village, New Delhi-49	BVSc&AH/GBPAUT/9 5	24.10.72
205	Anurag Yadav, S/o Shri A.P. Yadav	UPVC/4420/06	2430/1, Vivey Nagar, Sultanpur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUA&T/ 06	04.03.81
206	Aprama Bodduluri, D/o Shri Venkata Narayana	APSVc/4513/06	H.No. 4-87/7, East Gandhi Nagar, Nagaram (P.O.), Keesara (M), R.R. Dt.- 500083, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	21.05.81
207	Aprama Khalikar, D/o Sh. Venkatesh Khalikar	DVC/0650/05	21/7, Vijay Nagar, Double Store, Delhi-9	BVSc&AH/MA&FSU/0 3	19.04.81
208	Apra Shahi, D/o Shri Saxena	MPSVC/2348/06	D-Oswal Residency, Ratan Colony, Narbada Road, Jabalpur, MP	BVSc&AH/GBPUA&T/ 94	24.05.71
209	Arabinda Saha, S/o Sh. Anil Kumar Saha	WBSVC/3283/06	STP Towhship, PO Santaldih, Dt. Purulia, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	10.11.82



<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
210	Aradhna Tripathi, D/o Sh. Virendra Kumar	DVC/0605/02	H.No. 101, Pocket-4, Sector-24, Rohini-85, Delhi	BVSc&AH/GBPUA&T/ 98	31.12.76
211	Arbat Mayura Purushottam	MahaSVC/7565/	Sangjudkar Nagar, Banasa, Tal. Daryapur, Distt. Amravati-444803, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	22.02.83
212	Archana S. Nair	KeralaSVC/3152/06	Mandrangattu House, Kappil East, Krishnapura PO, Kayamkulam (Via.), Alappuzha- 690533, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	07.11.82
213	Archana Sinha, S/o Sh. Jitendra Kumar	BVC/2655/05	VIII. Malhabadh, PO Mamudda, PS Ishlampur, Distt. Nalanda, Bihar	BVSc&AH/BAU/05	01.03.80
214	Archana, D/o Shri R.S. Tripathi	UPVC/4481/06	Dwarikaganj, PO Jhinhak, Distt. Kanpur, Dehat, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSUA&T/ 06	11.07.81
215	Arjun Kumar Lukha, S/o Sh. Chuna Ram	RajSVC/3333/06	P.No. 88, Abhay Garh, Scheme Air Force Area, Jodhpur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/01	01.01.74
216	Amab Paul, S/o Sh. Prabhuram Paul	WBSVC/3247/06	Rabindrapally (Pirtala), PO Suri, Distt. Birbhum, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	05.02.83
217	Arpita Mohapatra, D/o Sh. Pradipta Ku Mohapatra	OVC/2058/06	At Madhapur, Distt./PO Kendrapara, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	16.12.82
218	Arun Kharate, S/o Sh. Gurunath	KarSVC/3661/06	Near Govt Hospital, Hulageri Bana Dhorgalli, Laxmeshwar- 582116, Gadag Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	22.07.82
219	Arun Kumar De, S/o Sh. Anil Kumar De	WBSVC/3241/06	VIII. & PO Dwarhatta, PS Haripal, Distt. Hooghly- 712403, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 5	21.07.82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
220	Arun Kumar G.S.	KeralaSVC/3164/06	Anil Bhavan, Koliyoor, Muttacaud PO, Tvm- 695523, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	05.04.82
221	Arun Kumar Khandelwal, S/o Sh. Vishnu	RajSVC/3283/06	Jai Bajrang Hotel, Court Road, Gangapur City, Swainadhopur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	12.10.79
222	Arun Kumar Y.K., S/o Sh. Krishna Murthy Rau Y.N.	KarSVC/3949/06	Puttanayakana Street, Tarikere-577228, Chicknagalur Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	26.06.81
223	Arun Ramachandran, S/o Sh. N. Ramachandran	TNVC/3621/06	20-C-2, Surabhi Nesamony Nagar, Nagercoil- 629001, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/94	25.03.71
224	Aruna Sree Balaga, D/o Shri Narayana Rao	APSVC/4457/06	C/o Chandra Mohan G., Vety Asst. Surgeon, Vety. Dispensa ry, Jupadu Bunglow, Nr Nandikotkur, Kurnool D, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	15.08.81
225	Arundhati S., D/o Shri S. Anjaiah	APSVC/4498/06	H.No. 6-20-84, Near Chota Masjid, Gurbabadi, Dubba, Nizamabad, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	29.12.81
226	Arunananda Maiti, S/o Sh. Rabindranath Maiti	WBSVC/3287/06	Vill. Joykrishnapore, PO Panakura, Distt. P/Midnapore, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	10.12.82
227	Arvind Kumar, S/o Sh. Ram Chander	HVC/1941/	VPO Hassanpur, Distt. Jhajjar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/0 6	31.12.82
228	Asha V., D/o Sh. Venkateshappa	KarSVC/3911/06	Behind Deccan Hospital, Chintamani, Kolar Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	04.11.83
229	Asheena U.S.	KeralaSVC/313&06	Ualikkara House, Cherai PO, Emakulam- 683514, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	29.10.81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
230	Ashim Kumar Biswas, S/o Sh. Dharendra Nath Biswas	Pb.SVC/2702/07	Deptt. of LPT, GADVASU, Ludhiana, Punjab	BVSc&AH/WBUAFS/0 0	05.03.78
231	Ashish Kumar Agrawal, S/o Sh. K.C. Agrawal	RajSVC/3246/06	6, Bhagwati Nagar, 1 Kartarpura, Jaipur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	01.01.79
232	Ashish Kumar Verma, S/o Shri V.K. Verma	UPVC/4385/06	H.No. 300/6, C.C. Road, Ramnath, Deoria, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/0 6	15.03.81
233	Ashok Kumar Jojaf, S/o Sh. V. Jojaf	UVC/244/06	C/o G.D. Bhatt, Jawaher Jyoti, Damuwadunga, Kathgodam, Distt. Nainital, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/9 5	08.09.57
234	Ashok Kumar Rathore, S/o Shri C.L. Rathore	UPVC/4538/06	University Guest House, Allahabad, Uttar Pradesh	BVSc&AH/Vikaram Uni/59	14.06.35
235	Ashok Kumar, S/o Sh. Deokrishna Mehto	DVC/0677/06	3/27, H, Saket Block, Mandaw, Fazalpur, New Delhi-92	BVSc&AH/Pondi Uni./06	15.10.78
236	Ashok Kumar, S/o Sh. Kalu Ram	RajSVC/3318/06	Vill. Ratanpura, Via. Mundru, TEH. Srimadhopur, Sikar, Rajasthan	BVSc&AH/SVVU/06	27.09.80
237	Ashok Kumar, S/o Shri Nathu Singh	UPVC/4414/06	Vill. Tajpura, PO Behsuma, Distt. Meerut, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUA&T/ 92	14.06.68
238	Ashoka, S/o Sh. Shankaralingappa	KarSVC/3920/06	85, Tejaswini Houe, 18th Cross, Bagalkunte, Bangalore, Kamataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	02.07.82
239	Ashtosh Kumar, S/o Sh. Satyanarayan	DVC/0633/04	C/o Raj Kumar Sharma, 5770/6, New Chandrawae, Near Malka Ganj, Delhi- 110007	BVSc&AH/GAU/03	10.08.74

<b>SNUM</b>	<b>NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALIF</b>	<b>DOB</b>
240	Ashwini Kumar, S/o Shri Yogesh Kumar	UPVC/4534/06	Motiram Chippiyan, Moh. Thana Bhawan, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh	BVSc&AH/PAU/05	10.07.82
241	Ashwini S., D/o Sh. Somaiah	KarSVC/3929/06	Hale Vokkaligara, Beedhi, Shivapura, Maddur, Mandya Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	10.02.84
242	Asim Dev, S/o Sh. Amrandu Dev	UVC/265/07	B-03 Pashulok Colony, Rishkesh, Dt-Dehradun, Uttaranchal	BVSc&AH/HPKV/95	16.06.72
243	Athawaley Amardeep Madhavrao	MahaSVC/7339/	'Bapu Niwas', Ashirwad Nagar, Parbhani-431401, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	03.06.83
244	Atole Sachin Arjun	MahaSVC/7709/	At Pandhrewadi, Tal. Paranda, Distt. Osmanabad, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	02.04.84
245	Atole Shantilal Kalyan	MahaSVC/7392/	A/p Rawangaon, Tal. Daund, Distt. Pune-413130, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	08.04.82
246	Atul Gupta, S/o Shri S.C. Gupta	UPVC/4437/06	H.No. 285, Patel Nagar, New Mandi, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh	BVSc&AH/KVAFSU/06	18.08.79
247	Atul Hissaria, S/o Sh. Babu Lal	RajSVC/3307/06	Shop No. 57, New Anaj Mandi, Nohar, Hanumangarh, Rajasthan	BVSc&AH/KVFSU/06	07.07.82
248	Atul Hissaria, S/o Sh. Babulal Hissaria	KarSVC/3875/06	C/o Ajay Kumar Ola, Room No. 123, VCH, Bangalore-560024, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	07.07.82
249	Atul Kumar, S/o Shri Bajrang Lal	UPVC/4386/06	Vill. Sandupur, PO Fathpur, Distt. Barabanki, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/06	14.04.81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
250	Atul Kumar. S/o Shri Ravindra Kumar	UPVC/4407/06	Vill. Sarkar Kahri, PO Bohjpur, Distt. Bijnor, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/06	30.09.84
251	AUGUSTINE RAJIAH APPADURAI S/o A.IGNATIUS ALBERT	TNVC/3245/05	110 / 44-D, T.B.ROAD, ARASARADI, MADURAI 625 010.	BVSc/Uni of Madras/64	05-05-42
252	Avadh Bihari Sharma, S/o Late Sh. Sakaldip Sharma	BVC/2716/05	Vill. Madhopur, PO Dhibra, PS Janipur-801505, Distt. Patna, Bihar	BVSc&AH/Bihar Uni/59	05.01.36
253	Avantika Mor, D/o Shri Veerendra Nath Mor	MPSVC/2409/07	Avadesh Brothers, Ghantaghar, Katni, MP-483501	BVSc&AH/JNKVV/06	01.05.81
254	Avnish Kumar Gautam, S/o Sh. Rameshwar Prasad	BVC/2701/05	Vill. Kayingha, PO Sihnan, PS Amarpur-813105, Distt. Banka, Bihar	BVSc&AH/CSAUAT/05	01.03.79
255	Awarde Prashant Madhavrao	MahaSVC/7377/	At Post Kamtha (Bk), Tal. Ardhapur, Distt. Nanded, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	05.10.83
256	Aware Ravindra Pundlik	MahaSVC/7641/	Sagar Niwas, I.U.D.P. Colony, Opposite Dighe Farm, Washim-444505, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	13.07.83
257	Awinash Kumar Paraste, S/o Shri Amar Lal Paraste	MPSVC/2327/06	Near Siddh Baba Dindori, Dindor, MP-481880	BVSc&AH/JNKVV/05	03.01.79
258	Ayan Mukherjee, S/o Sh. Sri Alope Kanti Mukherjee	WBSVC/3224/06	Vill. & PO Madhyam, Distt. Burdwan-713422, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/06	17.02.83
259	Azad Abul Kalam, S/o Sh. Abdul Shahed Ali	ASM/2281/07	Vill. & Post Dhakua, Distt. Barpota-781309, Assam	BVSc&AH/AAU/07	01.01.80

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
260	B. ANUKUMAR S/o V.BALAKRISHNAN	TNVC/1307/05	27 / 6A-1, SOUTH STREET, 5TH STREET, GANAPATHI NAGAR, NAGER COIL 629 002, KANYA KUMARI DISTRICT.	BVSc/TANUVAS/97	20-05-74
261	B. Aravind, S/o Sh. M.S.B. Balasubramani	TNVC/3792/07	27/54, Sangilidevan Lane, Palani, Dindigul Distt., Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/91	15.07.70
262	B. ARUMUGAM S/O A.B.PILLAI	TNVC/2365/05	158/2, R.V.PURAM, NAGERCOIL 629 001.	BVSc/UAS,B'LORE/75	14-07-53
263	B. CHANDRABOSE S/o K.L.BALARAMAN	TNVC/0687/05	G9, BHARATH FLATS, R.V.NAGAR, ANNA NAGAR EAST, CHENNAI 600 102.	BVSc/TNAU/72	30-05-47
264	B. CHANDRASEKARAN S/o S.K.BABUPILLAI	TNVC/0952/05	9 / 1, JERRAT GARDEN, CASAMAJOR ROAD, IIND AVENUE, EGMORE, CHENNAI 600 008.	BVSc/Uni of Madras/70	08-01-46
265	B. DHANALAKSHMI S/o V.MANOHARA BABU	TNVC/2094/05	OLD NO.52/4, NEW NO.100, BERACAH ROAD, CHENNAI 600 012.	BVSc/TNAU/84	22-01-60
266	B. MURALI MANOHAR S/o R.BHAKTHAVATSALAM	TNVC/1527/05	"BRINDAVAN", OLD NO.68, NEW NO.155, MEDAWAKKAM TANK ROAD, SECRETARIAT COLONY, KILPAUK, CHENNAI 600 010.	BVSc/TNAU/75	06-09-52
267	B. MURUGAN S/o K.BALARAMAN	TNVC/1323/05	E4 / 12, FIRST MAIN ROAD, OTTERI EXTENSION, VANDALUR, CHENNAI 600 048.	BVSc/TANUVAS/93	15-05-70
268	B. Narender, S/o Shri Narasaiah	APSVc/4481/06	Donkeshwar (P), Nandipet (M), Nizamabad Dt.-503212	BVSc&AH/SVVU/06	09.02.82
269	B. PANKAJAM S/oP.BALAN	TNVC/1563/05	N.NO.12, O.NO.50, NARASOJI STREET, WALAJAPET, VELLORE 632 513.	BVSc/Uni of Madras/73	28-06-49

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
270	B. PUVARAJAN S/o V. BOOVALINGAM	TNVC/0826/05	NO.133, ARULANANDAMMAL NAGAR, 8TH STREET, THANJAVUR 613 007.	BVSc/TANUVAS/96	24-10-72
271	B. SARAVANAN S/o R. BALA KRISHNAN	TNVC/2802/05	107, VALLALAR NAGAR 14TH STREET, MEDICAL COLLEGE ROAD, THANJAVUR.	BVSc/TANUVAS/97	15-11-73
272	B. SIVAKUMAR S/o P. BALASUBRAMANIAN	TNVC/1271/05	3 / 2, PALAYAPALAYAM & POST, NAMAKKAL TALUK & DISTRICT 637 405	BVSc/TANUVAS/01	30-06-77
273	B. Sivamani, S/o Sh. A.C.M. Balasubramaniam	TNVC/3579/06	7, Muruga Reddy Street, Sholinghur 631102, Vellore Distt., Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/01	02.06.77
274	B. SOKKALINGAM S/O S. BALASUBRAMANIAN	TNVC/2303/05	PLOT NO.28, DOOR NO.2, 3RD STREET, SUDHARSAN NAGAR, MADAMBAKKAM, CHENNAI 600 073	BVSc/TANUVAS/00	29-04-75
275	B. Sridevi, D/o Shri Obulapathi	APSVC/4544/07	Vety. Asst. Surgeon, Vety. Dispensary, Kamalapur, Karimnagar Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/APAU/91	01.06.68
276	B. SUCHITRA S/o G. BALAKRISHNAN	TNVC/1704/05	25 / 2, 12TH AVENUE, ASHOK NAGAR, CHENNAI 600 083	BVSc/TANUVAS/97	02-04-74
277	B. SWAMINATHAN S/o R. BAKYANATHAN	TNVC/1167/05	NO.7, SRI SIVABALAJI ILLAM, LAKSHMI COLONY, BOY'S HIGH SCHOOL PLAY GROUND ROAD, DHARMAPURI 636 701.	BVSc/TANUVAS/00	28-01-75
278	B. VIJAYA BHARATHI S/o R. BALABHARATHI	TNVC/1561/05	NO.16, PROFESSORS COLONY, OPP. S.O.S. VILLAGE, EAST TAMBARAM, CHENNAI 600 059.	BVSc/TNAU/76	24-01-53
279	B. Baskar, S/o S. Balasubramaniam	TNVC/3564/06	Annai Illam, Bommaikuttaimedu, Sel lappampathy, PO-Namakkal- 637019, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/98	28.12.74

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
280	B.R. PARIVELL S/o (K.RANGANATHAN)	TNVC/2047/05	14, C.N.C. NAGAR, BUDHAMOOR, VRIDDHA CHALAM, CUDDALORE DT, TAMIL NADU.	BVSc/TANUVAS/97	21-06-74
281	B.RAJESHKUMAR S/O R.BALAKRISHNAN	TNVC/2295/05	31, PALANI ANDAVAR KOIL STREET, KOSAPALAYAM, ARNI 632 301, TIRUVANNAMALAI DISTRICT	BVSc/TANUVAS/97	23-06-74
282	B.S. MANJULA S/oM.STEPHEN JAYAKUMAR	TNVC/1562/05	NO.9, SINTHU GARDEN, GOPALAPURAM, VELLORE - 6.	BVSc/TANUVAS/90	24-10-82
283	B.V. Sunil Kumar, S/o Sh. Behara Koteswara Rao	WBSVC/3240/06	DS/196-A, 64 Units, PO Adra, Distt. Purulia-723121, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	07.08.83
284	Beavaraj S. Mathapathi, S/o Sh. Shrishail	KarSVC/3873/06	Todalabagi-587301, Jamakhandi Tq., Bagalkot Distt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	01.11.83
285	Bachkar Shivaji Ramdas	MahaSVC/7159/	A/p-Munjari, Tal. Rahuri, Distt. Ahmadnagar, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	14.11.80
286	Bagal Akaram Tanaji	MahaSVC/7422/	At. Yermarwadi, Post Katerkhatav, Tal. Khatav, Distt. Satara-415507, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	27.10.82
287	Bagnet Nirmal, S/o Sh. Bahadur Chetry	ASM/2245/06	C/o Mr. Tok Bahadur Chetry, Vill. & PO Natun Howly, PS Tamulpur, Distt. Naibari, Assam	BVSc&AH/AAU/06	01.07.82
288	Behekar Vijay Shriram	MahaSVC/7604/	Chaltanya Wadi, Ward No. 18, Buldana-443001, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	21.06.82
289	Bahiram Yashwantrao Kashinath	MahaSVC/7681/	At Shevadipada, Post Umbharti, Tal. Sakri, Distt. Dhule-424306, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	21.03.79



<b>SNUM</b>	<b>NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALIF</b>	<b>DOB</b>
290	Baiju E.K.	KeralaSVC/3182/06	Engandiyil House, Mathilakom PO, Thrissur- 680685, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	14.01.78
291	Balam Deepthi, D/o Shri Ramaswamy	APSVC/4510/06	ECA & IS Ltd., Dartapudi, S. Rayavaram (M), Visakhapatnam Dt.- 531062, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	27.04.83
292	Balani Jagdish Kantilal	GUJSVC/2891/06	Bavajini Vadi, Nadi Road, Siddhpur, Distt. Patan, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	14.01.83
293	Balendra Singh, S/o Shri Balvan Singh	UPVC/4477/06	Vill. & PO Barauli Kharka Senlis, Distt. Hamirpur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/ 06	02.05.80
294	Balendu Kumar Tripathi, S/o Shri S.N. Tripathi	UPVC/4557/07	Vill. Anagawa, PO Bedihadal, Distt. Deoria, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/ 06	04.04.77
295	Ballamwar Vishal Ashok	MahaSVC/7631/	In front of Post Office, Ammori, Distt. Gadchiroli- 441208, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	09.01.83
296	Balram Ahirwar, S/o Shri Khilan Prasad Ahirwar	MPSVC/2333/06	Village Khudai, PO Sevas Sagar, Sagar, MP	BVSc&AH/IGKVV/06	10.12.74
297	Balsaraf Satish Maruti	MahaSVC/7130/	Kolhar, Ghotl State Highway, Shekiwadi, Tal. Akole, Dt. Ahmednagar, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	01.05.81
298	Balwantkar Sunil Satwaji	MahaSVC/7542/	A/p Sagroli, Tal. Biloli, Distt. Nanded, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	02.02.83
299	Bamne Swati Shivajirao	MahaSVC/7349/	Near Kamleshwar Kanya Vidyalya, Vidya Nagar, Jalkot Road, Uogir, Distt. Latur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	10.07.82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
300	Bandita Aruk, D/o Sh. B. Aruk	OVC/2039/06	A/PO Anal, Via M.K. Gola, Distt. Dhenkanal-759024, Orissa	BVSc&AH/OUAT/05	14.09.80
301	Banita Singha, D/o Sh. Narhar Chand Singha	DVC/0612/02	H.No. 234, Vasudha Aptss Plot No. 41, Sector-9, Rohini, New Delhi	BVSc&AH/RAU/03	06.11.76
302	Bankar Pravin Suryakant	MahaSVC/7584/	'Prayag' Niwas, Sainagar, Tehsil Road, Telhara, Distt. Akola-444108, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	29.11.83
303	Banshraj Prasad Patel, S/o Shri L.P. Patel	UPVC/4537/06	Vill. Hanuman Ganj Majra Lauri Than Raipura, Mau, Chittrakut, Uttar Pradesh	BVSc&AH/JNKVV/04	20.02.77
304	Banwari Lal Jindal, S/o Sh. Laddu Lal	RajSVC/3260/06	V&P Narauli Dang, TEH Sapotara Karauli, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	25.04.78
305	Bappa Goswami, S/o Late Sh. Malay Goswami	WBSVC/3255/06	Vill. & PO Sudarsan Nagar, Distt. Dakshin Dinajpur-733121, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/06	16.07.83
306	Barad Dilipsinh Balubhai	GUJSVC/2735/06	"Kalpvalli" Samarpan Soc.Nr.Marketing Yard,Kodinar,Dt.Junagadh-362720,Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	27.05.84
307	Barate Abhijit Kashinath	MahaSVC/7730/	Maji Sainik Vasahat, Near Ram Mandir, Apta Miraj, Tal. Miraj, Distt. Sangli, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	01.08.82
308	Barhate Paresh Vinod	MahaSVC/7726/	'Padmini Niwas', Plot No.3, Chandraprabha Colony, Near Ring Road, Jalgaon, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	12.08.83
309	Barkha Sharma, D/o Sh. V.K. Sharma	UVC/183/06	4/1319 TA, Colony, Pantnagar, U.S. Nagar, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/02	08.08.78

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
310	Baruah Bidye, S/o Sh. Thagit Ch. Baruah	ASM/2271/07	Vill. Bhalukmari, PO Gosabari, Nagaon, Assam.	BVSc&AH/AAU/07	01.09.82
311	Baruah Dharmondra, S/o Sh. Mohan Ch. Baruah	ASM/2242/06	Vill. Lachit Nagar, PO Khubalia, Distt. Dhomaji-78705, Assam	BVSc&AH/AAU/06	31.07.81
312	Baruah Kongkon, S/o Late Sh. Jogeswar Baruah	ASM/2270/07	C/o Late Sh. Jogeswar Baruah, Vill. Samarikhowa, P O Biswanath Chariali, Sonitpur, Assam-784176	BVSc&AH/AAU/07	01.03.78
313	Basalingappa, S/o Sh. Sharanappa	KarSVC/3839/06	B.S. Digge, Balwadi, Via Wadi (Jn), Chittapur Tq., Gulbarha Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	22.07.81
314	Basappa Amalazeri, S/o Sh. Mallappa	KarSVC/3833/06	Inam Hanchinal-587301, Chullyal ARSI, Jamkhandi Tq. Bagalkot Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	30.04.82
315	Basavaraj Gomadi, S/o Sh. Malleshappa P Gomadi	KarSVC/3957/07	2259, Sector No. 11, Mahanthesnagar, Belgaum-590016, Karnataka	BVSc/UAS, B'lore/83	01.07.57
316	Basavaraj S. Bhajantri, S/o Sh. Siddappa	KarSVC/3862/06	Hallur-587115, Bagalkote Tq. & Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	22.06.83
317	Basavaraja K.N., S/o Sh. Naganagoud	KarSVC/3944/06	Morigere-583220, H.B. Halli, Bellary Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	01.09.83
318	Bate A. Azia Abdul Dawood	MahaSVC/7253/	Bate Villa, Familymal, Dapoli, Tal. Dapoli, Distt. Ratnagir, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/02	15.09.78
319	Baviskar Bahar Shrikrishna	MahaSVC/7439/	Judge Hanuman Galli, Post Sakali, Tal. Yaval, Distt. Jalgaon, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	03.03.83

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
320	Bedre Dattatrya Kisanrao	MahaSVC/7725/	Bazar Chouk, Yermala, Tal. Kallamb, Distt. Osmanabad-413525, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	01.05.80
321	Beenu Bhdoria, D/o Sh. Ramesh Singh Bhdoriya	LVC/246/06	33, Van Vihar, Ballupur, Dehradun, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/96	05.06.71
322	Begum Sonuwara, D/o Md. Nasiruddin Ahmed	ASM/2284/07	Vill. Satgaon (Ambari), PO Udayan Vihar, Distt. Kamrup, Assam	BVSc&AH/AAU/07	26.04.84
323	Bhabanath Prasad Bastia, S/o Sh. Nabaranjan Bastia	OVC/2050/06	At/PO Kalyani Nagar, Distt. Cuttack, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	27.05.82
324	Bhadane Sachin Vishwasrao	MahaSVC/7554/	Karmaveer Nagar, 91, Sakri, Tal. Sakri, Distt. Dhule-424304, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	02.08.80
325	Bhadsarke Kasturi Chandrashekhkar	MahaSVC/7217/	Saguna Baug, Malegaon, Neral, Malegaon, Tal. Karjat, Distt. Raigad, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	05.09.81
326	Bhagat Singh Choudhary, S/o Sh. Jodhraj	RajSVC/3305/06	Govind Xerox, Near Uptehsil Karwas, Kota, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	10.08.78
327	Bhagat Sushil Santoshrao	MahaSVC/7640/	Plot No. 209, LIG-226, Mhada Colony, Wardha-442001, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	09.06.82
328	Bhagawati Naba Krishna, S/o Sh. Balu Ram Nath	ASM/2239/06	Vill Nam Dum Domia Satra, PO Dhing Distt. Nagaon-782123, Assam	BVSc&AH/AAU/06	01.01.78
329	Bhagawati Pallabi, D/o Sh. Anwundra Bhagawati	ASM/2269/07	C/o Mr. A. Bhagawati, Naibari, Bidyapara-781335, Assam	BVSc&AH/AAU/07	28.06.82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
330	Bhagwan Das, S/o Sh. Dallu Ram	RajSVC/3274/06	Gulab Bag Ke Samne, Panchwati Colony, Karauli, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	04.01.79
331	Bhagya Lakshmi P.S.	KeralaSVC/3189/06	Velamparambil House, Near Govt. Press, Uazhoor PO, Kodungoor, Kottayam-686564, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	21.07.81
332	Bhajna Ram Bishnoi, S/o Sh. Harsinga Ram	RajSVC/3278/06	Plot No. 137, Opp. Air Force Area, Jodhpur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	28.11.79
333	Bhalerao Sanjay Mathari	MahaSVC/7558/	338, Choramba, Tal. Dharur, Distt. Beed-431124, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	03.06.79
334	Bhalke Sameer Vajjanathrao	MahaSVC/7731/	At Darkhed, Post Tal. Gaurkhed, Distt. Parbhani, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	05.09.81
335	Bhalodiya Satish Jadavjibhai	GUJSVC/2736/06	At Jabalpur, Ta. Tankara, Distt. Rakot-363650, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	30.03.84
336	Bhamare Nilesh Vitthal	MahaSVC/7713/	House No. 12, P.D.P. Nagar, Satana, Distt. Nasik-423301, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	18.05.82
337	Bhangare Rajendra Dagadu	MahaSVC/7698/	A/p Rajur, Tal. Akole, Distt. Ahmednagar-433604, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	26.10.80
338	Bhanwar Lal Choudhary, S/o Sh. Dhana Ra	RajSVC/3303/06	C/o Sh. Ishwara Singh, Jagdamba Medical Store, Civil Hospital, Barmer, Rajasthan	BVSc&AH/SKNDU/06	25.04.81
339	Bhapkar Prashant Trimbakrao	MahaSVC/7140/	A/p Loni Bhapkar, Tal. Baramati, Distt. Pune-413110, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	15.07.82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
340	Bharali Uday Bhaskar, S/o Sh. Bidya Ram Nath	ASM/2289/07	C/o Sri Bidya Ram Nath, PO Sipajhar Dakshin Chuburi, Darrang, Assam- 784145	BVSc&AH/AAU/07	30.09.83
341	Bharat Chand, S/o Sh. Kundan Chand	UVC/266/07	Lohiya Pul, Sitargang Road, PO Khatima, Distt. U.S. Nagar, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/8 0	22.12.55
342	Bharath B.K., S/o Sh. Kantharajappa B.R.	KarSVC/3936/06	Bisalere-577116, Kadur Tq., Chikkamagalur Distt., Kamataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	03.05.83
343	Bharati D.N, D/o R. Doraiswamy	And&NicoSVC/80/00	C/o Sunil, Goalghar, Port Blair, Andman&Nicobar	BVSc/TNVASU/00	9.9.76
344	Bharatkumar Kintali, S/o Shri Govindarajulu	APSVC/4485/06	Uttaravalli (P), Rajam (Via.), Vizianagaram Dt.-535124, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	17.07.83
345	Bhartiya Anand Vijay	MahaSVC/7132/	A/p-Kolsa, Tal. Sengaon, Distt. Hingoli, C/o Santosh Dwarkadas Agarwal, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	31.07.81
346	Bhaskar R., S/o Sh. Ramappa	KarSVC/3889/06	Abloodu-562105, Kidlaghatta Tq., Kolar Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	25.08.81
347	Bhaskar Somnath Ramdas	MahaSVC/7424/	A/p Bhenda, Tal. Newasa, Distt. Ahmednagar-414605, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	01.06.81
348	BHASKARAN RAVI LATHA W/o M.MURALI GANAM	TNVC/1792/05	NO.80, GAJAPATHY STREET, SHENOY NAGAR, CHENNAI 600 030	BVSc/TNAU/88	29-05-64
349	Bhinwa Ram Bayal, S/o Sh. Baiba Ram	RajSVC/3311/06	VPO Bagholi, Via Saray, Jhunjhunu, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/05	01.01.75

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
350	Bhojane Nagnath Martand	MahaSVC/7432/	A/p Chikhali, Tal. Osmanabad, Distt. Osmanabad-413501, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	10.11.81
351	Bhoop Kumar Lakesar, S/o Sh. Sheyo Chand Ram Lakesar	Pb.SVC/2647/06	C/o Ram Pratap, Basant Nagar, Street No. 3, Abohar Distt. Firozpur, Punjab	BVSc&AH/RAU/06	10.06.78
352	Bhoopender Singh, S/o Sh. Karan Singh	DVC/0613/02	65/Pkt A-00/SecII (60m), Avantika, Rohini, Delhi-110085	BVSc&AH/HAU/88	08.03.65
353	Bhoopendra Kumar, S/o Shri Suresh Chandra	UPVC/4482/06	Vill. Horchi, PO Nidholi Kalan, Distt. Etah, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/06	22.10.78
354	Bhosale Devendra Dattatraya	MahaSVC/7223/	Matru Pitru Krupa, Taliwadi, Guhagar, Tal. Guhagar, Distt. Ratnagir, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	18.06.80
355	Bhosale Santosh Pralhad	MahaSVC/7488/	C/o Shri Pralhad D. Bhosale, At Divthana, PO-Peth, Tal. Chikhali, Distt. Buldana, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	28.08.82
356	Bhosale Yogesh Devidas	MahaSVC/7444/	C/o D.V. Bhosale, Vishwasada n, Balaji Nagar, Nr Rammandir, Omerga, Tal. Omerga, Dt- Osmanabad, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	19.06.80
357	Bhoyar Sachinkumar Ghansham	MahaSVC/7175/	'Krishnkujn', Dhampuri Road, Hanumna Nagar, Desaiganj, Tal. Desaiganj, Dt. Gadchiroli, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	21.09.81
358	Bhujbal Raju Nivrutti	MahaSVC/7242/	A/p Ghargaon, Tal. Sangamner, Distt. Ahmednagar-422620, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	25.12.81
359	Bhupinder Mohan Julka, S/o Sh. Ram Parshad Julka	Pb.SVC/2665/06	49, Shivalik Enclave, Chandigarh Road, Nawan Shahr-225012, Punjab	BVSc&AH/PAU/64	22.12.40

<i><b>SNUM</b></i>	<i><b>NAME</b></i>	<i><b>RNUM</b></i>	<i><b>ADD</b></i>	<i><b>QUALIF</b></i>	<i><b>DOB</b></i>
360	Bhuyan Naba Jyoti, S/o Sh. Suren Bhuyan	ASM/2261/07	Panigaon Charali, Netaji Road, Nagaon, Assam- 782001	BVSc&AH/AAU/07	31.12.80
361	Bibha Kumari, S/o Sh. Naresh Prasad	BVC/2651/05	Vill. Kajichak, PO Rannathpur, PS Sermera- 811104, Distt. Nalanda, Bihar	BVSc&AH/BAU/05	27.12.79
362	Bibhu Prasad Panda, S/o Sh. Devaraj Panda	OVC/2059/06	At Qr. No. 2RA (F) 16/4, Unit-9Flat, PO Sahid Nagar, Bhubaneswar-22, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	01.07.81
363	Bibi George	KeralaSVC/3180/06	Mevada House, SRM Road, Kochi-682018, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	05.02.83
364	Bijay Kumar Behera, S/o Sh. Niranjan Behera	OVC/2097/07	At Talagarh, PO Balianta, Distt. Khurdha, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	27.04.83
365	Bijay Kumar, S/o Sh. Bindeshwari Prasad Purve	BVC/2656/05	Vill. Raniganj, Shikshak Colony, PO Merryganj, PS Raniganj-854334, Distt. Araria, Bihar	BVSc&AH/BAU/05	22.01.80
366	Bikash Chakraborty, S/o Sh. Sri Sagar Chakraborty	WBSVC/3222/06	Bhakatpara, PO Raghunathpur, Distt. Purulia-723133, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 5	17.06.83
367	Bikash De, S/o Sh. Tirthapada De	WBSVC/3277/06	Vill. & PO Gholkunda, Distt. Bankura-722101, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	05.12.82
368	Bikash Sethy, S/o Sh. Brudaban Sethy	OVC/2096/07	At Tipiri (Sirasta), PO Pailo, Via Kolar, Distt. Jagatsinghpur, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	16.07.79
369	Bilewar Dilip Shriram	MahaSVC/7626/	Bhagirathi Nagar, Sarode Layout, Gudadhi, Tal./Distt. Akola-444001, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	02.07.83



<b>SNUM</b>	<b>NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALIF</b>	<b>DOB</b>
370	Binayak Singh, S/o Sh. Arvind Prasad	BVC/2677/05	Vill. Parsdiha, PO Parsdiha, PS Negar Nausa-801305, Distt. Nalanda, Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/05	15.02.81
371	Bincy Joseph	KeralaSVC/3121/06	Thayyil House, Thottumukkam PO, Arescode Via, Malappuram Dt.- 673639, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	06.05.82
372	Bindu Kiranmayi Ch. D/o Shri Venkata Swamy	APSVC/4452/06	D.No. 7-28/1, Tulasamma Street, Poranki-521137, Krishna Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	28.11.82
373	Bindu Badopant Kulkarni, S/o Sh. Bandopant Narayan	DVC/0598/02	30, Mahadev Road, New Delhi	BVSc&AH/KKV/81	09.09.59
374	Binod Kumar Paswan, S/o Sh. Surendra Paswan	BVC/2659/05	Vill. Chakia, PO Chakia, PS Baheri-847201, Distt. Darbhanga, Bihar	BVSc&AH/BAU/05	05.03.80
375	Biradar Shrikant Muralidhar, S/o Sh. Muralidhar	KarSVC/3859/06	Manikeshwari Nivas, Basava Colony, Humnabad-585330, Bidar Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	01.06.84
376	Birajdar Prashant Gunderao	MahaSVC/7471/	302, Shree Krishna CHS, RDP-8, Plot No. 212, Charkep Sec-3, Kandivall (W), Mumbai, Maharashtra	BVSc&AH/MAFBU/05	03.01.83
377	Birinder Pal Singh, S/o Sh. Avtar Singh	Pb.SVC/2663/06	818, St. No. 2, Near CIA Staff, Nansak Nagri, Moga, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/06	05.11.82
378	Bismita Nandi, D/o Sh. Bijay Kumar Nandi	OVC/2130/07	At Dumichak, PO Devog, Via Singla, Distt. Balesore, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	02.01.83
379	Biswa Ranjan Maharana, S/o Sh. Balkunthanatha Maharana	OVC/2066/06	At Soubhagyamanjari Lane, PO/Diatt. Nayagarh, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	11.07.81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
380	Biswajit Das, S/o Sh. Chitanya Charan Das	OVC/2094/07	At/PO Purunabasanta, Via Nailbar, Distt. Jagatsinghpur, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	02.07.80
381	Biswajit Mondal, S/o Sh. Dhanapati Mondal	WBSVC/3274/06	At Balarampur (Station Road), PO Rangadih, Distt. Purulia, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/06	02.01.82
382	Biswajit Swain, S/o Sh. Mayadhar Swain	OVC/2074/06	At-C/4, PF Colony, PH-1, Sahid Nagar, Bhubneswar, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	20.06.82
383	Biswaranjan Tripathy, S/o Sh. Brahmananda Tripathy	OVC/2052/06	At Titigan, PO Savamula, Distt. Jagatsinghpur, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	02.06.81
384	Bobade Shyam Prabhakar	MahaSVC/7157/	Himversha Apartment, Plot No. 177, Pande Layout, Khamla, Nagpur-25, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	04.01.80
385	Bodemwad Uttam Sriram	MahaSVC/7290/	Main Road, Datala, Tal. Kandhar, Distt. Nanded-431707, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	10.05.78
386	Bodkhe Avinash Machhindra	MahaSVC/7600/	Nagpur Veterinary College, Servant's Quarters No. L/5, Seminary Hills, Nagpur-06, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	30.12.82
387	Bodkhe Suchita Shallgram	MahaSVC/7169/	24, Rajapeth, Hudkeshwar Road, Nagpur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	08.05.81
388	Bole Pravin Ramkrushna	MahaSVC/7342/	Washim Road, Patur, (Nanasaheb) Tal. Patur, Distt. Akola, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	27.07.78
389	Bombatkar Rahul Shallgram	MahaSVC/7593/	A/p Belkhed, Tal. Telhara, Distt. Akola-444108, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	11.03.83

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
390	Bommana Srivani, D/o Shri B. Dali Raju	APSVc/4484/06	D/o M Dhana Lakshmi, M.P.H.A(W), Bamm Idi St, Korasavada(P), pathapatn am (M), Srikakulam Dt.- 532214, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	24.12.81
391	Bondra Sachin Chhaganappa	MahaSVC/7181/	Ratnaprabha Niwas, Ganesh Nagar, Chikhli, Tal. Chikhli, Distt. Buldana, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	08.10.78
392	Bonia Rajbi, S/o Sh. Jagat Ch. Bonia	ASM/2272/07	Pichalguri (Narayanpur), PO Madhabpur, Distt. North Lakhimpur-784164, Assam	BVSc&AH/AAU/07	01.03.82
393	Borada Vijaya Panditrao	MahaSVC/7566/	'Ashirwad', Vishnu Nagar, Parbhani-431401, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	07.02.81
394	Borah Rituraj, S/o Sh. Soneswar Borah	ASM/2285/07	Vill. Dichial, PO Khona- Khokora, Distt. Sivasagar, Assam	BVSc&AH/AAU/07	01.01.83
395	Borde Archana Uttamrao	MahaSVC/7385/	'Snehdeep', 69, Ramkrishna Nagar, Tal. Distt. Parbhani- 431401, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	13.03.82
396	Bordoloi Gautam, S/o Late Sh. Satyen Bordoloi	ASM/2263/07	Vill. Majarati Garubat, PO Majarati, Distt. Nagaon, Assam-782002	BVSc&AH/AAU/07	31.03.80
397	Bordoloi Smita, D/o Dr. Mridu Pawan Hazarika	ASM/2275/07	C/o Mr. M.P. Hazarika, Kholmati, Ward No. 14, North Lakhimpur, Distt. Lakhimpur, Assam	BVSc&AH/AAU/07	14.12.81
398	Borekar Vivek Ishwar	MahaSVC/7394/	Vaishnv Nagar, Datta Mandir Ward, Mohbala Road, Warora, Tal. Warora, Dt. Chandrapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	21.06.82
399	Borkat Pradnyankur Laxman	MahaSVC/7623/	Near D. Pharmacy College, Amgaon, A/p Tal. Amgaon, Distt. Gondia-441902, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	20.11.81

<b>SNUM</b>	<b>NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALIF</b>	<b>DOB</b>
400	Borkotoky Dobajyoti, S/o Sh. Pronit Ch. Borkotoky	ASM/2265/07	Ramkrishna Nagar, Khelmati Tiniail, Jorhat-8, Assam	BVSc&AH/AAU/07	15.01.82
401	Boro Daisy, D/o Late Sh. Indra Mohan Boro	ASM/2286/07	VIII. Patgaon (Near Pepsi-gate), PO Azara, Guwahati-17, Kamrup, Assam	BVSc&AH/AAU/07	02.01.83
.2	Boro Prince, S/o Sh. Mohendra Nath Boro	ASM/2262/07	Dorika Kinar Nawajan Gaon, PO Namtlal Pathar, Distt. Sivasagar, Assam	BVSc&AH/AAU/07	03.04.80
403	Borse Veeraj Ashok	MahaSVC/7721/	Plot No. 93, Shriya, Shrirang Colony, Deopur, Dhule-424005, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	21.12.82
404	Brahmankar Mahesh Ganpat	MahaSVC/7610/	44, Shantishram, Oswal Nagar, Deopur Dhule, Tal./Distt. Dhule-424005, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	08.09.82
405	Braj Mohan Gupta, S/o Shri R.N. Gupta	UPVC/4521/06	VIII. Sohsa Patli Gausi Chapra, PO Kurmauta, Kushinagar, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/99	07.03.71
406	Brajesh K. Vishwakarma, S/o Shri S.N. Vishwakarma	UPVC/4505/06	151, Sanjay Gandhi Nagar, Naubasta, Kanpur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/06	10.01.80
407	Briaketu Kumar, S/o Sh. Madhav Sharan Singh	BVC/2625/05	VIII. Shivgadh, PO Datiyana, PS Vikram Pali, Distt. Patna, Bihar	BVSc&AH/AAU/05 <sup>c</sup>	01.03.80
408	Budruk Vikas Vilas	MahaSVC/7692/	3811/115, Gangai Niwas, Datta Nagar, Barshi, Distt. Solapur-413401, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	16.06.83
409	Bulbule Namdeo Rajendra	MahaSVC/7487/	"Matoshree", Mangahwarpeth, Paranda, A/P/T-Paranda, Distt. Osmanabad-413502, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	10.10.83

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
410	Burse Nilesh Arunkumar	MahaSVC/7246/	Jain Galli, Hingoli-421513, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	09.02.81
411	Bute Vikram Suresh	MahaSVC/7707/	14, Skylark, Khandala, Tal. Khandala, Distt. Satara-412802, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	10.06.84
412	C. ANBARASU S/O R.CHINNUSAMY	TNVC/2448/05	NO.1, SOZHIA MUDALIAR STREET, MOHANUR 637 015, NAMAKKAL DISTRICT	BVSc/TANUVAS/98	26-05-75
413	C. BALACHANDRAN S/o RAAMA.CHIDAMBARAM	TNVC/0783/05	C-BLOCK, G-2, MARUTHI NAGAR, 40, VELLALA STREET, ADAMBAKKAM, CHENNAI 600 088	BVSc/TNAU/80	28-07-57
414	C. BALUSAMI S/o T.CHINNAPPAN	TNVC/0961/05	SANKARAN STREET (SOUTH), PAPPANADU POST, ORATHANADU TALUK, THANJAVUR DT 614 626.	BVSc/TANUVAS/98	20-05-75
415	C. BANDESWARAN S/o S.CHINNAONDI	TNVC/2987/05	ALAMARATHU KADU, KURUMBANUR P.O. METTUR T.K. SALEM DISTRICT 636 303	BVSc/TANUVAS/96	02-05-73
416	C. CHANDRAHASAN S/o P.CHINNASAMY	TNVC/1255/05	HOGINAKKAL ROAD, MADAM VILLAGE, PENNAGARAM P.O. DHARMAPURI DISTRICT	BVSc/TNAU/79	16-08-55
417	C. KATHIRVELAN S/o V.CHINNADURAI	TNVC/0676/05	VELLAKUTTAI POST, VANIAMBADI, VELLORE DIST. 635 752	BVSc/TANUVAS/00	19-05-76
418	C. MADHAN MOHAN S/o A.CHELLAPPA	TNVC/1706/05	40 / 1, ANJU STREET, VADASERY, NAGERCOIL, KANYAKUMARI DIST. PIN 629 001	BVSc/TANUVAS/95	02-06-72
419	C. Nelson Jaikumar, S/o Sh. R. Chandramohan	TNVC/3659/06	7, Thirumanjana Veedhi, Nr Raghavendra Blood Clinical Laboratory, Sirkali-609110, Nagai Distt.	BVSc/TANUVAS/98	19.05.72

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
420	C. PANDIAN S/o C. CHINNADURAI	TNVC/1287/05	11 / 34 B1 - THETHAKUDI SOUTH P.O. VEDARANIAM TK. NAGAI PATTINAM DISTRICT PIN 614 809	BVSc/TANUVAS/00	07-04-75
421	C. PANDIYAN S/o S.K. CHINNUSAMY	TNVC/2981/05	SALAPPALAYAM, REDDIPATTY POST, NAMAKKAL 637 001	BVSc&AH/MPKVP/96	20-07-73
422	C. PAUL PRINCELY RAJKUMAR S/o V. CHELLAPPA	TNVC/0884/05	7, KAMATCHI AMMAN KOIL STREET, SIMMAKKAL, MADURAI 625 001.	BVSc/TANUVAS/00	06-04-75
423	C. PAZHANIYANDI PILLAI S/o P. CHIDAMBARATHANU PILLAI	TNVC/1865/05	22-32, CHIDAMBARA BHAVAN, WESTERN STREET, ERANIEL, NEYYOOR P.O. 629 802 K.K. DISTRICT	BVSc/Uni of Madras/69	25-11-41
424	C. RAMANI W/O L. NAGARAJAN	TNVC/3049/05	42C, RAMALINGA NAGAR II STREET, VIRUGAMBAKKAM, CHENNAI 600 092	BVSc&AH/KAU/87	07-05-64
425	C. SENTHAMIL PANDIAN S/o P. CHINNASAMY	TNVC/2005/05	BENGHALLI, BEDRAHALLI POST, DHARMAPURI DIST 636 803.	BVSc/TANUVAS/00	10-05-75
426	C. SUGUMAR S/o S. CHINNA DURAI	TNVC/2761/05	F-3, SARAVANA HOME, BAJANAI KOIL STREET, SEPOY GARDEN, VADAPALANI, CHENNAI 600 026.	BVSc/TANUVAS/00	23-06-77
427	C. THEIVAVIRUTHAM S/o R. CHANDRASEKARAN	TNVC/3250/05	KOVILTHAVU, ADHANUR POST, AYAKKARANPULAM VIA, VEDARANIAM TALUK, NAGAPATTINAM DIST 614 707.	BVSc/TANUVAS/95	05-03-72
428	C. THEOPHILUS ANAND KUMAR S/o J. L. C. DEVADOSS	TNVC/1544/05	14, 9TH STREET, GANDHI NAGAR, TIRUVANNAMALAI 606 601.	BVSc/TANUVAS/94	04-10-70
429	C. VENKATASUBBA RAO S/o C. BHARADWAJAH	TNVC/1396/05	19 / 13, IST STREET, ASPIRAN GARDEN, KILPAUK, CHENNAI 600 010	BVSc/Uni of Madras/64	12-09-37

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
430	C.Ashok Kumar, S/o A.Chockalingam	TNVC/3518/06	112, Poriayar Ng, Thirumalpuram PO, Madurai-625014, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/98	28.05.75
431	C.Kuppan, S/o Late C.Chinnaswamy	TNVC/3398/06	2/36, Ammanur Vill, Periaveni Po, Cheyyur Taluk, Kancheepuram Dt, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/82	15.03.57
432	C.MANIVANNAN S/O S.CHINNAIYAN	TNVC/2706/05	DOOR NO.235, FOURTH STREET, NATARAJAPURAM SOUTH COLONY, THANJAVUR 613 007	BVSc/TANUVAS/95	07-02-72
433	C.Mathivathani, D/o B.Cattavarayane	PondiSVC/285/06	NO.27, Mariamman, Koil Street, Ellaipalaichavady, Pon dicherry-5	BVSc&AH/Pondi Uni/05	4.09.83
434	C.N. CHINNASWAMI S/o R.NANJAPPA GOWDER	TNVC/3238/05	CHIKKARAMPALAYAM (PO) KARAMADAI VIA COIMBATORE DISTRICT	BVSc/Uni of Madras/73	25-08-50
435	C.N. DHAKSHAYANI S/o C.V.NATESAN	TNVC/0702/05	G-4, PRAKRTI, FLATS, NO.367&368, 100 FEET ROAD, VIJAYA NAGAR, VELACHERY, CHENNAI 600 042	BVSc/Uni of Madras/67	24-01-42
436	C.P. Singh Chauhan, S/o Shri B.S. Chauhan	UPVC/4515/06	Vill. Janupur, PO Boury, Distt. Ghazipur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/ 01	22.08.75
437	C.SOUNDARARAJAN S/O M.CHINNAIYAN	TNVC/2443/05	MELKAIRPUR VILLAGE & POST, KANCHEEPURAM 631 502, KANCHEEPURAM DISTRICT	BVSc/TANUVAS/92	25-07-69
438	C.T.A.BALRAJ S/o C.BALRAJ	TNVC/1735/05	NO.41, (OLD 19) 4TH AVENUE, ASHOK NAGAR, CHENNAI 600 083	BVSc/Uni of Madras/55	25-08-32
439	C.V.S.DAVID S/O D.S. DAVID	TNVC/2613/05	32, III MAIN ROAD, KRISHNA NAGAR, CHROME PET, CHENNAI 600 044	BVSc/Uni of Madras/73	24-03-50

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
440 C.VEERAPANDIAN S/O A.CHITRAVELAN	TNVC/2330/05	B-23, ORCHARD WESTEND, 1, VELAMMAL SCHOOL ROAD, MOGAPPAIR EAST, CHENNAI 600 037	BVSc/TNAU/79	26-09-57
441 C.Venkatesan, S/o G.A.Chellappa Patel	PondiSVC/293/06	Bagyam, 23Thokapiar Street, Ashok Nagar, Pondicherry	BVSc&AH/Pondi Uni/05	8.01.84
442 Ch. Deepak Ranjan Mohapatra, S/o Dr. Rajendra Ku Mohapatra	OVC/2112/07	A/PO Bhutamundai, Via Kujang, Distt. Jagatsinghpur, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	07.08.81
443 Ch. THIRUGNANA SAMBANDAN S/o CHENNA BASAVAIYA	TNVC/2017/05	10, CAVERY NAGAR, MUSIRI - BY PASS ROAD, MUSIRI, TRICHY DT.	BVSc/TNAU/77	07-04-54
444 Chabungbam Sangeeta Devi S/o Chabungbam Ibomcha Singh	DVC/0601/02	48, Ajit Arcade, Kailash Colony, New Delhi-110048	BVSc&AH/AAU/98	24.03.75
445 Chaitanya Yalavarthi, D/o Shri Soma Sundara Rao	APSVC/4495/06	D.No. 74-31/1-15, Raghu Gardens, Ashok Nagar, Vijayawada-7, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVU/06	20.06.83
446 Chaithra B.S., D/o Sh. Swamy S.	KarSVC/3902/06	351, 1st Cross, Kaverinagar, Mandya- 571401, Mandya Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	01.04.84
447 Chakradhar Bhogi, S/o Shri Sayiraju	APSVC/4504/06	Muttavari Street, Pravathipuram, Vizianagaram Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVU/06	15.01.81
448 Chandan Ghosh, S/o Sh. Asoke Kumar Ghosh	WBSVC/3256/06	National High Road, PO Rampurhat, Distt. Birbhum- 731224, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	01.02.82
449 Chandan Prakash, S/o Sh. Rajendra Kumar	RajSVC/3308/06	Plot No. 109, Shiv Colony, Kishangarh Bas, Alwar, Rajasthan	BVSc&AH/CSAUA&T/ 06	04.07.83



<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
450	Chandankhede Jayantkumar Mansaram	MahaSVC/7629/	Tukum Ward, Desaiganj, Distt. Gadchiroli-441027, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	14.10.83
451	Chandra Mouli D. Bala, S/o Sh. D. Hari Narayana	DVC/0636/04	D-6, Flat 6143/4, Vasant Kunj, New Delhi-110070	BVSc&AH/APAU/72	15.08.49
452	Chandra Prakash, S/o Sh. D.C. Agarwal	RajSVC/3316/06	C/o Bhagat Ram Vijay, 85, Adarah Nagar, Malpura, Tonk, Rajasthan	BVSc&AH/CSAKEPV V/87	29.11.72
453	Chandra Shekar K.M., S/o Sh. Muniawamy P.	KarSVC/3922/06	C/oLakshminarasimha,41Be hind Shailendra Vidya Mandira,R.KExtn.Srinivesap ura Kolar Dt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	20.06.83
454	Chandra Shekar Verma, S/o Shri Sarju Prasad Verma	UPVC/4387/06	1/743, Vikas Nagar, Lucknow,Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/0 6	02.06.78
455	Chandra Shekhar Dubey, S/o Shri Suresh Chandra	MPSVC/2345/06	201, Meera Colony, Aam Ke Pass, Bhand, Bhand, MP	BVSc&AH/IGKV/05	01.07.79
456	Chandrabhan Yadav, S/o Shri J.S. Yadav	UPVC/4478/06	VIII, Arjun Patti, PO Handia, Distt. Allahabad,Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/ 06	01.12.75
457	Chandralah M.B., S/o Sh. Basavaiah	KarSVC/3934/06	Makall, Settikere-572226, C.N. Halli Tq., Tumkur Distt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	09.04.82
458	Chandramouli Naik B., S/o Shri Selva Naik B.	APSVC/4524/06	Zillellamanda (V), Pallumgadda (P), Via. Piler, Chittoor Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	28.12.77
459	Chandrapal Singh, S/o Shri Bhikham Singh	UPVC/4490/06	VIII. & PO Saleemabad, Tahkirohi, Distt. Agra,Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/ 06	30.05.81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
460	Chandrashekar M.P., S/o Sh. Muniyappa K.B.	KarSVC/3948/06	677, 29th Main BTM, 2nd Stage, Bangalore- 560076, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	09.09.79
461	Chandravati Tipani, D/o Shri Sarveshwar Rao	APSVC/4499/06	Perika Street, Venkatapuram, Khammam Dt.-507136, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	06.02.82
462	Chanini K.G.	KeralaSVC/3131/06	B/5, Chitra Nagar, Vattiyookavu, Tvm- 695013, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	29.05.81
463	Channabassappa Hallad, S/o Sh. Virupaxappa	KarSVC/3857/06	S/o V.C. Hallard, Kallimath Oni, Navalgund Tq., Dhanwar Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	23.10.81
464	Chappalwar Anita Maroti	MahaSVC/7121/	Santosh Vijay Niwas Natkar Colony, Degloor, Tal. Degloor, D.Nanded, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	01.05.82
465	Charit Jyoti Boruah, S/o Sh. Arun Dev Chaudhary	DVC/0661/06	C-44C, II Floor, Opposite Indane Gas Agency, Shivaji Enclave, New Delhi-27	BVSc&AH/AAU/97	22.04.73
466	Chaudhari Amit Kumar Ramjibhai	GUJSVC/2692/06	Motavas, PO Charada, Ta. Mansa, Distt. Gandhinagar- 382810, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	26.09.83
467	Chaudhari Atul Arun	MahaSVC/7212/	A/p Avahe, Tal. Jalgaon, Distt. Jalgaon, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	05.08.81
468	Chaudhari Girish Hari	MahaSVC/7659/	'Harish Building', Pratibha Nagar, Varangaon, Tal. Bhusawal, Distt. Jalgaon- 425305, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	22.07.84
469	Chaudhari Mahesh Vishwas	MahaSVC/7674/	Plot No. 18 (B), Sanjivani Nagar, Chopda, Distt. Jalgaon, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	16.09.82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
470	Chaudhari Pushparaj Pundlik	MahaSVC/7303/	At/P Borkhede, Tal. Dharangaon, Distt. Jalgaon, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	01.05.82
471	Chauhan Prakash Kumar Mohanbhai	GUJSVC/2693/06	S.T. Colony, Supervisor Qtr.No.20,Highway Road,Palanpur,Dt. Banaskantha,Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	25.07.84
472	Chavan Santosh Bajirao	MahaSVC/7384/	M.S.E.B. Colony, Shahu Nagar, Back Side of Pole Factory, Tal. Dt. Beed, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	08.07.79
473	Chavan Somnath Kundalik	MahaSVC/7441/	At Post Bhavinimgaon, Tal. Shevgaon, Distt. Ahmednagar-414502, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	23.06.82
474	Chavan Vinod Vilasrao	MahaSVC/7370/	A/p Pokhrud, Tal. Bhoom, Distt. Osmanabad, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	22.06.82
475	Chavan Vrushali Pramod	MahaSVC/7686/	Devdarshan, Flat No. 13, 2nd Floor, Road No. 1, T.P.S. VI, Santacruz (W), Mumbai, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	01.09.83
476	Chavhan Dinesh Manoharrao	MahaSVC/7597/	At Fattepur, Post Surali, Tal. Warud, Distt. Amravati-444906, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	09.07.83
477	Chavhan Prashant Bandu	MahaSVC/7590/	Taj Nagar, Digras, Distt. Yavatmal-445203, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	17.09.82
478	Chawade Sharada Pandharinath	MahaSVC/7418/	C/o Mr. P.V. Chawade, Kacheri Road, Akole, A/p Akole, Tal. Akole, Distt. Ahmednagar, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	23.11.82
479	Chede Ganesh Annasaheb	MahaSVC/7663/	C/o A.B. Chede, Jaikwadi Colony, Selu, Distt. Parbhani-431503, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	27.08.81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
480	Chenchu Maria Kiran K.	KeralaSVC/3158/06	Kodiyath House, Ayyanthole Road, Pothole PO, Thrissur-680004, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	25.05.82
481	Chepte Sharad Dnyandeo	MahaSVC/7614/	Plot No. 87, Sambhaji Nagar, Near Bhokardhan Naka, Jalna-431203, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	05.01.82
482	Chetan Damodar Yadav, S/o Shri Yadav Damodar	APSVC/4439/06	Blue Cross of Hyderabad, Plot No. 403/9, Road No. 35, Jubilee Hills, Hyderabad- 35, Andhra Pradesh	BVSc&AH/MAU/96	12.01.73
483	Chetan, S/o Sh. Sal Narah	Pb.SVC/2670/06	222, St. No. 4, New SBS Colony, Rampura Phul, Bathinda, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/ 06	27.06.82
484	Chethan C.P., S/o Sh. Poovaiah C.M.	KarSVC/3939/06	Near Kuppattu Bridge, Kokeri Village, Cheyandane- 571212, South Coorg., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	22.10.83
485	Chetna Gangwar, D/o Shri B.S. Gangwar	UPVC/4424/06	Ajampur, Barthera, Distt. Pilibhit, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/0 6	10.11.82
486	Chetry Arun Jyoti, S/o Sh. Sher Bahadur Chetry	ASM/2255/06	Bokekhat Town, Ward No. 2, PO Bokakhat, Distt. Golaghat-785612, Assam	BVSc&AH/AAU/06	06.02.82
487	Chetry Smita, D/o Sh. H.K. Chetry	ASM/2249/06	C/o Late Sh. H.C. Puri, Subochini Road, Chalia Nagar, Tinsukla, Assam	BVSc&AH/AAU/06	19.03.83
488	Chikbire Satyadeep Birappa	MahaSVC/7231/	New Colony, A/p Peth, Vadgaon, Tal. Hatkanougale, Distt. Kolhapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	10.10.81
489	Chimote Meena Janardhan	MahaSVC/7408/	Ward No. 7, Galbardi, Mohpa, Tal. Kalmeshwar, Nagpur-441502, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	20.09.82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
490	Chincholikar Sachin Mohanrao	MahaSVC/7465/	Main Road, Kaij, Near Bhu- Vikas Bank, Kaij, Tal. Kaij, Distt. Beed-431123, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	08.12.81
491	Chinmaya Kumar Sahoo, S/o Sh. Dharanidhar Sahoo	OVC/2085/06	At Belpal, PO Bandhapatana, Distt. Kendrapara, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	05.07.81
492	Chinmoy Mishra, S/o Sh. Sachidananda Mishra	OVC/2110/07	At Sabideipur, PO Binayakpur, Via Sarankul, Distt. Nayagarh, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	02.08.83
493	Chirayu Goswami, S/o Sh. Pankaj Goswami	RajSVC/3293/06	4-E-55, JNV Colony, Bikaner, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	11.12.79
494	Chittaranjan Sena, S/o Sh. Chaitanya Sena	OVC/2037/06	At/PO Sorava, Via Nayahat, Distt. Puri, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	28.09.80
495	Chopade Nilesh Ashok	MahaSVC/7619/	C/o Ashok Vishwanath Chopade, A/p Talkhed, Tal. Motala, Distt. Buldhana- 443101, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	30.01.84
496	Choudhari Soniya Raosaheb	MahaSVC/7282/	C/o R.DChoudhari, Nr Dr.Lodha's Old Hospital, Majir Chouk, Main Road, Majalgaon, Beem, Mah arashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	18.02.82
497	Chutia Gauri Sankar, S/o Sh. Guna Chutia	ASM/2256/06	Vill. & Post Gogamukh, Distt. Dhomaji- 787034, Assam	BVSc&AH/AAU/06	01.03.81
498	CS. SAKTHIVELAN S/o K.CHINNUSAMY	TNVC/3137/05	5 / 25, SINGILIPATTY, L.KANAVAIPATTY POST, NAMAKKAL TK & DT, PIN : 637 002.	BVSc/TANUVAS/95	20-06-72
499	D. ANANDHA PRAKASH SINGH S/O M.DHARMALINGAM	TNVC/2414/05	THALUTHALAI POST, ARUMBAVUR VIA, PERAMBALUR DISTRICT PIN 621 103	BVSc/TANUVAS/95	12-07-72

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
500	D. BASHEER AHAMAD S/o M.DASTAGIR	TNVC/0831/05	E-123, PWD QUARTERS, THOD HUNTER NAGAR, SAIDAPET, CHENNAI 600 015.	BVSc/TANUVAS/96	26-03-73
501	D. BASKARAN S/o M.DHARMAR	TNVC/2905/05	221 / 105, SECRETARIAT COLONY 9TH STREET, KELLYS, CHENNAI 600 010	BVSc/TNAU/89	31-05-67
502	D. CHANDRASEKARAN S/o R.DORAISAMY	TNVC/1669/05	43A, P.V.R. ROAD, GANDHI NAGAR, NAMAKKAL 637 001.	BVSc/TNAU/77	22-07-54
503	D. DAKTSHINA MOORTHY S/o S.DANDAPANI	TNVC/3134/05	275 / G3, BALAJI NAGAR, THIRUVALLUVAR SALAI, POTHANUR POST, P.VELUR TK, NAMAKKAL DIST, PIN : 637 181.	BVSc&AH/PRKVP/94	16-02-71
504	D. EBENEZER S/o D.DEVASAHAYAM	TNVC/1919/05	B-5, TOWER BLOCK, TAYLORS ROAD, KILPAUK, CHENNAI - 600010	BVSc/Uni of Madras/65	30-07-42
505	D. FRANCIS SOLOMON S/o K.DEVARAJ	TNVC/2753/05	47, HIG I, 7TH MAIN ROAD, NULAMBUR T.N.H.B. SCHEME, CHENNAI 600 037.	BVSc/Uni of Madras/71	27-06-49
506	D. JAYANATHI W/o.M.RAMASAMY	TNVC/0867/05	4 / 15, WARD NO.15, KARUPPUR POST, OMALUR TK, SALEM 636 012.	BVSc/TANUVAS/00	02-06-76
507	D. Kannadhasan, S/o Sh. K. Devarajan	TNVC/3629/06	Bharathi Metal Mart Vairi Chettipalayam PO, Thuraiyur Taluk, Trichy, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/06	16.05.81
508	D. KANNAN S/o K.DURASAMY	TNVC/3162/05	KOLATHUPALAYAM (PO), SELLAPPAMPATTI (VIA) NAMAKKAL (TK&DT) PIN 637 019	BVSc&AH/Dr.PRDKV P/97	30-07-73
509	D. KATHIRESAN S/o S.DURASAMY	TNVC/3211/05	3 / 294, SRI KRISHNA NAGAR, THIRUPPALAI, MADURAI 625 014	BVSc/TNAU/84	10-11-52

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
510	D. Michael Jeyara, S/o Sh. K.A.M. Divianathan	TNVC/3766/06	39, Pappa Colony, Edamalaipatti Pudur, Tiruchirapalli-12, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/78	21.01.50
511	D. NARAHARI S/o D.VIJAYALU REDDY	TNVC/2872/05	31 / 15, EAST FIRST MAIN ROAD, 3RD FLOOR, SHENOY NAGAR, CHENNAI 600 030.	BVSc/Uni of Madras/68	02-09-46
512	D. Premkumar, S/o Sh. S. Durairaj	TNVC/3783/07	B-140, HIG Block 80 Feet Road, Anna Nagar, Madurai- 625020, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/79	02.06.56
513	D. RAJENDRA PRASAD S/o B.R. EBENEZER	TNVC/1418/05	9 / 5, KANDAN STREET, MADURAI SRI MEENAKSHI NAGAR, VALASARAVAKKAM, CHENNAI 600 087	BVSc/Uni of Madras/62	25-03-39
514	D. RAMASAMY S/O SP.DHANUSHKODI	TNVC/2384/05	VIRACHILAI POST, TIRUMAYAM TK, PUDUKKOTTAI DIST, PIN : 622 412.	BVSc/TNAU/83	16-02-60
515	D. SELVI S/o S.DHARMALINGAM	TNVC/0624/05	3 / 89A, PATCHIAPPAN STREET, ANNIYUR, 605 202, VILLUPURAM TK.,	BVSc&AH/Pondi Uni/02	28-10-79
516	D. Sivakumar, S/o Sh. M. Duraisamy	TNVC/3641/06	141/87-A, Muthuvinayagar Koil Street, Thiruvannamalai- 606601, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/00	07.04.75
517	D. Sureshkumar, S/o Sh. P. Dharmalingam	TNVC/3782/07	35-B, Kumar Postal Colony, Monojipatti, Thanjavur- 613004, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/97	23.01.74
518	D. THIAGARAJAN S/o A.C.DESIKAN	TNVC/3031/05	1782, II STREET, VASANTHAM COLONY, 18, MAIN ROAD, ANNA NAGAR WEST, CHENNAI 600 040	BVSc/TNAU/80	20-03-57
519	D. Yuvaraj, S/o Sh. A.S. Dhandapani	TNVC/3798/07	50/36, Kamaraj Nagar, Arakonam-631001, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/06	16.06.81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
520	D.K. Chand, S/o Sh. Surendra Chand	UVC/224/08	Village-Manihargoti, Pilibhit Road, Tanakpur, Distt. Champawat, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/9 8	28.08.72
521	D.P. Singh Sehgal, S/o Shri Muckthiar Singh	UPVC/4380/06	Vill. Telupura, PO Rampur, Maniharan, Saharanpur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/8 8	04.06.66
522	D.R. Srinivas, S/o Shri D.B.R. Sastry	APSVC/4547/07	C/o D. Paleswara Rao, 12-7-89/2/2, New Mettuguda, Secunderabad-500017, Andhra Pradesh	BVSc&AH/OUAT/07	03.07.82
523	D.SUMATHI W/O D.SURESHKUMAR	TNVC/2262/05	NO.2, EKADANTA FLATS, 63RD STREET, ASHOK NAGAR, CHENNAI 600 083	BVSc/TANUVAS/97	09-07-73
524	D.Suresh Kumar S/o Sh. S.K. Dharmaraj	TNVC/3459/08	13/4-1 Ramasamy Puram, Avudayanoor, Tenkas I Tk, Tirunelveli Dt, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/98	13.05.73
525	Dakhole Vishal Wamanrao	MahaSVC/7527/	Plot No.17, NIT Layout, Bhau Saheb Survey Society, Near Trinurti Nagar, Nagpur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	11.06.82
526	Dakhore Balasaheb Babarao	MahaSVC/7553/	C/o Shri Dakhore B.L., Near Roopa Guest House, Sambhaji Raje Marg, Vasant Nagar, Nanded-431602, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	30.07.83
527	Dalip Singh Yadav, S/o Sh. Hira Lal Yadav	RajSVC/3241/08	C/o Bhim Singh Advocate, Bus Stand Road, Behror, Alwar, Rajasthan	BVSc&AH/AAU/96	25.08.71
528	Daljeet Singh, S/o Sh. Mohan Singh	Pb.SVC/2666/06	W.No. 1, Dasmesh Nagar, Bhucho Mandi, Bathinda, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/ 06	25.07.81
529	Damera Srinivas, S/o Sh. D.V.V. Satyanarayanan	TNVC/3625/06	Nakshatra Aparts Block-II, Flat 1/B-II, Srikrishnapuram St., Royapettah, Chennai-14, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/75	14.11.50



<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
530	Damuthimi Lyngdoh, S/o Shri N.Chawas Stone Garod	MeghSVC/246/07	Mynthong, Pohkesh, Jowal, M eghalaya	BVSc&AH/AAU/07	5.01.83
531	Dandekar Santosh Vithalrao	MahaSVC/7499/	At/Post Tallari, Tal. Kinwat, Distt. Nanded-431811, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	20.07.82
532	Dange Vishwesh Vyankatrao	MahaSVC/7648/	Vaibhav Nagar, Jintur Road, Back of Sanjay Hotel, Parbhani-431401, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	05.05.84
533	Darekar Suhas Devram	MahaSVC/7343/	C/o Balasaheb Darekar, At Walunj, Post Baburdi, Tal. & Distt. Ahmednagar, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	28.04.83
534	Darji Premal Pravin	MahaSVC/7483/	Sadvichar Building, 201/A, Shimpoli Road, Borivali West, Mumbai-400092, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	23.08.82
535	Das Dhruvajyoti, S/o Sh. Bonkin Chandra Das	ASM/2266/07	Six Mile, Khanapara, Lichubari, H.No.9, PO Khanapara, Guwahati- 22, Dt. Kamrup, Assam	BVSc&AH/AAU/07	03.09.81
536	Das Gayatri, D/o Sh. Dhirendra Nath Das	ASM/2277/07	Vill. Barkhah, PO Hingulee, PS Kamaipur, Distt. Kamrup, Assam-781380	BVSc&AH/AAU/07	13.03.80
537	Das Gayatri, D/o Sh. Kandarpa Kumar Das	ASM/2248/06	C/o Kandarpa Kr. Das (Ex MLA), Sree Nagar, R.G Baruah Road, H.NO.55, PO Dlapur, Dt. Kamrup, Assam	BVSc&AH/AAU/06	10.12.81
538	Das Machumita, D/o Sh. Bheskar Das	ASM/2283/07	Khanapara, Janapath, Farm Gate, Guwahati-22, Distt. Kamrup, Assam	BVSc&AH/AAU/07	22.09.83
539	Daulat Singh Rawat, S/o Late Sh. B.S. Rawat	UVC/232/06	Kadambari Bhawan, Near Tourist Guest House, Pauri, Garhwal, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/0 0	16.01.75

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
540	Dave Vikram Nanalal	MahaSVC/7473/	Himmat Nagar, House No. 13, 1st Floor, S.V.P. Road, Borivali (West), Mumbai-400092, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	07.10.82
541	Davinder Kumar, S/o Sh. Madan Lal	Pb.SVC/2669/06	Ward No. 2, Lehra Gaga, Distt. Sangrur, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/06	15.09.81
542	Dawande Dipmala Namdeo	MahaSVC/7168/	Namdeo M.Dawande,(Malkapur),Shendurjana Ghat,Warud,Tal.Warud, Dt.Amravati, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	20.06.82
543	Dawane Sumesh Chandrakant	MahaSVC/7687/	Saket CHS Ltd., Bldg. No. 1, Room No. 11, Mhada Complex, Malad (E), Mumbai, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	16.02.83
544	Dayal Singh, S/o Sh. J.S. Rawat	UVC/198/06	Village-Tudi, PO Bansu, Via Guptakashi, Rudraprayag,Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/06	17.04.70
545	Deesai Jayaram Madhukar	MahaSVC/7398/	Ramkrishna Tapovan, Bazarwadi, A/p Degve, Tal.Sawantwadi, Dt.Sindhudurg-416511, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	15.10.82
546	Debashis Saha, S/o Sh. Sri Sankar Kumar Saha	WBSVC/3225/06	Khairamari, Collegeroad, PO & PS Bongson, Dt. 24, Prgs(N)-743235, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/06	03.11.82
547	Debasis Sahu, S/o Sh. Bhaskar Sahu	OVC/2098/07	At/PO Munigadi, Via Nimina, Distt. Ganjam, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	24.02.83
548	Debjani Das, D/o Nani Gopal Das	TripuraSVC/166/06	Indranagar, Madhyapara, Po- Abhoynagar Agartala(w)Tripura	BVSc&AH/CAU/06	27.08.83
549	Deen Dayal Meena, S/o Sh. Ganga Ram	RajSVC/3275/06	7/151, Mukta Prasad Nagar, Bikaner, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	24.12.80

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
550	Deepa Mary J.J.	KeralaSVC/3122/06	No.7,Sastha Building, Industrial Estate,Canan Road,Kallekulangara,Palakk ad-678731,Kerala	BVSc&AH/KAU/06	25.10.81
551	Deepak Banerjee, S/o Sh. Nityananda Banerjee	WBSVC/3227/06	Kangsabati Colony,Qr.No.C- 14,Vii&PO Khatra,Dt. Bankura-722140,West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	22.04.84
552	Deepak Gupta, S/o Shri S.B. Gupta	MPSVC/2387/06	Block No. 14, Jivajiganj, Morena, MP-476001	BVSc&AH/JNKVV/06	23.03.80
553	Deepak Kumar Tiwari, S/o Shri J.P. Tiwari	MPSVC/2356/06	MIG-II/17, Vivekanand Nagar (Nyas Colony), Hoshangabad, MP-461001	BVSc&AH/JNKVV/06	20.10.79
554	Deepak Paul, S/o Sh. Panju Ram	Pb.SVC/2689/06	3 VIII/196, Mohalla Pram Nagar, Batala, Punjab	BVSc&AH/PAU/04	03.07.79
555	Deepak Rajput, S/o Shri L.R. Rajput	MPSVC/2386/06	143, Jawahar Marg, Jobat, Jhabua, MP	BVSc&AH/JNKVV/06	15.07.80
556	Deepak Saini, S/o Sh. Balram Singh Saini	DVC/0660/05	C-174/3, Ram Nagar, Kanker Khera, Meerut Cantt.-250001	BVSc&AH/CCSHAU/0 5	29.08.80
557	Deepak Sharma, S/o Sh. Prakash Sharma	WBSVC/3220/06	12 1/2th MILE, Near Albert Villa, Upper Pudung, Kalimpong-734301,West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 5	13.02.80
558	Deepak Sharma, S/o Sh. Surjeet Sharma	Pb.SVC/2658/06	Viii, Laleana, Jaito Road, Kotkapura, Distt. Faridkot, Punjab	BVSc&AH/CCS HAU/06	21.06.81
559	Deeplata Majhi, D/o Shri Devki Nandan	MPSVC/2402/06	778, Gomti Niketan, Purani Jeen, Gali No. 3, Morena, MP-476001	BVSc&AH/JNKVV/06	06.09.82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
560	Deepti Chadalavada, D/o Shri Ch. Nagaiiah Chowdary	APSVc/4532/06	D.No. 68-2-17, NSM School Road, Patamata, Vijayawada-520010, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	09.07.82
561	Deepti Pedalanka, D/o Shri Sambasiva Rao	APSVc/4468/06	Bharatpet 1st Line, Amaravathi Road, Guntur- 522002, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	13.5.84
562	Deepti Siwach, D/o Sh. Dibag Singh Siwach	DVC/0629/04	612, Krishi Apartments, D- Block, Vikaspuri, Delhi	BVSc&AH/CCSHAU/0 3	04.05.78
563	Deepti Verma, S/o Sh. B.R. Verma	HPSVC/769/06	Shyan Niwas Gararu, Joginder-Nagar, Distt. Mandi, HP	BVSc&AH/CSKKVV/0 6	04.02.83
564	Deepti Vaidya, D/o Sh. S.K. Vaidya	HPSVC/757/06	24/1, Jawahar Nagar, Mandi, HP-175001	BVSc&AH/CSKKVV/0 6	16.03.83
565	Deogade Ashish Haridas	MahaSVC/7178/	'MAS', Manavta Nagar, Sister Colony, Nagina Bagh, Chandrapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	23.10.80
566	Depika, W/o Dr. Sudhir	UPVC/4560/07	C-150, South City, Lucknow, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/0 4	11.05.80
567	Dere Rahul Santu	MahaSVC/7580/	Saikrupa CHS. Ltd., 204, Plot No. 27, Sector-19, Nerul, Navi Mumbai- 400706, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	09.07.80
568	Desai Balaji Vitthalrao	MahaSVC/7254/	Lakshmi Niwas, Near Dhangarwadi, Distt. Sindhudurg, Maharashtra	BVSc&AH/BSKKV/01	03.12.77
569	Deshmukh Ajay Bhaurao	MahaSVC/7443/	Sant Gnyaneshwar Nagar, Papinwar Layout, Tal. Pusad, Distt. Yavatmal-445204, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	12.05.83

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
570	Deshmukh Baliram Sudam	MahaSVC/7419/	At Bhawananager, Post Dangaoundane, Tal. Satana, Distt. Nashik-423301, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	01.06.82
571	Deshmukh Lata Pandharirao	MahaSVC/7429/	New Gujrati Colony, Tal. Distt. Bhandara-441904, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	20.03.83
572	Deshmukh Mangesh Shankarrao	MahaSVC/7396/	Agashe Layout, Plot No. 19, Gurukul, Malkapur, Tal. Akola, Distt. Akola-444001, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	04.01.83
573	Deshmukh Pallavi Vajjanathrao	MahaSVC/7264/	203, Ambika Complex, Balikashram Road, Savedi, Ahmednagar, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/03	07.06.81
574	Deshmukh Parikshit Sureshrao	MahaSVC/7310/	15, Rathi Layout Katol, Tal. Katol, Distt. Nagpur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	12.08.80
575	Deshmukh Prashant Vitthairao	MahaSVC/7131/	A/p-Karkanmb, Tal. Pandharpur, Distt. Solapur Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	12.01.81
576	Deshmukh Vaibhav Vitthalrao	MahaSVC/7502/	Gadhi, Kasba Peth, Kallam, Tal. Kallam, Distt. Osmanabad-413507, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	21.09.80
577	Deshpande Kuldeep Yeshwant	MahaSVC/7257/	"Shriram" Tapdia Nagar, Akola-444005, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/03	30.09.80
578	Deshpande Rajesh Ravindra	MahaSVC/7118/	Bhumrala, Tal. Lonar, Distt. Buldhana, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	24.06.80
579	Deshpande Raman Manikrao	MahaSVC/7534/	A/p Vaidyakini, Tal. Patoda, Distt. Beed-431122, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	01.07.81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
580	Deshpande Shweta Bajirao, D/o Shri Baji Rao Deshpande	APSVC/4436/06	C/o S. Sudershan Rao, H.NO. 3-6-49, Brahminwadi, Bada Talaab, Adilabad, Andhra Pradesh	BVSc&AH/MAFSU/05 6	18.08.82
581	Devade Aniket Arun	MahaSVC/7515/	35, Adarsh Nagar, Nagar- Kalyan Road, Ahmednagar- 414001, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05 6	20.03.83
582	Devapriya Har, D/o Sh. Arun Kumar Har	WBSVC/3258/06	D-54, Burdgetown, PO Midnapore, Distt. Paschim Midnapore, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	04.01.82
583	Devaraja K., S/o Sh. Karagappa	KarSVC/3892/06	Hiriyannanahalli, Dibbur- 562101, Chikkaballapura, Tq., Kolar Distt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	25.06.83
584	Devender Sindhvani, S/o Sh. Yash Pal Sindhvani	HVC/1942/	C/o Deepak Med. Store, Ismailabad, Distt. Kurukshetra, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/0 6	12.07.82
585	Devendra Kumar Sharma, S/o Sh. Ram Dutt Sharma	UVC/238/06	H.No.1, Sardar Ballabh Bhai Patel Agril Uni, Research Station, Bulandshar, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/9 6	30.06.72
586	Devendra Kumar Swami, S/o Sh. Ashok Kuma	RajSVC/3326/06	VPO Ramgarh, TEH Nohar, Hanumangarh, Rajasthan	BVSc&AH/CCSHAU/0 6	12.12.80
587	Devendra Kumar, S/o Sh. Gorakhnath Ray	BVC/2619/05	Vill. Kervan, PO Kervan, PS Isuapur-841411, Distt. Chapra (Saran), Bihar	BVSc&AH/AAU/05 6	02.02.80
588	Devendra Pathak, S/o Sh. Sita Ram Pathak	Pb.SVC/2698/07	Deptt. of Vety. Anatomy, COVS, GADVASU, Ludhiana, Punjab	BVSc&AH/TNV&ASU/ 04	26.02.79
589	Devendra Singh Jadon, S/o Shri S.S. Jadon	MPSVC/2346/06	Veterinary Hospital, Baramalhera, Chhatarpur, MP	BVSc&AH/JNKVV/95 6	17.09.71

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
590	Devendra Singh Patel, S/o Shri B.S. Patel	MPSVC/2391/06	MPEB, Coloney Gadarwara, Narsingpur, MP-487551	BVSc&AH/JNKVV/06	15.10.81
591	Devi Mrinallee, D/o Sh. Amiya Kumar Nath	ASM/2282/07	Vill. & PO Kalaigaon, Distt. Udaiguri-784525, Assam	BVSc&AH/AAU/07	01.03.83
592	Devi S.	KeralaSVC/3178/06	Pisharathu House, Kumarapuram PO, Haripad, Alappad, Thrissur- 690548, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	27.08.82
593	Devkate Balaji Ramrao	MahaSVC/7501/	A/p Rui, Po Sanghvi, Tal. Ahmedpur, Distt. Latur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	24.09.83
594	Devki Pilkhwal, D/o Sh. Pratap Singh	UVC/272/07	Vill. Dawala Talla, Pijyan PO, Kunwarpur, Haldwani, Nainital, Uttaranchal	BVSc&AH/AAU/07	12.03.84
595	Devrukhkar Minal Balkrishna	MahaSVC/7426/	Dayanand Sadan Bld. No.243, R.No.9515, Kannam war Nagar-2, Vikhroli (E), Mumbai, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	22.04.82
596	Dhadra P.V.	KeralaSVC/3155/06	Viswamangalam, Vellanad PO, Tvm-695543, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	14.09.80
597	Dhage Gajanan Pandurangrao	MahaSVC/7344/	"Niwara", Shivneri Nagar, Rampur Road, Degloor, Tal. Degloor, Distt. Nanded, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	14.02.79
598	Dhage Mohan Jaiprakash	MahaSVC/7184/	Chavbhara Chowk, A/p Jalgaon (JA), Distt, Buldhana, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	19.03.81
599	Dhami Mehulkumar Arjanbhai	GUJSVC/2737/06	"Samarpan" 48-Mangal Nagar, Vidhya Dairy Road, Borsad Chowkdi, Anand- 388001, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	17.12.83

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
600	Dhan Raj Nagar, S/o Sh. Mohan Lal Nagar	RajSVC/3331/06	5-D-1, Taiwandi, Kota, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/02	03.06.75
601	Dhananjay Chourey, S/o Shri M.D. Chourey	MPSVC/2341/06	M-2B/1, Getanjali Complex, Bhopal, MP-462003	BVSc&AH/JNKVV/89	17.04.84
602	Dhananjay Kumar Singh, S/o Sh. Ramashanker Singh	BVC/2729/06	VIII. Parvas, PO Nonsari, PS Nokha-802215, Distt. Rohtas, Bihar	BVSc&AH/GBPUAS&T/05	05.01.79
603	Dhananjay Dhara, S/o Sh. Anukul Ch. Dhara	WBSVC/3275/06	VIII. & PO Harijhama, Distt. East Midnapur-721152, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/06	12.02.83
604	Dhanawade Nirmala Bajirao	MahaSVC/7489/	A/p Keighar, Tal. Jaoli, Distt. Satara-415017, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	19.02.83
605	Dhanya V. Pai	KeralaSVC/3111/06	Sreerang, Sringsapuram, Kodungallur, Thrissur-680664, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	02.05.83
606	Dharanasha N.K., S/o Sh. Krishna Gowda	KarSVC/3891/06	Naresinakuppe, Hullangala Post, Arkaigud Tq., Hassan Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	19.05.83
607	Dharmender, S/o Sh. Azad Singh	HVC/1919/	VPO Chamarian, Distt. Rohtak, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/06	10.04.83
608	Dharmendra Indu, S/o Sh. Ganga Ram Indu	RajSVC/3290/06	844, Barkat Nagar, Jaipur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	24.06.75
609	Dharmendra Kr. Singhal, S/o Sh. Murali	RajSVC/3263/06	VIII. Bagdoli, TEH Bonli, Sawaimadhopur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	01.12.77



<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
610	Dhamesh Tewari, S/o Shri Ramakant Tewari	UPVC/4504/06	283, Shiv Katra, Laibangla, Kanpur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/ 06	25.12.79
611	Dhawale Swaminath Parashram	MahaSVC/7718/	A/p Ukhalgaon, Tal. Shrigonda, Distt. Ahmednagar-413703, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	20.05.84
612	Dhaware Snehal Dhamaraj	MahaSVC/7318/	Archana Greens, E-12, N.I.B.M. Road, Pune- 411048, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	17.08.81
613	Dhayaje Kapil Digamber	MahaSVC/7532/	A/p Newasa (Near Tehsil Office), Tal. Newasa, Distt. Ahmednagar-416803, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	06.06.81
614	Dhaygude Vitthal Shrirang	MahaSVC/7205/	151, Sukhed, Tal. Khandala, Distt. Setara, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	04.04.82
615	Dheera Devi, W/o Shri Aawani Sharma	UPVC/4552/07	VIII. & PO Akorhi (ATI), Distt. Jaisun, Uttar Pradesh	BVSc&AH/AAU/04	31.12.80
616	Dheeraj Bhardwaj, S/o Sh. R.P. Bhardwaj	DVC/0655/05	H.No. 551, Bawana, Delhi- 39	BVSc&AH/CCSHAU/0 5	10.09.79
617	Dheeraj Singh Bhandari, S/o Sh. Bachan Singh Bhandari	UVC/268/07	769/1, Pragati Vihar, Dehradun, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/9 5	02.03.70
618	Dhenge Sandeep Amrut	MahaSVC/7585/	At Palaegaon, Post Kolari, Tal. Lakhari, Distt. Bhandara-441809, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	15.02.83
619	Dheresh Chandra Joshi, S/o Sh. Jagdesh Chandra Joshi	UVC/257/06	VIII. & Post Kumista, Distt. Pithoragarh, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/9 4	24.04.73

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
620	Dhilleswara Rao Savara, S/o Shri Appala Swamy	APSVJ/4511/06	Godda Sirikhandi (P), Melliaputti (M), Srikakulam Dt.-532215, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	16.06.80
621	Dhindate Ashok Kuldik	MahaSVC/7325/	At Ghotkarwadi, Post Satowadi, Tal. Akole, Distt. Ahmednagar-422610, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	15.07.81
622	Dhiraj Kumar Bhuyan, S/o Sh. Bichitrananda Bhuyan	OVC/2133/07	At/PO Sanamang, Via Batipara, Distt. Kendrapara- 754218, Crissa	BVSc&AH/OUAT/07	10.12.82
623	Dhiraj Kumar Gupta, S/o Sh. Ram Avatar Gupta	Pb.SVC/2700/07	Deptt. of Clinical Vety. Med., E&J, COVS, GADVASU, Ludhiana, Punjab	BVSc&AH/GBPUA&T/ 01	16.12.79
624	Dhoble Mohini Manohar	MahaSVC/7599/	Process Servers Society, Plot No. 16, Swavlambi Nagar, Nagpur-22, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	27.11.83
625	Dhokale Avinash Vittalrao	MahaSVC/7327/	A/p Nighoj, Tal. Parner, Distt. Ahmednagar-414306, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	08.08.81
626	Dhonde Santosh Nawnath	MahaSVC/7375/	Infront of Panchayat Samiti, Near Chutte Hospital, A/p Ashti, Tal. Ashti, Dt. Beed, Maharaht ra	BVSc&AH/MAFSU/05	10.06.82
627	Dhope Ashok Wamanrao	MahaSVC/7300/	Near Barabhau Ram Mandir, Karanja (Lad), Tal. Karanja (Lad), Dt. Washim, Maharesht ra	BVSc&AH/PKV, Akola/76	17.02.52
628	Dhote Amit Purushottam	MahaSVC/7618/	Behind Dr. Charmode Nursing Home, Tilak Ward Quazi Mohalla, Bhandara- 441904, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	02.12.83
629	Dhumal Rohit Vijay	MahaSVC/7389/	Tulsi Niwas-14, C-5/14/2:4, Sec-5, C. B. D. Belapur, Navi Mumbai, Dt. Thana, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	03.01.83

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
630	Dibyendu Chakraborty, S/o Sh. Bhupendranath Chakraborty	WBSVC/3231/06	Vill. Dangatpara, PO Purandarpur, Distt. Birbhum- 731129, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	09.02.84
631	Dileep Gulianki, S/o Shri Janavari Rao	APSVC/4467/06	Flat No. 103, Sri Harsha Residency, Near Sankaramatam, Motinagar, Hyderabad, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	02.11.81
632	Dinesh Chandra Singh Rawat, S/o Sh. Roop Singh Rawat	UVC/249/06	C/o 0387, Staff No. BEL Kotdwara, Distt. Pauri, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/8 7	20.06.61
633	Dinesh Jasti, S/o Shri Pitcheswara Rao	APSVC/4536/06	54-16-9, F2 Madhuri Apts., Venkateswara Nagar, Vijayawada-520008, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	29.01.83
634	Dipak Kumar Chaurasiya, S/o Sh. Kishori Prasad Chaurasiya	BVC/2687/05	Vill. New Area, PO Nawada, PS Nawada-805110, Distt. Nawada, Bihar	BVSc&AH/WBUA&FS U/05	15.11.78
635	Dipak Saini, S/o Shri B.S. Saini	UPVC/4526/06	C-174/3, Ramnagar, Kanker Khara, Meerut Cantt. Meerut, Uttar Pradesh	BVSc&AH/MAFSU/06	29.08.80
636	Dipawita Patra, S/o Sh. Tarani Patra	WBSVC/3242/06	Khatra Court Road, PO Khatra, Distt. Bankura- 722140, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	12.02.84
637	Dipti Sharma, D/o Sh. Prem Prakash	RajSVC/3258/06	1/29, Housing Board, Jawahar Nagar, Sri Ganganagar, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	16.12.80
638	Diptimayee Badhei, D/o Late Sh. Somanath Badhei	OVC/2117/07	A/PO Patpur (In front of LIC Office), Via Udala, Distt. Mayurbhanj, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	04.05.82
639	Diptiranjana Swain, S/o Sh. Narahari Swain	OVC/2076/06	A/PO Basoi, Via Parjang, Distt. Dhenkanal, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	25.04.81

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
640 Dis. P.P.	KeralaSVC/3168/06	Pottathu Parabil House, Nadavaramba PO, Thrissur, Tvm-880661, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	08.05.70
641 Divya Chandran	KeralaSVC/3145/06	Chakkitta Muriyil, Alumkadavil PO, Karunagapally, Kollam- 690573, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	05.05.80
642 Dixit Vikram Akur	MahaSVC/7198/	At Karunde, Post Morchi, Tal. Malsias, Distt. Solapur- 413109, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	19.03.82
643 Doddabasavana Gowda K., S/o Sh. Naganagowda K.	KarSVC/3841/06	Bennihalli-583127, Harapanahalli Tq., Davanagere Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	12.06.83
644 Doifode Vinod Kamalaji	MahaSVC/7497/	Double Jeen, 3-22-50/2, Behind Thalte Hospital, Old Jalna, Tal. Distt. Jalna- 431203, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	23.06.82
645 Doijode Kirti Vajinath	MahaSVC/7560/	Dattanagar, Somnathpur Road, Udgir, Tal. Udgir, Distt. Latur-413517, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	11.06.81
646 Donekar Manisha Natthuji	MahaSVC/7581/	Vitthal Wadi, Near Mahavir Bhavan, Warora Road, Wani. Dt. Yavatmal, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	06.08.78
647 Dongre Vilas Bhagwanrao	MahaSVC/7733/	At Babuttar, Post Renapur, Pathari, Distt. Parbhani- 431506, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	04.10.83
648 Dubal Priyadarshani Baburao	MahaSVC/7496/	At Post Adul, Tal. Patan, Distt. Satara, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	07.09.78
649 Dulen Roy, S/o Late Sh. Hiralal Roy	WBSVC/3278/06	Vill. Bhagabat Danga, PO Badalpur, Dt. D/Dinajpur- 733121, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	01.01.83

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
650	Durga Naga Malleswari Y., D/o Shri Nageswara Rao	APSVC/4459/06	H.No. 5-166, N.G.O. Colony, Kurnool Road, Ongole, Prakasam Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	10.06.83
651	Durga Ram, S/o Shri A.R. Maurya	UPVC/4528/06	Vill. & PO Sultanpur, Distt. Mau, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/ 01	20.06.70
652	Durgesh Nandni, D/o Sh. Dewal Parkash Lobana	Pb.SVC/2645/06	H.No. 3020, St. No. 2, Parasram Nagar, Bathinda, Punjab	BVSc&AH/SKUAS&T, Jammu/06	04.08.82
653	Durman Kumar Behera, S/o Sanatan Behera	OVC/2053/06	At Andola, PO Dhobanisoile, Distt. Mayurbhanj, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	04.05.80
654	Dusane Manoj Prabhakar Rao	MahaSVC/7292/	Aai Niyas, Datta Colony, Near Mahatma Phule School, Majalgaon, Dt. Beed, Maharas htra	BVSc&AH/MAFSU/04	23.08.79
655	E. Chockalingam, S/o Sh. N. Easwara Pillai	TNVC/3774/06	59-A, East Street, Kesavanputhooor, Azhagiyapandiyapuram K.K. Distt.-629851, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/95	20.08.47
656	E. Saritha, D/o Shri E. Ram Reddy	APSVC/4488/06	W/o T. Bala Bhaskar, H.No. 19-128, Jawahar Road, Ramnagar, Mancherial, Adilabad Dt -504208, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	21.05.81
657	E. SRIDHARAN S/o V.ETHIRAJULU	TNVC/1827/05	PLOT NO.8, NEW VEPPAMKKURICHI, NORTH VELLUR POST, NEYVELI, CUDDALORE DISTRICT PIN 607802	BVSc/TANUVAS/96	27-04-72
658	E. THOMAS NALLA THAMBI S/o D.EBENKAN	TNVC/2196/05	80A, LEWIS AMMAL STREET, NAGERCOIL 629 001, KK DIST.	BVSc/Uni of Madras/64	21-12-42
659	E.V.R. SRINIVASAN S/o D.E.V. RAJARAM	TNVC/1588/05	B5, TAMIL NADU HOSUING BOARD QUARTERS, KARAI, RANIPET.	BVSc/TNAU/76	01-06-52

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
660	E.VENKATESAKUMAR S/O M.ELUMALAI	TNVC/2720/05	PERIYERIPATTY P.O. THOLASAMPATTY (VIA) OMALUR (T.K.) SALEM DISTRICT 636 503	BVSc/TANUVAS/98	06-04-75
661	Elizabeth M.Sangma,D/o Mr.A.P.Joseph	MeghSVC/239/06	C/oMr.A.P.Joseph,PO- Horinkatta,Mendipathar East Agro Hills,Meghalaya	BVSc&AH/AAU/06	23.6.78
662	Els0 John	KeralaSVC /3132/06	Njalliyel House, Cheruvally PO, Manimala, Kotayam- 686543,Kerala	BVSc&AH/KAU/06	17.02.81
663	Faisal C.T.	KeralaSVC/3149/06	Cheeran Thodika House, Padikkunnu, Nilambur PO, Malappuram-679329,Kerala	BVSc&AH/KAU/06	12.05.81
664	Fakeerappa D. Menasinakayi, S/o Sh. Dyavappa Menasinakayi	KarSVC/3913/06	Musrigeri Post, Badami Tq., Bagalkot Distt.,Karnataka	EVSc&AH/KVAFSU/0 6	10.12.82
665	Farooque Amin, S/o Sh. Mohammad A. Latif	RajSVC/3342/07	Veterinary Hospital, Kundi, Distt. Udaipur, Rajasthan	BVSc&AH/PRKV/92	30.07.67
666	FAROQUE RAHAMATHULLA SHERIFF S/o HASAN SHERIFF	TNVC/2740/05	17, SARDAR PATEL ROAD, ADYAR, CHENNAI 600 020.	BVSc/Uni of Madras/73	22-02-50
667	Pkhruddin Ansari, S/o Shri Qutubuddin Ansari	UPVC/4413/06	Vill. Bairagipatti, PO Fagil Nagar, Kushinagar,Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDAUA&T/ 06	07.07.80
668	Frankinstar Rudole Shadap,S/o (L) K.Law	MeghSVC/245/07	Mookyrdup,Ladthadlaboh.N H-44,Jowai- 793150,Meghalaya	BVSc&AH/AAU/07	5.6.82
669	G. Ambica, D/o Shri G. Siddiram	APSVC/4516/06	H.No1-40,Opp.Single Window Office,Old Bus Stand,leeja,Mahaboobnagar Dt.-509125,Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	20.06.81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
670	G. Arunakumar, D/o Shri Subbulu Naidu	APSVC/4538/07	W/o B. Sambasiva Rao, Scientist, Animal House, 219-B, CCMB, Hyderabad, Andhra Pradesh	BVSc&AH/ANGRAU/99	30.06.74
671	G. BALAKRISHNAN S/o K.GOVINDAN	TNVC/0753/05	MASANAM KOIL ST. SUNDARARAJAPURAM, RAJAPALAYAM 626 142.	BVSc/TANUVAS/96	14-04-73
672	G. DHANAN JAYA RAO S/o G.MADAN MOHAN RAO	TNVC/2215/05	64, OUTER CIRCULAR ROAD, KILPAUK GARDEN COLONY, CHENNAI 600 010.	BVSc/TNAU/81	01-06-55
673	G. DHINAKAR RAJS/O V.K.GOPAL	TNVC/2415/05	80, PUSHPA NAGAR MAIN ROAD, NUNGAMBAKKAM, CHENNAI 600 034	BVSc/TNAU/86	22-09-63.
674	G. ELANGO VAN S/o M.N.GOPAL	TNVC/0674/05	1 / 267, N.G.O NAGAR, TIRUPPATTUR, VELLORE DIST 635 601	BVSc/TANUVAS/02	30-05-76
675	G. GURUPRABAKAR S/o G.GURUMANICKAM	TNVC/1086/05	5-14-11-J, MURUGAN KOIL STREET, PERAIYUR - 625 703 MADURAI DISTRICT	BVSc/TANUVAS/94	27-10-70
676	G. Hemambara Naidu, S/o Shri G. Chandrasekhara Naidu	APSVC/4434/06	D.No. 18-1-298, Old Town, Venugopala Nagar, Anantapur, Andhra Pradesh	BVSc&AH/ANGRAU/06	02.06.68
677	G. JEGATHEESAN S/o P.GURUSAMY	TNVC/1253/05	64, WATER TANK STREET, UTHAMAPALAYAM (P.O.) THENI DISTRICT 625 533	BVSc/TANUVAS/01	07-04-77
678	G. Jhansi Rani, D/o Shri Mala Kondaiah	APSVC/4447/06	North Mopur (V), Allur (M), Nellore Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	15.08.82
679	G. Kamesh Kannan, S/o Sh. T. Gopal	TNVC/3631/06	W-11/5, Mullai Illam, Old Police Station Street Gudalur PO, Theni-625518, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/06	10.05.80

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
680	G. KATHIRAVAN S/o A.GOPALAN	TNVC/2161/05	47-A, PON-KADU, PERAVURANI 614 804, THANJAVUR DISTRICT, TAMIL NADU.	BVSc/TANUVAS/94	10-06-71
681	G. KUMARESAN S/o M.GANESAN	TNVC/1868/05	5 / 144C, NAVALUR POST, PIN 638 116, ATTUR TALUK, SALEM DT.	BVSc/TANUVAS/92	29-04-68
682	G. Mala Devi Mangaiarkarasi, S/o Sh. M. Mariraj	TNVC/3789/07	1-1/106, UVV Nagar, Mallankinar, Virudhunagar- 626109, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/97	03.07.71
683	G. PONNUDURAI S/o S.GURUSAMY	TNVC/3023/05	HOTEL SELVAKUMAR, KURUKKUPATHAI BUS STOP, THIRUTHANGAL, SIVAKASI 626 130	BVSc/TANUVAS/93	04-04-70
684	G. RAJ MANOHAR S/O P.GOPAL	TNVC/2490/05	H-31, E.V.N. ROAD, PERIYAR NAGAR, ERODE 638 009.	BVSc/TANUVAS/98	25-08-74
685	G. RAJARAJAN S/o N.GOVINDARAJAN	TNVC/1240/05	PLOT NO. 11, TDCC BANK COLONY, NO.1, TOLLGATE, TRICHY 621 216	BVSc/TANUVAS/96	29-05-73
686	G. RAVIKUMAR S/o J.GOPALAKRISHNAN	TNVC/2871/05	G8G BLOCK, 55TH STREET, ASHOK NAGAR, CHENNAI 600 083.	BVSc/TNAU/83	23-05-60
687	G. SELVARAJU S/O P.GANAPATHY	TNVC/2421/05	WEST THOTTAM, BELVKURICHI POST, NAMAKKAL 637 402	BVSc/TANUVAS/97	28-07-73
688	G. SENTHIL KUMAR S/o K.GANESA MOORTHY	TNVC/1237/05	E-304, 19TH STREET, PERIYAR NAGAR, CHENNAI - 600 082	BVSc/TANUVAS/01	30-11-77
689	G. SRINIVASAN S/o V.GURUMOORTHY	TNVC/3027/05	PLOT NO.12, DOOR NO.17, T.N.G.O. COLONY MAIN ROAD, NANGANALLUR, CHENNAI 600 081	BVSc/TNAU/84	08-12-59



<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
690	G. SUGANYA S/o S. GOPALAKRISHNAN	TNVC/1985/08	14, BALAJI NAGAR, ALWARTHIRUNAGAR, CHENNAI 600 087.	BVSc/TANUVAS/96	30-12-72
691	G. Sundara Pandian, S/o Sh. K. Govindarajan	TNVC/3787/08	21, Main Road, Koothapakkam, Cuddalore-2, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/00	07.08.75
692	G. TAMILMANI S/O L. GOVINDAN	TNVC/2624/05	PILPARUTHI POST, BOMMIDI VIA, PAPPIREDDIPATTI TALUK, DHARMAPURI DISTRICT 635 301	BVSc/TANUVAS/97	24-07-73
693	G. THULASI S/o M.GOVINDASAMY UDAYAR	TNVC/2007/05	9/56, KURINJI STREET, KUMARAN NAGAR EXTN - 2, CHENNAI 600 050.	BVSc/Uni of Madras/73	11-10-49
694	G. TRESSAMARY S/o K.GNANAMANI	TNVC/3115/05	7, THIRU-VI-KA NEW STREET, SANAKARANKOVIL 627 756, TIRUNELVELI DISTRICT	BVSc/TANUVAS/96	12-06-73
695	G. Vijaya Bhaskar Reddy, S/o Shri G. Sekhar Reddy	APSVC/4445/06	Gandhinagar (V), Chinnaguravalur (P), Chapadu (M), Kadapa Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	11.06.62
696	G. VIJAYAKUMAR S/o S.K.GOVINDARAJAN	TNVC/0730/05	NO.333, SURAMANGALAM MAIN ROAD, PALLAPATTI, SALEM.636 009	BVSc/TANUVAS/94	15-08-71
697	G.A. BALASUBRAMANIAM S/o T.K.AMIRTHALINGAM	TNVC/2986/05	5 / 6, MIDDLE STREET, GURUSAMIPALAYAM 637 403, NAMAKKAL DISTRICT	BVSc/TNAU/87	01-05-64
698	G.M. SIVAKUMAR S/o K.GOVINDARAJAN	TNVC/1876/05	NO.27, VELACHERY ROAD, SAIDAPET, CHENNAI - 600015	BVSc/TANUVAS/97	17-02-73
699	G. MAHENDRAN S/o M.GANESAN	TNVC/1745/05	2 / 178, KARPAGANATHAR KULAM, THIRUTHURAI PUNDI, THIRUVARUR DIST. PIN 614 703	BVSc/TANUVAS/98	02-05-75

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
700	G.R. BARANIDHARAN S/o G.RENGASWAMY	TNVC/1880/05	OLD NO.66, NEW NO.20, FIRST MAIN ROAD, C.I.T.NAGAR, CHENNAI 600 035	BVSc/TANUVAS/97	19-11-72
701	G.RAJAVELU S/o N.V.GOVINDARAJAN	TNVC/0669/05	106 / 1, KALATHIAPPA STREET, CHOOLAI, CHENNAI 600 112	BVSc/Uni of Madras/67	11-02-42
702	G.Saravanan,S/o Sh V.Gopala Krishnan	TNVC/3396/06	44,Thirumalai Nagar,Udayampalayam,Chin avedampatti Po,Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/96	29.05.73
703	Gabhane Hemantkumar Shariram	MahaSVC/7583/	Mandai Peth, Adyal, Tal. Pauni, Distt. Bhandara- 441903, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	12.06.83
704	Gaddam Raghupathi Reddy, S/o Shri G. Pratap Reddy	APSVC/4514/06	Chigurumamidi, Karimnagar Dt.-505467, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	16.05.81
705	Gadde Ujvala Deepthi, D/o Shri Manmadha Rao	APSVC/4507/06	D.No.6-66-1/2,C/oAyyappa Enterprises,Road No10,Sramika Nagar,China Gantyada,Old Gajuwaka,Vishkhapatnam- 26, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	30.05.83
706	Gadekar Yogesh Prabhakar	MahaSVC/7204/	Madhevadgaon (Deshmukh Vasti), Tal. Shrigonda, Distt. Ahmednagar, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	10.08.81
707	Gadi Rajasekhar Raju, S/o Shri G. Venkatarama Raju	APSVC/4466/06	C/oR.Chandrasekhar Raju,D.No.F-588,V.V Reddy Nagar,RTPP Yerraguntla (M),Kadapa Dt.,Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	07.08.82
708	Gadmade Ashwini Baliram	MahaSVC/7177/	29, Lokhande Nagar, Behind Gayatri Temple, Nagpur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	19.12.80
709	Gagan Gaudi, S/o Sh. Suresh Chander	DVC/0644/04	C/o Mr. Sukhdev Batra, 28, Bharat Nagar, Delhi-52	BVSc&AH/CCSHAU/0 2	06.07.78

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
710	Gagan Kumar Pal, S/o Shri R. C. Pal	MPSVC/2369/06	234, Dhar Road, Indore, MP-452002	BVSc&AH/JNKVV/06	03.06.80
711	Gaikwad Gouri Pralhad	MahaSVC/7197/	Kenjal, Tal. Wai, Distt. Satara-415536, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	31.10.80
712	Gaikwad Pradeep Arjunrao	MahaSVC/7241/	'Akanksha', Ganpati Lane, Paoner, Tal. Paoner, Distt. Ahmednagar, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	20.09.80
713	Gaikwad Rohit Eknath	MahaSVC/7417/	C/62, Ashirwad CHS, Gunsagar Nagar, STN Road, Kalwa, Tal. Distt. Thane, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	11.09.82
714	Gaikwad Shahir Vitthal	MahaSVC/7240/	Bhalawani, Tal. Pandharpur, Distt. Solapur- 413304, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	17.05.81
715	Gaikwad Shivali Pradeep	MahaSVC/7574/	Om Prabhatkar, B-9, Gagtap Mala, Nasik Road, Nasik-422101, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	27.08.83
716	Gambhire Sheetal Subhash Rao, S/o Sh.Subhash Shamrao Gambhire	KarSVC/3824/06	C/o P.V. Biradar Lect in Hindi, Ambica Colony, Aurad- 585326, Dt.-Bidar, Karnataka	BVSc&AH/MAFSU/03	12.06.81
717	Ganapati Nayak Ajmira, S/o Shri Soma Naik	APSVC/4502/06	D.No. 11-182, Munnangi, Kollipara (M), Guntur Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	05.06.82
718	Gandhale Pradeed Narayan	MahaSVC/7539/	S/o Narayan Gandhale, A/p Vambori, Tal. Rahuri, Distt. Ahmednagar-413704, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	30.11.82
719	Gandhe Anjali Digambar	MahaSVC/7381/	"Vatslya", Shivaji Nagar, Tal. Arni, Distt. Yavatmal- 445103, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	14.04.81

<b>SNUM</b>	<b>NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALIF</b>	<b>DOB</b>
720	Genesh G.	KeralaSVC/3108/06	Kausthubhom, TC 15/855, Cotton Hill, Vazhuthacaud, Tvm-695010, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	13.04.82
721	Genesh Kumar Saini, S/o Sh. Daya Nand Saini	HVC/1948/	Saini Cloth Store, Pull Bazar, Narnaul (M/Garh), Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/0 8	08.07.80
722	Gangale Daya Panjabrao	MahaSVC/7255/	A-58, Vivekanand Society, Shrirampur, Pusad, Distt. Yavatmal-445204, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/03	02.01.81
723	Gangurde Nilesh Shivaji	MahaSVC/7688/	Om Sai Apartment, Room No. 13, Govind Nagar, Wafe, Shahapur, Distt. Thane, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	28.10.79
724	Ganiti Pavan Kumar, S/o Shri G. Balu Chennaiah	APSVC/4523/06	8/86, Sumitrnagar, Badvel- 516227, Kadapa Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	27.02.80
725	Ganvir Vicky Dipak	MahaSVC/7393/	C/o Dipak P Ganvir, Near Tahsil Office, Wadsa Road, Amrori (Bakli), Tal Amrori, Dt. Gadchiroli, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	26.07.81
726	Garima Saxena, D/o Sh. Vinod Kumar Saxena	DVC/0684/07	A-5/25, Sector-16, Rohini, Delhi-85	BVSc&AH/RAU/00	16.06.77
727	Gaurav Gupta, S/o Shri R.N. Gupta	UPVC/4416/06	T-2/149, G.S.V.M. Medical College, Kanpur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDAUA&T/ 06	10.05.80
728	Gaurav Sharma, S/o Sh. Gautam Sharma	RajSVC/3314/06	Bhanot Bhawan, Sabzi Mandi, Ward No. 13, Purani Abadi, Sriganganagar, Rajasthan	BVSc&AH/SKUAS&T/ 06	23.12.80
729	Gaurav, S/o Sh. Dharam Parkash	HVC/1907/	H.No. 219, Sector-5, U.E., Kurukshetra, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/0 6	10.12.82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
730	Gautam Chandan Kumar, S/o Late Nareswar Sarmah	ASM/2268/07	C/o Late Sh Nareswar Sarmah, Bhuktabari (Bamunpara), PO Sipajhar, Dt. Darrang-784415, Assam	BVSc&AH/AAU/07	30.09.83
731	Gautam Krishnaji Fulzele, S/o Krishn	RajSVC/3335/06	C/o Bhagwati Singh Rajawat, 2D/17, Jawahar Nagar, Bundi Rajasthan	BVSc&AH/Dr. PRDKV P/97	4.4.72
732	Gavadakatia Vijaya Madhavi, D/o Shri Malakondaiah	AP SVC/4460/06	Asst. B.C. Welfare Officer, Chirala, Prakasam Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	30.08.81
733	Gavali Anand Dagadu	MahaSVC/7365/	A/p Bhalawani, Tal. Pandharpur, Distt. Solapur-413304, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	26.01.83
734	Gawande Priya Jaggannath	MahaSVC/7490/	Krishna Vihar, 1st Petrol Pump, Akola Road, Akot, Tal. Akot, Distt. Akot-444101, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	07.06.82
735	Gawande Sudhri Sashebrao	MahaSVC/7167/	A/p-Sawarkar Nagar, Bilanpura, Achalpur, Tal. Achalpur, Distt. Amravati, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	02.07.80
736	Gawande Tushar Ramrao	MahaSVC/7119/	30, Sai Nagar, Gaiwadi, Tal. Daryapur, Distt. Amravati, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	12.12.81
737	Gaware Vaijeenath Sarjerao	MahaSVC/7461/	At Butegaon, Post Saygaon, Tal. Badnapur, Jalna-431203, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	25.09.80
738	Gawaskar Ritesh Pandurang	MahaSVC/7503/	17-Behind Mohata Garden, Bidkar Layout, Sant Takdoji Ward, Hinganghat, Tal. Hinganghat, Dt. Wardha, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	05.01.81
739	Gayan Deepanjyoti, S/o Sh. Khagendra Nath Gayan	ASM/2243/06	C/o K.N. Gayan, House No. 12, Bagharbori, Guwahati-37, Distt. Kamrup, Assam	BVSc&AH/AAU/06	05.12.82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
740	Gaykee Devendra Eknath	MahaSVC/7637/	A/p Kapra, Tal./Distt. Yavatmal-445005, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	04.04.82
741	Geeta Sharma, S/o Sh. Ram Dutt Sharma	DVC/0662/05	56/14, Manek Shah Marg, Delhi Cantt. Dhaula Kuan, New Delhi	BVSc&AH/GBPAUT/9	26.06.75
742	Geeta, W/o Sh. Janardan Maurya	RajSVC/3332/06	49, Station Road, Isarda, Swaimadhopur, Rajasthan	BVSc&AH/GBPUA&T/02	23.05.78
743	GEETHA RAMESH S/o G.SANTHAMOORTHY	TNVC/2099/05	OLD NO.15/1, NEW NO.33/1, VENKATACHALAM STREET, VEPERY, CHENNAI-7.	BVSc/TNAU/87	28-05-64
744	Ghadage Himmat Rangnath	MahaSVC/7656/	At Ajansond, Post Degaon, Tal. Pandharpur, Distt. Solapur-413304, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	28.01.84
745	Ghadge Rajendra Shivaji	MahaSVC/7728/	Main Road, Pimpri, Tal. Koregaon, Distt. Satara, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	06.10.83
746	Ghalwadkar Sachin Parshuram	MahaSVC/7451/	A/p Rukadi, Tal. Hatkalangale, Distt. Kolhapur-416118, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	03.10.80
747	Ghansyam Dutt Joshi, S/o Late Sh. Hari Dutt Joshi	UVC/236/06	Village-Chausala, PO Dhauladevi, Distt. Ainnora, Uttaranchal	BVSc&AH/CSAUA&T/94	15.08.70
748	Gharat Rohit Dayanand	MahaSVC/7270/	F-12 2/3, Sector-18, New Panvel, Tal. Panvel, Distt. Raigad-410206, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	04.10.80
749	Ghawar Pankaj Ganeshrao	MahaSVC/7595/	Niwara Colony No. 1, Ramkrushna Nagar, Akola-441001, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	18.01.81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
750	Ghaywat Kunal Dnyaneshwar	MahaSVC/7388/	Anudyan, 24, Hingna Road, Rajendra Nagar, Nagpur- 440016, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	25.02.82
751	Ghodake Madhuri Tukaram	MahaSVC/7222/	A/p Anawali, Tal. Pandharpur, Distt. Solapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	23.11.80
752	Ghogare Shantanu Ramesh Rao	MahaSVC/7430/	Shraddha Nagar, Nr Chikhali Gate, Lahurial Plot, Murtizapur, Tal. Murtizapur, Dt. Aकोia, Mahara shtra	BVSc&AH/MAFSU/05	11.04.81
753	Ghosh Amrita	GUJSVC/2690/06	Qtr. 27, S.B. Residential Complex, University Road, Rajkot-5, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	19.11.83
754	Ghule Rahul Prabhakar	MahaSVC/7442/	Ghule Building, Lane No. 5, Shivajinagar, Tal. Sangamner, Distt. Ahmednagar-422605, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	06.07.83
755	Gidde Dhanaji Ajinath	MahaSVC/7737/	At Giddewadi, Post Ashti, Tal. Mohol, Distt. Solapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	15.10.82
756	Giddi Girish, S/o Shri G. Sri Hari Rao	APSVC/4440/06	D.No. 2-7, Ambedkar Nagar, Yanam-533464, E.G.Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/PondUni./0 6	12.09.81
757	Giradkar Mangeshwari Kawduji	MahaSVC/7361/	A/p Adyal, Shivaji Chowk, Pauni, Distt. Bhandara, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	14.12.82
758	Giripragada Sravan Kumar, S/o Shri Kishan Rao	APSVC/4478/06	H.No. 4-3-216/10, Bhoom Nagar, Peddapally, Karimnagar Dt.-505172, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	15.05.82
759	Girish H.M., S/o Sh. Malleshappa H.	KarSVC/3848/06	Hirenallur-577562, Kadur Tq., Chickamagalur Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	17.01.81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
760	Girish Kumar Tyagi, S/o Shri A.S. Tyagi	UPVC/4455/06	Vill. Nanu, PO Mandulla, Distt. Ghaziabad, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/0 6	23.12.80
761	Girish Radder, S/o Sh. Ramappa	KarSVC/3836/06	C/oParashurama Reddy Radder, Malanayakanahalli- 581119, Ranebennur Tq., Haveri Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	20.07.83
762	Gite Kailash Sheshrao	MahaSVC/7346/	Sheshrao Bhimrao Gite, Shrinivas Niwas, Nr Nareshwar Mandir, Main Road, Kandhar, Tal. Kandhar, Dt Nanded, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	10.04.78
763	Giady	KeralaSVC/3201/06	Vempilly House, Vengalloor PO, Thodupuzha, Idukki Distt.-685584, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	17.03.81
764	Gobade Mahesh Ramesh	MahaSVC/7338/	At Jambhora, Post Palora, Tah. Mohadi, Distt. , Bhandara-441905, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	25.12.81
765	Gobinder Singh, S/o Sh. Tara Singh	Pb.SVC/2671/06	1042, St. No. 5, Krishna Nagar, Khanna-141401, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/ 06	01.01.82
766	Gogoi Sophia Makdoh, D/o Sh. Pradeep Kr. Gogoi	ASM/2251/06	House No. 13, Janapath Bakrapara, Khanapara, Guwahati-781022, Assam	BVSc&AH/AAU/06	05.12.81
767	Gondchar Dipak Atmaram	MahaSVC/7564/	Dr. R.S. Zape, Laxminagar, Mothi Umri, Akola-444005, Maharashtra	BVSc&AH/Dr.PDKV/0 0	04.07.68
768	Gopesh Singh Yadav, S/o Shri Vidhya Ram Yadav	UPVC/4533/06	Vill. Maharaj Pura, PO Chankarnagar, Etawah, Uttar Pradesh	BVSc&AH/IGKV/06	01.07.80
769	Goswami Anupananda, S/o Sh. Achyut Ch. Goswami	ASM/2244/06	Gaurisagar, Nakatani Gaon, PO Gaurisagar, Distt. Sivasagar-785664, Assam	BVSc&AH/AAU/06	01.03.81



<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
770	Gotame Vinod Tryambak	MahaSVC/7423/	At Gates Bu, Post Kone Tal. Wade, Distt. Thane- 421303, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	15.09.79
771	Gothi Anil Kalidas	GUJSVC/2738/06	At & Post Gadh, Ta. Palanpur, Distt. Banas Kantha (N.G.)- 385515, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	28.05.84
772	Goutam Kamila, S/o Sh. Subal Chandra Kamila	OVC/2079/06	At/PO Rajpur, Via Jaleswar, Distt. Balasore, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	15.01.80
773	Govardhan R., S/o Sh. Rathnaian B.	KarSVC/3887/06	Talemaratha Hally, Pavagada Tq., Tumkur Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	24.04.84
774	Govinda T.H., S/o Sh. Honnaiah D.	KarSVC/3924/06	Thaggahally Post, Kappa Hobli, Maddur Tq., Mandya Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	08.05.83
775	Gowane Gopal Ramdasji	MahaSVC/7258/	C/o Vijaya Kulkarni, Renuka Typing Institute, Kiran Nagar, 1, Amravati, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/03	30.07.80
776	Gramsci Bhupal, D/o Sh. D.S. Bhupal	RajSVC/3242/06	Darshan Singh, Vill Makasar, Hanumangerh, Rajasthan	BVSc&AH/SKNDU/0 5	27.12.80
777	Grish Chandra Barthwal, S/o Late Sh. G.S. Barthwal	UVC/264/06	22/2, Teg Bhaudur Road, Lane No. 1, Dehradun, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/9 1	29.10.58
778	Gorge Hagi Chymang, S/o (L) Datip Kyndiah	MeghSVC/244/07	C/o D. Chymang, Mynthong Pohkesh, Jowai- 79, Meghalaya	BVSc&AH/AAU/07	22.12.80
779	Guddu Kumar, S/o Sh. Arjun Prasad Gupta	BVC/2718/06	Vill. Dev, PO Dev, PS Dev- 824202, Distt. Aurangabad, Bihar	BVSc&AH/NDUA&T/0 4	11.01.81

<b>SNUM</b>	<b>NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALIF</b>	<b>DOB</b>
780	Gudewar Jagdish Ganpat	MahaSVC/7546/	460, Sonarpada, Padmanagar, Bhiwandi, Tal. Bhiwandi, Distt. Thane- 421305, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	04.08.82
781	Gudla Pramod Reddy, S/o Shri G. Adinarayana Reddy	APSVC/4470/06	7/326-1, Bhagyanagar Colony, Kadapa-516002, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	06.07.81
782	Gujrathi Praveenkumar Govindrao	MahaSVC/7662/	C/o G.R. Gujrathi, Vaishali Traders, Hardware & Paint Merchant, Main Road, Dharmabad, Distt. Nanded- 431809, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	23.06.81
783	Gulam Jaffar Ansari, S/o Shri Gulam Rabbani	APSVC/4433/06	H.No. 5-9-175, Hyderkhan Guda, Nalgonda, Andhra Pradesh	BVSc&AH/PKV/86	15.07.62
784	Gunjal Prashant Sudamarao	MahaSVC/7158/	Plot No. 621, Vrithal Nagar, Shirur, Tal. Shirur, Distt. Pune-412210, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	23.12.81
785	Gunjan Shrivastava, D/o Dr. Anand Kumar Shrivastava	UVC/194/06	A-33, Ring Road, Awas Vikash, Rudrapur, U.S. Nagar, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/0 6	29.10.83
786	Gupte Aditi Girish	MahaSVC/7677/	14/214, Shree Darshan, Azad Nagar, J.P. Road, Andheri (W), Mumbai- 400053, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	08.08.83
787	Gurav Poonam Arun	MahaSVC/7227/	Ganesh Kripa Chawl, Room No.14, Kopar Road, Juni- Dhobivli, Tal. Dombivli, Thane, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	07.06.82
788	Gurav Poonam Arun	MahaSVC/7228/	Vadale, Tal. Phaltan, Distt. Satara, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	17.07.81
789	Gurav Prashant Shivaji	MahaSVC/7646/	'Sadguru Niwas', A/p Kharsundi, Tal. Atpadi, Distt. Sangli-415308, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	25.02.84

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
790	Gurpreet Singh, S/o Sh. Iqbal Singh	UVC/230/06	Veterinary Hospital, Rameswarpur PO, Lalpur, Distt, U.S.Nagar	BVSc&AH/GBPUAT/01	15.01.78
791	Gutam K. Dass, S/o Sh. Thakur Charan Dass	HPSVC/752/06	Senior Scientist North Temperate Regional Station CSWARI, Garsa, Kullu, H.P	BVSc&AH/BCKVV/02	07.11.67
792	Gyanendra Singh Gahlot, S/o Shri Matadeen	MPSVC/2414/07	C/o Shri Ramswaroop Karolia, Kila Road, Raini Gali, Ambah, Morena, MP-476111	BVSc&AH/JNKVV/06	02.07.81
793	H. PUSHKIN RAJ S/o M.HARIDOSS	TNVC/0822/05	OLD NO.18, NEW NO.68, NAGALUTHU STREET, KANCHEEPURAM 631501, KANCHEEPURAM DISTRICT, TN	BVSc/TANUVAS/01	04-07-76
794	Hadge Milind Rameshwar	MahaSVC/7382/	Pohara, Post Pohara, Tal. Lakhani, Distt. Bhandara-442809, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	13.07.83
795	Hagawane Sachin Dinkar	MahaSVC/7200/	III-B/3, Dhom Colony, Wai, Tal. Wai, Distt. Satara-412803, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	13.06.82
796	Handekar Pravinkumar Bhalchandra	MahaSVC/7627/	C/o B.B. Handekar, Near Hanuman Mandir, Govindpur, Tal. Nagbhid, Distt. Chandrapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	11.08.82
797	Hanuman Arya, S/o Sh. Gheesa Ram	RajSVC/3334/06	VPO Raghunathpura, TEH. Kotputli, Jaipur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	27.04.79
798	Haobijam Mangolijao Singh, S/o Sh. Haobijam Thoiba Singh	DVC/0602/02	E-74, Sidarth Nagar, New Delhi	BVSc&AH/AAU/00	01.03.74
799	Haque Mafidul, S/o Sh. Phul Mahammad Ali	ASM/2246/06	Vill. & PO Hengalpara, PS Sipajhar, Distt. Darrang (Assam)	BVSc&AH/AAU/06	01.03.82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
800	Heri Narayanan P.M.	KeralaSVC/3167/06	Paramana, Paramekkavu Lane, Thrissur-680020, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	09.12.82
801	Hari Om Meena, S/o Sh. Mangi Lal Meena	RajSVC/3317/06	Gandhi Pura, Lakhari, Bundi, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/05	02.12.81
802	Harihar Prasad Gupta, S/o Sh. Nanhak Chand Gupta	UVC/226/06	I/206, Pantnagar, Distt. U.S. Nagar, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/78	01.11.57
803	Harikant, S/o Shri R.K. Kansujya	UPVC/4393/06	VIII. Razakpur, PO UGU, Distt. Unnao, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDUAU&T/06	10.08.80
804	Harinandan Kumar, S/o Sh. Sitaram Sahu	BVC/2704/05	VIII. Hemjapur, PO Shivkund, PS Gharhara-811201, Distt. Munger, Bihar	BVSc&AH/SKUAS&T/05	25.10.79
805	Harinder Singh, S/o Sh. Bhajan Singh	Pb.SVC/2677/06	B-6, 394, St.No. 2, Vikas Nagar, Rahon Road, Nawan Shahr, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/06	02.12.81
806	Harish Chandra Joshi, S/o Sh. Damodar Joshi	UVC/252/06	25, New Colony, Dharanulla, Distt. Almora, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/90	22.06.64
807	Harish Chandra, S/o Shri Lakan Singh	UPVC/4417/06	VIII. Haripura, PO Rampur, Kirawali, Agra, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUA&T/06	10.06.80
808	Harjeet Singh Khakh, S/o Sh. Harbans	RajSVC/3277/06	21, Setia Farm, Main Road Basanti Chowk, Sriganganagar, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	20.12.79
809	Harmanpreet Singh, S/o Sh. Hardev Singh	RajSVC/3327/06	Opp. UIT Quarters, Indira Colony, Bikaner, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/03	27.07.75

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
810	Hamendra Kumar, S/o Sh. S.N. Sharma	UVC/247/06	33, Van Vihar, Ballupur, Dehradun, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/9 6	14.03.69
811	Hase Pankaj Bhanudas	MahaSVC/7128/	'Madhumati', Sambhaji Nagar, Parner, Tal. Parner, Dt. Ahmednagar, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	12.10.81
812	Hatkar Devrao Nagorao	MahaSVC/7602/	Radhakrushna Colony, Morshi, Distt. Ahmednagar- 444905, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	03.08.79
813	Hazarika Ankur, S/o Sh. Keshab Hazarika	ASM/2253/06	C/o Sorbajanin Bhandar, PO Rukmini Gaon, Guwahati-22, Assam	BVSc&AH/AAU/06	16.02.77
814	Hazarika Jayanta, S/o Sh. Deben Hazarika	ASM/2258/06	Vill. & PO Bihpuria, Ward No. 3, Distt. Lakhimpur- 784161, Assam	BVSc&AH/AAU/06	31.01.82
815	Hedau Madhuri Sudhakarrao	MahaSVC/7172/	C/o Anantrao Lathe, Deshmukhpura, Katol, Distt. Nagpur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	14.04.81
816	Hegaje Patil Shivanand Ramgonda	MahaSVC/7280/	Main Road, Sulkud, Tal. Kagal, Distt. Kolhapur- 416216, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/03	01.03.79
817	Hemant Kumar Ojha, S/o Shri Subhash Chandra Ojha	MPSVC/2395/06	Bhure Baba Ki Basti, Chhatra Bazar, Lashkar, Gwalior, MP	BVSc&AH/JNKVV/06	05.09.80
818	Hemant Kumar Srivastava, S/o Sh. Mahesh Prashad	DVC/0600/02	D-97, Anand Vihar, Railway Housing Society, Delhi- 110092	BVSc&AH/JNKVV/82	10.06.60
819	Hemanth Kumar B.K, S/o Sh. Kademani B.H.	KarSVC/3854/08	Fathepura, Tumminakatte- 581119, Ranebennur Tq., Haveri Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	18.05.83

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
820	Hemashree P., D/o Sh. Puttalingaiah	KarSVC/3932/06	Apeksha Nilaya, 4th 'A' Cross, I Main, Hanumanthpura, Tumkur, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	18.05.83
821	Hemendra Kumar Sharma, S/o Sh. Lakhan	RajSVC/3330/06	Near Khadi Bhandar, Bhusawar, Bharatpur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/00	10.11.75
822	Hemendra Singh Solanki, S/o Sh. S.S. Solanki	DVC/0634A/04	H.No. WZ-193A, Palam Village, New Delhi-110045	BVSc&AH/CSAUA&T/00	23.08.76
823	Himangshu Palui, S/o Sh. Dinabandhu Palui	WBSVC/3265/06	Vill. Tentulmuri, PO Singrapur, Distt. Hooghly-712614, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/06	27.03.81
824	Hrudananda Malik, S/o Sh. Upendra Malik	OVC/2102/07	A/PO Kesharipur, Via Soro, Distt. Balasore, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	12.06.82
825	I. Mohamed Ahsif, S/o Sh. A.K. Ismail	TNVC/3581/06	2344, West-II Street, Pudukottai-622001, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/85	01.06.61
826	I. MURUGARAJ S/o P. IRULAPPAN	TNVC/0041/03	B2/3, HOUSING UNIT FLATS, K.K NAGAR, MADURAI-020, TAMILNADU	BVSc/Uni of Madras/67	21-06-46
827	I. Corbon Goderey David, S/o Sh Ivan Thangasamy	TNVC/3293/05	Golden Square, K.P. Valasai, Tenkasi, Tirunelveli Dt, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/94	21.11.70
828	Ilasariya Ramesh Kumar Nathalal	GUJSVC/2695/06	Lunva Road, Gokul Gam Farm House, Ta. Palanpur, 385001 (B.K.), Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	22.07.83
829	Inderdeep Singh Kahlon, S/o Sh. Balbir Singh Kahlon	Pb.SVC/2694/06	647, Rishi Nagar, Behind Income Tax Colony, PO Model Town, Jalandhar, Punjab	BVSc&AH/CSKHPKV/06	08.04.79

<b>SNUM</b>	<b>NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALIF</b>	<b>DOB</b>
830	Inderjit Singh, S/o Sh. Jamail Singh	Pb.SVC/2672/06	248, W.No. 9, VPO Sheikupur, Moh. Soodan, Distt. Kapurthala, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/06	19.10.81
831	Indira Paul, D/o Sh. Rabindranath Paul	WBSVC/3249/06	24/2/133, Mondai Para Lane, Kolkata-700090, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFSU/06	30.03.83
832	Indrajeet, S/o shri Doodhnath	UPVC/4468/06	Vill. Sadullapur, PO Daundi, Distt. Jaunpur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/KAU/06	05.03.76
833	Indu K.	KeralaSVC/3116/06	Karthika, Chungathara PO, Malappuram Distt.-679334, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	12.01.82
834	Indu Shekhar Misra, S/o Shri C.S. Misra	UPVC/4406/06	SA 4/67, A/2 Ka Nai Basti, Doulatpur, Pandeypur, Varanasi, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/06	04.04.83
835	Induru Pratima, D/o Shri I. Rajasekhar Reddy	APSVC/4451/06	J.R. Peta, Atmakur, Nellore Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	01.07.82
836	Ingale Pradeep Dhanaji	MahaSVC/7536/	A/p Pisora, Tal. Shrigonda, Distt. Ahmednagar, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	21.06.83
837	Ingale Santosh Laxman	MahaSVC/7510/	A/p Deulgaon Siddhi, Tal. Distt. Ahmednagar-414001, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	02.07.82
838	Ingle Kailas Shankar	MahaSVC/7383/	"Keshargandh", Ward No.17, Shivaji Nagar, Chikhali, Tal. Chikhali, Dt. Buldana, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	21.10.80
839	Irappa, S/o Sh. Bheema Sing	KarSVC/3846/06	L.T. No. 3, Basavana Bagewadi, Bijapur Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	04.07.79

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
840	Islam Mohidut, S/o Sh. Mazibar Rahman	ASM/2267/07	Vill. Bhairar Pam, PO Mandia, Distt. Barpeta, Assam	BVSc&AH/AAU/07	18.01.82
841	Islam Shahidul, S/o Late Sh. Abdul Mazid Mullah	ASM/2236/06	Vill. Alisinga Gaon, PO Lalpul Bazar, Distt. Darrang-784514, Assam	BVSc&AH/AAU/06	01.03.69
842	J. BASCAL LEO S/o I. JOSEPH DURAIRAJ	TNVC/2928/05	7C, RUBY ILLAM, PERUMAL SWAMY KOIL STREET, SATTANKULAM 628 704, THOOTHUKUDI DISTRICT	BVSc/TANUVAS/00	06-05-75
843	J. DAVID SURESH S/o K. JOSEPH	TNVC/2968/05	2 / 25, SUSEELA NAGAR, KELAMBAKKAM, KANCHIPURAM DISTRICT PIN 603 103	BVSc/TANUVAS/92	12-03-69
844	J. JOHNSON RAJESWAR S/o J. JEEVA RATNADHASS	TNVC/1983/05	36-I, LOUIS STREET, WATER TANK ROAD, NAGERCOIL 629 001, TAMIL NADU.	BVSc/TNAU/84	15-05-61
845	J. MURALIDHARAN S/o G. JEGANATHAN	TNVC/1239/05	10-1187E, MUNUSAMY GOUNDER STREET, KOLATHUR (PO), METTUR (TK), SALEM (DT)	BVSc/TANUVAS/96	03-05-73
846	J. RAMESH S/o N. JAYABALAN	TNVC/1274/05	E1, SHRIMATHI APARTMENTS, NO.7, JONEHAN LANE, SANTHOME, CHENNAI 600 028	BVSc/TANUVAS/98	02-06-75
847	J. RAMESH S/o V.A. JAYARAMACHAND RAREDDY	TNVC/2989/05	PARITHIPUTHUR VILLAGE & POST, ARAKKONAM TALUK, VELLOREDISTRICT 631 002	BVSc/APAU91	14-01-65
848	J. RAMKRISHNA S/o J.B. SASTRY	TNVC/1556/05	BL-1, CHINNA KRISHNA TOWERS, 176-B, M.T.H. ROAD, VILLIVAKKAM, CHENNAI 600 049.	BVSc/Uni of Madras/64	07-09-41
849	J. SELVARAJ S/o G. JAYARAMAN	TNVC/1638/05	25A, MANICKAVASAGAR STREET, EZHIL NAGAR, MEDICAL COLLEGE ROAD, THANJAVUR 613 007	BVSc/TANUVAS/94	05-09-71



<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
850	J. Jayanthi, D/o J. Jothi	PondiSVC/284/06	BC-3, Telecom Qtrs., Jaya Nagar, Reddiarpalayam, Pondicherry-10	BVSc&AH/Pondi Uni/05	28.02.84
851	J. JOHN KIRUBAHARAN S/O D. JOHN FRANKLIN	TNVC/2711/05	410, PREMIER, GRIHALAKSHMI APTS, 71, PERAMBUR HIGH ROAD, CHENNAI 600 012	BVSc/TNAU/87	01-02-64
352	J. JOSHUA ALLAN S/o A. JOSEPH JAIRAJ APPADURAI	TNVC/3169/05	3B, LAKSMI NARASINGAPURAM STREET, THAI ILLAM, PALAYAMKOTTAI, TIRUNELVELI DISTRICT	BVSc/TANUVAS/97	13-05-74
853	J. KALATHARAN S/o R. JOSEPH JESUDASAN	TNVC/1746/05	4 / 1-A, VENKATRAMA IYER STREET, VENKATAPURAM, OPPOSITE TO NANDINI VEGETABLES, AMBATTUR, CHENNAI 600	BVSc/Uni of Madras/71	20-07-49
854	J. P. M. SUNDARARAJ S/o P. D. SUNDARARAJ	TNVC/1587/05	NO. 137, SAKTHI NAGAR, VIRUTHAMPET, VELLORE 632 006.	BVSc/TNAU/80	19-12-52
855	J. V. KRISHNAMURTHY S/o J. V. NARASIMHULU	TNVC/1332/05	6.B, 6TH FLOOR, MILINIUM TOWER, 21, TAYLORS ROAD, CHENNAI 600 010.	BVSc/Uni of Madras/65	11-11-43
856	J. VENKATESH S/O L. JAYAKOTHANDA RAMASAMY	TNVC/2604/05	23/18, GOLDEN AVENUE, II CROSS STREET, VIJAYA NAGAR, VELACHERY, CHENNAI 600 042	BVSc/TANUVAS/97	16-06-73
857	Jadav Rajeshkumar Dinubhai	GUJSVC/2777/06	Janta Colony, Kothamba, Ta. Lunawada, Distt. Panchmahals-389220, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	28.10.81
858	Jadhao Suresh Gulabrao	MahaSVC/7493/	At Krushnanagar (Tande), PO Tadoli, (Tadoba), Tal. Arni, Distt. Yavatmal, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	01.06.78
859	Jadhav Avinash Vitthalrao	MahaSVC/7357/	A/p Radi, Tal. Ambajogai, Distt. Beed-431523, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	02.06.83

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
860	Jadhav Bharat Ramrao	MahaSVC/7379/	Parsawat Nagar, Nr. Chatrapati Rajarshri Shahu School, A/p Parbhani, Tal. Dt. Parbhani, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	03.12.82
861	Jadhav Mahesh Janardan	MahaSVC/7706/	A/p Karak, Tal. Rajapur, Distt. Ratnagir, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	03.11.80
862	Jadhav Milind Mohan	MahaSVC/7549/	2-A/22, 2nd Floor, M.M.R.D.A. Colony, Opp. Durga Nagar, Vikhroli Link Road, Jogeshwari (E), Mumbai, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	17.09.82
863	Jadhav Ravindra Kaka	MahaSVC/7570/	A/p Wavarhire, Tal. Man, Distt. Satara-415508, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	29.03.84
864	Jadhav Sandip Ramchandra	MahaSVC/7716/	86, Kesarkar Peth, Satara-415002, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	06.04.83
865	Jadhav Sanju Raghunathrao	MahaSVC/7407/	Sawantwadi, Tal. Beed, Distt. Beed-431122, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	17.02.81
866	Jadhav Santosh Yogiraj	MahaSVC/7460/	B&C Quarter, 1/2, Kalamb Road, Kaij, Tal. Kaij, Distt. Beed-431123, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	01.05.80
867	Jadhav Vishwanath Tukaram	MahaSVC/7689/	A-1/3, B.M.C. Building, Sardar Nagar No. 3, Hemant Majrekar Road, Sion Koliwada, Mumbai, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	23.02.82
868	Jadhav Vivek Vithob	MahaSVC/7679/	5/B-704, Sunrise Mhada Colony, Film City Road, Malad (E), Mumbai-400097, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	27.10.79
869	Jadhawar Nilin Bapurao	MahaSVC/7632/	'Laxmi Niwas', Walwad, Tal. Barshi, Distt. Solapur-413401, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	02.05.80

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
870	Jagadamba Kunja, D/o Shri Nagulu	APSVC/4461/06	Vankavarigudem, Julugumalli (M), W.G. Dt.- 534456, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	04.02.77
871	Jagdale Ajit Arun	MahaSVC/7187/	Satara Road, (Padli), Tal. Koregaon, Distt. Satara, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	05.07.82
872	Jagdish Pr. Kushwaha, S/o Shri Sitaram Kushwaha	UPVC/4488/06	Vill. 7PO, Badokhar, Distt. Allahabad, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/ 06	05.03.77
873	Jagtap Archana Bajirao	MahaSVC/7196/	E-6, Ganesh Vihar, Kale Padal Road, Sasane Nagar, Hadapsar, Tal Haveli, Pune, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	28.09.81
874	Jagtap Sopan Gautamrao	MahaSVC/7355/	Bhendi Surtrak, Tal. Barshi Takli, Distt. Akola-444001, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	28.11.79
875	Jagtar Singh, S/o Sh Jagraj Singh	Pb SVC/2659/06	38. Baba Deep Singh Avenue, FGC Road, P/o SJS Nagar, Nangli Bhatt, Amritsar, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/ 06	11.05.83
876	Jaikishan Prasad, S/o Late Sh. Vakeel Prasad	UVC/262/06	Professor A.G.R.&O CBASC, Pantnagar, Uttaranc hai	BVSc&AH/CSAKEPV V/92	20.09.69
877	Jairam Laharia, S/o Shri Brindavan	MPSVC/2426/07	Jhar da Bazar, Nagar Panchayat, Pawai, Panna, MP-488446	BVSc&AH/JNKVV/81	25.09.55
878	Jaiswal Satyam Anandjivan	MahaSVC/7651/	Anandnagar, A/p Manatha, Tal. Hadgaon, Distt. Nanded-431712, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	05.05.83
879	Jaiswal Vinod Shamlaji	MahaSVC/7295/	"Sham Mangal Niwas" Rajendrapeth, Gangakhed, Tal Gangakhed, Dist Parbhani, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	11.01.80

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
880	Jakasaniya Bhaveshkumar Rameshbhai	GUJSVC/2739/06	At Jetpar, Ta. Morbi, Distt. Rajkot-363630, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	15.06.84
881	Jaman Ram, S/o Sh. Ganesh Ram	UVC/234/06	Vill. & Post Digtoli, Distt. Pithoragarh, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/8 8	02.10.59
882	Jamma Vaibhava Parabanappa	MAHA SVC/7301/	A/p Kanabus (G), Tal. South Solapur, Distt. Solapur, Maharashtra	BVSc&AH/Dr.BSKKV/ 01	30.03.79
883	Jancy Mary Issac	KeralaSVC/3165/06	House No. 22, Chitra Nagar, Pattom, Tvm- 685004, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	08.08.81
884	Jaspreet Singh, S/o Sh. Guizar Singh	Pb.SVC/2652/06	Peenga Wala Chowk Patti Rao Ki, Ward No. 8, Goraya Distt. Jalandhar, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/ 06	25.11.81
885	Jaswant Singh, S/o Shri Shiv Bachan Singh	UPVC/4469/06	C-3141, Vidapesth Road, Varanasi, Uttar Pradesh	BVSc&AH/JNKVV/01	01.07.75
886	Jatinder Gulani, S/o Sh. Pritam Singh	DVC/0603/02	J-3/2, Krishna Nagar, Delhi- 110051	BVSc&AH/PAU/01	11.07.79
887	Jatinder Singh, S/o Sh. Manjit Singh	Pb.SVC/2662/06	Shivalik Enclave, Gali No 2, Chandigarh Road, Nawan Shahr, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/ 06	11.02.82
888	Javed Ahmad, S/o Shri Newaj Ali	UPVC/4396/06	Vill. Batela, PO Orwara, Distt. Basti Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/0 6	18.06.83
889	JAVID AHMED S/O S.A. SHAKIR	TNVC/2467/05	FLAT 1C, 246, RANGARAJAPURAM, MAIN ROAD, KODAMBAKKAM, CHENNAI-24.	BVSc/Uni of Madras/72	20-05-48

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
890	Jawahar Lal Singh, S/o Sh. B.L. Singh	UVC/267/07	H.No. 1228/IV Jha Coloney, Pantnagar, Distt. U.S. Nagar,Uttaranchal	BVSc&AH/CSAKEPV V/89	05.12.67
891	Jawale Sasrika Sambhaji	MahaSVC/7551/	11, Shehnagar, Mendhikhana Road, Ambejogai, Tal. Ambejogai, Distt Beed-431517, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/03	30.09.80
892	Jay Prakash Verma, S/o Shri Rama Dhar Verma	UPVC/444-8/06	Vill. & PO Gopalpur, Distt. Lakhimpur,Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/0 6	10.03.79
893	Jay Singh, S/o Shn K.B. Lall	UPVC/4395/06	Vill. & PO Atwavaik, Distt. Unnao,Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDAUA&T/ 06	01.04.78
894	Jayalakshmi Jaliparthi, D/o Shri J. Sambasiva Rao	APVC/4509/06	Takakuntla Vissannapeta (M), Krishna Dt.-521125, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	06.07.81
895	Jayaprakash Bhanja, S/o Sh. Prafulla Kumar Bhanja	OVC/2081/05	At Chahalima, Distt./PO Sarasankha, Balasore,Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	31.08.81
896	Jayaprakash Ginni, S/o Sh. Jalteppa	KarSVC/3950/06	Hirerugi Post, Indri Tq., Bijapur Distt. Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	10.06.82
897	Jayaram V., S/o Sh. Venkatesh	KarSVC/3907/06	Kanganahally Village, Ullappanahally-563125, Chintamani Tq., Kolar Distt. Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	02.12.83
898	Jayashree B., D/o Sh. Basanvarajappa S.	KarSVC/3932/06	Navanekere, Hosadurga Road, Post Hoiakere, Tq Chitradurga Distt. Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 5	21.05.84
899	Jayashree E S., D/o Sh. Shankarappa E H	KarSVC/3985/06	Eravathi Halaga Post, Thirthahalli Tq., Shimoga Distt. Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	10.02.82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
900	Jeeban Ku Munda, S/o Sh. Madhu Munda	OVC/2121/07	At Madhyapur, PO Tentalapashi, Distt Keonjhar, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	03.05.83
901	Jeeyan Ranjan Dash, S/o Sh. Pranath Dash	OVC/2131/07	Qr. No.-L/446, Phase-I, Ta/PO Dumduma, H.B. Colony, Bhubaneswar- 751019, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	07.07.72
902	Jerald Mahaesh Kumar, S/o Sh. Maria Savarimuthu	OVC/0627/04	Small Animal Faculty, National Institute of Immunology Aruna Asaf Ali, Old JNV Campus, New Delhi	BVSc/TANUVAS/98	16.07.73
903	Jerrish M.	KeralaSVC/3174/06	Bethanikunnel House, Koovappally PO, Thodupuzha, Idukki- 685590, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	25.05.80
904	Jessy V.	KeralaSVC/3140/06	Mangoth Kandy, Chevayur PO, Calicut-673017, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	09.03.81
905	Jha Deepak Kumar	MahaSVC/7289/	Madhwa, Ward No. 6, Baihanaka, V.D.C., Distt. Mahottari, Nepal	BVSc&AH/MAFSU/04	21.04.74
906	Jibrán Danish Abdul Hafeez	MahaSVC/7357/	S.T.R. Qtr No. 8, Near Model English School, Subhash Road, Tal. Dt. Parbhani, Mahar ashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	25.04.82
907	Jiji George	KeralaSVC/3143/06	Manjooran House, Poyya PO, Mala (Via.), Thrissur- 680733, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	02.04.82
908	Jinkalod Shrinivas Gangadharrac	MahaSVC/7278/	Gandhi Chowk, Biloli, Tal. Biloli, Distt. Nanded- 431710, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	01.02.78
909	Jirobe Sunil Suryakant, S/o Sh. Jirobe Suryakant	KarSVC/3956/07	C/o Shashikant S. Sultanpura- 585401, Mailoor Rd, Behind Haji Saw Mill Vidyanagar Colony Bidar Dt., Karnataka	BVSc&AH/MAU/98	24.10.77

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
910	Jisha M. Nair	KeralaSVC/3156/06	Niji Sadnam, Pudurkkara, Ayyanthole PO, Thrissur-680003, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	26.04.82
911	Jitender Jagpal, S/o Sh. Harjeet Singh Jagpal	DVC/0678/06	C-505, Kidwai Nagar, New Delhi-23	BVSc&AH/CCSHAU/06	21.06.83
912	Jitender Kumar Gaur, S/o Sh. Raghubeer Dutt	DVC/0617/02	H.No. 98, (Behind Temple), Ishwar Colony, Bawana, Delhi-110039	BVSc&AH/CCSHAU/94	09.02.71
913	Jitendra Bhadur Singh, S/o Shri R.N. Kanaujia	UPVC/4403/06	Vill. Kherwa, PO Purbawan, Distt. Hardoi, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/06	08.03.79
914	Jitendra Ku Patra, S/o Sh. Narahari Patra	OVC/2127/07	At-Devog, PO Jagatsinghpur, Distt. Jagatsinghpur, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	02.06.82
915	Jitendra Kumar Sharma, S/o Shri Prayag Lal Sharma	MPSVC/2370/06	V&P Jaura, Morena, MP	BVSc&AH/JNKVV/06	01.07.81
916	Jitendra Tiwari, S/o Sh. Rameswar Dayal	RajSVC/3339/06	180-B, Jawahar Nagar, Bharatpur, Rajasthan	BVSc&AH/JNKVV/03	19.12.78
917	Jitendra Verma, S/o Sh. Hem Chand Verma	HPSVC/771/06	Secretary Niwas Ward No. 4 Shadyana Road, Theog, Shimla, H.P	BVSc&AH/CSKKVV/06	01.01.82
918	Jogdand Sachin Ramkrishna	MahaSVC/7245/	Kamleshwar Nivas, Hatola Road, Pargaon, Tal. Vashi, Distt. Osmanabad, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	09.09.81
919	Jogdand Swati Manikrao	MahaSVC/7528/	Bhavani Nagar, Dharur Road, Kaij, Distt. Beed-431123, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	20.02.82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
920	Joge Sandip Vasantrao	MahaSVC/7163/	29, Ganesh Nagar, Near Shri-Bhavani Mangal Karyalaya, Wardha (Wardha), Wardha, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	30.06.80
921	Jogmaya Singh, D/o Sh. Nityananda Singh	OVC/2116/07	A/PO Baham, Via Gourpali, Distt. Sambalpur, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	18.07.80
922	Jondhale Dnyaneshwar Shivajirao	MahaSVC/7192/	Nimgaon Jali, Tal. Sangamner, Distt. Ahmednagar-413714, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	05.01.82
923	Jondhale Nitin Shivaji	MahaSVC/7567/	Type-C, Gautamnagar, A/p Kolpewadi, Tal. Kopergaon, Distt. Ahmednagar-423602, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	19.10.82
924	Joshi Kiran Narayanrao	MahaSVC/7512/	21, Sarthak Niwas, Nath Nagar, Parbhani-431405, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	05.03.83
925	Joshi Sudhir Shridhar	MahaSVC/7262/	Plot No. 27, Brahman Sabha Colony, Paratwada, Distt. Amravati, Maharashtra	BVSc&AH/PKV, Akola/89	01.09.85
926	Joshi Suresh Gopalrao	MahaSVC/7463/	"Sunem" Arcade, B-6, Govindnagar, Bansilal Nagar, Tal. Distt. Aurangabad-431001, Maharashtra	BVSc&AH/KKVP/76	28.07.52
927	Joy Lalmuanpuia Katharia, S/o Sh. G.K. Katharia	MizSVC/0156/06	D-30, Basic Mual, Ramhlun 'N', Aizawal Distt., Mizoram	BVSc&AH/CAU/05	10.02.80
928	Joydeb Ghosh, S/o Late Sh. Nilkamal Ghosh	WBSVC/3217/06	59CC/16, Anupama Housing Complex, VIP Road, Kolkata-52, West Bengal	BVSc&AH/BCKV/79	06.10.56
929	Julliet, S/o Lt. Co. (Retd.) Molly Mathew	KarSVC/3898/06	Command Hospital, Airforce, Bangalore-560087, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	28.12.82



<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
930	Justin Davis K.	KeralaSVC/3171/06	Kollannur House, Nallamkattu PO, Arimbur, Thrissur-680620, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	24.05.83
931	Juvekar Jayavant Chandrakant	MahaSVC/7236/	Vasudeo Niwas, 1004, Mangaon, Sawantwadi Road, Tal. Kudal, Dt. Sindhudur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	20.10.81
932	Jyothi Kaja, D/o Shri K.H. Sundara Rao	APSVC/4489/06	H.No. 5-4-17/1, Bhavani Colony, Rajendranagar, Hyderabad-500030, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	01.07.84
933	Jyoti Dubey, W/o Shri Rahul Dubey	UPVC/4547/06	Vill. Dubauli, PO Nikaspur, Distt. Ambedkarnagar, Uttar Pradesh	BVSc&AH/AAU/03	03.08.79
934	Jyoti Kumar, S/o Sh. M.S. Dharmadheran	DVC/0595/02	AMS 163, Army Hq., Room 54, B-Block DITQ PO, New Delhi-110011	BVSc&AH/KAU/81	05.04.58
935	Jyoti Prakash Mishra, S/o Shri D.P. Mishra	MPSVC/2343/06	43, Agrawal Nagar, Indore, MP-452001	BVSc&AH/JNKVV/88	08.01.62
936	Jyoti Sankar Panda, D/o Sh. Debaraj Panda	OVC/2063/06	At-EWS-28, Stage-I, Housing Board, PO Berhampur, Distt. Ganjam, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	06.06.81
937	Jyoti Tiwar, D/o Shri Kamala Prasad	MPSVC/2424/07	Nayansukh, Karkhane Ke Samne, Satna, MP-485006	BVSc&AH/JNKVV/06	30.06.80
938	Jyotiradita, S/o Sh. Arun Kumar Sharma	BVC/2670/05	Vill. Chintamanichak, PO Mokama, PS Mokama- 803302, Distt. Patna, Bihar	BVSc&AH/ANGRAU/05	12.02.80
939	Jyotiranjana Biswal, S/o Sh. Madhabananda Biswal	OVC/2113/07	At Badagaon, PO Teratang, Distt. Jagatsinghpur, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	25.07.82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
940	K SRINIVASAN S/o V. KRISHNAMOORTH	TNVC/1208/05	S. NATTANMANGALAM P.O. GURUSAMY PALAYAM VI A, NAMAKKAL DIST. PIN - 637403	BVSc/TANUVAS/96	01-07-73
941	K. AMEERJAN S/o M.A.KUTBADEENSAHIB	TNVC/3002/05	A.P.1081, G-BLOCK, 17TH STREET, ANNA NAGAR, CHENNAI 600 040	BVSc/Uni of Madras/71	28-03-46
942	K. ANBARASAN S/o K. KRISHNAMOORTHY	TNVC/0830/05	1 / 48, KUMARAN KOIL NORTH EXTENSION, SEMBANAR KOVIL, TARANGAMBADI TALUK, PIN : 609 309.	BVSc/TANUVAS/98	11-04-75
943	K. Anbukumar, S/o Sh. M. Karuppannan	TNVC/3801/07	19/A 19, Main Road, Housing Board Colony, Kandampatty West, Salem- 636005, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/00	12.01.76
944	K. ARTHANAREESWARAN S/o P. KANDASAMY GOUNDER	TNVC/3265/05	51, T. N. E. B., COLONY, PARAMATHI SALAI, SIRUMOLASI SO, SEETHARAMPALAYAM 637 209, TIRUCHENGODE TK, NAMAKKAL DIST.	BVSc/TNAU/85	17-03-58
945	K. ARUNACHALAM S/o A. KARUPPIAH	TNVC/2978/05	NO.61, THILLAI PURAM III CROSS, NAMAKKAL 637 001	BVSc/TANUVAS/93	25-07-70
946	K. Asokan, S/o Sh. K. Krishnamoorthy	TNVC/3790/07	59, LML Colony, Bharathipuram, Amm ankulam, Pappanaickenpalay am, Coimbatore- 643037, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/89	12.06.65
947	K. BALASUNDARAM S/o K KATTIANNAN	TNVC/1670/05	PALAMARATHU KADU, KATTANACHAMPATTI POST, RASIPURAM TK, NAMAKKAL DT. 637 408.	BVSc/TNAU/87	20-06-62
948	K. Bhavani Shankar, S/o Sh. R. Kuppaswamy	TNVC/3570/06	17/10, Pallappan Street, Triplicane, Chennai- 600005, Tamil Nadu	BVSc/MU/69	30.06.43
949	K. CHINNAMANI S/O C. KOTTAICHAMY	TNVC/2451/05	BALAGURUNATHAPURAM, UPPARPATTI POST, VEERAPANDI VIA, THENI DIST 625 534.	BVSc/TANUVAS/01	17-05-77

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
950	K. CHINNAPPAN S/O KULLAPPA NAICKER	TNVC/2313/05	144/185, R5, M.S.M. GARDEN, UTHANGARAI, KRISHNAGIRI DIST. 635 207	BVSc/TNAU/75	07-09-49
951	K. DURAIRAJ S/o K.KRISHNASAMY	TNVC/2728/05	65 / 99B, COOPERATIVE COLONY, ROYAPALAYAM PUDUR, CHITHODE, ERODE DIST, PIN : 638 102.	BVSc/TNAU/75	15-07-50
952	K. DUSHYANTHAN S/o V.KARMEGAM	TNVC/2131/05	KATTANBUR POST, VIA THIRUKORHTIYUR TALUK, SIVAGANGA DISTRICT, TAMIL NADU, PIN : 630 210.	BVSc/TNAU/82	12-12-56
953	K. GAJENDRAN S/o A.KRISHNASAMY	TNVC/1391/05	S.BOOTHUR VILLAGE, MUTTATHUR P.O. VILLUPURAM T.K. VILLUPURAM DISTRICT	BVSc/TNAU/80	22-04-47
954	K. GOVINDARASAN S/o R.KUMARAVEL	TNVC/1146/05	34A / 10, THIRU NAGAR, MOHANUR ROAD, NAMAKKAL 637 001.	BVSc/TANUVAS/92	15-04-69
955	K. Jagadeesan, S/o Sh. K. Krishnan	TNVC/3595/06	Mazhavarayanallur, Ayikkudi Post, Kunnam Taluk, Perambalur- 621115, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/05	20.07.82
956	K. JAYAKUMAR S/o P.KULANDAIVELU	TNVC/2250/05	41/5, MAIN ROAD, KUMARAMANGALAM POST, THIRUCHENGODE TK, NAMAKKAL DT, TAMIL NADU 637 205.	BVSc/TANUVAS/00	12-06-76
957	K. KAMALA S/o S.KANNAN	TNVC/2000/05	283, PERIYAKULAM ROAD, THENI 625 531, TAMIL NADU.	BVSc/TANUVAS/97	22-06-74
958	K. KARUNANITHI S/o K.A.KARUPPANNA GOUNDER	TNVC/2824/05	KURUMBANUR POST, VIA, KOLATHUR, METTUR TK, SALEM DIST.	BVSc/TNAU/77	09-05-51
959	K. KEERTHIVANAN S/O R.KUMARAVELU	TNVC/2612/05	59-C, STATE BANK COLONY, CITY LINK ROAD, ADAMBAKKAM, CHENNAI 600 088	BVSc/TNAU/75	01-01-52

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
960	K. Krishnakumar, S/o Sh. K. Karuppaswamy	TNVC/3600/06	4/529-B, Andavar Nagar, Trichy Road, Namakkal, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/93	03.04.69
961	K. KRISHNAPPA S/o B.KEERAPPA	TNVC/1959/05	5 / 129 Q, NEW COLONY, VENNAMPATTY ROAD, DHARMAPURI 636 703, TAMIL NADU	BVSc/Uni of Madras/64	15-10-40
962	K. KRITHIGA W/o.A.KOWSIGAN	TNVC/0712/05	L-63, HUDCO COLONY, OLD TEMPLE LAND, HOSUR PIN 635 109	BVSc/TANUVAS/00	11-09-75
963	K. KULASEKAR S/O R.KANNAN	TNVC/2660/05	PLOT NO.8, VIJAY NAGAR, VIVEKANANDA NAGAR MAIN ROAD, KOLATHUR, CHENNAI 600 099	BVSc/TNAU/84	29-11-59
964	K. Lalnginglova, S/o Sh.Hrangluaiia	MizSVC/0157/06	Muallianpui Lunglei, Dist. Mizoram	BVSc&AH/CAU/06	16.11.82
965	K. LATHA S/O K.RAJASEKARAN	TNVC/2683/05	112-B, BALAN NAGAR, PEELAMEDU, COIMBATORE 641 004	BVSc/TANUVAS/97	14-09-73
966	K. LOGANATHASAMY S/o M.KARUPPUSAMY	TNVC/2878/05	ERUMAIKKARAN PALAYAM, KADATHUR POST, GOBI TK, ERODE DIST, TAMIL NADU 638 466.	BVSc/TANUVAS/98	30-03-74
967	K. MANI S/o P.KULANDHIVELU	TNVC/3267/05	4 / 41, WEAVERS COLONY SOUTH, KALLANATHAM POST, ATTUR TALUK, SALEM DIST, PIN : 636 141.	BVSc/TNAU/85	02-12-60
968	K. MANIMARAN S/o C.KALIYAPERUMAL	TNVC/3266/05	KAZHANIVASAL, LABBAIKUDIKADU POST, KUNNAM TALUK, PERAMBALUR DIST., PIN : 621 108.	BVSc/TANUVAS/98	05-04-73
969	K. MUTHUSAMY S/o K.KARUPPANA GOUNDER	TNVC/0868/05	WEST STREET, NARIKKALPATTI POST, PALANI TALUK, DINDIGUL DISTRICT 624 618.	BVSc/TANUVAS/98	01-03-74

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
970	K. Nagaraj, S/o Sh. V. Krishnan	TNVC/3809/06	11, Vivekananda Street, Ramakrishnapuram, Ganapathy PO, Coimbatore-641006, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/91	25.06.67
971	K. NANJAPPAN S/o KUPPANDA GOUNDER	TNVC/1342/05	159 / 3, COOPERATIVE COLONY STREET, MOHANUR ROAD, NAMAKKAL 637 101.	BVSc/TNAU/78	04-03-56
972	K. PREMAVALLI S/o D.M.KANNAN	TNVC/3030/05	3 / 1581, NEW COLONY, PATHI ILLAM, DHARMAPURI 636 701	BVSc/TANUVAS/94	02-06-71
973	K. PREMKUMAR S/o M.KAMARAJ	TNVC/1383/05	6 / 350, SIVANANDAM NAGAR, SIVAKASI, PIN 626 123	BVSc/TANUVAS/97	22-07-74
974	K. Rajamansingh, S/o Sh. P.A. Krishnan	TNVC/3626/06	399, Nethaji Street, Jaihindpuram, Madurai-625011, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/91	11.08.67
975	K. RAMANUJAM S/o K.A.KANNIAH NAIDU	TNVC/0677/05	NO.14, SECOND CROSS STREET, UNITED INDIA COLONY, KODAMBAKKAM, CHENNAI 600 024	BVSc/Uni of Madras/70	05.06.47
976	K. Ramesh, S/o Sh. C. Kandasamy	TNVC/3769/06	16-94-F1, Church Main Road, Thookanampatty, Mettur Dam, Salem Distt., Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/93	30.04.70
977	K. Ramesh, S/o Sh. R. Kondan	TNVC/3645/06	4/528, Andavar Nagar, Trichy Road, Namakkal, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/06	10.06.74
978	K. SANGILIMADAN S/o P.KARUPPASAMY	TNVC/2991/05	PLOT NO.A6, NEW NO.A8, OLD NO.A6, MMDA COLONY, NEAR WATER TANK, ARUMBAKKAM, CHENNAI 600 106	BVSc/TANUVAS/94	09-03-71
979	K. SARAVANA KUMAR S/o M.KURUNTHU	TNVC/1525/05	3 / 101, IIND STREET, INDIAN BANK COLONY, NARAYANAPURAM, MADURAI-14.	BVSc/TANUVAS/93	19-06-70

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
980	K. SARAVANABAVA S/o M.KULANDAIVELU	TNVC/2946/05	NO.42, BALAJI STREET, VIVEKANANDANAGAR, CHENNAI 600 099	BVSc/TNAU/80	28-05-57
981	K. SARAVANAN S/o M.KESAVAN	TNVC/2942/05	NO.9, KAVIARASU KANNADASAN NAGAR, KODUNGAIYUR, CHENNAI 600 108	BVSc/TNAU/88	25-04-83
982	K. SARAVANAN S/o S.KRISHNAMOORTHY	TNVC/2793/05	377, 3RD STREET, GANAPATHY NAGAR, ASOOR POST, KUMBAKONAM 612 501.	BVSc/TANUVAS/98	03-06-75
983	K. Senthilkumar, S/o Sh. P.K. Kannan	TNVC/3628/06	180, Poonachi Mukasipudur PO Olagdum Via., Bhavani Taluk, Erode-638314, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/06	23.04.82
984	K. SENTHILVEL S/o S.KANDASAMY	TNVC/3024/05	4 / 23, MALAYAMPALAYAM, THENVILAI POST, KARUR DISTRICT PIN 639 206	BVSc/TANUVAS/94	26-05-71
985	K. SHANKAR S/o K.G.KRISHNAMURTHY	TNVC/1352/05	9 / 9, PMP, RESIDENCY, V.K.L. NAGAR MAIN ROAD, THUDIYALUR, COIMBATORE 641 034	BVSc/TNAU/88	23-06-65
986	K. SHIBI THOMAS S/o K.K.THOMAS	TNVC/0849/05	10 / 4, DEVARAYA NAGAR, K.K. NAGAR POST, TRICHY 620 021.	BVSc/TANUVAS/00	09-11-75
987	K. Sirisha, D/o Shri K. Raghava Rao	APSVC/4491/06	A-30, Rly. Quarters, Sitaphal Mandi, Secunderabad-500061, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	23.02.83
988	K. SIVAKUMAR S/o A.KARUPPUSAMY	TNVC/1604/05	125, R.G. NAGAR, S.V.MILLS POST, UDUMALPET - 642 128	BVSc/TANUVAS/93	03-05-69
989	K. Sivakumar, S/o Sh. C. Kandasamy	TNVC/3569/06	85, 7th Street, K.K. Pudur Post 641038, Saibaba Colony, Coimbatore, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/89	07.06.66

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
990	K. SIVARAMALINGAM S/o B.S.K. GANAPATHY	TNVC/1353/05	PLOT NO.168-A, BHUVANESWARI NAGAR, VIJAYANAGARAM, VELACHERY, CHENNAI 600 042	BVSc/TNAU/79	12-01-55
991	K. SUKUMAR S/o K.KUPPANNAN	TNVC/1554/05	101 A1A, SALEM ROAD, PALANIANDI STREET, NAMAKKAL 637 001.	BVSc/TANUVAS/94	03-06-71
992	K. Vanija, D/o Shri K. Nagaraja Naidu	APSVC/4528/06	H.No 6-8-1125, NGO's Colony, K.T. Road, Tirupati- 517507, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	01.05.81
993	K. Varunapriya Darshini, S/o Sh. K. Kandasamy	TNVC/3633/06	93-A, Ambedkar Colony, Dharmapuri-636701, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/06	03.06.82
994	K. VASU S/O K.KUTTIAPPAH	TNVC/2679/05	1/19, MAIN ROAD, KALINGARAJAN PALAYAM PUDUR, BHAVANI POST ERODE DISTRICT 638 301	BVSc/Uni of Madras/71	06-02-47
995	K. VELUSWAMY S/o K.KANDASWAMY	TNVC/3287/05	PLOT NO.107, KVB GAYATHIRI NAGAR, ATHUR POST, ERODE ROAD, KARUR DIST 639 002.	BVSc/UAS,B'LORE/91	20-07-61
996	K. Venukopalan, S/o Sh. P. Krishnasamy	TNVC/3599/06	146/14, Classic Apartments, Emerald Flats, Thirumangalam, Anna Ng(W), Chennai-40, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/76	01.04.50
997	K. Vijay Kumar, S/o Sh. P. Krishnamurthi	TNVC/3613/06	8, New No. 26, 1st Street, Secretariat Colony, Kilpauk, Chennai-600010, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/76	20.09.51
998	K. VISWANATHAN S/o P.KANDASAMY	TNVC/1545/05	NO.50, VIDYA NAGAR, THINDAL POST, ERODE 638 009.	BVSc/Uni of Madras/73	01-04-50
999	K. Zaheer Abbas, S/o Sh. V.A. Abdul Kaium	TNVC/3572/06	360-A, Railway Station Rd, Kavaraipeetai, Gummidipo ondi Taluk, Tiruvallur Dt- 601206, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/96	13.11.76

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1000	K.A. DORAISAMY S/o M.P.ARUMUGAM	TNVC/0786/05	4 / 607, JAYASHREE GARDENS, JAYASHREE BUS SERVICE, BEETEX COMPOUND, BEHIND GOWRISHANKAR THIRUMANA MANDAPAM,	BVSc/TNAU/79	15-03-56
1001	K.A. VIJAYARAGHAVAN S/o K.V.ANNA MALAI	TNVC/0953/05	AC.93, NEW NO.8, 6TH MAIN ROAD, 2ND CROSS STREET, ANNA NAGAR WEST, CHENNAI 600 040.	BVSc/Uni of Madras/56	12-05-32
1002	K.A.Dhandapani, S/oAyya samy	TNVC/3508/06	2/355, Siruvani Rd, Kalampalayam PO, Coimbatore- 641010, Tamil Nadu	BVSc/Uni of Madras/67	02.05.42
1003	K.A.DHANDAYUTHAPA NI S/o A.APPADURAI	TNVC/2935/05	OLD NO.61, NEW NO.19, L- BLOCK, ANNA NAGAR EAST, CHENNAI 600 102	BVSc/Uni of Madras/69	11-05-46
1004	K.AMBASANKAR S/O P.KONDUSAMY	TNVC/2275/05	BLOCK II, G-II, 4/834, FIRST JOINT STREET, SWAMINATHAN NAGAR, KOTTIVAKKAM, CHENAI 600 041	BVSc/TANUVAS/93	30-07-70
1005	K.C. Rajesh Kanna, S/o Sh. P. Chinniah	TNVC/3630/06	75, Sunnambukara Street, Pajjukottai, Thanjavur Distt., Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/06	10.04.72
1006	K.K.Aravindan, S/o N.Krishnamoorthy	TNVC/2727/05	3/2, Varathan Street, Kadathur Post, Dharmapur Dt- 635303, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/93	3.06.70
1007	K.K.PONNUSWAMY S/o K.R.KARUPPUSAMY	TNVC/1291/05	NO.19, SASTRI STREET, L- KALLIPATTI, GOBICHETTIPALAYAM, ERODE DISTRICT, PIN 638 452	BVSc/TANUVAS/97	20-07-74
1008	K.M. PALANIVEL S/o K.MUTHUSAMY	TNVC/0704/05	NO.38, IIND AVENUE, AKSHAYA COLONY, MOGAPPAIR, CHENNAI 600 050	BVSc/TANUVAS/93	12-05-69
1009	K.M. SAKTHIVEL S/o K.R.MOTTAIPPAN	TNVC/1236/05	414A, MAIN ROAD, NEAR SUN STUDIO, NATHAKADAIYUR (PO), ERODE (DT) 638108	BVSc/TANUVAS/98	23-12-73



<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1010	K.Munisamy,S/o Kangeyan	PondiSVC/295/06	NO.14,Mettu Street,Koodapakkam,Pondic herry-605502	BVSc&AH/Pondi Uni/03	4.05.81
1011	K.Natarajan,S/o M.V.K.Krishnamurthy	TNVC/0646/05	1-434,HIG A STC Hudco(oid)Hosur- 635109,Tamil Nadu	BVSc/Uni of Madras/71	10.07.46
1012	K.Poorani,D/o V.Krishnamoorthy	PondiSVC/291/06	NO.85,86,F2,Unique Classic Apartments,8th Cross,Hlrd Main Rd,292 Tagore Nagar, Pondicherry- 8	BVSc&AH/Pondi Uni/06	8.01.83
1013	K.RAVIKUMAR S/o P.KALIANNAN	TNVC/2937/05	29, NEAR M.K. THIRUMANAMANDAPAM, P.V.RAO STREET, MOHANUR POST, NAMAKKAL 637 001	BVSc/TANUVAS/00	01-06-77
1014	K.S. Kambo, S/o Late Sh. Hari Singh Kambo	UVC/235/06	Garhi Cantt. Dehradun,Uttaranchal	BVSc/Punjab Uni(Solan)/55	15.01.31
1015	K.S. SUDARSANAM S/o K.S.SRINIVASAN	TNVC/2865/05	NO.37, LINGAPPA STREET, KANCHIPURAM.	BVSc/TNAU/76	26-04-52
1016	K SUBRAMONIA PILLAI S/O KSHETRABALA PILLAI	TNVC/2336/05	71C/10, "NITHIYAM" PONNAPPA NAGAR, KANYAKUMARI DISRTRICT NAGERCOIL 629 004	BVSc/Uni of Madras/75	01-10-49
1017	K.Sumathy,D/o S.B.Kalappan	PondiSVC/283/06	No.9,1st Cross Street,V.C.Ng,Madukarai, Po ndicherry-605015	BVSc/TNVASU/96	15.12.73
1018	K.THILAK PON JAWAHAR S/O S.K.KOIL PILLAI	TNVC/2407/05	52A2, SIVAGNANAPURAM SOUTH STREET, DANA, VICKRAMASINGAPURAM 627 425, TIRUNELVELI DISTRICT	BVSc/TANUVAS/91	27-05-68
1019	K.V. VENKATESWARAN S/o R.VENKATAKRISHNAN	TNVC/0744/05	"PADMA APARTMENTS", 43 / 11, DAMODARAPURAM MAIN ROAD, ADYAR, CHENNAI 600 020.	BVSc/TNAU/79	12-03-57

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1020	K.V.JAYARAMAREDDY S/o VENKATARAMANAPPA	TNVC/1647/05	236 / 4, CHAKRAPANI COMPLEX, NEAR GOVT. HOSPITAL, THENI 625 531	BVSc/UAS,B'lore/87	01-06-58
1021	K.Zothanpui./i, D/o Sh. K. Lianthangpuia	MizSVC/0159/06	Bawngkawn, Aizawl, Mizoram	BVSc&AH/CAU/06	13.09.81
1022	Kabilan Subramanina,S/o R.Subramanian	TNVC/2970/05	2/106,Sriramulu Ng,Kaveripatnam- 635112,KrishnagiriDt,Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/98	2.03.74
1023	Kachare Raju Wamanrao	MahaSVC/7376/	'Pitru Smruti',Snehsharda Nagar,Parbhani,Tal. Parbhani, Dt.Parbhani, Mahar ashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	14.05.83
1024	Kadam Dipak Shivadas	MahaSVC/7717/	Parit Wasti, AS/P Mahud (Bk), Tal. Sangola, Distt. Solapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	23.05.83
1025	Kadam Santosh Digambarrao	MahaSVC/7454/	Dr. Kadam S.D., Sutar Galli, Khandgaon, Tal. Naigaon, Distt. Nanded- 431722, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	12.08.82
1026	Kadam Shekhar Balasaheb	MahaSVC/7220/	A/p Rawande, Tal. Kopargaon, Distt. Ahmednagar-423601, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	28.02.82
1027	Kadam Yogita Vishnu	MahaSVC/7547/	22, Jamkhed Road, Ahmednagar, Tal. Nagar, Distt. Ahmednagar-414002, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	06.04.80
1028	Kailash Chand, S/o Sh. Prabhu Dayal	RajSVC/3259/06	Out Side of Dehli Gate, Near Ganga Temple, Alwar, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	05.03.79
1029	Kailash Chandra Uniyal, S/o Sh. S.L. Uniyal	UVC/217/06	Village Dhalwalla, Muni-ki- Reti, Tehri, Garhwal,Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/9 5	05.05.71

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1030	Kailash Mahajan, S/o Sh. R.L. Mahajan	HPSVC/774/06	Vll. Lakhani PO Ghumarwin, TEH. Bilaspur, HP-174021	BVSc&AH/CSKKVV/0 8	07.02.83
1031	Kakade Shahaji Appaso	MahaSVC/7434/	Lohar Galli, Angar, Tal. Mohol, Distt. Solapur- 413214, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	14.10.82
1032	Kakade Somesh Vishnu	MahaSVC/7700/	At Sonishi, Post Kordgaon, Tal. Pathardi, Distt. Ahmednagar-414102, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	22.08.83
1033	Kakati Akashdeep, S/o Sh. Nareswar Kakati	ASM/2292/07	C/o Mr. N. Kakati, Sorbodoy Nagar, Chandmani, Guwahati-21, Assam	BVSc&AH/AAU/07	30.07.83
1034	Kakati Pragyan, S/o Sh. Prabhat Kakati	ASM/2250/06	Soni Mondir Road, South Haibor Gaon, Nagaon- 782002, Assam	BVSc&AH/AAU/06	07.10.80
1035	Kakumani Anuradha, D/o Shri Sreeramulu	APSVC/4531/06	M. Nidamanuru, Tungutur (M), Prakasam Dt.-523279, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	12.06.81
1036	Kale Dnyaneshwar Balasaheb	MahaSVC/7582/	A/p Bhandgaon, Tal. Pamer, Distt. Ahmednagar, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	12.04.84
1037	Kalge Rajeshwar Shivsamb	MahaSVC/7142/	Noble Colony, Near Railway Station, Udgir, Tal. Udgir, Dt. Latur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	30.10.79
1038	Kalpana Ratnawat, D/o Sh. Raghuvveer Sing	RajSVC/3280/06	F-3, B-Block, Mahesh Nagar, Tonk Phatak, Jaipur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	04.09.80
1039	Kalpana V.	KeralaSVC/3124/06	Cheeratha Parampu, Karoor, PO, Ambalapuzha- 688561, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	16.08.81

<i><b>SNUM</b></i>	<i><b>NAME</b></i>	<i><b>RNUM</b></i>	<i><b>ADD</b></i>	<i><b>QUALIF</b></i>	<i><b>DOB</b></i>
* 1040	Kaluse Ganesh Uttamrao	MahaSVC/7605/	Mutthe Layout, Ward No. 21, Behind Bus-Stand, Buldana-443001, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	02.09.83
1041	Kamal Kumar Lal Ravi Bhusan, S/o Sh. Madan Lal Das	BVC/2629/05	Vill. Jogsar, PO Jogsar, PS Jogsar-812001, Distt. Bhagalpur, Bihar	BVSc&AH/Raj.A.U/05	21.01.76
1042	Kamal Lochan Behera, S/o Nimai Charan Behera	OVC/2061/06	At Junapokhari, PO Senotira, Via Bonth, Distt. Bhadrak, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	09.06.83
1043	Kamal Singh, S/o Late Sh. Sona Singh Pokhriyal	UVC/255/06	Ganesh Vihar, B-Block, Ajabpur, Kalan, Dehradun, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/78	12.03.58
1044	Kamalesh Prasad Pradhan, S/o Sh. Kanhu Charan Pradhan	OVC/2062/06	At Markandapada, PO Sukal, Distt. Puri, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	14.05.81
1045	Kamaljeet Pabbi, S/o Sh. Narinder Kumar	Pb.SVC/1586/06	Gali No.4, Ward No.1, H.No.477, Sant Attar Singh Colony, Near Police Lines, Sangrur, Punjab	BVSc&AH/PAU/93	15.08.67
1046	Kambale Gautam Dnyanoba	MahaSVC/7321/	Sununda Bhavan, Juntur Road, Sailu, Distt. Parbhani-431503, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/03	20.05.80
1047	Kambaluru Nagaraju, S/o Shri K. Bala Subbaiah	APSVC/4474/06	Paluru (P&V), Peddamudiam (M), Kadapa Dt.-516434, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	08.02.80
1048	Kamdev Sethy, S/o Sh. Ratnakar Sethy	OVC/2095/07	At Bali Sahi, PO Naugaon Hat, Distt. Jagatsinghpur, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	02.07.82
1049	Kamlesh Kumar, S/o Shri Chandra Dhar	UPVC/4381/06	Shiv Colony, Lakhimpur, Kheri, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDAUA&T/06	08.07.77

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1050	Kamlesh Patel, S/o Sh. Rupa Ram Patel	RajSVC/3267/06	C-180, Saraswati Nagar, Jodhpur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	28.06.79
1051	Kamlesh Prasad, S/o Sh. Shivdani Prasad	BVC/2699/05	Vill. Dhamauli, PO Murgao, PS Islampur-801303, Distt. Nalanda, Bihar	BVSc&AH/PONDI UNI./05	16.05.76
1052	Kamna Gupta, D/o Sh. Balraj Rai Bansal	Pb.SVC/2653/06	B-2, Ram Nagar, Gali No. 2, Opp. PSEB Office, Sunam, Distt. Sangrur-148001, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/06	25.05.83
1053	Kancharla Sai Rajesh, S/o Shri Venkata Subba Rao	APSVC/4456/06	7/398/2, Gandhinagar Main Road, Chimakurthy, Prakasam DT-523226, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	28.08.82
1054	Kanchi Sujata Narayanrao	MahaSVC/7386/	"Prabhu Chhaya", 53, Prabhawati Nagar, Old Pedgaon Road, Dt. Parbhani, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	14.08.81
1055	Kandipalli Venkata Durga, D/o Shri K. Janardhana Rao	APSVC/4519/06	D.No. 50/57-3/1, Opp. V.T. College, Rajendranagar, Visakhapatnam-530016, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	09.10.82
1056	Kapane Sachin Haridas	MahaSVC/7199/	Piliv, Tal. Malshiras, Distt. Solapur-413109, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	28.07.80
1057	Kapgate Madhaorao Prabhudas	MahaSVC/7529/	C/o Prabhudas, H. Kapgate, A/p Sendurawafa, (Nr Post Office), Tal. Sokoli, Dt. Bhandara, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	02.09.78
1058	Kapgate Sunil Sanjay	MahaSVC/7309/	C/o G.N. Kapgate, Talaw Ward, Sakoli, Distt. Bhandara, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	01.09.81
1059	Kapil Chauhan, S/o Sh. Mohan Singh	HPSVC/779/06	Vill. & PO Deha, TEH. Theog, Distt. Shimla, HP-171220	BVSc&AH/CSKKVV/06	15.08.80

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1060	Kapil Gupta, S/o Shri Phoolchand Gupta	MPSVC/2355/06	G-32, Mohini Sagar Colony, Shivpuri, MP-473551	BVSc&AH/JNKVV/05	06.12.78
1061	Karam Chand, S/o Sh. Dila Ram	HPSVC/782/06	Viii. & PO Kiwa, TEH. Sangla, Diatt. Kannaur, HP-172015	BVSc&AH/CSKKVV/06	28.07.82
1062	Karanam Pallavi, D/o Shri K. Lakshmi Narasimha Rao	APSVC/4459/06	H.No1-103, Eswar Temple Street, Puthalapattu, Chittoor Dt.-517124, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	20.06.82
1063	Karande Vikas Vasant	MahaSVC/7160/	A/p-Kilemachhindragad, Tal. Waiwa, Distt. Sangli, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	15.06.81
1064	Karikkathil Smita Sivadasan	MahaSVC/7521/	C/o Mr. O. Sivadasan, Qtr. No. B-3/4, MAU Campus, Parbhani-431402, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	27.10.82
1065	Karlewad Vaiju Shivaji	MahaSVC/7247/	Jai Ray Residency, Flat No. B-4, Priyadarshani Nagar, Old Sangvi, Pune, Maharashtra	BVSc&AH/M. . . SU/04	03.09.80
1066	Kamarkar Rashmi Shripad	MahaSVC/7226/	13, Cityach Society, Manapoda Road, Dombvli, Tal. Kalyan, Dt. Thane, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	23.10.81
1067	Kamail Singh Nanhar, S/o Sh. Lachman Singh	Pb.SVC/564/07	H.No. 146, Guru Tegbahadur Avenue, Jalandhar City, Punjab	BVSc&AH/PU/60	03.04.37
1068	KARU.PASUPATHI S/o R.KARUPPASAMY	TNVC/1389/05	1544, BHARATHI NAGAR, SANAKARANKOVIL, TIRUNELVELI DISTRICT 627 756	BVSc/TANUVAS/98	30-05-75
1069	Kasar Kundankumar Nandkumar	MahaSVC/7507/	C/o Nandkumar Shaukat Kasar, Main Road, A/o Yemala, Tal. Kallam, Distt. Osmanabad, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	06.09.81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1070	Kasba Sagar Satyawar	MahaSVC/7484/	Korba Mithagar, Nanurwadi, Dr. B. R. Ambedkar Sanskar Kendra, Wadala, Mumbai, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	06.06.80
1071	Kashid Dadasahed Vajinath	MahaSVC/7326/	Shauti Niwas, Mohol Road, Dahitane, Barshi, Solapur- 413412, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	01.06.83
1072	Katkuri Shrinivas Ashok	MahaSVC/7283/	"Kaunteya", Gangaputra Colony, Darga Road, Parbhani-431401, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	12.11.80
1073	Katole Shrikant Bhaskar	MahaSVC/7449/	"Kullswamin", Saraswati Nagar, College Road, Tal. Akot, Distt. Akola-444101, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	20.06.82
1074	Katre Devendra Digambar	MahaSVC/7603/	Birsi Road, Kumbhartoli, Angaon, Distt. Gondia- 441902, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	09.08.82
1075	Kaushik Pal, S/o Sh. Tapan Kumar Pal	WBSVC/3280/06	3, Shankarpukur, PO Sripally, Distt. Burdwan- 713103, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/06	06.01.83
1076	Kavitha G., D/o Late Sh. H. Govindaiah	KarSVC/3915/06	347, Aralimarada, Malya, Siragate, Tumkur- 06, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	04.05.84
1077	Kedar Prasad Gupta, S/o Shri Suresh Prasad Gupta	MPSVC/2388/06	Village Gaisabad, Hatta, Damoh, MP	BVSc&AH/JNKVV/06	30.10.79
1078	KEERAI TAMIL ASOKAN S/OKEERAI A.TAMILSELVAN	TNVC/2718/05	74, THAMBI ILLAM, RAILWAY STATION ROAD, KEERANUR 622 502, PUDUKKOTTAI DISTRICT	BVSc/TANUVAS/99	19-11-74
1079	Keerti Meena D/o Shriram Meena	RajSVC/3336/06	Vill&PO-Maukhera, Via- Bwai Dausa Rajasthan	BVSc&AH/ANGRAU/05	25.12.81

<i><b>SNUM</b></i>	<i><b>NAME</b></i>	<i><b>RNUM</b></i>	<i><b>ADD</b></i>	<i><b>QUALIF</b></i>	<i><b>DOB</b></i>
1080	Keni Komal Krishna	MahaSVC/7685/	B/10, Vasubhai CHS, New Link Road, Dahanukarwadi Tal. Kandivali (W), Mumbai, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	16.09.82
1081	Keshav Dahiya, S/o Sh. Yash Vir Singh	DVC/0628A/04	Pet Clinic, 1&2, Krishi Vihar, Shopping Complex, J.B. Tito Marg, New Delhi-110048	BVSc&AH/CCSHAU/03	22.01.79
1082	Keshava G.V., S/o Sh. Venkata Reddy	KarSVC/3893/06	Gattahally, Holur Post, Kolar Tq. & Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	20.02.84
1083	Khabragade Geetvardhan Manikrao	MahaSVC/7645/	22, Shivraj Nagar, Nagpur-27, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	16.05.82
1084	Khade Sachin Dnyandev	MahaSVC/7188/	'Matru Pitru Chaya', Asara Ganesh Galli, Sangrul, Tal. Karveer, Dt. Kolhapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	08.06.82
1085	Khade Shailesh Keshav	MahaSVC/7209/	Khadi Kolvan, Sangameshwar, Distt. Ratnagiri, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	30.04.82
1086	Khadpekar Yaduraj Ravindra	MahaSVC/7464/	Parvati Apartment, 20, Siddeshwar Road, Patilwadi, Tal. Distt. Thane-400601, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	24.09.82
1087	Khalate Nilesh Santajirao	MahaSVC/7722/	C/o Santaji Sidram Khalate, A/p Rajale, Tal. Phaltan, Distt. Satara, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	15.04.84
1088	Khan Abdul Mannar, S/o Sh. Abdul Mazid	ASM/2238/06	Vill. Ghorasal No.1, PO Byaspara, Sipajhar, Darrang, Assam	BVSc&AH/AAU/06	09.04.80
1089	Khan Azizul, S/o Late Sh. Daulat Khan	ASM/2280/07	Vill. & PO Palhazi, Distt. Barpeta, Assam-781309	BVSc&AH/AAU/07	30.06.80



<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1090	Khan Modasar Nazar, S/o Sh. Samser Ali Khan	OVC/2084/06	A/PO Barundai, Via Barundai, Distt. Jajpur, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	22.12.79
1091	Khan Mushir Ali Juned Gafur Ali Khan	MahaSVC/7732/	'Rain Basera', Behind Rose Hotel, Quaderabad Plot, Parbhani, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	11.06.82
1092	Khandait Vivek Nattuji	MahaSVC/7621/	Near Post Office, Palandur (CH), Tal. Lakhani, Distt. Bhandara-441811, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	28.09.82
1093	Kharat Ashishkumar Shivajirao	MahaSVC/7269/	"Omkar", Siddheshwar Colony, Vithoba Mal, Tasgaon, Tal. Tasgaon, D t. Sangli, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	02.08.81
1094	Kharate Mangesh Vasudev	MahaSVC/7522/	Chirner, Tal. Uran, Distt. Raigad-410210, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	14.04.81
1095	Kharkar Kranti Pralhadrao	MahaSVC/7380/	Satyamev Jayate Building, Kaitasnagar, Gorakshan Road, Tal. Distt. Akola, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	01.12.80
1096	Kharmate Yogesh Bhimrao	MahaSVC/7406/	A/p Eknul, Tal. Khatav, Distt. Satara, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	19.07.83
1097	Kharvade Sharda Ramchandra	MahaSVC/7122/	"Shriram" Nivas, Infront of Model English School, Parbhani, Maharasht ra	BVSc&AH/MAFSU/04	25.04.82
1098	Kharwadkar Ashwini Renukadasrao	MahaSVC/7538/	Shankar Gunj, Ratnali Road, Dharmabad, Nanded- 431809, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	13.10.83
1099	Kharwadkar Makrand Durgadasrao	MahaSVC/7664/	C/o D.D. Kharwadkar, Shankar Gunj, Ratnali Road, Dharmabad, Distt. Nanded-431809, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	03.04.83

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1100	Khati Bhushan Mohan	MahaSVC/7145/	78, Kannamwr Nagar, Wadha, Nagpur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	04.04.81
1101	Khedekar Nitin Kisanrao	MahaSVC/7634/	Ward No. 1, Ganesh Nagar, Malkapur Road, Buldana- 443001, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	30.06.83
1102	Khedgikar Amof Shrikant	MahaSVC/7225/	A-2/2, Sainagar, Sinhagad Road, Pune-410037, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	22.09.76
1103	Khillare Satish Shripatrao	MahaSVC/7120/	Narmada Niwas, Basmat Road, Parbhani, Tal./Distt.Parbhani, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	23.10.81
1104	Khimaniya Kanaiyalal Nagdanbhai	GUJSVC/2740/06	At & Po Beraja (Falla), Ta. Jodia, Distt. Jamnagar- 361011, Gujarat	BVSc&AH/AU/05	04.04.83
1105	Khodwe Prasad Manoharrao	MahaSVC/7586/	C/o.M.T. Khodwe, Navjivan Colony, Dastur Nagar, Amravati-444606, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	04.05.82
1106	Khokde Monini Vishwapal	MahaSVC/7144/	Ramnagar, Behind Jain Mandir, Ward No. 13, Wardha, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	25.02.78
1107	Khurud Vishal Bhagchand	MahaSVC/7531/	'Bhagwan', Karpe Estate, Rahuri, Tal. Rahuri, Distt. Ahmednagar-413705, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	03.08.82
1108	Kiran, D/c Sh. Madan	HVC/1924/	Q.No. 114/2, Hospital Quarters, Old Campus, CCS, HAU, Hisar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/0 6	16.12.83
1109	Kiranchand Atluri, S/o Shri Niranjanpal	APSVC/4545/07	Ghantasala (P&M), Krishna Dt.-521133, Andhra Pradesh	BVSc&AH/IGKVV/06	23.08.83

<b>SNUM</b>	<b>NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALIF</b>	<b>DOB</b>
1110	Kiranmayi C., D/o Shri Bhaskar Reddy C.	APSVC/4493/06	C/o C. Rukmanagar Reddy, Siddavaram (Kothaguttapalli), Peddaman dyam (M), Chittoor Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	25.07.82
1111	Kiren Menon	KeralaSVC/3177/06	Iykkara House, Kombara, Irinjakkuda, Thrissur-680121, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	01.06.82
1112	Kishor Kumar Jha, S/o Sh. Radharaman Jha	BVC/2623/05	Vill. Maharathpur, PO Binodpur, PS Mufasil Begusarai-851134, Distt. Begusarai, Bihar	BVSc&AH/AAU/05	01.03.77
1113	Kishor Kumar Sahu, S/o Sh. Krushna Chandra Sahu	OVC/2060/06	C/o Krushna Ch Sahu, At/PO Kenduapada, Distt. Bhadrak, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	08.05.79
1114	Kishor Kumar, S/o Sh. Ram Swarup	RajSVC/3272/06	Shakti Nagar, Khajuwala, Bikaner, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	01.01.77
1115	Kishor Rana, S/o Sh. Meena Ram	HPSVC/753/06	Vill Shuhach, P.O. Peog, TEH. Ani, Distt. Kultu, H.P.-172026	BVSc&AH/CSKKVV/06	11.02.77
1116	Kishor T.K., S/o Sh. Kotreshappa T.K.	KarSVC/3849/06	Holalur-577216, Shimoga Ta. & Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	30.05.84
1117	Kishore Karnati, S/o Shri Venkateswarlu	APSVC/4476/06	C/o Inukonda Narsaiah, Anamtaram (V), Pedagopathi (P), Konijeria (M), Khammam Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	09.04.82
1118	Kishore Kumar Jha, S/o Sh. Vidhanand Jha	BVC/2719/06	Vill. Pachadhi, PO Gurmaha, PS Pandol, Distt. Madhubani, Bihar	BVSc&AH/NDUA&T/04	01.03.80
1119	Kishore Vinayak Rao Kale, S/o Late Shri V.G. Kale	MPSVC/2351/06	66-B, Rajendra Nagar, Indore, Indore, MP-452012	BVSc&AH/JNKVV/75	07.06.50

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1120	Kishori Lal Khurana, S/o Sh. Daya Nand Khurana	DVC/0614/02	121-C, Sunder Apartments, Paschim Vihar, New Delhi- 110087	BVSc&AH/HAU/79	20.08.56
1121	Kokane Shirish Shivajirao	MahaSVC/7372/	Pargaon, Tal. Washi, Distt. Osmanabad-413626, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	10.11.82
1122	Kokare Damodar Kisan	MahaSVC/7356/	At Wakshewadi, Post Nimbvade, Tal. Atpadi, Distt. Sangli-415301, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	01.06.81
1123	Kolā Sreenivasulu, S/o Shri K. Baludu	APSVCI/4482/06	H.No. 10-1018, Basireddy Bavi Street, Koikuntla (P), Kurnool Dt.-518134, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	01.07.80
1124	Kolhe Abhijit Venkatrao	MahaSVC/7666/	A/p Pachagree, Tal. Patoda, Distt. Beed- 431122, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	01.07.81
1125	Kolhe Ashishkumar Uddhaorao	MahaSVC/7402/	Vidhya Vihar Colony, Pipri College, Arvi Road, Pipri (Meghe), Distt. Wardha, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	11.06.82
1126	Kolpe Annasaheb Bhikanrao	MahaSVC/7568/	C/o Kadam M.B., Samartha Pashu Aushadhalaya, Kolpewadi, Tal. Kopargaon, Dt Ahmednagar, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	24.01.83
1127	Komia Arsi, D/o Shri Krishna Rao	APSVCI/4506/06	D.No. 13-8-39 (1), Demunigummam Street, Anakapalli-531001, Viskhapatnam Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	05.06.81
1128	Konadaka Sri Rajaravindra, S/o Sh Lakshman Babuji	PondiSVC/279/06	728, Housing Board, Bharathiyar Street, Ashok Nagar, Lawspet, Pondicherry- 8	BVSc&AH/Pondi Un/02	8.6.90
1129	Kore Kumar Baburao	MahaSVC/7202/	A/p Sulkud, Tal. Kagal, Distt. Kolhapur-416216, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	01.10.81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1130	Kosrekar Jayshriben Sitaram	GUJSVC/2741/06	Sivam Appartment, B/H Laibahadur, Shastri Stadium, Bapunagar, Abmedabad, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	
1131	Kothawale Sunil Tukaram	MahaSVC/7704/	Bharat Highschool, Near Suraj Jewellers, Barshi Road, Jeur (C. R.), Tal. Karmal a, Dt. Solapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	24.11.82
1132	Kothule Deepa Ramlal	MahaSVC/7288/	132, K.V. Sub Station, M.S.E.B. Kedgaon, Pune Road, Ahmednagar, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	07.10.81
1133	Koundanya Balasaheb Laxmikant	MahaSVC/7657/	Prasad Cycle Stores, A-1, Market, Karegaon Road, Parbhani-431401, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	02.09.82
1134	Kovuru Haribabu, S/o Shri K. Penchalaiah	APSVC/4455/06	C/o K. Ravi, Nedurupalli, Podalakuru (M), Nellore Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	01.07.79
1135	Krishan Dev, S/o Sh. Hans Raj	Pb.SVC/560/07	79-Professor Colony, Tilak Nagar, Amritsar, Punjab	BVSc&AH/PU/61	17.04.37
1136	Krishan Kumar Mishra, S/o Sh. Raghubir Mishra	DVC/0606/02	C/o Raghubir Mishra, N- 168, Sadat Pur Ext., P/o Gokulpuri, Delhi-110094	BVSc&AH/MAFSU/02	07.04.79
1137	Krishan Kumar Mourya, S/o Sh. Kailu Ram Mourya	RajSVC/3250/06	55, Kalyan Nagar, Kartarpura, Jaipur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	07.04.80
1138	Krishan Sharma, S/o Sh. Ram Gopal Sharma	HVC/1950/	317/30, Ajmer Colony, Bhiwani Road, Jind, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/0 6	19.12.82
1139	Krishankant Kumar, S/o Sh. Chunnital Darvey	BVC/2621/05	Vill. Rikarpur, PO Madarghat, PS Kasba- 854358, Distt. Purniya, Bihar	BVSc&AH/AAU/05	01.05.76

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1140	Krishna Kumar Joshi, S/o Shri Ramesh Chandra Joshi	UVC/241/06	Gorakhpur, Bhimtal, Distt- Nainital, Uttaranchal	BVSc&AH/JNAU/86	10.4.61
1141	Krishna Mohan B.	KeralaSVC/3191/06	Krishna Nivas, Kunnamthanam PO, Thiruvalla-689981, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	31.03.82
1142	Krishna Rao H.R., S/o Shri Rama Rao H.	APSVc/4438/06	Venkateswara House 3-5- 808, Hyderguda, Hyderabad-29, Andhra Pradesh	BVSc/UAS, B'lore/91	25.12.63
1143	Kriti Gurung, D/o Sh. G.P. Gurung	WBSVC/3229/06	Lower Mirik Busty, PO Mirik, Distt. Darjeeling, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	26.05.82
1144	Kshipra Chandrashekar, S/o Sh. A.K. Chandrashekar	KarSVC/3827/06	K-144, AWHO Sena Vihar, Kammanahalli, Bangalore- 560049, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 5	29.10.82
1145	Kshirsagar Abasaheb Jagannath	MahaSVC/7569/	A/p Maloji, Tal. Malshiras, Distt. Solapur-413113, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	03.09.83
1146	Kshirsagar Pravina Madhavrao	MahaSVC/7729/	Shiv Shakti Nagar, Degloor Road, Udgir-413517, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	14.03.84
1147	Ku. Amar Jyoti Toppo, D/o Shri F. Toppo	MPSVC/2378/06	H.No. 41, Sridhar Mohini Homes, Rohtas Nagar, Piptani, Bhopal, MP-462021	BVSc&AH/JNKVV/06	10.01.80
1148	Ku. Hemlata Jain, D/o Shri C.P. Jain	MPSVC/2381/06	V&P Mawai Tikamgarh, MP- 472001	BVSc&AH/JNKVV/06	03.01.80
1149	Ku. Jyotsana Sharma, D/o Shri Vijay Kumar Sharma	MPSVC/2415/07	136-B, Mayur Nagar, Thatipur Morar, Gwalior, MP-474011	BVSc&AH/JNKVV/05	29.12.79

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1150	Ku. Kamala Makvana, D/o Shri Pitha Makvana	MPSVC/2377/06	Chaitanya Marg, Udaipuriya, Dilip Gate, Jhabua, MP	BVSc&AH/JNKVV/06	06.01.79
1151	Ku. Koti Madhuri	MahaSVC/7260/	C/o K.K. Rao, DD. AR, AIR Akashwani Qtrs. D-1, Jalna Road, Aurangabad, Maharashtra	BVSc&AH/Dr.PDKV/0 0	26.03.76
1152	Ku. Poonam Shakya, D/o Shri P.L. Shakya	MPSVC/2375/06	Q.No. G-111/57, (1464) Shivaji Nagar, Bhopa, MP- 462016	BVSc&AH/JNKVV/06	01.11.82
1153	Ku. Shilpa Gajbhiye, D/o Shri N.V. Gajbhiye	MPSVC/2376/06	A-209, Sec-D, Raj Homes, Minai Residency, JK Road, Bhopal, MP	BVSc&AH/JNKVV/06	24.03.80
1154	Ku. Shradha Parihar, D/o Shri Sudhir Parihar	MPSVC/2380/06	19/A, Vijay Nagar, Lalghati, Bhopal, MP-462030	BVSc&AH/JNKVV/06	06.05.82
1155	Kugashiya Naushadali Hasanbhai	GUJSVC/2696/06	Po. Konadar, Ta. Palanpur, Uchado Vas, Distt. Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	30.07.84
1156	Kukka Gopinath, S/o Shri K. Chandrahasan	APSVC/4525/06	Merlapaka (V) (P), Yerpadu (M), Chittoor Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	01.06.74
1157	Kuldeep Singh, S/o Shri Ranveer Singh	UPVC/4511/06	Vill. Ahroula, PO Basta, Distt. Bijnor, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/0 6	04.05.82
1158	Kuldip Kumar, S/o Sh. Ajoy Sankar Bora	WBSVC/3223/06	Purusottam Apartment, 13/1, N.N. Ghosh Lane, Kolkata-700040, West Bengal	BVSc&AH/AAU/97	24.01.72
1159	Kuldip Singh Brar, S/o Sh. Kishan Singh	Pb.SVC/1608/07	VPO, Bhalour, Distt. Faridkot, Via. Kotkapura, Punjab	BVSc&AH/PU/60	19.04.40

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1160	Kulkarni Ashok Prabhakar	MahaSVC/7455/	"Prabhullila", Nagar Wes, Village Vambori, Tal. Rahuri, Distt. Ahmednagar, Maharashtra	BVSc&AH/KKV, Dapoli/78	20.05.55
1161	Kulkarni Deepali Shamkant	MahaSVC/7274/	Ashadeep Nivas, Middle Lane, Pali, Tal. Sudhagad, Distt. Raigad-410205, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	07.09.81
1162	Kulkarni Gauri Mukund	MahaSVC/7479/	Om Sai Karan Palace, A/103, Eksar Road, Birivli (W), Mumbai-400092, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	02.09.82
1163	Kulkarni Rishikesh Nandkumar	MahaSVC/7266/	'Shriniwas', Shikahat Colony, Mhaswad, Tal. Man, Distt. Satara, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	20.05.82
1164	Kulkarni Sheetal Vivek	MahaSVC/7296/	Sun Paradise, Flat No. 1, Plot No. 246, Sector-28, Vashi, Navi Mumbai, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/02	27.02.79
1165	Kumar Ajoy	GUJSVC/2689/06	C/o Radha Ramanprasad, Village Dariyapur, At & PO Paraoth, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	05.09.80
1166	Kumar Dhananjay, S/o Sh. Naval Kishore Prasad	BVC/2708/05	Vill. Sabanhua Baban Bigha, PO Harnaut, PS Harnaut-803110, Dt. Nalanda, Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/05	16.01.77
1167	Kumar Gopal, S/o Late Sh. Nakul Kumar	ASM/2254/06	Vill.-Rajapukhuri, PO Bhagabati-Para, Distt. Kamrup-781132, Assam	BVSc&AH/AAU/06	01.03.81
1168	Kumar Harsh Vardhan, S/o Sh. Krishan Mohan Jha	BVC/2678/05	Vill. Gonsayi Gaon, PO Gonsayi Gaon, PS Gopalpur-853204, Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/05	03.01.81
1169	Kumar Manindranath Bharti, S/o Sh. Vishvnath Das	BVC/2703/05	Vill. Chakdara (Olhanpur), PO Olhanpur, PS Madhaura, Distt. Saran, Bihar	BVSc&AH/OUAT/05	10.09.77



<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1170	Kumar Ravi, S/o Sh. Nobat Singh	DVC/0624/03	House No. 47, Village Ghondly, Krishna Nagar, Delhi-110051	BVSc&AH/GAU/03	16.12.79
1171	Kumaresh Behera, S/o Sh. Ramachandra Behera	OVC/2041/06	At Bhalukuma, PO Ekatali, Distt. Keonjhar, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	19.06.82
1172	Kunal Dev Sharma, S/o Sh. Man Mohan Sharma	DVC/0665/05	201. Deepali, Pitampura, Delhi-34	BVSc&AH/CCSHAU/05	28.07.81
1173	Kunja Bihari Joshi, S/o Sh. Biswanath Joshi	OVC/2043/06	At/PO Purunakatak. Distt. Boudh, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	16.02.81
1174	Kuntal Kumar Dutta, S/o Sh. Kajal Kumar Dutta	WBSVC/3238/06	No. 8, A.C. Sen Road, PO Morepukur (Rishra), Distt. Hooghly, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/06	22.12.81
1175	Kunwar Navneet Singh, S/o Shri Akhilesh Singh	UPVC/4460/06	Adarsh Hospital, Malviya Nagar, Chitbaragaon, Ballia, Uttar Pradesh	BVSc&AH/MAFSU/06	01.11.79
1176	Kuorati Munira Elyas	MahaSVC/7472/	Irani Wadi, 303, S.C. Marg, Mazagaon, Mumbai-400010, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	28.07.82
1177	Kuriakose Mathew T	KeralaSVC/3186/05	Tharavattathil, Amayannoor PO, Kottayam-686025, Kerala	BVSc&AH/KAU/05	21.11.80
1178	L. CHANDRASEKARAN S/o(LATE) S.LAKSHMANAN	TNVC/1937/05	NO.3, F2, LAKSHMI FLATS, RAJAJI STREET, SAIDAPET, CHENNAI - 600 015	BVSc/Uni of Madras/73	02-06-50
1179	L. LESLIE LEO PRINCE S/o P.LAWRENCE	TNVC/0714/05	461 / 19, 4TH CROS, ARULANANDHA NAGAR, NEAR ARUL NURSERY, THANJAVUR DIST PIN 613 007	BVSc/TANUVAS/97	22-06-74

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1180	L. NAGARAJAN S/o M.B. LAKSHMANAN	TNVC/3048/05	42C, RAMALINGA NAGAR II STREET, VIRUGAMBAKKAM, CHENNAI 600 092	BVSc/TNAU/84	30-04-61
1181	L. RADHAKRISHNAN S/O L. CHANDRASEKAR REDDY	TNVC/2382/05	SUBBA REDDY PALAYAM (VILLAGE AND POST), (VIA) MINJUR, PONNERI TALUK, THIRUVALLUR DIST, PIN : 601 203.	BVSc/TANUVAS/92	20-12-67
1182	L.N. MATHURAM S/o L.P. NARAYANAN	TNVC/1982/05	NEW NO.33 / 1, OLD NO.15 / 1, VANKATACHALA MUDALI STREET, VEPERY, CHENNAI 600 007.	BVSc/TNAU/76	30-12-52
1183	Labh Singh Kaushal, S/o Shri Uday Singh	UPVC/4541/06	E-3, 1156-60, Shahadnagar, Agra, Uttar Pradesh	BVSc&AH/Agra Uni./69	25.09.43
1184	Lad Sanjivani Dayanand	MahaSVC/7304/	Kudal Nerurpar Road, Kudal (Nabarwadi), Tal. Kudal, Distt. Sindhudurg, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	11.05.82
1185	Lade Manishkumar Baburao	MahaSVC/7330/	Dhampuri Road, Hanuman Ward, Desaiganj(Wadsa), Tal Desaiganj(Wadsa), Dt. Gadch iroli, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	12.05.81
1186	Ladukar Neeta Onkarrao	MahaSVC/7359/	"Guruprasad", 41, Bapnagar, Umrer Road, Nagpur, Tal. Distt. Nagpur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	12.04.82
1187	Laeque Ahmad Khan	MahaSVC/7147/	Manohar Vihar Colony, 72, Hazari Pahad, Nagpur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	05.02.82
1188	Laibachiya Rajeshkumar Jayantilal	GUJSVC/2743/06	Limbachseri, Brahmpole, Nr. Poladi Vass, At&Ta. Siddhpur, Dt Palan(NG), Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	17.07.83
1189	Lakhan Lal Gupta, S/o Shri K.D. Gupta	MPSVC/2352/06	F-15, Civil Lines, Balaghat, Balaghat, MP	BVSc&AH/JNKVV/79	18.03.55

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1190	Lakhan Singh Saini, S/o Sh. Dhram Singh	RajSVC/3261/06	V&P Randhirgarh, TEH Wair, Bharatpur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	19.01.78
1191	Lakhe Ramakant Shankarrao	MahaSVC/7403/	Sangmesh Nivas, 43, Gandhi Nagar, I/F. O. Panchayat Samiti, Degloor, Tal Degloor, Dt. Nanded, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	18.11.75
1192	Lakkavath Ram Singh, S/o Shri Mangya	APSVC/4541/07	No164/1, Flat No101, Sri Koteswara Residency, Jayanr, Bhagyana gar Colony, Kukatpally, H'bad-500072, Andhra Pradesh	BVSc&AH/ANGRAU/05	12.12.64
1193	Lakshmesha S. K. S/o Sh. Krishne Gowda S. T	KarSVC/3826/06	270, 4th Main, 4th Stage, T. K. Layout, Kuvempunagar, Mysore Distt, Karnataka.	BVSc&AH/KVAFSU/05	20.05.79
1194	Lakshmi P.	KeralaSVC /3134/06	Manimandiram, Karumadi PO, Ambalappuzha, Alappuzha-688564, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	25.05.82
1195	Lalatendu Keshary Das, S/o Sh. Subash Chandra Das	OVC/2135/07	At/PO Totapada, Via Ghanteswar, Distt. Bhadrak, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	27.05.83
1196	Lalit Kumar Singh Lodha, S/o Shri K.S. Lodha	MPSVC/2363/06	Udasi Ashram Guna, MP-473001	BVSc&AH/JNKVV/06	01.03.71
1197	Lalit Kumar, S/o Sh. Inder Singh	HVC/191S/	H.No. 414/18, Ravidas Nagar, Rohtak, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/06	22.06.80
1198	Lalita Ku Jena, S/o Sh. Abhiram Jena	OVC/2107/07	At Sipakuda, PO Badabhun, Nuagaon, Distt. Puri, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	07.08.77
1199	Lalji Singh Yadav, S/o Shri Balikaram Yadav	UPVC/4525/06	Vill. Alipur Mondra, PO Jakhian, Distt. Ghazipur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/98	10.07.70

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1200	Lalmuanpuia Samte, S/o Sh. V. Z. Dinga	MizSVC/0158/06	A/11/107, Lily Veng, Chaitlang, Aizawl, Mizoram	BVSc&AH/CAU/06	03.07.84
1201	Lalon Kol, S/o Late Sh. Jiten Kol	WBSVC/3281/06	Vill. Safarpur, PO Kanpur, PS Kumarganj, Distt. D/Dinajpur, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	23.12.83
1202	Lanjewar Rucha Devida	MahaSVC/7170/	'Gavray' Plot No. 16, Ashirwad Nagar, Hudkeshwar Road, Nagpur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	29.06.82
1203	Lanjewar Renuka Daulatrao	MahaSVC/7173/	122, Radhakrushna Nagar, Hudkeshwar Road, Nagpur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	31.07.82
1204	Latchupatula Sudhakar, S/o Shri L. Appala Naidu	APSVC/4465/06	C/o V. Maheswara Rao, ITI Colony, Bobbili, Vizianagaram Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	01.07.82
1205	Lathkar Girish Madhukarrao	MahaSVC/7314/	4, Ganpati Galli, Jintur, Tal. Jintur, Distt. Parbhani- 431401, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	05.07.80
1206	Lawand Sachin Popat	MahaSVC/7541/	M.A.C.S., Agricultural Farm, At. Hol, (8 Phata), A/p Someswarnagar, Tal. Baramati, Dt. Pune, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	26.05.81
1207	Laxmi Narayan Sarangi, S/o Sh. Dharendra Kumar Sarangi	OVC/2141/07	Talatelenga Bazar, Cuttack- 9, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	15.06.83
1208	Leena Sajjan G.P., D/o Sh. Parameshwarappa G.B.	KarSVC/3901/06	Lakkavvanahalli Road, Opp. Ayyappa Swamy Temple, Hiriyur, Chitradurga Dt., Kamataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	01.05.84
1209	Lehreena, D/o Sh. J.K. Kewal Ramani	HVC/1927/	H.No. 742, U.E. Sector-8, Karnal, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/0 6	22.01.83

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1210	Lende Shweta Ramesh	MahaSVC/7378/	10, Swarup Nagar, Near Swawlambi Nagar, Nagpur-440022, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	07.09.82
1211	LEONARD PAUL ABRAHAM S/O JOHN ABRAHAM	TNVC/2403/05	M15/2, 28TH CROSS STREET, BESANT NAGAR, CHENNAI 600 090	BVSc/Uni of Madras/71	13-10-48
1212	Liby Antony	KeralaSVC/3200/06	Palathingal House, Thekkumoola South, Kattoor, Thrissur, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	31.12.80
1213	Linitta Mathew S.	KeralaSVC/3148/06	Pazhayidathu House, Ancheri PO, Thoudupuzha PO-685585, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	15.05.82
1214	Lipi Kalaswari, D/o Sh. Satish Chandra Kalaswari	UVC/220/06	Sadar Bazar, Nr Anand Bhawan, Lansdown, Dt. Pauri Garhwal, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/06	06.08.82
1215	Lipismita Samal, D/o Sh. Sanatana Samal	OVC/2111/07	At Mantripara, PO Fakirabad, Via Thakurpatna, Distt. Kendrapara, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	21.01.84
1216	Lobo Nerissa Dominica Rosemary	MahaSVC/7530/	Salesiana, Fiat No. 1, Plot No. 167, Nathalan Parekh Marg, Wadala, Mumbai-400031, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	25.10.80
1217	Loh Haribhai Megharajbhai	GUJSVC/2727/06	At & Po Vagada (Jabalpura), Ta. Palanpur, Distt. B.K., Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	01.06.80
1218	Lokendra Singh Yadav, S/o Shri Krishna Kumar Yadav	UPVC/4556/07	Vill. & PO Khakha Kshis, PO Kaakhakhis, Jalun, Uttar Pradesh	BVSc&AH/IGKVV/06	08.09.80
1219	Lokhande Pankaj Rameshrao	MahaSVC/7649/	Patil Nagar, Near Bus Stand, Basmatnagar, Distt. Hingoli-431512, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	28.03.83

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1220	Lokhande Swapnaja Jagannath	MahaSVC/7125/	Lokhande Nursing Home, Nagarkhanna, Jamner, Tal. Jamner, Dt. Jalgaon, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	04.05.82
1221	Lokhande Tanaji Pandurang	MahaSVC/7369/	At Dhondewadi, Post Jainwadi, Tal. Pandharpur, Distt. Solapur-413304, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	01.06.81
1222	Lokini Sampathi, S/o Shri Muthaiah	APSVC/4542/07	H.No5-11-537, Srinagar Colony, Vidyaranyaपुरi, Nainnagar, Hanamkonda, Warangal-09, A.P	BVSc&AH/APAU/91	14.05.63
1223	Londhe Vinod Vilas	MahaSVC/7477/	"Kaman Kunj", 698/97, 98, 'B' Ward, Isolation Hospital Road, Tal. Karvir, Distt Kolhapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	13.04.83
1224	Lonkar Vijaysinh Dhansing	MahaSVC/7203/	A/p Bhalawani, Tal. Pandharpur, Distt. Solapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	14.01.82
1225	Lovekush Gupta, So Shri S.K. Gupta	UPVC/4446/06	Mohl Ganj Lakhana, Distt. Etawah, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/06	25.01.82
1226	M. Amarnath, S/o Sh. A. Muthukrishnan	TNVC/3771/06	13, 'Amulya' May Flower Garden-III Cross, Gorimedu, Salem, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/01	27.07.76
1227	M. Anna Anandh, S/o Sh. M. Murugaian	TNVC/3585/06	2/2-A, Kandiar Street, Ambalapattu North & PO, Thanjavur, Distt. - 614626, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/99	11.05.74
1228	M. ARTHANARI EASWARAN S/O K.MARAPPAN	TNVC/2629/05	13/2, MAIN ROAD, L.KALLIPATTY, GOBICHETTIPALAYAM, ERODE 638 452	BVSc/TANUVAS/00	03-07-73
1229	M. ASOKKUMAR S/o S.MANICKAM	TNVC/0955/05	141 / 2, AMMAN KOIL STREET, PILAKKURICHY POST, SENDURAI TALUK, PERAMBALUR DISTRICT 621 806.	BVSc/TANUVAS/01	03-04-77

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1230	M. BHASKARAN S/o C.MAHADEVAN PILLAI	TNVC/1300/05	3 / 119, MIDDLE STREET, THIRUMANUR P.O. ARIYALUR T.K. PERAMBALUR DISTRICT 621 715	BVSc/TNAU/88	01-03-66
1231	M. Chandran, S/o Sh. K. Murugan	TNVC/3567/06	H/4, Jama! Nagar, Ramapuram, Chennai- 600089, Tamil Nadu	B/Sc/MU/71	17.03.39
1232	M. CHELLAPANDIAN S/o M.MAHALINGAM	TNVC/3118/05	13, M.L. PILLAI NAGAR, PALAYAMKOTTAI, TIRUNELVELI 627 002	BVSc/TANUVAS/92	07-03-69
1233	M. GEETHA S/o M MARAPPAN	TNVC/2203/05	75 B/1, TIRUCHENGODE ROAD, NAMAKKAL 637 001.	BVSc/TANUVAS/00	23-05-76
1234	M. Gnanasekaran, S/o Sh. Murugan	TNVC/3639/06	3/17, Kovil Street, Laligam PO, Laligam, Dharmapuri- 636804, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/06	30.07.81
1235	M. GOKULAKRISHNAN S/o C.MARUDHAMUTHU	TNVC/1373/05	NO.61, MANNAPPA STREET, KOTTUR, CHENNAI 600 085	BVSc/TANUVAS/00	05-08-75
1236	M. HAMED ALI S/O P.MOHAMED FAROOK	TNVC/2369/05	57, MOSQUE STREET, THITTUVILAI, BOOTHAPONDI POST, KANYAKUMARI DIST.	BVSc/TNAU/88	02-06-66
1237	M. Haribaskar, S/o Sh. S Madurai Muthu	TNVC/3781/07	82-A/22-A1, Valluvar Nagar- II Street, Annathanapatty, Salem-636002, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/99	03.07.74
1238	M. IYUE S/o S/o MATHAGOWDER	TNVC/2876/05	CHINNA COONOR VILLAGE & POST, VIA, DENADCOMBAI, THE NILGIRIS 643 206.	BVSc/TNAU/79	06-04-56
1239	M JERALD MAHESH KUMAR S/o V.MARIA SAVARIMUTHU	TNVC/0835/05	5/181A, SAVARIYAR PURAM POST, ASIRVATHA PURAM VIA, TUTICORIN DISTRICT, PIN : 628 613	BVSc/TANUVAS/98	16-07-73

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1240	M. Jeyamurugan, S/o Sh. A. Mookkan	TNVC/3788/07	Master Ramuni Nagar, T. Kallupatti, Madurai- 625702, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/99	05 06 74
1241	M. JOHN EDWIN S/O C.MASILAMANI	TNVC/2406/05	W.548, VI STREET, ANNA NAGAR WEST EXTENSION. CHENNAI 600 101	BVSc/Uni of Madras/67	17-11-43
1242	M. Jugol Meitei, S/o Sh. M. Tomchou Meitei	DVC/0683/07	C-41, Indira Enclave, Neb Sarai, New Delhi-68	BVSc&AH/IGKVV/03	01 02. 74
1243	M. KANIMOZHIAN S/o P.K.MANICKAM	TNVC/1321/05	PATHAPUDUR, PATTUKONAMPATTI POST, PAPPIREDDIPATTI TALUK, DHARMAPURI DISTRICT 636 905.	BVSc&AH/MPKVP/98	25-05-75
1244	M. Karunakaran, S/o Sh. M.A. Muthupalani	TNVC/3759/06	246, Asiriyar Nagar, Kuliampalayam PO Gobichettipalayam, Erode, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/98	21.03.75
1245	M. LATHA MALA PRIYADHARSHINI S/o P.MURUGAIYAN	TNVC/1520/05	NO.C-3, SWAMINATHAN STREET, SATHYA NAGAR, EKKADUTHANGAL, CHENNAI 600 097	BVSc/TANUVAS/99	11-08-74
1246	M. Madhanmohan, S/o Sh. V. Muthukrishnan	TNVC/3582/06	Kamatchi Amman, Koil Steet, R. Padhupalayam, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/01	03.06.78
1247	M. MAHESHKRISHNA S/O S.MARUDAPPAN	TNVC/2681/05	190, THYAGI KUMARAN STREET, COIMBATORE 641 001	BVSc/TNAU/85	19-06-61
1248	M. MOHAN KUMAR S/O R.S.MANI	TNVC/2534/05	136/2, VIITH VINAYAGAR KOIL STREET, MOOLAPALAYAM, ERODE 638 002.	BVSc/TNAU/85	05-03-56
1249	M. MOORTHY S/o K.MOHAN	TNVC/1550/05	NEELIAN KATTU PUDHUR, SILUVAMPATTY POST, NALLIPALAYAM VIA, NAMAKKAL DIST, PIN : 637 003.	BVSc/TANUVAS/93	15-07-69



<b>SNUM</b>	<b>NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALIF</b>	<b>DOB</b>
1250	M. Mushtaq Ali, S/o Sh. M. Macdoom Ali	TNVC/3594/06	Aesirar Nagar, Kamatchi Amman Koil Street, Parangipettai- 608502, Chidambaram Teluk, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/76	15.08.49
1251	M. Nagalingam, S/o Sh. S. Mohan Doss	TNVC/3615/08	24, Chinna Pallivasal Street, Virudhunagar- 626001, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/98	21.04.75
1252	M. PALANISAMY S/o R. MAHAKRISHNAN	TNVC/1157/05	POOSAVI KADU, PATTANAM POST, RASIPURAM TK, NAMAKKAL DT 637 408.	BVSc/TANUVAS/97	28-07-74
1253	M. PERIASWAMY S/O MUTHUSAMY GOUNDER	TNVC/2498/05	THEKKALUR, ARACHALUR POST, ERODE DIST 638 101.	BVSc/Uni of Madras/71	09-06-46
1254	M. Periyasaamy, S/o Sh. V. Muthusamy	TNVC/3627/06	3/32, Muthumalai Nivas, Veppur PO, Kunnam Taluk, Perambalur-621717, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/06	30.07.80
1255	M. Prathusha, D/o Shri M. Somi Reddy	APSVC/4492/06	H.No3-9-357, Saraswati Nagar Colony, Old Check Po, L.B.Nagar, Hyderabad- 72, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVU/06	03.06.82
1256	M. RAMACHANDRAN S/o R.MASILAMANI	TNVC/0860/05	DANISHPET POST, OMALUR TALUK, SALEM DISTRICT, PIN : 636 354.	BVSc/TANUVAS/96	19-07-72
1257	M. SASIKUMAR S/o K.MANI	TNVC/2998/05	3 / B-A, SARASWATHI ILLAM, KONDICHETTIPATTY, PERIYAPATTY POST, NAMAKKAL 637 001	BVSc/TANUVAS/01	20-06-77
1258	M. SEKAR S/o V.MUTHUKRISHNAN	TNVC/1427/05	133, RADHA NAGAR MAIN ROAD, CHROME PET, CHENNAI 600 044	BVSc/TNAU/82	20-02-57
1259	M. SELVARAJU S/O P.MANI	TNVC/2410/05	38/A1, MAIN ROAD, POTHANUR (PO) NAMAKKAL DISTRICT 638 181	BVSc/TANUVAS/92	02-04-68

<b>SNUM</b>	<b>NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALIF</b>	<b>DOB</b>
1260	M. SENTHILKUMAR S/o K.MUTHUSAMY	TNVC/0843/05	VILANKUTTAIYUR, PATLUR POST, OLAGADAM VIA, ERODE DT., 638 314.	BVSc/TANUVAS/00	02-06-75
1261	M. SHANMUGAM S/o S.MURUGESAN	TNVC/0795/05	NO.278, N.G.G.O. NAGAR, CHENGALPATTU 603 001	BVSc/TANUVAS/00	28-10-77
1262	M. Shobana, S/o Sh. S. Muniyandi	TNVC/3765/06	1/533-C4, Vasantha Nagar East Street, Velipattinam, Ramanathapuram, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/00	31.03.77
1263	M. Sridevi, D/o Sh. R. Logavaseekaran	TNVC/3658/08	B-1, 10th Street, Periyar Nagar, Chennai- 600082, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/97	19.05.74
1264	M. Subramanian, S/o Sh. P. Mayilvahanan	TNVC/3605/06	M-II-36, TNHB, Ponvizha Nagar, Trichy Road, Namakkal, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/80	01.03.55
1265	M. SUBRAMANIYAN S/o S.MANICKAM	TNVC/1878/05	10, NORTH STREET, GANGAI KONDA CHOZHAPURAM P.O. JAYANKONDA CHOZHAPURAM TK, PERAMBALUR DT., 612901	BVSc/TANUVAS/93	05-04-69
1266	M. SUNDARA VINAYAKI S/o R.MADASAMY	TNVC/1137/05	194-0, K.T.C. OPPOSITE SIDE, PALAYAMKOTTAI, TIRUNELVELI DIST, PIN : 627 002.	BVSc/TANUVAS/99	01-06-74
1267	M. Suresh, S/o Sh. K.S. Mani	TNVC/3777/07	Velayee Thottam, Kalkurichi PO, Belukurichi Via., Namakkal-637402, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/01	05.04.77
1268	M. SUTHA S/o M.MOORTHY	TNVC/0949/05	1 / 14, SOWRASHTRA STREET, (SUTHA ILLAM), RAMNAD 623 501, TN.	BVSc/TANUVAS/01	19-04-77
1269	M. Vanaja Rani, S/o Sh. S. Anandhan	TNVC/3796/07	C/o T. Somu, West Street, Eluppur PO, Tharangambadi, Nagai Distt.-609308, Tamil Nadu	BVSc&AH/PU/06	25.07.83

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1270	M. VELMURUGAN S/o A.MURUGAN	TNVC/3058/05	NO.1, PILLAYAR KOIL STREET, ANNASAGARAM (PO) DHARMAPURI DISTRICT 636 704	BVSc/TANUVAS/01	16-03-77
1271	M. VIJAYABHARATHI S/O M.MANGALANATHAN	TNVC/2440/05	11-A, PATTUNOOLKARA STREET, MANGALABHAVANAM, RAMANATHAPURAM 623 501	BVSc/TANUVAS/99	16-07-74
1272	M.A. Rasheed, S/o Sh. M.A. Rahman	TNVC/3637/06	Flat G1, Salmas Corner Castle 11/12 Zechsariya Colony, 4th Street, Chennai- 94, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/82	06.09.56
1273	M.Babu S/o Sh C.Mannu Mudaliar	TNVC/1846/05	6 Carmel Garden, RamalingaNg West Extn., Tiruchirapalli, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/79	5.04.56
1274	M.D. YUVARAJAN S/o M.DHEENADHAYALAN	TNVC/2856/05	OLD NO.31, NEW NO.24, SARAVANAN STREET, T. NAGAR, CHENNAI 600 017.	BVSc/Uni of Madras/67	21-12-38
1275	M.G. JAYATHANGARAJ S/o S.GANESAN	TNVC/0773/05	.4.B, NO.50A., GIRIJA APARTMENT, 100 FEET ROAD, ARUMBAKKAM, CHENNAI 600 106.	BVSc/TNAU/83	11-02-60
1276	M.Hari, S/o M.Thulasidass	TNVC/3558/06	4(), Pandeswaram (Via), IAF Airadi, Chennai- 60 0055, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/76	16.07.48
1277	M.J.RAJA S/o G.MUTHUGAN	TNVC/2251/05	NO.6, ILLAPATHINI STREET, SHOLINGAR ROAD, PALLIPET, TIRUVALLUR DISTRICT - 631 209	BVSc/TANUVAS/00	05-08-74
1278	M.K. ARUNA S/o G.KANNAMANI	TNVC/3029/05	237., TNHB, KAVERIPATTINAM, KRI:SHNAGIRI	BVSc/TANUVAS/01	12-07-77
1279	M.Kalamegam, S/o Muthukumarasamy	PondiSVC/289/06	No.34 Vinayagar, Koil Street, Theiarspet, Kathirkamam Po, Pondicherry-9	BVSc&AH/Pondi Uni/05	16.10.80

<b>SNUM</b>	<b>NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALIF</b>	<b>DOB</b>
1280	M.KATHIRCHELVAN S/o E.MANICKAM	TNVC/2988/05	EARUVAKKADU, MELAVAZHAKKARAI P.O. THIRUKKUALAI (T.K.) NAGAPATTINAM DISTRICT PIN 610 204	BVSc/TANUVAS/94	04-04-71
1281	M.N. SUNDARARAMAN S/o M.V.N.RAGHAVAN	TNVC/2153/05	20, DEVADOSS STREET, VEDACHALAM NAGAR, CHENGALPATTU 603 001, KANCHEEPURAM DISTRICT.	BVSc/TNAU/79	18-06-56
1282	M.Nathappan,S/o N.Muthusamy	TNVC/2097/05	22,East Car Street,Turaiyur,Trichy Dt- 621010,Tamil Nadu	BVSc/Uni of Madras/73	29.09.47
1283	M.P. RAJENDRAN S/O M.PERIAKARUPPAN	TNVC/2703/05	601, SIXTH STREET, 'D' SECTOR, 'W' BLOCK, ANNA NAGAR WESTERN EXTENSION, CHENNAI 600 101	BVSc/Uni of Madras/64	25-12-42
1284	M.Palanivel,S/oM.Murug an	TNVC/0019/02	Indra Street,Kangli Koli Road, Perundurai,Erode Dt- 638052,TamilNadu	BVSc/TANUVAS/02	11.06.76
1285	M.S. SELVARASU S/O M.SELLAPPAN	TNVC/2386/05	N.G. PUDUR, S.KARADU POST, NAMAKKAL TK & DIST, PIN : 637 001.	BVSc/TANUVAS/00	01-06-76
1286	M.SELVARAJ S/o A,MUTHUSAMY	TNVC/1351/05	14, NETHAJI NAGAR, NANJUNDAPURAM ROAD, COIMBATORE 641 036	BVSc/TNAU/77	27-05-53
1287	M.SIVARAMAKRISHNA N S/o C.MAHADEVAN	TNVC/2101/05	6, TELUNGAR STREET, PULIYANGUDI 627 855, TIRUNELVELI DT, TAMIL NADU.	BVSc/TANUVAS/00	13-02-75
1288	M.THANGAPANDIYAN S/O T.MARUDHAI	TNVC/2278/05	PETHASAMUTHIRAM, THOTTAPADI P.O. VILLUPURAM DISTRICT 606301	BVSc/TANUVAS/00	09-07-75
1289	M.Veni,S/o Sh V.Thavachadra Babu	TNVC/2062/05	101,IVPM Qtrs,Ranipet,Vellore Dt,Tamil Nadu	BVSc&AH/BCKVV/90	30.12.67

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1290	Medan Murari Patel, S/o Shri Brij Lal Patel	UPVC/4487/06	299/7314, Satnly Road, Karnia Nagar, Allahabad, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/ 06	17.05.75
1291	Madepalli Vidya, D/o Shri M. Subash Rao	APSVC/4432/06	H.No. 20-93, Jawahar Road, Mancherla, Adilabad Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/ANGRAU/0 5	19.03.79
1292	Madhamwar Sadanand Laxmanrao	MahaSVC/7563/	C/o N.B. Chintawar, D.I.C. Office, Shivaji Nagar, Nanded-431602, Maharashtra	BVSc&AH/MAU/01	25.05.73
1293	Madnawar Vinayak Sainath	MahaSVC/7654/	C/o Madnawar Sainath, Near Post Office, Railway Station Road, Dharmabad, Distt. Nanded-431809, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	07.03.84
1294	Madupalli Ravi Kumar, S/o Shri Surya Prakasha Rao	APSVC/4526/06	Jalimudi (V), Gannavaram (P), Madhira (M), Khammam Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	29.05.81
1295	Mafal Juned Mustufa	GUJSVC/2697/06	3, New Aman Park, Nr. Chanakyapuri Society, Palanpur (B.K.), Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	08.08.84
1296	Magadum Vinod Vishwanath	MahaSVC/7514/	'Ram-Bhaya' Niwas, Kedani Road, Chikhali, Tal. Kagal, Distt. Kolhapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	10.01.83
1297	Mahadeva Sharma B.M., S/o Sh. Marulappaiah B.V.	KarSVC/3851/06	Baggavalli-577547, Tarikere Tq., Chickamagalur Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	27.05.84
1298	Mahadik Parag Prabhakar	MahaSVC/7690/	House No. 4148, Killa Ratnagiri, Ratnagiri-415612, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	27.10.80
1299	Mahajan Atul Chandrashekhar	MahaSVC/7683/	Building No. B-15, Room No. 10, Murbad Road, Kalyan (W), Distt. Thane- 421301, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	18.11.83

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1300	Mahajan Nikung Rajendra	MahaSVC/7358/	'Prabhukunj' Rajde Plots, Tal. Akot, Distt. Akola- 444101, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	17.02.82
1301	Mahalle Gajendra Pandhari	MahaSVC/7149/	At Dindargaon, Post Tinkheda, Tal. Narkhed, Distt. Nagpur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	06.11.81
1302	Mahamune Shilpa Shankar	MahaSVC/7550/	Narshiva Kripa, Old Padgaon Road, Parbhani- 431402, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/03	12.06.81
1303	Mahavir Singh Taryal (Col), S/o Late Sh. Chandan Singh Taryal	UVC/233/06	14-C, Green Park, Ballupur Chowak, Dehradun, Uttaranchal	BVSc&AH/UPAU/66	24.07.45
1304	Mahendra Kumar, S/o Shri Ramdayal Maurya	UPVC/4512/06	Vill. Neelkanth Saraypo Kavahi Anjanpur, Ambedkarnagar, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/0 1	25.05.77
1305	Mahendra Singh Gurjar, S/o Sh. Hari Sing	RajSVC/3248/06	Moti Nagar, Near Dehli Phatak, Bandi Kul, Dausa, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	11.04.80
1306	Mahendra Tiwari, S/o Shri S.K. Tiwari	UPVC/4476/06	B-44, Nehru Vihar, Vikas Nagar, Kalyanpur, Lucknow, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/ 06	28.06.82
1307	Mahesh Datt Shandle, S/o Sh. Shankar Datt	DVC/0599/02	A-35, DGS Appts. Sector- 22, Dwarka, New Delhi- 110045	BVSc&AH/PAU/65	22.07.40
1308	Mahesh Kumar Bawankar, S/o Shri Likhiram	MPSVC/2354/06	Village Surwahi, PO Dhansua Balaghat, MP- 481001	BVSc&AH/JNKVV/04	09.10.78
1309	Mahesh Kumar, S/o Sh. Mahender Kumar	HVC/1937/	H.No. 51/18/11, Tilk Bazar, Sharma Gali, Hisar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/0 6	30.11.81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1310	Mahesh R.	KeralaSVC/3163/06	Revathi, Kannimel-A, Kilkolloor PO, Kollam- 691004, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	23.06.81
1311	Mahesh Singh, S/o Shri Hari Das Sisodiya	MPSVC/2396/06	Anand Nagar, Uttampura, Morena, MP	BVSc&AH/JNKVV/06	04.06.82
1312	Mahesha N., S/o Sh. Ningappa C.	KarSVC/3946/06	Doddayyanagere-572119, Handanakere Hobli, C.N. Helli Tq., Tumkur Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	04.07.83
1313	Maheswar Parida, S/o Sh. Ananta Prasad Parida	OVC/2068/06	At Panisaunki, PO Gobindpur, Distt. Balasore, Orissa	BVSc&AH/OUAT/05	14.08.79
1314	Mahida Himanshu Kalubhai	GUJSVC/2698/06	A/6, Shilp Tenamant, Nr. New Gayatri Sch, Sabarmati, D Cabin, A'bad-19, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	01.07.83
1315	Mahipal Choubey, S/o Shri M.P. Choubey	UPVC/4457/06	No. 8/210, D-2, Hanumam Nr. Colony Sunderpur, Newada, Varanasi Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/0 6	21.12.81
1316	Mahjan Vishal Milindrao	MahaSVC/7135/	Bhavani Nagar, Near Bus Stand, Kandhar, Distt. Nanded, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	25.09.81
1317	Mahla Bhaveshkumar Lalajibhai	GUJSVC/2699/06	At Post Karanjveri, Ta. Dharampur, Distt. Valsad, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	26.02.84
1318	Mahuya Dey, D/o Sh. Janardan Dey	WBSVC/3252/06	Vill. Nischindipur, PO Jayrambati, Distt. Bankura, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	25.04.82
1319	Mainde Umesh Pandurang	MahaSVC/7500/	At Yawali, Po Ashegaon Devi, Babulgaon, Distt. Yavatmai-445001, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	21.04.82

<b>SNUM</b>	<b>NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALIF</b>	<b>DOB</b>
1320	Malay Saha, S/o Sh. Armutya Saha	WBSVC/3270/06	VIII. Milanpally, PO & PS Islampur, Dt. U/Dinajpur-733202, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/06	17.09.81
1321	Maldhure Chanchal Arvind	MahaSVC/7601/	33, Prarubdh Suraj Colony, V.M.V. Road, Kathora Naka, Amravati-444604, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	28.02.84
1322	Maldhure Niteen Arvind	MahaSVC/7164/	33, Suraj Colony, V.M.V. Road, Kathora Naka, Amravati, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	09.08.81
1323	Mali Hemali Vijay	MahaSVC/7208/	A/p Dahanu Agar, Tal. Dahanu, Distt. Thane, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	30.04.82
1324	Mallikarjunappa G.H., S/o Sh. Hamumanthappa H.B.	KarSVC/3926/06	Esamudra-577519, Chitradurga Tq. & Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	12.04.84
1325	Malsure Sumedha Ram	MahaSVC/7171/	C/o Dr. R.S. Malsure, Vety. Polyclinic Quarter, Near Tahsil Office, Amravati, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	20.01.82
1326	Mamata Hembram, D/o Sh. Bhaju Hembram	OVC/2099/07	At Raidandia, PO Udala, Distt. Mayurbhanj, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	05.07.82
1327	Mane Devanand Uttamrao	MahaSVC/7552/	C/o Madhavrao Patil, Near Todkar Niwas, Vikas Nagar, Degloor Road, Udgir, Tal. Udgir, Dt. Latur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	01.06.81
1328	Mane Jyoti Babruvan	MahaSVC/7537/	Bank Colony, Block No. 76, Nilanga, Tal. Tilanga, Distt. Latur-413521, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	20.05.81
1329	Mane Prashant Madhavrao	MahaSVC/7727/	At Songaon, Tal. Rahuri, Distt. Ahmednagar-413711, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	27.06.83



<b>SNUM</b>	<b>NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALIF</b>	<b>DOB</b>
1330	Maneesh Purohit, S/o Sh. Arun Kumar	RajSVC/3251/06	16-E-19, Chopesani Housing Board, Jodhpur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	24.06.78
1331	Maneesh Verma, S/o Shri Saitaveer Singh	UPVC/4495/06	17A/B, Bal Vihar Colony, Faridi Nagar, Picnic Spotroad, Lucknow, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAU&T/06	13.02.81
1332	Manik Parwar, S/o Sh. Mahavir Singh	HVC/1909/	VPO, Bali Qutubpur, Th. Ganaur, Dist. Sonapat, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/06	08.11.84
1333	Manish Wasthi, S/o Shri S.C. Awasthi	UPVC/4432/06	H-320, Satyam Vihar, Kalyanpur, Kanpur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDUAU&T/06	16.02.83
1334	Manjare Pramod Tukaram	MahaSVC/7665/	C/o Shri Manjare Tukaram Manohar, Naikwadi Plot, Gandhinagar, Paranda Road, Barshi, Tal. Barshi, Distt. Solapur-413411, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	15.07.83
1335	Manjula V.	KeralaSVC/3128/06	Valiyamattathil House, Kanakary PO, Kottayam-686632, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	09.05.83
1336	Manjunath K.P., S/o Sh. Papanna	KarSVC/3884/06	4, Neerubavi, Kempanna Layout, Hebbal, Bangalore-560024, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	20.07.83
1337	Manmohan Singh Narula, S/o Sh. Hawela Singh Narula	Pb.SVC/388/07	H.No. 3505, Gali No. 3, Azad Nagar, Putilgarh, Amritsar-143001, Punjab	BVSc&AH/PU/58	15.04.38
1338	Manoj Kumar Dwivedi, S/o Sh. Shrinath Dwivedi	KarSVC/3923/06	13, VCH, Hebbal, Bangalore-560024, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	19.09.74
1339	Manoj Kumar Mantu, S/o Sh. Sri Nithyanand Singh	KarSVC/3864/06	Veterinary College, Bidar, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/05	04.06.77

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD.</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1340	Manoj Kumar Meena, S/o Sh. Kalyan Sahai	RajSVC/3244/06	3 KV 270, Shivaji Park, Alwar, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	15.07.80
1341	Manoj Kumar Singh, S/o Shri Sovdar Singh	UPVC/4484/06	F-696, Kamla Nagar, Agra, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/ 06	30.06.81
1342	Manoj Kumar Tripathi, S/o Shri B.B. Tripathi	UPVC/4449/06	Vill. Rupanpur, PO Molanpur, Mahrajganj, Azamgarh, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDAUA&T/ 06	01.04.79
1343	Manoj Sarangi, S/o Sh. Bira Kishore Sarangi	OVC/2128/07	At Alikana, Via Balikuda, Distt. Jagatsinghpur, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	01.07.82
1344	Manoranjan Mahapatra, S/o Sh. Akhil Mahapatra	OVC/2123/07	At PO Raj Berhampur, Distt. Balasore, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	15.06.82
1345	Manpreet Arora, D/o Late Shri Harpal Singh Arora	MPSVC/2405/06	MIG-4, Good Luck Appartment, Near Hatital Gurudwara, Jabalpur, MP	BVSc&AH/JNKVV/04	01.08.78
1346	Manu Raveedran	KeralaSVC/3115/06	Pukadiyil House, Thazhathangadi PO, Kottayam-686005, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	01.01.82
1347	Manu Sekhar	KeralaSVC/3202/06	Sumanu T.C. 3/1293, TKD Road, Pattom PO, Tvm- 695004, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	15.02.81
1348	Marie Rajashekar Reddy Y., S/o Shri Thomas Reddy Yeruva	APSVC/4530/06	Thalacheruvu (P), Atchampet (M), Guntur Dt.- 522409, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	20.08.80
1349	Mariamamma Thomas	KeralaSVC/3183/06	Edackattu, Kavumbha GAM PO, Thekkethukavala (Via.), Kottayam- 686519, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	20.05.82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1350	Mary Bilna Chandy	KeralaSVC/3110/06	Pulickamaisyil House, Vadavathoor PO, Kottayam- 686010, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	29.10.81
1351	Mastanbi Shaik, D/o Shri Moulali	APSVC/4463/06	Tailors Colony, Kothapet, Chirala, Prakasam Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	15.03.80
1352	Mate Mangesh Sabaji	MahaSVC/7467/	A/p Nimgaon (Sava), Tal. Junner, Distt. Pune, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	03.06.82
1353	Mathapati Santosh Sadashiv	MahaSVC/7287/	Dasara Chowk, A/p Halkarni, Tal. Gadhingali, Distt. Kolhapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	14.03.81
1354	MATHEW C. JOHN S/O C.I. JOHN	TNVC/2342/05	2/149, HABIBULLAH ROAD, T. NAGAR, CHENNAI 600 017	BVSc/Uni of Madras/64	27-05-41
1355	Mathura Prasad Gautam, S/o Shri K.N. Gautam	MPSVC/2421/07	Nutan Colony, Sidhi, MP- 486661	BVSc&AH/JNKVV/83	01.07.62
1356	Mavadiya Suresh Vaghajibhai	GUJSVC/2745/06	S/o V.B. Mavadiya, Ambedkar Ng, Madhavpur (Ghed), Dt. Por bandar, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	05.05.86
1357	Mayur Varshney, S/o Sh. A.C. Varshney	HPSVC/763/06	House No. 9, Type 4, Teachers Colony, Holta, CSKHPKV, Palampur, H.P.	BVSc&AH/CSKKVV/0 6	10.01.83
1358	MD. HABIBULLAKHAN S/o S. MAHABOOB KHAN	TNVC/1703/05	671, ANNA NAGAR WEST, CHENNAI 600 101	BVSc/Uni of Madras/57	03-02-35
1359	Md. Taukir Aalam, S/o Md. Nazir Uddin	BVC/2711/05	Vill. Aazad Nagar Ward No. 14, PO Araria, PS Araria- 854311, Distt. Araria, Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/0 5	01.01.81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1360	Meenaketan Pānda, S/o Sh. Krushna Chandra Pānda	OVC/2144/07	At Ayodhyapur, PO Raghunathpur, Distt. Jagatsinghpur, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	14.06.84
1361	Mehta Sudhir Amritlal	GUJSVC/2748/06	Tagore Street No. 1, 'Gayatri Krupa', Nr K.P. School, Upleta- 360490, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	17.07.84
1362	Mendhe Hemantkumar Chhagan	MahaSVC/7615/ f	New Pragati Colony, Shrinagar, Post Shendurwara, Tal. Sakoli, Distt. Bhandara-441802, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	24.04.84
1363	Mendhe Lalitkumar Rewaram	MahaSVC/7628/	Pragati Colony, Sendurwara Road, Sakoli, Distt. Bhandara-441802, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	09.02.84
1364	Mendhe Mangesh Shrikrishna	MahaSVC/7609/	C/o Shrikrishna Shankarrao Mendhe, At Wadgaon, Post Chandikapur, Tal. Akot, Distt. Akola-444101, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	11.08.83
1365	Meshram Devendra Janardhan	MahaSVC/7166/	Ramabai Ambedkar Chowk, Vidya Nagar, Brahmapuri, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	13.06.81
1366	Meshram Sharad Hirachandji	MahaSVC/7458/	C/o "Aai", Plot No. 88, New Amar Nagar, Chikhali Layout, Manewada, Nagpur- 440034, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	06.06.81
1367	Metakar Dada Vithoba	MahaSVC/7533/	A/p Nandeshwar, Tal. Mangalwedha, Distt. Solapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	04.04.82
1368	Mhaske Girish Dada	MahaSVC/7524/	"Swapna Purni", 228, Shivaji Nagar, Ajinkyatara Road, Godolo, Distt. Satara, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	26.12.79
1369	Mhaske Trishulkumar Haridasrao	MahaSVC/7494/	At/Post Shirala, Tal. Distt. Amravati, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	23.03.79

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1370	Mhatre Mitind Dnyanesh	MahaSVC/7293/	Thermax HSG, Soc.-13/22, Sector-24/B, PCNTDA, Nigdi, Pradhikaran, Tal. Haveli, Dt. Pune, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/02	22.01.80
1371	Mhatre Sushant Jayavant	MahaSVC/7701/	At Kanhoba, PO Vadhav, Tal. Pen. Distt. Raigad- 402103, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	27.05.84
1372	Midhun M.V	KeralaSVC/3175/06	Midhun Nivas, Kollad PO, Kottayam-686020, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	27.04.81
1373	Minati Behera, D/o Sh. Bipin Behari Behera	OVC/2048/06	At Sour (Market), Via Bahugram, PO Mahasinghpur, Distt. Cuttack, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	26.06.79
1374	Mini P.C., S/o Sh. Arun Pavithran	KarSVC/3954/07	37, Sri Karthika 2nd Cross, Krishnanagar, Shetty Halli, Jalahalli (W), B'lore- 15, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 5	28.06.78
1375	Minu Kumari, S/o Sh. Shayamdev Prasad	BVC/2654/05	Vill. Ramchak, PO Lalbagh, PS Darbhanga-846004, Distt. Darbhanga, Bihar	BVSc&AH/BAU/05	07.09.77
1376	Mirajkar Pallavi Prakash	MahaSVC/7519/	Mohap Apartment, Flat No. 4, Near Jain Mandir, Sangli- 416415, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	26.03.82
1377	Mirza Abdul Rahman Baig, S/o Shri Mirza Khazim Ali Baig	APSVC/4537/06	10-2-318-1/69, Feroze Gandhi Nagar, Vijayanagar Colony, Hyderabad-500057, Andhra Pradesh	BVSc&AH/APAU/70	01.03.46
1378	Mistry Chirag Natavarlal	GUJSVC/2749/06	At & Po Piplana, Ta. Harij, Distt. Palan-384240, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	01.06.83
1379	Mita Sinha Mahapatra, D/o Sh. Baidhyanath Sinha Mahapatra	DVC/0679/06	School of Agriculture, Block- G, IGNOU, Maindan Garhi, New Delhi-68	BVSc&AH/WBUAFS/0 0	01.08.78

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1380	Mitthu Meena, D/o Sh. Tara Chand	RajSVC/3282/06	VPO Chhapali, Jhunjhunu, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	20.07.80
1381	Miyan Khan Gafoor Khan	MahaSVC/7320/	Kasad Pura, Chawalwadi, Behind Kailash Cloth Stores, Po-Achalpur City, Dt. Amravati, Maharashtra	BVSc&AH/PKV, Akola/70	01.07.46
1382	Modi Falguni Dashrathbhai	GUJSVC/2700/06	Shakti Nagar Society, Sukhbag Road, Palanpur (B.K.), Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	28.01.84
1383	Modi Nirav Rameshbhai	GUJSVC/2701/06	Gatahman Gate Road, Opp. Petrol Pump, Palanpur (B.K.), Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	26.08.82
1384	Modwan Gajanan Dattatraya	MahaSVC/7137/	Guru Krupa Niwas, Near Jain Mandir, Mudked, Distt. Nanded, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	31.01.79
1385	Moh. Souban, S/o Shri Missbasuddin Ahamed	UPVC/4440/06	Vill. & PO Naharkhan Sarai, Badaun, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDAUA&T/06	15.06.80
1386	Mohammad Ayub Tak, S/o Sh. Ahmed Ali Tak	RajSVC/3298/06	VPO Sanju, TEH Degana, Nagour, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	01.09.80
1387	MOHAMMAD HASAN RAHMAN KHAN S/o MOHD MAHMOOD KHAN	TNVC/1390/05	6E, ANDERSON ROAD, AYANAVARAM, CHENNAI 600 023	BVSc/TANUVAS/97	15-08-72
1388	Mohammad Riyaz, S/o Sh. Kamaludin	UVC/219/06	Near Choti Masjid, Kitchha, Distt. U.S. Nagar, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/06	01.07.81
1389	Mohammed Imran Sadiq, S/o Sh. Abdul Hafeez Jani	KarSVC/3867/06	A.H.Jani Maniyar, Op. Fire Station Chincholi Rd, Sedam Tq. Gulbarga Dt. Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	05.12.81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1390	Mohammed K.P.	KeralaSVC/3125/06	Kizhakkeparambathu, Thrikkalanguode PO, Manjeri, Malappuram Dt. - 676127, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	01.06.82
1391	Mohammed Nayeem, S/o Sh. M.A. Jaleel	TNVC/3619/06	W-86, North Main Road, Anna Nagar West Extension, Chennai- 600101, Tamil Nadu	BVSc/MU/64	22.04.40
1392	Mohammed Zaheer, S/o Sh. Mohammed Raheem	KarSVC/3831/06	# 2-1-6, Karnataka Enterprises, Inside Nai Kaman, Bidar- 585401, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	11.01.82
1393	Mohan Singh Jat, S/o Sh. Sajjan Singh	HVC/1949/	VPO Akbarpur, Th. Narnaul Sub Th. Nangal Chaudhry, Dt. Mohindergarh, Haryana	BVSc&AH/RAU/99	19.12.74
1394	Mohd. Abdul Majed Mohd. Abdul Rasheed	MahaSVC/7669/	Quadrabad Plot, Raj Nagar, Near Dr. Umrikar Hospital, Parbhani-431401, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	02.07.81
1395	Mohd. Zakir Ali, S/o Shri Mohd. Vazeer Ali	APSVC/4435/06	H.No. 3-1-188, Kakatiya Colony, Hanamkonda, Warangal, Andhra Pradesh	BVSc&AH/APAU/89	06.07.66
1396	Mohima Dey, D/o Sh. Manoj Dev	WBSVC/3243/06	Flat-C-101, 165A, Pratik Pally, Bosepukur, Kolkata- 42, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	08.04.79
1397	Mohire Sunil Sudhakar	MahaSVC/7261/	Ganesh Niwas, A/p Sawarde, Tal. Chiplun, Distt. Ratnagiri, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/02	28.04.79
1398	Mohit Malik, S/o Sh. Chander Parkash Malik	HVC/1910/	H.NO. 2668, B-Block, U.E., Jind, Haryana	BVSc&AH/CCSh. J/0 6	27.07.83
1399	Mohita Rai, D/o Shri S.R. Rai	MPSVC/2406/07	House No. 1288/3, J.P. Nagar, Adhartal, Jabalpur, MP-482004	BVSc&AH/JNKVV/06	13.11.80

<b>SNUM</b>	<b>NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALIF</b>	<b>DOB</b>
1400	Mohtaz Saeed, S/o Sh. Syed Idrish Ali Dewan	ASM/2240/06	C/o S.I.A. Dewan, Ganesh Nr. Jyotinagar, Bamunimaidan, Guwahati, Assam	BVSc&AH/AAU/06	12.04.81
1401	Mokal Jayshree Bhaginath	MahaSVC/7513/	Behind Kinra Hotel, Near Water Tank, Camp No. 1, Manmad, Tal. Nandgaon, Dt. Nasik, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	18.08.82
1402	Mokal Ninad Jagannath	MahaSVC/7482/	Mokal Sir House, Pen-Khopoli Road, Utkarsha Nagar, Near RTO Office, Tal. Pen, Dt. Raigad, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	11.06.82
1403	Mokate Dadasaheb Pandurang	MahaSVC/7189/	A/p Bramahni, Tal. Rahuri, Distt. Ahmednagar, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	24.03.81
1404	Monika Devi Yadav, S/o Sh. Babu Lal	RajSVC/3271/06	Vill. Yadav Nagar, PO Khelora, TEH Ramgarh, Alwar, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	12.11.80
1405	Monika Jain, D/o Sh. Jai Kumar Jain	DVC/0623/03	C-6/278, Yamuna Vihar, Delhi-110053	BVSc&AH/JNKVV/98	01.03.74
1406	More Dattatray Shankar	MahaSVC/7265/	At Divthana, Post Petha, Tal. Chikhli, Distt. Buldhana, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	05.10.80
1407	More Shalaka Madhavrao	MahaSVC/7553/	Sameer, 24, Medhikhana Road, Snehnagar, Ambajogai, Tal. Ambajogai, Distt. Beed, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/03	25.04.79
1408	More Vidya Kashinath	MahaSVC/7211/	Ombase Building, Room No. 17/2, Wagale Estate, Shanti Nagar, Thane-4, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	22.07.81
1409	Mote Aaditi Hanumantrao	MahaSVC/7670/	Mote Niwas, Ahmedpur, Tal. Ahmedpur, Distt. Latur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	14.02.84



<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1410	Moumita Biswas, D/o Sh. Baidyanath Biswas	WBSVC/3236/06	101, Vivekananda Sarani Charnpadali, Barasat, Dt. 24 Prgs(N), Kolkata-124, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	04.11.83
1411	Mousumi Banik Chowdhury, D/o Sh. Arjun Banik Chowdhury	WBSVC/3219/06	R.No. 11/1, Raghunathpur (North), Kolkata-59, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 5	17.12.81
1412	Mrinal Mondal, D/o Sh. Sudhir Kumar Mondal	WBSVC/3276/06	VIII. & PO+PS Baduria, Distt. 2A Prgs(N), West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	01.09.83
1413	Mritunjay Kumar, S/o Sh. Sri Sachchidanand Sharma	KarSVC/3865/06	Veterinary College, Bidar, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	03.11.79
1414	Mrityunjay Goshwami, S/o Shri R.P. Goswami	UPVC/4445/06	VIII. & PO Gurha, Distt. Lalitpur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/0 6	12.01.82
1415	Mrudhula S. Dathen	KeralaSVC/3147/06	Puthendurackel House, Manakkadu PO, Thodupuzha, Idukki- 685584, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	19.05.82
1416	Mrutyunjay Behura, S/o Sh. Satyabadi Behura	OVC/2072/06	At Adal, PO Sarangadharpur, Distt Nayagarh, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	03.06.81
1417	Mude Smita Wasudeorao	MahaSVC/7331/	Infront of R.S. Bidkar College, Hinganghat, Hinganghat, Distt. Wardha, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	21.06.83
1418	Mudit Chandra, S/o Sh. Yogesh Chandra	Pb.SVC/2699/07	Deptt. of Vety. Microbiology, GADVASU, Ludhiana, Punjab	BVSc&AH/GBPUIA&T/ 00	26.03.77
1419	Mukesh Kumar Gupta, S/o Shri A.S. Gupta	MPSVC/2353/06	HIG-39, Housing Board Colony, Opp. Telephone Exchange, Guna, MP	BVSc&AH/GBPUIA&T/ 80	05.04.54

<b>SNUM</b>	<b>NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALIF.</b>	<b>DOB</b>
1420	Mukesh Singh, S/o Shri Bechan Singh	UPVC/4475/06	Vill. Dulapur, PO Noorpur, Distt. Kawshambi, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/ 06	14.10.81
1421	Mukesh Tiwari, S/o Shri C.M. Tiwari	MPSVC/2349/06	B-357, Serwadharma Colony, Kolar Road, Bhopal, MP-462042	BVSc&AH/JNKVV/04	15.12.78
1422	Mula Ramkumar Reddy, S/o Shri M. Lakshmi Reddy	APSVC/4442/06	H.No. 8/56, SBI Road, Banaganapalli, Kumool, Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	29.06.82
1423	Muley Pramod Madhukar	MahaSVC/7612/	C/o Madhukar L. Muley, At Barsinagar, Pt Deuighat, Tal./Distt. Buldana-443001, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	05.03.84
1424	Mulla Fernaz Iqbal	MahaSVC/7416/	C.G.S. Colony, 390/32, Sector-3, Kane Nagar, Mumbai-400037, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	19.01.82
1425	Mulla Mohammad Imran Yunus	MahaSVC/7237/	Mulla Lane, Mangalwedha, Tal. Mangalwedha, Distt. Solapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	01.07.81
1426	Munde Vithal Keshav	MahaSVC/7272/	At Dabi, Post Tokhadi, Tal. Pearli, V. Distt. Beed, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	25.01.79
1427	Munish Goyal, S/o Sh. Ravinder Kumar	Pb.SVC/2661/06	Sodi Amar Singh Street, Near Pathela Marbel, Mukatsar-152026, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/ 06	22.01.81
1428	Munj Chintamani Pandurang	MahaSVC/7468/	1182, Manegaon, Tal. Kudal, Distt. Sindhudurg- 416519, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	31.08.82
1429	Munna Lal Yadav, S/o Shri T.S. Yadav	UPVC/4366/06	Vill. Koyal, PO Dharamani, Distt. Etah, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/8 4	05.04.63

<b>SNUM</b>	<b>NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALIF</b>	<b>DOB</b>
1430	Murali Krishna Gadde, S/o Shri Bhushaiah	AP SVC/4535/06	H.No. 3-6, Revendrapadu, Duggirala (M), Guntur Dt.- 522302, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	14.07.83
1431	Murkikar Dhanraj Nagarao	MahaSVC/7371/	Matoshni Hospital, At/Post Mukramabad, Tal. Mukhed, Distt. Nanded, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	11.12.80
1432	Murukumar Dinesh Sambhajirao	MahaSVC/7486/	At Post Murum (Bhim Nagar), Tal. Omerga, Distt. Osmanabad-413805, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	29.04.81
1433	Musale Vitthal Namdeo	MahaSVC/7504/	At Bramha, Post Pimpalgaon, Tal. Washim, Distt. Washim, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	30.08.80
1434	MUTHU. PUNNAGAI S/o M.P.MUTHUSAMY	TNVC/1196/05	SAYAKADU, KOOTHAMPOONDI POST, THIRUCHENGODE TK, NAMAKKAL DIST, PIN : 637 202.	BVSc/TANUVAS/98	03-06-74
1435	Muvva Balaji Sankar, S/o Shri M.S. Surya Narayana Rao	AP SVC/4490/06	D.No. 5-24, Pearly, Gates Hostel Road, Prasampadu, Vijayawada-521108, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	05.11.83
1436	N. AKILA S/o K.S.NATARAJAN	TNVC/0854/05	PHASE II, PLOT NO.32, WOOD CREEK CAUNTY, CHENNAI -16	BVSc/TANUVAS/95	28-05-72
1437	N. BALARAMAN S/o N. SUBRAHMANIAN	TNVC/0065/03	NO.11, SIVALINGAM PILLAI LAYOUT, S.V. MILL POST UDUMALPET 642 128 COIMBATORE DIST.,	BVSc/Uni of Madras/66	15-10-44
1438	N. Boobalan, S/o Sh. B. Natarajan	TNVC/3611/06	13/1, Gopal Nagar, Ondipudur, Coimbatore- 641016, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/93	20.04.70
1439	N. DANIEL JOY CHANDRAN S/O N.G.NAVAMANI	TNVC/2619/05	31/14, FIRST MAIN ROAD, OFFICERS COLONY, CHENNAI 600 088	BVSc/TNAU/78	05-06-55

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1440	N. DHANASEKARAN S/o M.NATESAN	TNVC/2823/05	TEACHER THOTTAM, NARAIKKINAR, ULIPURAM VIA, RASIPURAM TK, NAMAKKAL DIST, PIN : 636 118.	BVSc/TANUVAS/92	29-04-69
1441	N. Ganesan, S/o Sh. V. Narayanan	TNVC/3577/06	Vembangudi East Keeramangalam Post Aranthangi Taluk, Pudukottai Distt., Tamil Nadu	BVSc/TNAU/81	26.03.49
1442	N. Geetha, S/o Sh. K. Rajan	TNVC/3573/06	19, U.P. Krishnan Nagar, S.V. Mills Post, Udumalpet- 642128, Coimbatore Distt., Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/02	20.10.77
1443	N. JAGADEESH S/o K.NATESAN	TNVC/1705/05	132, B-4, INDIAN BANK COLONY, NARASOTHYPATTY, SALEM - 4	BVSc/TANUVAS/00	04-06-76
1444	N. JEYA THILAKAN S/o C.NARAYANA PERUMAL	TNVC/1888/05	MUHILANKUDIERUPPU, AGESTHEESWARAM PO, KANYAKUMARI DT, TAMIL NADU - 629701	BVSc/TANUVAS/93	04-01-70
1445	N. Kalidoss, S/o Sh. K. Natarajan	TNVC/3778/07	RH-82, Stadium Poonga Street, Housing Board Colony, Ellisnagar, Madurai- 10, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/80	02.03.55
1446	N. Kandasamy, S/o Sh. S.R.K. Nallappa Gounder	TNVC/3591/06	Valaiyapatty, Idaiyokottai PO, Oddanchatram Taluk, Dindigul Distt., Tamil Nadu	BVSc/MU/69	01.07.47
1447	N. KANNAN BABU S/o P.NATARAJAN	TNVC/2103/05	NEW NO.15, 18TH AVENUE, ASHOK NAGAR, CHENNAI-83.	BVSc/Uni of Madras/73	25-08-51
1448	N. KARTHIKEYAN S/o A.NATESAN	TNVC/1686/05	1 / 209, PALAYAKOTTAI POST, NATHAKKADAIYUR (VIA), KANGAYAM TALUK, ERODE DDT - 638 108	BVSc/TANUVAS/01	03-06-77
1449	N. KAVITHA S/O S.NATARAJAN	TNVC/2626/05	SALEM MAIN ROAD, ANDAGALORE GATE (P.O.) RASIPURAM (T.K.), NAMAKKAL DISTRICT 637 401	BVSc/TANUVAS/00	01-06-76

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1450	N. KUMARAVELU S/o K.NATARAJAN	TNVC/1639/05	1-A, SUBBIAH THEVAR LAYOUT, THIRUVALLUVAR NAGAR, RAMANATHAPURAM P.O. COIMBATORE 641 045	BVSc/TANUVAS/93	29-03-69
1451	N. MANAVALAN S/o A.NARAYANASAMY	TNVC/1717/05	21B, KUJJI I CROSS STREET, ANNA NAGAR EAST, CHENNAI 600 102	BVSc/TNAU/75	07-06-49
1452	N. MARUTHU PANDI S/O A.NATARAJAN	TNVC/2488/05	28, VET HOSPITAL ROAD, VALAVANUR 605 108, VILLUPURAM DIST.	BVSc/TANUVAS/91	27-01-69
1453	N. MURALI S/o N.NAGARAJAN	TNVC/0807/05	B71, ASHOK NAGAR, TIRUPATTUR 635 601	BVSc/TANUVAS/92	25-06-68
1454	N. MURALIDHARAN S/o B.NARASIMHAMOORTH Y	TNVC/2053/05	2, VAGEESAN NAGAR, FIRST MAIN ROAD, CHINDAMBARAM 608 001.	BVSc/TANUVAS/91	08-03-66
1455	N. NARMATHA S/o K.GOVINDARASAN	TNVC/1247/05	34-A / 10, THIRUNAGAR, MOHANUR ROAD, NAMAKKAL 637 001	BVSc/TANUVAS/92	07-06-69
1456	N. PAZHANIVEL S/o A.P.NATESAN	TNVC/0685/05	PLOT NO.46, 5 / 3, IVTH STREET, CHOWDRY NAGAR, VALASARAVAKKAM, CHENNAI 600 087.	BVSc/TANUVAS/94	03-06-71
1457	N. Ponnusamy, S/o Sh. P. Natarajan	TNVC/3580/06	8, Mothilal Street, Tirunelveli Junction- 327001, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/93	03.07.70
1458	N. Prathap Chandra Rao, S/o Sh. N. Nagendra Rao	TNVC/3571/06	15/14, Santham Colony, Anna Nagar West Extn. Chennai-600101, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/78	31.12.53
1459	N. Punniarthy, S/o Sh. N. Natesan	TNVC/3598/06	168, VI Street, Rethinasamy Nagar, Thanjavur-613006, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/79	06.03.57

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1460	N. Ramesamy, S/o Sh. K.Rm. Nedarajan	TNVC/3654/06	Yadavam, Kulathur-622504, Pudukottai Dist., Tamil Nadu	BVSc/TNAU/74	08.08.48
1461	N. SAKTHIVELU S/o K.V.NARAYANAN	TNVC/0798/05	C / O.N.MURALI, 437, MAIN ROAD, SENDAMANGALAM, NAMAKKAL DIST.	BVSc/TANUVAS/98	05-06-73
1462	N. SENTHIL KUMAR S/o V.NALLU	TNVC/2231/05	ERUMBALAKURICHI, ARUTHANGUDI POST, TIRUKOILUR TALUK, VILLUPURAM DIST, PIN : 605 757, TAMIL NADU.	BVSc/TANUVAS/01	10-05-77
1463	N. SHANMUGASUNDARAM S/o S.NALLASAMY	TNVC/1364/05	PULAVARPALAYAM, T.P. PALAYAM (P.O.) KANJIKOVIL (VIA) ERODE DT. PIN 638 116	BVSc/TANUVAS/01	10-01-77
1464	N. Sivasankar, S/o Shri N. Srinivasulu	APSVC/4458/06	H.No. 3-115, Sangham Street, Vempalli-516329, Kadapa Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	15.08.82
1465	N. Sri Balaji, S/o Sh. D. Nagarajan	TNVC/3612/06	12, Desai Perumal Street, Rasipuram PO, Namakkal-637408, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/00	09.05.75
1466	N. SRIDHARAN S/o NAGARAJAN	TNVC/1376/05	W-793 / G2, 9TH CROSS, SYNDICATE BANK COLONY, ANNA NAGAR WEST, CHENNAI 600 101	BVSc/TNAU/81	30-11-53
1467	N. SUBBAIYAN S/o P.NALLUSAMY	TNVC/2771/05	NRK ILLAM, SUGANESH NAGAR, VADAKU MADHAVI ROAD, PERAMBALUR.	BVSc/TANUVAS/96	09-05-73
1468	N. Subbulakshmi, S/o Sh. K. Ravi	TNVC/3603/06	459, 1st Cross Street, Civil Supply Godown Road, Kamalakshipuram, Vellore-2, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/94	21.03.71
1469	N. Varatha Narayanan, S/o Sh. T.K.N. Narayana Reddy	TNVC/3606/06	2/180, Muthuramalingapuram, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar Dist., Tamil Nadu	BVSc/TNAU/81	03.05.57

<b>SNUM</b>	<b>NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALIF</b>	<b>DOB</b>
1470	N. VASUDEVAN S/o V.NARASIMHAN	TNVC/0962/05	189 / 102, ARISIPLAYAM MAIN ROAD, ARISIPALAYAM, SALEM - 9, PIN : 636 009.	BVSc/TANUVAS/98	19-06-74
1471	N. VIMAL RAJ KUMAR S/o C. NALLATHAMBI	TNVC/1166/05	30, TEACHERS COLONY, K.S.PALAYAM POST, PERUNDURAI, ERODE DIST, PIN : 638 052.	BVSc/TANUVAS/00	17-06-75
1472	N.Arunathan, S/o T.Natarajan	TNVC/3554/06	8, Johns Collage Road, Rose Avenue, Palayamkottai, Tirun elveli-627002	BVSc/TANUVAS/01	12.10.75
1473	N.C. Hemamalini, D/o Shri N.C. Ananthachary	APSVC/4539/07	1-1828, Appa Rao Buildings, Yerramukkapalli, Kadapa-516004, Andhra Pradesh	BVSc&AH/ANGRAU/9 7	20.08.74
1474	N.Chandramouli, S/o M.Natarajan	TNVC/3555/06	F2, Saga's Complex, 11 South Mada St., Mylapore, Chennai- 600004, Tamil Nadu	BVSc/Uni of Madras/66	23.03.45
1475	N.E. BHASKAR S/o NEMALA RAMAKRISHNA EASWARAJ	TNVC/2755/05	OLD NO.20; NEW NO.7, DR. NATESAN SALAI, B.O.B BUILDING 1ST FLOOR, ASHOK NAGAR, CHENNAI 600 083.	BVSc/Uni of Madras/73	20-10-49
1476	N.krithinga, S/o P.Natesan	PondiSVC/290/06	No.14, Third Cross, Venkata Nagar, Pondicherry-11	BVSc&AH/Pondi Uni/06	19.09.83
1477	N.Pichai Kannu, S/o S.V.Natarajan	TNVC/3428/06	16, Pillaiyar Koil Street, Satan Kulam PO, Tutucorin Dt, Tamil Nadu	BVSc/Uni of Madras/71	2.06.48
1478	N.R. SENTHIL S/o A.RAJAMANICKAM	TNVC/1333/05	42 A-5, "EZHILAGAM", P.V. RAO STREET, GANDHI NAGAR, NAMAKKAL, TAMIL NADU.	BVSc/TANUVAS/01	24-07-75
1479	N.R. THANGAVEL S/O A.RAMASAMY	TNVC/2541/05	76, VEDAR STREET, NAMBIYUR POST, ERODE DIST, PIN : 638 458.	BVSc/TANUVAS/92	04-06-69

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1480	N.RAMAMURTHY S/o V.NARASIMMALU	TNVC/1754/05	PLOT NO.63, NAIDU SHOP STREET, LUXMI NAGAR, CHROMEPET, CHENNAI 600 044	BVSc/TNAU/78	22-11-55
1481	Nabanita Chakraborty, D/o Narayan Chakraborty	TripuraSVC/167/06	C/o Narayan Chakraborty, PO- Dhamanagar, Opp to DNV School, (N) Tripura	BVSc&AH/CAU/06	6.04.83
1482	Nabanita Chattopadhyay, S/o Sh. Kripanath Chattopadhyay	WBSVC/3257/06	Vill. & PO Saida, Dt. Bankura-722122, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFSU/0 6	02.02.84
1483	Nadarge Manisha Baburao	MahaSVC/7141/	'Krishna', Yerme Nagar, Jalkot Road, Udgir, Tal. Udgir, Dt. Latur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	22.05.81
1484	Nagabhushana D., S/o Sh. Devendrachary	KarSVC/3941/06	Bharamasamudra Post, Jegalur Tq., Davanagere Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 <sup>7</sup> 6	10.06.83
1485	Nagaraja, S/o Sh. Sundara Kharvi	KarSVC/3909/06	Sanna Nagan House, Maravanthe, Kundapur Tq., Udupi Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	11.05.82
1486	Nagdive Anshuja Arunkumar	MahaSVC/7594/	Bezonbagh Housing Society, Plot No. 583, Khadan Side, P.O. Bezonbagh, Nagpur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	06.11.83
1487	Nagendra Kumar Siddhu, S/o Shri Tejpal Singh	UPVC/4500/06	Vill. Dulhapur, Patti Jat Tanda, Afzal Moradabad, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/0 5	15.02.82
1488	Nagendra Kumar Sidhu, S/o Sh. Tej Pal Singh	UVC/218/06	Village Bahadurpur, PO Jashpur, Distt. U.S. Nagar, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/0 5	15.02.82
1489	Nagendra Patil, S/o Shri R.K. Patil	MPSVC/2401/06	MD-13, Bajrang Nagar, Indore, MP-452001	BVSc&AH/JNKVV/06	11.07.79



<b>SNUM</b>	<b>NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALIF</b>	<b>DOB</b>
1490	Nagrale Deoyani Gosai	MahaSVC/7655/	Ward No. 4, Nehru Nagar, Chandrapur-431402, Maharashtra	BVSc&AHMAFSU/06	03.12.82
1491	Naidu L.S.M.G., S/o Shri Kasu Babu L.	APSVC/4464/06	Podugupalem, A. Koduru (P), K. Kotapedu (M), Valkhapatnam, Dt.- 831022, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	20.07.81
1492	Naik Pravin Mandhar	MahaSVC/7543/	A/p Uttar, Tal. Ajara, Distt. Kolhapur-416220, Maharashtra	BVSc&AHMAFSU/05	18.04.83
1493	Nair Ginesh Chandrasekharan	MahaSVC/7221/	Anuja Co-op. Hse. Society, A- 8, Pandurangwad, Manpada Rd, Dombivli (E), Tal. Kalyan, Dt. Than., Mah arashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	20.07.81
1494	Nallam Padmavathi, D/o Shri Ramanaiah	APSVC/4449/06	Sanitary&FoodInsp, No.28-1- 735-2, Maruthinagar, 2nd St, Maipadu Gate Junction, Op. Petrol Bunk, Nawabpet, Nellore, And hra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	07.08.83
1495	Namde Narhari Shrinivasrao	MahaSVC/7525/	Pasayadan, Narayan Chawt, Station Road, Parbhani-431401, Maharashtra	BVSc&AHMAU, Parbhani/78	04.03.58
1496	Namita Joshi, D/o Shri D.C. Pant	UPVC/4351/06	B-12, Narendra Nagar, Kumar Ganj, Faizabad, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/79 2	06.01.70
1497	Nande Milind Pundlik	MahaSVC/7446/	Vijay Nagar, Khemgaon Road, Near Kothari Automobile, Tal. Distt. Buldana-443001, Maharashtra	BVSc&AHMAFSU/06	23.01.81
1498	Nandre Rahul Mahavir	MahaSVC/7399/	'Matru Pitru Chhaya', Haripur Road, Kothaki, Tal. Shirol, Distt. Kolhapur- 416101, Maharashtra	BVSc&AHMAFSU/05	15.10.82
1499	Nanjesh B.S., S/o Sh. Shive Gowda B.N.	KarSVC/3840/06	Banugundi, Konanur- 573130, Arekalgud Tq., Hassan Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	20.07.82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1500	Naranje Bheri Ashokrao	MahsVVC/7362/	New State Bank Colony, Near Jijamata School, Po-Gopuri, Dt. Wardha, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	16.10.82
1501	Narasimha Dasa T., S/o Shri Narayana	APSVC/4431/06	H.No. 23-6-6/5, Hari Bowli, Shaibanda, Hyderabad-65, Andhra Pradesh	BVSc&AH/APAU/71	15.06.48
1502	Narayan Singh Negi, S/o Sh. Singa Ram Negi	UVC/54/06	Village and Post Sainj, Via Koti Colony, Distt. Dehradun, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/95	15.07.71
1503	Narender Khatak, S/o Sh. Raghbir Singh	HVC/1914/	H.No. 23, Labour Colony, Bhiwani, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/06	27.11.82
1504	Narendra Babu Kolisetty, S/o Shri Sriramulu	APSVC/4533/06	Machayapalem (P), Bellamkonda (M), Guntur Dt.-522411, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	05.07.83
1505	Narendra Kumar Sharma, S/o Sh. Raja Ram Sharma	UVC/221/06	214, Srwan Nath Nagar, Haridwar, Uttaranchal	BVSc&AH/Agra Uni/69	02.01.46
1506	Narendra Kumar Shukla, S/o Shri G.P. Shukla	MPSVC/2334/06	HIG-5/A, Mukharji Nagar, Vidisha, MP	BVSc&AH/JNKVV/85	04.07.64
1507	Narendra Kumar, S/o Sh. Amartal	BVC/2673/05	Vill. Dhumnagar, PO Nimoiya, PS Dhorasahan-845303, Dt. Champaran, Bihar	BVSc&AH/GBPUAS&T./05	15.12.76
1508	Narendra Kumar, S/o Shri Babu Ram	UPVC/4378/06	Vill. & PO Terwa Dahingwan, Distt. Hardoi, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDAUA&T/06	17.12.77
1509	Narendra Singh Gaur, S/o Shri Mahabeer Singh	UPVC/4486/06	Vill. Kripal Pur, PO Sunderpur, Gazen, Kanpur, Dehat, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/06	25.10.82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1510	Narendra Singh, S/o Shri Siyaram	UPVC/4353/06	14, Tulsei Nagar, Near Rohekhand Uni., Bareilly, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/8 4	30.06.81
1511	NARENDRANATHSWAI N S/o APRATI CHARAN SWAIN	TNVC/1394/05	SOUTHERN REGIONAL RESEARCH CENTRE MANNAVANUR KODAIKANAL PIN - 624103	BVSc&AH/OUA&T/73	28-02-49
1512	Narkhede Ajaykumar Vijay	MahaSVC/7134/	C/o V.P. Narkhede, A/p Borakhedi, Tal. Motala, Distt. Buldhana, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	21.06.81
1513	Narwade Amol Motiram	MahaSVC/7328/	Laxmi Nagar, Borgadi Road, Pusad, Distt. Yavatmal-445204, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	13.02.82
1514	Nath Anjan Kumar, S/o Sh. Someswar Nath	ASM/2291/07	C/o Sri Someswar Nath, Vill. Nizipajhar, PO Sipajhar, Darrang, Assam	BVSc&AH/AAU/07	30.04.83
1515	Nath Bipul, S/o Sh. Bhogeswar Nath	ASM/2237/06	Vill. Chongelibari Gaon, PO Madhupur, Distt. Jorhat- 785104, Assam	BVSc&AH/AAU/06	01.03.81
1516	Nath Jayanta Kumar, S/o Sh. Negen Ch. Nath	ASM/2287/07	Vill. Kabai Chuba, PO & PS Sipajhar, Distt. Darrang, Assam	BVSc&AH/AAU/07	30.04.79
1517	Naval Kishore Sinha, S/o Sh. Surendra Prasad Sinha	BVC/2675/05	Vill. Imliya Chak, PO Sumu Aara, PS Tikari-824236, Distt. Gaya, Bihar	BVSc&AH/OUA&T/05	01.03.77
1518	Navandeep Singh, S/o Sh. Surinder Pal Singh	Pb.SVC/2664/06	39-A, Sant Avenue, GT Road, Near Freedom Factory, Amritsar, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/ 06	15.06.83
1519	Naveen Kumar Verma, S/o Shri Ravindra Dev Verma	UPVC/4499/06	Sikandrabad Road, Patel Puram, Nr Kastabus Stand, Gola Gokran Nath, Khir, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/ 06	31.03.84

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1520	Naveen Latiyal, S/o Sh. Sukhdev Chaudhry	RajSVC/3285/06	Janfa Colony, Near Police Station, Merta City, Nagaur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	16.09.82
1521	Naveen Swaroop M., S/o Shri M. Nelson	APSVC/4503/06	17-6-33, Khader Street, Purnandampet, Vijayawada-520016, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	06.12.81
1522	Naveena A.N., S/o Sh. Nagaraja A.Y.	KarSVC/3945/06	Aarudi-561204, Doddabellapura Tq., Bangalore Rural Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	01.03.84
1523	Navin Kumar Bansal, S/o Shri Shankar Lal	MPSVC/2389/06	I-8, Madhuwan Enclave, Behind New High Court, Akapuri, Gwalior, MP-474001	BVSc&AH/JNKVV/06	30.01.81
1524	Navjot Kaur Nandha, D/o Sh. Gurmeet Singh	Pb.SVC/2674/06	Vill. Khurampur, PO Mehatpur Parijan Road, Tehsil-Nakodar, Jalandhar, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/06	20.03.82
1525	Navkaran Deep Singh, S/o Sh. Dharam Singh	Pb.SVC/2688/06	B-38, Darshan Avenue Four Fields, By Pass GT Road, Amritsar, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/06	01.10.83
1526	Navrozdeep Singh, S/o Sh. S. Kuldeep Singh	Pb.SVC/2690/06	3, Mohini Park, Opp. Khalsa College, Amritsar, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/06	14.07.82
1527	Nayak Deepti Nagesh	MahaSVC/7571/	Annu Raj, CHS, A-6.5th Kasturba Road, Borivalli (E), Mumbai-400066, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	09.03.83
1528	Neelam Singh, D/o Shri Janardan Singh	UPVC/4427/06	Vill. & PO Chhivala Chha, Distt. Chitrakoot, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/06	01.10.80
1529	Neena Kanwar, D/o Sh Charanjeet Sing	HPSVC/751/06	H.No.330-A, Civil Bazar, Dharmsala, H.P-176215	BVSc&AH/MA&FSU/05	22.12.82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1530	Neeraj Chodhari, S/o Shri B.N. Chodhari	UPVC/4496/06	H.No. 128/734, Kidwai Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/ 06	06.10.81
1531	Neeraj Kumar, S/o Shri Jasbir Singh	UPVC/4430/06	VIII. Shahzadpur, PO Jei, Distt. Meerut, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/0 6	07.07.79
1532	Neeraj Kumar, S/o Shri Ram Sajeewan	UPVC/4508/06	VIII. & PO Dhamana Khurd, Distt. Fatehpur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/ 06	20.01.75
1533	Neeraj Kumar, S/o Shri Suresh Chandra	UPVC/4374/06	VIII. & PO Bansa, Distt. Hardoi, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDUAU&T/ 06	10.06.80
1534	Neeraj Saraswat, S/o Shri R.N. Sarswat	UPVC/4389/06	H.No. 334, Shivpuri New Vijay Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/0 6	30.06.80
1535	Neeta Dhingra, D/o Shri N.D. Dhingra	MPSVC/2344/06	S/F-7, A.I. Centre, Naya Mohalla, Sehora, Jabalpur, MP-483225	BVSc&AH/JNKVV/92	02.01.68
1536	Neeta Raghuvanshi, D/o Sh. R.K. Raghuvans	RajSVC/3315/06	Behind Old Post Office, Mandal Pura, Jhalawar, Rajasthan	BVSc&AH/JNKVV/06	30.07.83
1537	Neetu Arya, D/o Sh. Ram Swaroop Arya	RajSVC/3309/06	Kansaron Ka Bas, Balotra, Barmer, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	20.03.78
1538	Neetu Bala, D/o Sh. Parshotam Lal	Pb.SVC/2656/06	C/o Des Raj Subash Chand, C/A Subhesh Mandi Begha Purana, Distt. Moga, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/ 06	25.06.81
1539	Neetu Bala, S/o Sh. Ram Singh Hans	HVC/1940/	H.No. 995, Sector-13, Hisar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/0 6	01.02.83

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1540	Neha Sheoran, D/o Sh. Satbir Singh	HVC/1925/	H.No. 145, Defence Colony, Hisar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/06	22.11.83
1541	Neha Sood, D/o Sh. Brij Mohan Sood	HPSVC/765/06	VPO Kohla, TEH. Distt. Hamirpur, HP-177033	BVSc&AH/CSKKVV/06	30.03.82
1542	Nerpal Singh, S/o Shri Ram Sharan	UPVC/4480/06	19, Acharya Nagar, Vete College, Mathura, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/06	21.08.81
1543	Netake Manisha Dnyaneshwar	MahaSVC/7425/	C/o Mr. D.K. Netake, A/p Dahiwadi, Tal. Man, Distt. Satara-415508, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	06.06.83
1544	Nevase Archana Atmaram	MahaSVC/7520/	'Anurag', Shivaji Colony, A/p Shirwal, Tal. Khandala, Distt. Satara-412801, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	05.07.83
1545	Nidhi Arya, D/o Sh. S.C. Arya	UVC/216/06	C/o Madhu Arya, Bank Colony, Bithoria-1, Kusumkhara, Haldwani, Dt. Nainital, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/06	13.07.82
1546	Nidhish Bhardwaj, S/o Sh. Mohan Lal	RajSVC/3319/06	H.No. 2/40, Housing Board Colony, Sawaimadhopur, Rajasthan	BVSc&AH/AAU/06	05.07.81
1547	Niharika Mohanty, D/o Sh. Brahamananda Mohanty	OVC/2044/06	A/PO Berboi, Distt. Puri-752016, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	20.07.81
1548	Nikas Yatiraj Shivaji	MahaSVC/7630/	"Sushyam Sneh", Shivaji Nagar, A/p Janephal, Tal. Mehkar, Distt. Buldana-443304, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	22.07.83
1549	Nikhilesh Modi, S/o Sh. Hari Singh Modi	RajSVC/3247/06	Brahm Nagar, Kanore, Udaipur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	22.06.79

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1550	Nilesh Kumar, S/o Shri Bhagwandes	UPVC/4388/06	Vill. Devomi, PO Baghori, Distt. Basti, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/06	01.07.78
1551	Niratan Mandal, S/o Sh. Subodh Kumar Mandal	WBSVC/3288/06	Vill. Kumarpur, PO Md. Bazar(T.S.), Distt. Birbhum-731132, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/06	19.04.82
1552	Nimmaganti Venkanna, S/o Shri Nagaiah	APSVC/4521/06	Jalubaviguda, Chirumarthy (P.O.), Vemulapally (M), Naigonda Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	05.05.80
1553	Niranjan Kumar Nirala, S/o Sh. Ram Hari Prasad	BVC/2689/05	Vill. Babu Nagar, PO Bhalua, PS Bodh Gaya-824231, Distt. Gaya, Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/05	01.01.79
1554	Nirbhay Kumar Patel, S/o Shri Dayashankar Patel	UPVC/4520/06	Vill. Bhaluhi, PO Bodanwar, Distt. Kushinagar, Uttar Pradesh	BVSc&AH/MAFSU/06	07.10.79
1555	Nisha Joy	KeralaSVC/3118/06	Chalipoika House, Mulavana PO, Kanjiracode, Kundara, Kollam-691506, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	18.05.80
1556	Nisha Kumari, S/o Sh. Rameshwar Prasad	BVC/2650/05	Vill. Tharpakna, PO Ranchi (GPO), PS Lowar Bazar-834001, Distt. Ranchi, Bihar	BVSc&AH/BAU/05	08.09.78
1557	Nishant Singh Saini, S/o Sh. Sri Jaivir Singh	UVC/211/06	E-372, Subhash Nagar, Roorkee, Haridwar, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/06	29.11.82
1558	Nistara Randhawa, D/o Sh. T.S. Randhuawa	HPSVC/773/06	Chamundewashri Hostel, Dr. GC Negi, COVAS, Palampur, Dt- Kangra, H.P.	BVSc&AH/CSKKVV/06	22.11.83
1559	Nita Kumari, S/o Sh. Rajnandan Prasad	BVC/2653/05	Vill. Seo Bazar, Jhajha, PO Jhajha, PS Jhajha-811308, Distt. Jamui, Bihar	BVSc&AH/BAU/05	07.01.77

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1560	Nitesh Kumar Jain, S/o Shri N.K. Jain	MPSVC/2420/07	F.No. 10, Anushree Appartment, Gole Bazar, Jabalpur, MP-482002	BVSc&AH/JNKVV/06	29.07.82
1561	Nithyananda V.C., S/o Sh. Chandrappa V.S.	KarSVC/3905/06	B-Block, Vemagal-563157, Kolar Tq. & Distt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	10.10.83
1562	Nitin Gupta, S/o Shri Alakh Prakash Gupta	MPSVC/2326/06	H-1122, New Darpan Coloney, Thatipur, Gwalior, MP	BVSc&AH/IGKV/05	21.01.80
1563	Nitin Mehta, S/o Sh. Mahesh Kumar Mehta	HVC/1911/	H.No. 65, Police Line Area, Hisar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/06	25.06.83
1564	Nitin Singh, S/o Shri N.P. Singh	UPVC/4358/06	Vill. Medhakheri, Distt. Muzaffarnagar, Uttar Pradesh	BVSc&AH/IGKV/05	15.06.82
1565	Nitin Tyagi, S/o Sh. K.P. Tyagi	Pb.SVC/2703/07	Deptt. of Nutrition, GADVASU, Ludhiana, Punjab	BVSc&AH/Dr.PRDKV P/00	02.12.76
1566	Nityagopal De, S/o Sh. Sadhupada De	WBSVC/3260/06	Vill. & PO Silpa Jambedia, Distt. Bankura-722121, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/06	28.04.83
1567	O.R. SATHYAMOORTHY S/o O.RAMAMURTHY	TNVC/3041/05	KUMPINIPET VILLAGE, ARAKKONAM TALUK, VELLORE DISTRICT 631 003	BVSc/TANUVAS/94	04-03-71
1568	O.R. VINODH KUMAR S/o OBLI RAJENDRAN	TNVC/1515/05	11, JAI NAGARM OMALUR POST, SALEM DISTRICT 636 455	BVSc/TANUVAS/01	05-06-77
1569	Om Prakash Gupta, S/o Sh. Vinda Prasad Sah	BVC/2731/06	Vill. Parsanni Devajit, PO Mehasi, PS Mehasi, Distt. East Champaran, Bihar	BVSc&AH/BAU/84	06.06.58



<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1570	Om Prakash Gupta, S/o Shri R.S. Gupta	MPSVC/2416/07	Near Mela Ground Lahar, Bhind, MP-477445	BVSc&AH/IGKVV/06	07.07.79
1571	Om Prakash Panwar, S/o Sh. Hari Shankar	RajSVC/3253/06	Commercial Tailor, Dhan Mandi, Sojat City, Pali, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	20.01.79
1572	Om Prakash Rahi, S/o Sh. Surat Lal	UVC/202/06	Vill. & Post Gadoli, Tehsil Barkot, Distt. Uttarkashi, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/0 6	23.06.79
1573	Om Prakash, S/o Sh. Pashupati Nath Sahu	BVC/2631/05	Vill. Kovari Barai tola, PO Hajipur, PS Ganga Bridge- 844101, Distt. Vaishali, Bihar	BVSc&AH/RAU/00	03.10.75
1574	Om Prakash, S/o Shri Ram Bilas	UPVC/4363/06	Vill. & PO Bhitain, Distt. Hardoi, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAJA&T/ 05	05.01.77
1575	Otari Uday Pandharinath	MahaSVC/7661/	A/p Binwadi, Tal. Shahapur, Distt. Thane-421603, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	27.07.81
1576	Oza Shirish Ambalal	GUJSVC/2702/06	30, Vakharianagar, Society- 3, Nr. Kapileshwar Mandir, Kalol, (N.G.), Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	01.06.62
1577	P. BALACHANDRAN S/o V.PERUMAL	TNVC/2984/05	1 / 38, METTU KATTU THOTTAM, KONDI CHETTI PATTI, PERIYAPATTI P.O. NAMAKKAL - 1	BVSc/TANUVAS/95	27-01-70
1578	P. CHANDRIKA S/o M.PALANI	TNVC/1565/05	PLOT NO.15, VEPPAMPATTU CHURCH, BACK SIDE, VEPPAMPATTU, SHANTHI NAGAR, THIRUVALLORE DIST. TN.	BVSc/TNAU/88	10-03-65
1579	P. CHITRA S/o P.PARAMASIVAM	TNVC/1491/05	NALLAGOUNDAM PALAYAN, MAVUREDDIPATTI (P.O.) THIRUCHENGODU TALUK NAMAKKAL 637 212	BVSc/TANUVAS/98	05-08-74

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1580	P. DHANAPALAN S/o E.P.PERIASAMY	TNVC/1465/05	GANDHI ILLAM, ICHIPALAYAM (PO) KODUMUDI (VIA) ERODE DISTRICT PIN 638 151	BVSc/TNAU/74	15-03-52
1581	P. Gobi, S/o Sh. S. Ponnuchamy	TNVC/3588/06	North Street Peraiyur Post, Kamuthi Taluk, Ramnad Distt.-623708, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/06	06.05.80
1582	P. GOPU S/o K.PERUMAL	TNVC/3062/05	4,64, AMAVASAI PALAYAM, T.KUNNATHUR POST, VILLUPURAM DISTRICT PIN 605 803	BVSc/TANUVAS/00	09-08-76
1583	P. Jagadeesan, S/o Sh. P. Periyathambi	TNVC/3643/06	Kallapalayam Vellerivelli PO, Edapadi Tk. Salem- 637101, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/06	05.06.81
1584	P. KANAKARAJ S/o R.PARASURAMAN	TNVC/1611/05	05, SOMASUNDARAM STREET, RADHA NAGAR, CHROME PET, CHENNAI 600 044	BVSc/Uni of Madras/71	06-12-48
1585	P. Kannan, S/o Sh. Panchanathan	TNVC/3795/07	A-19, Ashok Thapasi Apartments, 9 Lock Street, Kotturpuram, Chennai- 600085, Tamil Nadu	BVSc/MU/73	15.08.47
1586	P. KATHIRAVAN S/o T.S.PERIASAMY	TNVC/0793/05	73, NEW QUARTERS, DEVASTHANAM PUDUR, NAMGIRIPET (PO), RASIPURAM (TK), NAMAKKAL DIST.	BVSc/TANUVAS/01	07-04-76
1587	P. KOWSIGARAJ S/o C.K.PALANISAMY	TNVC/2999/05	170, RAJA STREET, PERUNDURAI 638 052, ERODE DISTRICT	BVSc/TANUVAS/01	02-06-76
1588	P. KUMARASAMY S/o N.PERIA GOUNDER	TNVC/0648/05	93 / 74, GURUSAMY NAICKER STREET, SAMY NAGAR, DASAPPA GOUNDEN PUDUR P.O. GOBICHETTIPALAYAM (TK) ERODE 638 503	BVSc/TANUVAS/89	21-03-64
1589	P. Lakshmanan, S/o Sh. Ponnuswamy	TNVC/3601/06	52, Mylappa Street, Ayanavaram, Chennai- 60023, Tamil Nadu	BVSc/MU/68	18.07.43

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1590	P. MEKALA W/o.S.KATHIRVEL	TNVC/1673/05	8 / 41, GURUSAMIPALAYAM POST, NAMAKKAL DT, PIN : 637 403.	BVSc/TANUVAS/98	20-12-75
1591	P. MENAHA S/o C.RATHESHKUMAR	TNVC/0870/05	5 / 19M, L.R. MANICKKAM STRET, BHARATHIPURAM, DHARMAPURI 636 705.	BVSc/TANUVAS/00	25-07-76
1592	P. Mohan, S/o Sh. P. Palanisamy	TNVC/3763/06	636-B, Mettu Street, Cauvery Nagar, Perambalur PO & Distt., Tamil Nadu	BVSc/TNAU/84	23.05.60
1593	P. Murali, S/o Sh. K. Palanisamy	TNVC/3642/06	241, Rufes Street, Jothi Nagar, Attur Taluk, Salem- 636102, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/06	01.06.78
1594	P. Muthuswamy, S/o Sh. P. Papanasan	TNVC/3624/06	39, Secretariat Colony, II Street, Kellys, Chennai- 600010, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/78	15.05.51
1595	P. MYTHILI S/o S.PALANIAPPAN	TNVC/2222/05	447/1, NALLUR KANDAMPALAYAM POST, NAMAKKAL DIST, PIN : 637 203.	BVSc/TANUVAS/00	26-06-76
1596	P. Nagarajan, S/o Sh. Peru Mal	DVC/0625/04	Flat No. H-16, National Institute of Immunology, JNU Complex, New Delhi- 110067	BVSc/TANUVAS/97	01.04.74
1597	P. NEDUNCHEZHIAN S/o A.PALANIAPPAN	TNVC/0969/05	11, THOMAI AMMAL NAGAR, CAUVERY NAGAR SOUTH 6TH STREET, THANJAVUR 613 005.	BVSc/TNAU/84	18-04-61
1598	P. Nisha	KeralaSVC/3194/06	No. 1, Subbammal Clovis St., Uppalam, Pondichery, Kerala	BVSc&AH/Pondi Uni/06	03.07.84
1599	P. Palaraj, S/o Sh. U. Paramanantham	TNVC/3587/06	F2, Vinayagar Apartments, 10-A, Gandhi Road, Velalchery, Chennai- 42, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/86	12.02.62

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1600	P. Paval, S/o Sh. G.R. Pugazhendi	TNVC/3650/06	672, Paneer Selvam Street, Periya Nagar, Vyasaropadi, Chennai-39, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/97	26.06.73
1601	P. PERIYASAMY S/o M.PALANISAMY	TNVC/1644/05	VAGURAMPATTY, VASANTHAPURAM P.O. NAMAKKAL TALUK & DIST PIN .- 637 001	BVSc/TANUVAS/02	01-05-79
1602	P. Prabaharan, S/o Sh. M. Ponnusamy	TNVC/3653/06	40-B, Vaisyakara Street, Sendemangalam PO, Namakkal Dist., Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/92	31.05.89
1603	P. PRABHAKARAN S/o PONNUSAMY, P.	TNVC/2089/05	47C, KUTTAI STREET, S.P.PUDHUR, NAMAKKAL 637 002, TN.	BVSc/TANUVAS/95	15-06-72
1604	P. Prabhakaran, S/o Sh. K. Palanichamy	TNVC/3574/06	1/370, New Street, Samayanallur, Madurai- 625402, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/01	20.05.76
1605	P. R. SUBRAMANIAN S/o T.S.RAMASWAMY	TNVC/0619/05	3 / 5, CHENGALVARAYAN STREET, 1ST FLOOR, SHENOY NAGAR POST, MADRAS 600 030.	BVSc/TNAU/81	10-02-57
1606	P. RAJASUBRAMANIAN S/o S.PONNUSAMY	TNVC/3290/05	NO.11, MADURAI MANAVALAN NAGAR, PONNIAMMAN MEDU, CHENNAI 600 110.	BVSc/TNAU/78	30-01-51
1607	P. SARAVANAN S/o M.PALANIYANDI	TNVC/2045/05	47/3, MAIN ROAD, OPP. GOVT HOSPITAL, TITTAGUDI, CUDDALORE DIST 606 106.	BVSc/TANUVAS/95	20-07-72
1608	P. SELVAN S/o M.PONNURAMAN	TNVC/2106/05	9A18C, OPPILATHA AMMAN KOIL STREET, ARIYALUR 621 704, PERAMBALUR DIST.	BVSc/TANUVAS/99	19-06-74
1609	P. SELVARAJ S/o P.PALANISAMY	TNVC/0725/05	4 / 222, F-TYPE, 4TH MAIN ROAD, SIDCO NAGAR, VILLIVAKKAM, CHENNAI 600 049	BVSc/TANUVAS/95	13-05-72

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1610	P. Sharvanan, S/o Late Sh. M. Paramshivam	UVC/180/06	Scientist, IVRI, Muktaswar, Na inital, Uttaranchal	BVSc/TNVASU/95	05.03.72
1611	P. SRIRAM S/o V.PADMANABHAN	TNVC/1981/05	F2, FIRST FLOOR, PRIMROSE APARTMENT, 15 & 16, ELLAIANMAN KOIL STREET, SASTRI NAGAR, ADYAR, CHENNAI 600 020.	BVSc/TNAU/83	28-02-60
1612	P. SUBRAMANIAM S/o K.PALANIAPPAN	TNVC/2982/05	PONNERIPATTI, S.VAZHAVANTHI (PO) P.VELUR (T.K.) NAMAKKAL 637 017	BVSc/TANUVAS/02	12-04-79
1613	P. SURESH KUMAR S/o P.PALANIMUTHU	TNVC/1267/05	BHARATHIYAR STREET, POOLAMBADI P.O. PERAMBALUR DISTRICT 621 110	BVSc/TANUVAS/87	07-07-74
1614	P. SURESH S/o E.K.PONNUSAMY	TNVC/1949/05	98A-6, KALARAMPATTY MAIN ROAD, NEAR DEVI THEATRE, KITCHIPAKYAM (PO), SALEM - 636015	BVSc/TANUVAS/98	04-04-74
1615	P. TENSINGH GNANARAJ S/oA.PAULPANDI	TNVC/2890/05	161, SEENIVASAGAM NAGAR, TIRUNELVELI 627 011.	BVSc/TANUVAS/95	28-02-69
1616	P. THANGARAJU S/o A.PALANIMUTHU	TNVC/2218/05	RAMANATHAPURAM POST, (VIA), SENDAMANGALAM 637409, NAMAKKAL DIST.	BVSc/Uni of Madras/71	13-08-46
1617	P. THEJOMOORTHY S/o P.SREERAMULU CHETTY	TNVC/1262/05	ABIRAMI CASTLE, B-4, NO.5, VYASAR STREET, EAST TAMBARAM, CHENNAI 600 059	BVSc/TANU/78	01-07-54
1618	P. THILAKAR S/o S. PONNAIH	TNVC/0827/05	110, GANAPATHY COLONY, ST.THOMAS MOUNT, CHENNAI 600 016.	BVSc/TANUVAS/01	24-02-77
1619	P. VETRIVEL S/o C.PAVUN	TNVC/1898/05	145-VT-EXTENSION, KARUR POST, DHARMAPURI DT - 636903	BVSc/TANUVAS/98	15-06-75

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1620	P. Vijaya Kumar, S/o Sh. Passoupathya	DVC/0680/06	School of Agriculture, Block- G, IGNOU, Maindan Garhi, New Delhi-68	BVSe&AH/Pondi Uni./99	18.03.77
1621	P. VISHA S/OV.SAMPATH KUMAR	TNVC/2423/05	9, WEST STREET, GANGAVALLI TALUK, SALEM DISTRICT 636 105	BVSc/TANUVAS/96	24-08-73
1622	P.C.SAKTHIVEL S/o R.CIVALINGAM	TNVC/0889/05	4 / 25, PARAYANKADU, PILLANATHAM POST, TIRUCHENGODE TALUK, NAMAKKAL DISTRICT 637 205.	BVSc/TANUVAS/01	05-06-77
1623	P.D. JAGANNATHAN S/O P.DORAISWAMY	TNVC/2607/05	22/C, PRABHODHA NILAYAM FLATS, PONNIAMMAN KOIL STREET, URUR, ADYAR, CHENNAI 600 020	BVSc/Uni of Madras/57	04-07-33
1624	P.KARIHARAN S/o N.PATCHAIYAPPAN	TNVC/1811/05	NO.127, SAKTHIVEL NAGAR, 7TH CROSS STREET, PERAVALLORE, CHENNAI 600 082	BVSc/TNAU/79	23-11-56
1625	P.I. GANESAN S/O P.IRULAPPAN	TNVC/2385/05	KEELARAJAKULARAMAN POST, RAJAPALAYAM TK, VIRUDHU NAGAR DIST.	BVSc/TNAU/80	15-05-57
1626	P.K. Paramesh Kumar, S/o Sh. K.M. Karuppasamy	TNVC/3608/06	Kovia Main Road, Karukkankattoor, P.Otappalayam PO,Perundurai- 638052,Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/91	24.05.67
1627	P.L. Kaul	GUJSVC/2782/06	83,Karannagar,Shrinagar(Ka- shmr), B/2, S.K. Nagar- 3855506, Dist. Bansakantha,Gujarat	BVSc&AH/PAU/68	13.05.96
1628	P.M. NATRAJAN S/o P.K.MUTHUSAMY	TNVC/1147/05	H-20, ANBU NAGAR, MOHANUR ROAD, NAMAKKAL 637 001.	BVSc/TANUVAS/96	08-11-72
1629	P.MAHALINGAM S/O P.PALAVESA KONAR	TNVC/2697/05	NO.3, HUSSAIN STREET, KRISHNAPURAM, AMBATTUR, CHENNAI 600 053	BVSc/Uni of Madras/55	25-04-32

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1630	P.MUTHUSAMY S/O K.PALANIAPPAN	TNVC/2272/05	ANDIPATTIPUDUR, KEERAMBUR (P.O.), NAMAKKAL (T.K. & DIST.) 637207	BVSc/TANUVAS/94	10-05-70
1631	P.N. RAMNATH S/o P.T.NAGENDRAN	TNVC/3175/05	21A, LAKSHMI NAICKEN STREET, RASIPURAM 637 408, NAMAKKAL DISTRICT	BVSc/TNAU/88	26-07-65
1632	P.N. RICHARD JAGATHEESAN S/o GABRIEL PITCHAI	TNVC/1605/05	PUDUKOTTAI VILLAGE, THIRUMALAPADI POST, ARIYALUR, PERAMBALUR DT 621 851	BVSc/TANUVAS/92	12-07-69
1633	P.R. Anbumoney, S/o Sh. P.A. Radhakrishnan	TNVC/3617/06	29, Venkitasamy Layout, Vilankurichi Road, Peelamedu, Coimbatore 6-641004, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/94	25.09.71
1634	P.R. HEMANTHA KUMAR S/o P.T.RAJAGOPAL	TNVC/1468/05	19, 14TH CROSS STREET, SHASTRI NAGAR, ADYAR, CHENNAI 600 020	BVSc/TNAU/82	18-10-55
1635	P.R. NISHA S/O P.RAGHAVAN	TNVC/2723/05	PLOT NO.47, MOHANAPURI 4TH STREET, ADAMBAKKAM, CHENNAI 600 088.	BVSc/TANUVAS/94	10-09-70
1636	P.S. RAHUMATHULLA S/o P.U. SYED MASOOD	TNVC/1694/05	58 (176), BIG STREET, KADAYANALLUR - 627 751, TIRUNELVELI DT.,	BVSc/TNAU/75	01-01-53
1637	P.S. THIRUNAVUKKARASU S/o P.R. SUBRAMANIAN	TNVC/0751/05	23, SESHACHALA MUDALI STREET, SAIDAPET, CHENNAI 600 015.	BVSc/TNAU/74	30-07-56
1638	P.S.KRISHNAMURTHI S/o P.N.SUNDARAM	TNVC/2247/05	OLD NO.4, NEW NO.7, SOUNDARARAJAN STREET, T. NAGAR, CHENNAI 600 017.	BVSc/Uni of Madras/65	01-04-41
1639	P.S.L.SESH S/o P.S.LAKSHMANAMOOR THY	TNVC/2202/05	"AADITHYA" 10-7/30, MAIN ROAD, MAHATMA GANDHI NAGAR, MADURAI 625 014.	BVSc/TANUVAS/94	03-01-71

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1640	P. S. Venkatesan. S/o Sh P. Sampath	TNVC/3291/05	NO.7/12, 10th Street, TVS Ng, Padi, Chennai-050	BVSc/TANUVAS/98	9.04.74
1641	P. Sundararaj, S/o S. Palani Gounder	TNVC/3408/06	57, Chinnathirupathi, Kannan Kuruchi, Main Road, Salem, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/84	27.03.58
1642	P. Thirunavukkarasu S/o Sh P. P. Palanisamy	TNVC/0647/05	Perumapalayam, Nagalur PO, Athani Via-Erode Dist- 638502, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/01	29.06.74
1643	Pabbawar Ravindra Shrinivasrao	MahaSVC/7251/	Pethamrapur Galli, Degoor, Tal. Degloor, Distt. Nanded, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/03	27.03.77
1644	Pachade Vaibhav Rajendra	MahaSVC/7702/	A/p Langhapur-Rohi, Tal. Murtizapur, Distt. Akole- 444601, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	10.05.82
1645	Padhar Naranbhai Narsinhbhai	GUJSVC/2729/06	At & Po Chibhadar, Darbar Vas, Ta. Doedar, Distt. B.K., Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	01.06.81
1646	Paithanpagare Yashpal Murlidhar	MahaSVC/7708/	A/p Shivoor, Tal. Vaijapur, Distt. Aurangabad-431116, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	20.03.84
1647	Palash Hansda, S/o Sh. Purna Ch. Hansda	WBSVC/3268/06	Vill. Begampur, PS & PO Kashiary, Distt. Midnapore- 721133, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	01.10.82
1648	Palve Harshvardhan Sahebrao	MahaSVC/7244/	444, Bavada, Tal. Indrpur, Distt. Pune-413103, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	07.04.82
1649	Palve Avinash Pralhad	MahaSVC/7239/	"Parijatak", Plot No.7, Mhaske Colony (Baut Colony), Pathardi, Tal. Pathar di, Dt. Ahmednagar-414102, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	01.11.80



<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1650	Pamela Halder, D/o Sh. Sudhindranath Halder	WBSVC/3239/06	4, Siraj Mondal Lane College Approach, PO Kanchrapara, Dt.24 Prgs(N)- 743145, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	22.09.82
1651	Panchal Dhiren Kumar	GUJSVC/2751/06	At Po. Nandisar, Ta. Godhra, Distt. Panchmahal- 388710, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	06.12.83
1652	Pande Ashok Bhaskarrao	MahaSVC/7693/	A-4, East Colony, CRS BAIF, Urulikanchan, Tal. Haveli, Distt. Pune-412202, Maharashtra	BVSc&AH/JNKVV/78	28.04.55
1653	Pande Jayant Bhaskarrao	MahaSVC/7308/	Guru-Kripa, Misar Nagar, Jintur Road, Parbhani- 431401, Maharashtra	BVSc&AH/MAU, Parbhani/82	08.11.61
1654	Paneh Kishore Bharti, S/o Late Sh. Banarsi Prasad Singh	BVC/2697/05	Vill. Milik Jodari, PO Mushkipur, PS Asarganj/Tarapur-813201, Dt. Munger, Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/0 5	10.02.81
1655	Pangaonkar Laxmikant Ashokrao	MahaSVC/7545/	"Narsimha Kripa", Trimurti Nagar (East), Parbhani- 431401, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/03	07.01.79
1656	Panila T., D/o Sh. Tulasirame Gowda T.	KarSVC/3880/06	Mari Devi Road, Mirle- 571603, K.R. Nagar, Tq. Mysore, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	30.04.82
1657	Pankaj Bhardwaj, S/o Sh. Shankar Lal	RajSVC/3262/06	2-BA-7, Dhirgarh Dadabari Ext. Kota, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/04	03.07.76
1658	Pankaj Kumar Verma, S/o Shri Jagdeo Prasad Verma	UPVC/4397/06	H.No 19, Pragati Nagar, Hardoi, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/0 6	03.07.77
1659	Pankaj Kumar, S/o Late Sh. Balkrishan Prasad	BVC/2707/05	Vill. Kaghji, PO Biharsharif, PS Biharsharif-803101, Distt Nalanda, Bihar	BVSc&AH/CSAUAT/0 5	16.09.78

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1660	Pankaj Kumar, S/o Sh. Lakshman Prasad	BVC/2645/05	Vill. Sihauta Bazar, PO Maharajganj, PS Maharajganj-841238, Distt. Siwan, Bihar	BVSc&AH/BAU/05	05.02.79
1661	Pankaj Kumar, S/o Sh. Rameshwar Dutt	HPSVC/780/06	Vill. & PO Upper-Haret, TEH. Nadaun, Distt. Hamirpur, HP	BVSc&AH/CSKKVV/06	20.09.74
1662	Pankaj Pandey, S/o Shri H.C. Pandey	UPVC/4461/06	357, H-2, Block, 2 Floor, Kidwai Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/RAU/00	24.07.77
1663	Pankaj Sharma, S/o Sh. Ami Datt Sharma	HPSVC/758/06	Vill. Jandrana, PO Gumarli THE. Badsar, Distt. Hamirpur, H.P.	BVSc&AH/CSKKVV/06	22.03.82
1664	Parab Vaibhav Pradeep	MahaSVC/7233/	Near Sateri Mandir, Vengurla, Sindhudurgs-416516, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	27.01.80
1665	Paramita Maiti, D/o Sh. Ananta Kumar Maiti	WBSVC/3253/06	Vill. Bajbajia, PO Dakshin Kalamdan, Distt. P/Midnapore, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/06	04.06.81
1666	Parate Surendra Bhagwan	MahaSVC/7697/	C/o B.N. Parate, Parvati Nagar, Joshi Plot, Pulgaon, Tal. Deoli, Distt. Wardha-442302, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	23.05.84
1667	Pardeshi Gaurav Dilip	MahaSVC/7452/	North Main Road, Lane-D, Koregaonpark, Tal. Haveli, Distt. Pune-411001, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	30.06.82
1668	Pardhi Sima Mukharan	MahaSVC/7146/	C/o M.N. Pardhi, Near Dnyaheshwar Mandir, Vidya Nagar, Bhandara, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	19.12.81
1669	Paresh Prasad Singh, S/o Sh. Yogendra Prasad Singh	BVC/2728/06	Vill. Rajapakar, PO Rajapakar, PS Rajapakar, Distt. Vaishali, Bihar	BVSc&AH/GBPUAS&T/75	01.08.52

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1670	Parijat Kabiraj, S/o Sh. Parimal Kumar Kabiraj	WBSVC/3272/06	Vill. & PO Patiram, Distt. D/Dinajpur-733133, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/06	04.01.83
1671	Parikh Suryakant Somabhai	GUJSVC/2703/06	44, Indira Park, Opp. Gurukul School, Kansa Road, Visnagar, Distt. Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	05.02.84
1672	PARIMAL ROY S/o GOPAL CHANDRA ROY	TNVC/1352/05	B1, UNIQUE SHELTER, PLOT NO.10 / 946, 69TH STREET, 11TH SECTOR, K.K.NAGAR, CHENNAI 600 078	BVSc&AH/BCKVV/86	03-12-61
1673	Parmar Vasantbhai Rameshbhai	GUJSVC/2704/06	75, Paras Society, Meghraj Road, Modasa, Distt. Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	20.06.84
1674	Parmar Vijaykumar Kalabhai	GUJSVC/2774/06	20, Pramukhswami Society, Dakor Road, Kapadvanj, Distt. Kheda-387520 Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	03.07.83
1675	Parveeen, S/o Sh. Kaushlendr Partap Singh	BVC/2647/05	Vill. Indrapuri, PO Keshri Nagar, PS Keshri Nagar-800024, Distt. Patna, Bihar	BVSc&AH/BAU/05	23.11.78
1676	Parveen K. Sharma, S/o Sh. Badri Dass	HPSVC/754/06	Vill Dabrog, PO & TEH. Sarkaghat, Distt. Mandi, HP	BVSc&AH/CSKKVV/06	22.02.69
1677	Parveen Kumar Parveen, S/o Sh. Aanandi Prasad	BVC/2721/06	Vill. Shergadh, PO Shergadh, PS Gogri-851203, Distt. Khagriya, Bihar	BVSc&AH/WBUA&FS/05	01.03.77
1678	Pashamwar Suresh Linganna	MahaSVC/7250/	A/p Peth Amrapur Galli, Degloor, Distt. Nanded-431717, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/03	10.05.78
1679	Patel Akhil Rameshbhai	GUJSVC/2705/06	F/28/385, Utsav Appt. Nr. Bhavsar Hostel, Nava Vadaj, Ahmedabad-380013, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	06.09.84

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1680	Patel Amitkumar Kanubhai	GUJSVC/2706/06	At Narna Muvada, Ta. Kapadvanj, Po. Garod, Distt. Kheda-387620, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	27.12.82
1681	Patel Atul Kumar Mahendrabhai	GUJSVC/2707/06	To. Ola, Ta. Kalol (N.G.), Distt. Gandhinagar- 387721, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	01.04.83
1682	Patel Atulkumar Bachubhai	GUJSVC/2752/06	D/104, Payal Nagar Society, Naroda, Ahmedabad-382330, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	09.12.84
1683	Patel Bhavika Rameshbhai	GUJSVC/2753/06	B-23, Urmni Society, Nr. Jagnath Mahdev, Anand- 388001, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	30.01.84
1684	Patel Bindu Babulal	GUJSVC/2708/06	15, Maruti Park, Bus Stand Road, Patan (N.G.), Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	28.09.83
1685	Patel Dhameshkumar Chandrakant	GUJSVC/2709/06	Kotawadiya Pura, Dholavas, Po. & Ta. Chansma, Distt. Palan, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	21.03.84
1686	Patel Harshad Kumar Babulal	GUJSVC/2710/06	Vandawalo Madh, At & Po. Urmta, Ta. Visnagar, Distt. Mehsana (N.G.)- 383340, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	18.06.84
1687	Patel Hiren Naginbhai	GUJSVC/2711/06	At Po Jalampura, Ta. Bayad, Dist t. S.K.-383340, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	07.08.83
1688	Patel Jaminkumar Rameshbhai	GUJSVC/2755/06	11, Manish Park Society, Mai Mandir Road, Nadiad- 387002, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	09.08.84
1689	Patel Jatinkumar Amrutlal	GUJSVC/2712/06	C/25, Tapovan Bungalow's Vikram, Kansa N.A. Visnagar, Distt. Mehsana (N.G.), Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	15.07.84

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1690	Patel Jayant Chamanlal	GUJSVC/2713/06	20, Ambika Society-2, Mansa, Nr. Mahakali Temple, Mansa- 382845, Dt. Gandhinagar, Guj arat	BVSc&AH/SDAU/06	16.03.84
1691	Patel Jigneshkumar Vishnubhai	GUJSVC/2757/06	At Rampuralat, Po Kathana, Ta. Kathlal, Distt. Kheda,- 387640, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	15.10.83
1692	Patel Jinal Dineshbhai	GUJSVC/2714/06	C/oPatel Geetaben P.3, Saikrupa Soc, Nr. Panchishil Society, Becharpura, Palanpu r(BK), Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	12.11.83
1693	Patel Kalpeshkumar Chandulal	GUJSVC/2758/06	Plot No. 944/1, Sector 5-C, Vavoi Road, Gandhinagar- 382005, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	17.07.84
1694	Patel Mandar Kisan	MahaSVC/7710/	C-101, Keshav Dham, Patelpada, Dahanu Road, Dahanu, Distt. Thane- 401602, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	02.02.80
1695	Patel Nayan Amrutlal	GUJSVC/2715/06	67, Pritam Nagar, Nr. New Market Yard, Patan Road, Deesa, Dt. Banas Kantha- 385535, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	09.07.84
1696	Patel Priteshkumar Bhailalbhai	GUJSVC/2759/06	To. Jhund, Ta. Viramgam, Distt. Ahmedabad- 382185, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	30.11.83
1697	Patel Ravindra Kishorbhai	GUJSVC/2773/06	At & Po. Nana Chekhala, Ta. Talod, Distt. Sabar Kantha-383305, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	01.06.83
1698	Patel Rikeshkumar Bhudarbhai	GUJSVC/2716/06	C/1/2, S.K. Nagar, Dantiwada, Distt. B.K.- 385506, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	28.07.82
1699	Patel Sanjaykumar Bhagubhai	GUJSVC/2760/06	72, Rangrupa Society, At & Po Kim, Ta. Olpad, Distt. Surat, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	30.03.84

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1700	Patel Shreyaskumar Khodidas	GUJSVC/2772/06	Wheat Research Station (GAU), At Post & Ta. Vijapur, Distt. Mehsana- 382870, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	17.10.83
1701	Patel Sunilkumar Maheshbhai	GUJSVC/2717/06	Block No. D/1, Sector 7-B, Nirnay Nagar, Ahmedabad- 382481, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	03.08.84
1702	Patel Truptesh Jayantilal	GUJSVC/2719/06	77, Ayodhya Nagar Soc. Nr. Kakoshi Railway Fatak, Ta. Siddhpur, Dt. Patan, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	12.12.82
1703	Patel Tusharkumar Bhailalbhai	GUJSVC/2718/06	Plot No. 1402/1, Sector 3-B, Nr. Church, Gandhinagar- 382006, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	25.01.84
1704	Patel Vijaykumar Babulal	GUJSVC/2761/06	Mandvi Chawk, At & Po Randheja, Distt. Gandhinagar- 382620, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	25.09.83
1705	Patel Vipulkumar Narottambhai	GUJSVC/2762/06	At & Po. Pudgam, Ta. Visnagar, Distt. Mehsana (N.G.)-384310, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	30.05.84
1706	Patel Vipulkumar Prahladbhai	GUJSVC/2728/06	At & Po Kansa, Vill Naviol, Ta. Visnagar, Distt. Mehsana-384315, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	05.11.81
1707	Pathak Nayanjyoti, S/o Sh. Tridash Pathak	ASM/2274/07	C/o Sri Tridash Pathak, PO Tamulpur, Distt. Baksa- 781367, Assam	BVSc&AH/AAU/07	31.12.82
1708	Pathan Imram Malik Hamid Malik	MahaSVC/7279/	Surya Society, Behind Inayat Nagar, Near Maviana Azad School, Parbhani, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	12.06.81
1709	Pathan Imrankhan Hurkhan	MahaSVC/7305/	Parkota Galli, Old Post Office Road, Partur, Distt. Jalna, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	01.05.81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1710	Pathan Mohsin Khan Mustufakhan	GUJSVC/2720/06	Block No. 10/9, Staff Qtr. S.D.A.U., S.K. Nagar, Ta. Dantiwada, Distt. B.K.,Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	16.06.84
1711	Patil Ajay Vitthal	MahaSVC/7611/	B-2, Tara Teress, Ingle Nagar, Kolhapur, Tal. Karveer, Distt. Kolhapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	02.09.84
1712	Patil Ajit Mahadev	MahaSVC/7608/	Ramkrishna Lane, 760-A, Ward, Karveer, Tal. Karveer, Distt. Kolhapur- 416012, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	27.09.82
1713	Patil Amit Ashok	MahaSVC/7457/	C/o Shri A.S. Patil, Gujarpura, A/p Chahardi, Tal. Chopda, Distt. Jalgaon- 425434, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	15.10.82
1714	Patil Amit Ramesh	MahaSVC/7696/	Kumar Nagar, Block No. 0/9-7, Near Central Bank, Sakri Road, Dhule-424001, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	03.09.83
1715	Patil Amol Ashokrao	MahaSVC/7348/	'Shivalaya', Near Bus Depot, Ganesh Nagar, Ausa, Tal.Ausa, Dt. Latur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	24.08.82
1716	Patil Amol Pramod	MahaSVC/7438/	Rajhansa's Building, Chaitanyawadi, Tal. Distt. Buldana-443001, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	15.09.82
1717	Patil Archana Rajkumar	MahaSVC/7508/	C/o Shri R.T. Patil, Manjra, S.S.K. Ltd., Vilasnagar, Tal. Distt. Latur-413531, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	15.02.83
1718	Patil Atul Vishnu	MahaSVC/7206/	A/p Satapewadi, Tal Walve, Distt. Sangli, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	25.05.82
1719	Patil Dipali Pandurangrao	MahaSVC/7126/	'Gitai' 25-Ramdas Nagar, Karegaon Road, Parbhani, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	24.10.82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1720	Patil Dronacharya Jagatrao	MahaSVC/7470/	A/p Mathagavhan, Tal. Amalner, Distt. Jalgaon, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	17.11.79
1721	Patil Kamlakar Madhukar	MahaSVC/7235/	At Kati, Post Khupari, Chinchghar Road, Kati, Tal. Wada, Distt. Thane, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	01.06.78
1722	Patil Leena Vijay	MahaSVC/7360/	Omkar, 'A', Near Shrikrishna Hospital, Dwarka, Tal. Nashik, Distt. Nashik, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	27.12.82
1723	Patil Machnurkar Raovaijendraprasad Madhavrao	MahaSVC/7276/	Machnur, Tal Biloli, Distt. Nanded, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	01.05.82
1724	Patil Manjusha	MahaSVC/7129/	Shivkrupa, Shastri Nagar, Parbhani, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	25.04.82
1725	Patil Mukesh Subhash	MahaSVC/7650/	C/o Subhash Chintaman Patil, A/p Kasoda, Tal. Eranool, Distt. Jalgaon-425110, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	20.05.83
1726	Patil Nilesh Ramdas	MahaSVC/7469/	A/p Khampimpari, Tal. Shevgaon, Distt. Ahmednagar, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	28.08.81
1727	Patil Padnya Ashok	MahaSVC/7695/	Varunpushp Building, Room No. 5, Shashtrinagar, Khopoli, Tal. Khalapur, Distt. Raigad, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	17.09.82
1728	Patil Parisha Bharat	MahaSVC/7509/	17/2, Central Colony, CHS Ltd. Chamber Flyover, Chembur, Mumbai-400071, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/03	17.11.79
1729	Patil Pradeep Bhatu	MahaSVC/7210/	Apparana Raj Housing Co Society, C-4/3, Nr Water Tank(TMK), Kalwa(Kharegao n), Kalawa (E), Dt. Thane, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	08.08.82



<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1730	Patil Rahul Jaywantao	MahaSVC/7578/	Plot No. 3, Near Shri Krishna Nagar, Wadibhokar Road, Deopur, Distt. Dhule, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	21.09.82
1731	Patil Rajashree Namdev	MahaSVC/7474/	C/o Namdev Patil, Rajtailor, 2501, New Sambhaji Nagar, Tal. Gaohingaj, Dt. Kolhapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	12.04.83
1732	Patil Sagar Netaji	MahaSVC/7401/	A/p Karwadi, Tal. Karad, Distt. Satara-413105, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	08.01.83
1733	Patil Satish Laxman	MahaSVC/7680/	"Manorath", Chaitanyawadi, Malkapur, Distt. Buldana-443101, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	29.09.80
1734	Patil Shrikant Soma	MahaSVC/7299/	A/p Aralgundi, Tal. Bhudargarh, Distt. Kolhapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/02	22.06.80
1735	Patil Shubhangi Baburao	MahaSVC/7347/	Vijaynagar Bidar Road, Udgir, Distt. Latur-431517, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	01.07.82
1736	Patil Umesh Madhukar	MahaSVC/7368/	Near Maruti Mandir, A/Post Kolpewadi, Tal. Kopergaon, Distt. Ahmednagar, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	03.03.83
1737	Patil Vijaykumar Mallikarjun	MahaSVC/7391/	A/p Umadi, Tal. Jath, Distt. Sangli-416413, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	01.06.83
1738	Patil Vinayak Naresh	MahaSVC/7481/	New Sampat Niwas, S/6, Hanuman Nagar, Bandrekar Wadi, Jogeshwari (E), Mumbai, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	24.06.82
1739	Patwardhan Devashri Shrikrishna	MahaSVC/7572/	Opposite Ram Mandir, Pandharpur Road, Miraj, Distt. Sangli-416410, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	04.03.84

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1740	Pavan Kumar K.N., S/o Sh. Nagaraja K.	KarSVC/3917/06	S/o Nagaraja K., Advocate & Notary, Court Circle, Alur-573213, Hassan Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	18.03.84
1741	Pavan Kumar Tiwari, S/o Shri K.D. Tiwari	MPSVC/2374/06	Behind Politechnic College, Dhonga Road, Tikamgarh, MP-472001	BVSc&AH/JNKVV/06	31.03.80
1742	Pavan Kumar, S/o Sh. Balveer Singh	DVC/0670/06	BG-7/29, Paschim Vihar, New Delhi	BVSc&AH/CSAUA&T/95	15.01.67
1743	Pavithra B.H., D/o Sh. Hanumantha B.H.	KarSVC/3872/06	3779/3, 8th Cross 'B' Block, Gayathrinagar, Bangalore-560021, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	13.11.83
1744	Pawan Kumar Singh, S/o Sh. Ramanarayan Singh	BVC/2709/05	Vill. Shankerpur, PO Shankerpur, PS Rosera-848117, Distt. Samstipur, Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/05	01.02.82
1745	Pawan Kumar Singh, S/o Shri S.P. Singh	UPVC/4558/07	Vill. & PO Meopur, Distt. Sultanpur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/IGKVV/06	05.02.80
1746	Pawan Kumar Upadhyay, S/o Shri S.J. Upadhyay	UPVC/4458/06	Ward No 24 Bazar Main Nr Thana H.No.285Y, Jalatpur, Ambedk arnagar, U.P	BVSc&AH/WBUAFS/06	15.04.79
1747	Pawan Kumar, S/o Sh. Rameshwar Dass	HVC/1932/	VPO Balsamand, W.No. 5, Distt. Hisar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/06	24.12.83
1748	Pawan Kumar, S/o Sh. Saju Ram	HPSVC/766/06	Vill Bhardwan, PO Kanaid THE. Sunder-Nagar, Mandi-175137, H.P	BVSc&AH/CSKKVV/06	28.07.82
1749	Pawankar Karnsai Narsingrao	MahaSVC/7462/	Pawan Photo Studio, Main Road, Biloli, Tal. Biloli, Distt. Nanded-431710, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	18.06.80

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1750	Pawar A Alap Natwarlal	GUJSVC/2763/06	31 New Giriraj Soc, Op.R.R.Trivedi High Sch,Vejalpur,Satellite,A'bad, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	07.05.84
1751	Pawar Amol Bachhensaheb	MahaSVC/7255/	At Hasala, Post Budhoda, Tal. Ausa, Distt. Latur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/03	20.06.80
1752	Pawar Ashish Barurao	MahaSVC/7333/	Hemdeep, Plot No. 25, Garkheda Road, Sarang Society, Aurangabad, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	11.08.82
1753	Pawar Dinesh Hari	MahaSVC/7613/	Lahane Layout, Samarth Nagar, Buldana-443001, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	17.04.83
1754	Pawar Dinesh Waman	MahaSVC/7297/	Nana Sawant Chawl, Room No. 3, Sawarde, Tal. Chiplune, Distt. Ratnagiri, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/02	14.03.80
1755	Pawar Gauri Ashokrao	MahaSVC/7195/	Laxmi Madhav Apartment, 190, Flat No. 9, Mangalwar Peth, Satara, Dt. Satara, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	06.06.81
1756	Pawar Rahul Mohanchandra	MahaSVC/7154/	"Pawar Sadan", Near Locoshed, Primary School, Civil Line, Gondia, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	23.11.81
1757	Pawar Sachinkumar Shivajirao	MahaSVC/7207/	395, Jivhala Nivas, Laxmi Colony, Varunjee, Tal. Khurd, Distt. Satara, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	19.08.81
1758	Pawar Sanjay Jivan	MahaSVC/7238/	Kandar, Tal. Karmala, Distt. Solapur-413202, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	31.05.82
1759	Pawar Shivraj Ashokrao	MahaSVC/7517/	Ram Puravata Kendra, Near Kandre Talim, Pandhapur-413304, Distt. Solapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	01.05.82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1760	Pawar Vaibhavi Vijay	MahaSVC/7475/	Navoday Park, Flat No. 21, Hotgi Road, Near Mohite Nagar, Tal. Distt. Solapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	12.01.83
1761	Pawar Vinayak Hema	MahaSVC/7736/	C/o U.J. Rathod, I/o Hanuman Temple, Pingle Nagar, Dhanora Road, Beed, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	01.02.78
1762	Pawar Vishal Madhukar	MahaSVC/7719/	19, Septashrunji, Prasad Nagar, Galwade Road, Amalner, Distt. Jalgaon, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	21.05.84
1763	Pawar Yogesh Genaba	MahaSVC/7313/	At Bhadawade, Post Shivaji Nagar, Tal. Khandala, Distt. Satara, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	27.01.82
1764	Pawara Manoj Vesta	MahaSVC/7675/	At Sirsani, Tal. Akrani, Distt. Nandurbar-425414, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/02	01.06.77
1765	Peche Sohan Sakhamam	MahaSVC/7652/	A/p Sautada, Tal. Patoda, Distt. Beed, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	26.03.84
1766	Pendharkar Abhishek Anand	MahaSVC/7672/	Panchayat Samiti, Qtr. No. 3, Dondlacha Road, Shahada, Distt. Nandurbar- 425409, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	28.03.83
1767	PERUMAL KESAVAN S/o C.PERUMAL	TNVC/1584/05	26 / 3 / 105E, M.B.T.ROAD, BELLIAPPA NAGAR, WALAJAPET POST & TALUK, VELLORE DIST., TN 632 513.	BVSc/Uni of Madras/73	31-01-50
1768	Phalke Nandkumar Bharat	MahaSVC/7705/	M-11/516, A/p Welchandnagar, Tal. Indapur, Distt. Pune- 413114, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	14.11.83
1769	Phangeho Anthony Nakso, S/o Sh. Borsing Phangeho	ASM/2273/07	Vill. Chekartu, Jengkhu, Distt. Karbi, Anglong- 782448, Assam	BVSc&AH/AAU/07	20.11.82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1770	Philetus Marak S/o Gilbert Marak	MeghSVC/243/06	Upper Rongkhon, West Garo Hills, Tura, Meghalaya	BVSc&AH/MAU/83	1.11.60
1771	Phondba Bhupendra Tulshidas	MahaSVC/7214/	Dhuriwada, Tal. Malvan, Distt. Sindhudurg-411606, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	30.08.82
1772	Pichad Tukaram Mohan	MahaSVC/7201/	Sawitry Sadan, Room No. 3, Tal. Akole, Distt. Ahmednagar-422601, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	01.10.81
1773	Pinaki Saha, D/o Sh. Pradip Saha	WBSVC/3259/06	Vill. Indranarayanpur Colony, PO Gangarampur, Dt. S/Dinajpur, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	01.09.83
1774	Pise Pravin Moreshwar	MahaSVC/7185/	Wakhar Nimbalkar, Tal. Phaltan, Distt. Satara, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	17.02.82
1775	Piyush Goyal, S/o Sh. Avinash Goyal	UVC/167/07	48/3, National Road, Laxman Chaowk, Dehradun, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/9 6	18.08.72
1776	Podhade Devendra Narayanrao	MahaSVC/7335/	Avadut Kaupa Nivas, Santoshi Mata Colony, Karanja Lad, Distt. Washim, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	22.10.79
1777	Pooja Kanwar, D/o Sh. M.S. Kanwar	HPSVC/764/06	Friends Colony, Holta, Palampur, Distt. Kangra, HP	BVSc&AH/CSKKVV/0 6	20.04.83
1778	Poonam Uniyal, D/o Sh. Radhey Syam Uniyal	UVC/185/06	F-22, THDC Coloney, Mothoorawalla Road, Dehradun, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/0 3	25.11.78
1779	Poonam Yadav, W/o Shri Vinod Kumar	UPVC/4531/06	Vill.&PO, Mirzapur, Distt. Ghazipur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/0 0	28.05.77

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1780	Poonamalli Prasad, S/o Shri P. Subbaiah	AP SVC/4472/06	Chinthopu (P&V), Via. Stone Houspet, Nellore Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	09.06.81
1781	Potey Dnyanesh Eknath	MahaSVC/7588/	A/p Balegaon, Tal. Akot, Distt. Akola-444101, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	02.07.83
1782	PRABAKHER GNANAMUTHU EDWIN S/o EDWIN DAWSON	TNVC/3107/05	20 / 43, FIRST CROSS STREET, TRUSTPURAM, KODAMBAKKAM, CHENNAI 600 024	BVSc/TNAU/74	24-10-47.
1783	Prabdeep Kaur, D/o Sh. Inderjeet Singh	RajSVC/3340/06	23, N-Block, Sriganganagar, Rajasthan	BVSc&AH/CSKHPKV/ 06	25.02.82
1784	Prabina Pradhan, D/o Sh. Gopabandhu Pradhan	OVC/2055/06	At Badenaju, PO Malikapori, Distt. Kandhamal, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	16.05.81
1785	Prabir Chandra Pradhan, S/o Sh. Kartick Ch. Pradhan	WBSVC/3271/06	Vill. & PO Shbnagar Abad, Distt. 24 Prgs(S), PS Namkhana-743357, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	21.11.81
1786	Pradeep Jaglan, S/o Sh. Rameshwar Singh Jaglan	HVC/1923/	H.No. 412, Sector-7, U.E. Karnal, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/0 6	05.01.84
1787	Pradeep Kumar Jena, S/o Sh. Rama Chandra Jena	OVC/2109/07	At Padhani, PO Mamadila, Distt. Bhadrak, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	05.01.80
1788	Pradeep Kumar S., S/o Sh. Siddappa S.	KarSVC/3927/06	Beside Siddarudha Ashrama, Amarajyathinagar, Kunigal Road, Tumkur-5, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	13.05.83
1789	Pradeep Kumar, S/o Sh. Bhoop Singh	RajSVC/3322/06	Vill. Narera Khurd, Post Aklimpur, TEH. Behror, Alwar, Rajasthan	BVSc&AH/HAU/05	15.07.80

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1790	Pradeep Sharma, S/o Sh. Ganga Ram Sharma	RajSVC/3297/06	Nanga's House, Mohalla Nadiya, Bharatpur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	30.10.79
1791	Pradeep Singh Sandhu, S/o Sh. Sukhwant Singh Sandhu	Pb.SVC/2684/06	363, Block-I, B.R.S. Nagar, Ludhiana-141012, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/ 06	18.03.83
1792	Pradeep Singh Tanwar, S/o Sh. Padam Singh	HVC/1906/	4, Bhai Printing Press Wali Gali, Pakwal, Faridabad, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/0 3	13.12.79
1793	Pradeep Soni, S/o Sh. Bajrang Lal	RajSVC/3266/06	Near Govt. Hospital, PO Bidasar, Churu, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	15.10.77
1794	Pradhan Manoj Shrawanii	MahaSVC/7495/	Palandur (Ch.), Tal. Lakhani, Distt. Bhandara, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	06.07.81
1795	Pradip Kumar Mandal, S/o Sh. Lakshman Mandal	WBSVC/3293/07	Vill. Brindabanpur, PO Mechada, PS KTHP, Dt. East Midnapore-721137, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	25.10.83
1796	Prahlad Meena, S/o Sh. Shvo Ram Meena	RajSVC/3312/06	Vill. Dalwasa, Post Thanwala, TEH. Deoli, Tonk, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	01.03.74
1797	Prajapati Bharatkumar Virabhai	GUJSVC/2721/06	At & Post Motasadi, Ta. Danta, Distt. B.K.- 385120. Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	13.04.84
1798	Prakash Bhatt, S/o Sh. Radha Ballabh Bhatt	UVC/182/06	57, Field Hostel, GBPAU&T, Pantnagar, Distt. U.S. Nagar, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/9 8	06.03.77
1799	Prakash Biswas, S/o Sh. Produt Biswas	OVC/2115/07	Qr.No. H/12/1, Type-2, Rail Colony, E.Co.Rly, Mancheswar, Bhubaneswar- 17, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	20.04.82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1800	Prakash Dev, S/o Sh. Ram Santosh Ram	BVC/2644/05	Vill Horit Chhapra, PO Horit Chhapra, PS Sahpur, Distt. Bhojpur, Bihar	BVSc&AH/BAU/05	08.11.79
1801	PRAKASH HEBBAR S/o MAHABALESWAR HEBBAR	TNVC/1972/05	BEDDABELAGONDAPALLI P.O., (VIA), THALLY DENKANIKOTTA T.K. KRISHNAGIRI DIST. PIN - 635 114	BVSc/UAS, B'IORE/88	01-06-61
1802	Prakash Ku Beura, S/o Trilochan Beura	OVC/2119/07	At/PO Babujang, Via Tyendakura, Distt. Cuttack, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	05.07.79
1803	Prakash Kumar Nayak, S/o Sh. Bhikari Nayak	OVC/2075/06	At Laxmiprasad, PO Barapalli, Distt. Nayagarh, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	16.05.82
1804	Prakash M., S/o Late Sh. Mahadevappa M.	KarSVC/3894/06	Udaya Ravi, 14th Cross, Opp. Koushik High School, V.V. Nagar, Mandya, Mandya Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	18.03.79
1805	Prakash Mishra, S/o Shri R.K. Mishra	UPVC/4375/06	Line Par Sahukara, Puranpur, Pilibhit, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDAUA&T/06	05.08.81
1806	Prameel Kumar, S/o Sh. Mohinder Singh	HVC/1921/	VPO Butana Khetan, Tehsil Gohana, Distt. Sonapat, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/06	30.12.82
1807	Pramod Kumar Singh, S/o Late Sh. Munsii Singh	UVC/222/06	N-70, Nagla Dairy Farm, Pantnagar, Distt. U.S. Nagar, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/88	05.03.59
1808	Pramod Kumar, S/o Shri Bans Raj	UPVC/4398/06	Vill. & PO Machhali Gaon, Distt. Ambadkarnagar, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/06	06.02.77
1809	Pramod S.	KeralaSVC/3198/06	Madathil, Elippekulam PO, Pallickal (Via.), Alappuzha-690503, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	07.01.82



<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1810	Pramod Sharma, S/o Shri Vijay Ram Sharma	MPSVC/2356/06	Vaishandar Bhawan, Opp. Idgah, Gandhi Road, Murar, Gwalior, MP	BVSc&AH/JNKVV/04	28.11.79
1811	Pranay Misra, S/o Shri Prabhat Misra	UPVC/4411/06	Bali Ganj, Raebareilly, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDAUA&T/ 06	16.05.82
1812	Prasanta Ku Mohalik, S/o Sh. Mahendranath Mohalik	OVC/2126/07	At-Alupur (Near ORI- PLAST), PO/Distt. Balasore, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	14.08.82
1813	Prasanthi Katragadda, D/o Shri Bhaskara Rao	APSVC/4453/06	D.No. 42-1-191(5A) Turpu Kammapalem, Ongole, Prakasam Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	03.02.82
1814	Prashant Singh, S/o Shri Dharam Veer Singh	UPVC/4493/06	Moh. Krishna Kutir Kiratnagar, Lakhimpur, Kheri, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/ 06	01.08.80
1815	Prashanta Verma, S/o Shri R.C. Verma	UPVC/4392/06	Vill. & PO Marthua Sariya, Distt. Ambedkarnagar, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUIAT/0 6	01.07.82
1816	Prathviraj, S/o Sh. Ravikant	KarSVC/3906/06	Hanamshetty, Nandagaon- 585329, Humnabad Tq., Bidar Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	23.05.83
1817	Pratiksha Bhunjiya, D/o Shri Natthulal	MPSVC/2383/06	Ghoghar Budh Marg, Near Sharda School, Indian Colony, Rewa, MP-486001	BVSc&AH/JNKVV/06	01.06.80
1818	Praveen Aggarwal, S/o Sh. Mahabir Prasad	HVC/1938/	Purani Mandi, Nr Talab, Narnaul Dt. Mahendergarh, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/0 6	19.12.81
1819	Pravin Kumar Gupta, S/o Shri Shiv Nath Saw	UPVC/4536/06	D-65/477A, Lahartara, Varanashi, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/ 06	11.08.80

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1820	Preeti Tiwari, D/o Shri Uday Shankar Tiwari	MPSVC/2342/06	251, Behind Sharda Talkies, Gorakhpur, Jabalpur, MP-482001	BVSc&AH/IGKV/06	22.07.78
1821	Preetinder Rana, D/o Sh. Janak Singh Rana	Pb.SVC/2679/06	Vill. Bamala, Post Office & Distt. Gurdaspur-143521, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/06	01.03.83
1822	Preety P. Philip	MahaSVC/7606/	Milind Complex, 78, Hill Road, Ramnagar, Nagpur-10, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	06.11.83
1823	Prem Chand Yadav, S/o Sh. Rameshwar Dyal	RajSVC/3255/06	VPO Bawadsaketpura, TEH Moondawar, Alwar, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	07.07.79
1824	Prem Chand, S/o Shri Ram Jeet	UPVC/4431/06	Vill. Barahi Kala, PO Barahe Newada, Varanasi, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDAUA&T/06	01.04.76
1825	Prem Lata Meena, W/o Sh. Mukesh Chand	RajSVC/3281/06	VPO Kunjela, Via. Shahr, TEH Nadoti, Karauli, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	11.05.80
1826	Prem Narayan Pandey, S/o Shri J.S.P. Pandey	UPVC/4362/06	Vill. Majhigawa, PO Bhaitoli, Distt. Mirzapur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/94	14.06.67
1827	Prem Narayan Saxena, S/o Shri Chutto Lal Saxena	MPSVC/2411/07	Nehru Colony, Station Road, Sehore, MP	BVSc&AH/ikram University/62	18.02.34
1828	Prem Nath Dhingra, S/o Sh. Ved Prakash Dhingra	DVC/0621/03	B-1/63, Phase-II, Ashok Vihar, New Delhi-110052	BVSc&AH/PAU/64	14.05.41
1829	Prem Prakash Chaudhary, S/o Sh. Parmeshvari Prasad Chaudhary	BVC/2682/05	Vill. Maheshpur, PO Maheshpur, PS Pipra-852109, Distt. Supaul, Bihar	BVSc&AH/WBUA&FS U/05	02.12.78

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1830	Prince Menon K.S.	KeralaSVC/3196/06	Kattuparambil Karthika, Thazakkara PO, Mavelikara, Alappuzha- 690102, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	20.12.79
1831	Pritangini Arukha, D/o Sh. Bhagaban Arukha	OVC/2046/06	At Nuasahi (Nagpal), PO Udala, Distt. Mayurbhanj, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	08.03.79
1832	Prithvi Nath Pandey, S/o Shri Raghubir Pandey	UPVC/4365/06	Vill. & PO Pali, Via. Gyanpur, Distt. Bhadohi, Uttar Pradesh	BVSc&AH/G&PUAT/7 3	23.07.52
1833	Priya Darshini Vanna, D/o Shri V. Deva Das	APSVC/4508/06	D.No. 7-17-449/6, Ratnapuri Colony End, Kavithanagar, Arundel Pet, Guntur-2, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	12.08.83
1834	Priya K.T.	KeralaSVC/3153/06*	Ashirvadh House, Pavukkonam PO, Anangadi, Ottappalam, Palakkad-679522, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	24.08.80
1835	Priyadarshi Debasis Rout, S/o Sh. Shyam Sundar Rout	OVC/2080/06	At Potal, Distt/PO Jagatsinghpur, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	30.06.81
1836	PRIYADARSHINI GOVIND S/o R.GOVIND	TNVC/1273/05	OLD NO.4, NEW NO.11, VASU STREET, KILPAUK, CHENNAI 600 010	BVSc/TANUVAS/96	26-01-70
1837	Priyankar Kumar, S/o Sh. Bachchu Singh	BVC/2723/06	Vill. Salempur, PO Barh, PS Barh-803213, Distt. Patna, Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/0 5	01.03.82
1838	Probhakar Biswas, S/o Sh. Swapan Kumar Biswas	WBSVC/3234/06	Prachya Bharati Road, Balurghat, Distt. D/Dinajpur- 733101, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	01.04.83
1839	Provash Adhikary, S/o Sh. Prankrishna Adhikary	WBSVC/3235/06	Vill. & PO Gopalpur (Uttarpara), Durgapur- 713212, Distt. Burdwan, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	06.03.82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1840	Puja, D/o Sh. Swaran Singh	Pb.SVC/2643/06	W/o Sh. Harmanpreet Singh, Rampura Narainpura, Teh-Abohar, Dt. Ferozepur, Punjab	BVSc&AH/RAU/06	10.03.80
1841	Puja, D/o Sh. Swaran Singh	RajSVC/3328/06	Opp. UIT Quarters, Indira Colony, Bikaner, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	10.03.80
1842	Pukale Kailas Dnyanu	MahaSVC/7642/	A/p Nimbwade, Tal. Atpadi, Distt. Sangli, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	20.05.82
1843	Pulak Kumar Mondal, S/o Sh. Bankim Bihari Mondal	WBSVC/3284/06	Vill. Narvedi Chak, PO Maguri Jagannathchak, PS Panskura, Dt. Purba Midnapore-721152, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/06	13.03.77
1844	Pundekar Rishikesh Dadarao	MahaSVC/7448/	'Hrishikesh Niwas' Shri Colony, Behind Shah Petrol Pump, Akola Road, Akot, Dt. Akola, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	27.04.83
1845	Pundkar Snehal Najukrao	MahaSVC/7617/	Ujwal Nagar, Daryapur Road, Akot, Distt. Akola-444101, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	03.07.83
1846	Puneet Agrawal, S/o Sh. Ghanshyam Das	DVC/0649/05	93C, Siddartha Extn. New Delhi-65	BVSc&AH/GBPAUT/95	27.06.78
1847	Puneet Kumar, S/o Sh. K.L. Bhatt	UVC/240/06	B-53, Kumhar Gali, Ajabpur Kalan, Dehradun, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/06	23.2.77
1848	Puneet Mahajan, S/o Sh. Bal Krishan	Pb.SVC/2682/06	48/11, Opp. Prabhat Cinema, Tibri Road, Gurdaspur, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/06	08.04.82
1849	Puneet Tirkey, S/o Shri N. Tirkey	MPSVC/2330/06	Q.No. 144, N-2AR, D-Sector, Berkheda, BHEL, Bhopal, MP-462021	BVSc&AH/JNKVV/05	08.09.80

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1850	Punuru Vijayarami Reddy, S/o Sh. Sreenivasulu Reddy	KarSVC/3903/06	2,DC-140,Narasimha Nilaya,28,V Main,X Cross,RGI Colony,LNPura,Srirampura, B'lore-560021,,Karnataka	BVSc/APAU/75	15.07.49
1851	Punya J., S/o Sh. Javaraje Gowda Y.N	KarSVC/3908/06	352, Brahmin Street Fort, Arakalagud-573102, Hassan Distt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	15.05.83
1852	Puran Singh Mourya, S/o Shr. Amar Singh Mourya	MPSVC/2379/06	155, Baheti Colony, Sanawad, Khargone, MP- 451111	BVSc&AH/JNKVV/06	02.10.79
1853	Purushottam Sharma, S/o Sh. Shyam Ashu	RajSVC/3257/06	10-B, Chhya Deep, Mahesh Nagar, Jaipur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	14.03.79
1854	Pushkar Nath Bhat, S/o Sh. Mahesher Nath Bhat	DVC/0607/02	D-1/102A, Satya Marg, Chankayapuri, New Delhi- 110021	BVSc&AH/Agra Un./59	09.10.37
1855	Pushp Sagar, S/o Shri B.K Sagar	UPVC/4447/06	Near Block No. 3, BDA Colony, Kargain, Bareilly, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/0 6	10.05.77
1856	Pushendra Singh Kshatriya, S/o Shn Jadish Singh	MPSVC/2372/06	V&P Gor, Tikamgarh, MP- 472001	BVSc&AH/JNKVV/06	20.07.82
1857	Puskar Singh Hyanki, S/o Sh. Mohan Singh	UVC/242/06	Malli Bazar,Vill.Sirka,Tehi Dharchulia,Dt.Pithoragarh,Ut taranchal	BVSc&AH/GBPUAT/9 8	21.09.73
1858	R. AMUTHA S/o V.RAMASAMY	TNVC/1552/05	27-B, CO-OPERATIVE COLONY STREET, GANDHI NAGAR, MOHANUR ROAD, NAMAkkAL 637 001.	BVSc/TANUVAS/91	31-07-68
1859	R. ANANDA RAJA S/o M.RAMALINGAM	TNVC/0963/05	KULAMANGALAM (N) POST, KEERAMANGALAM VIA, ALANGUDI TALUK, PUDUKKOTTAI DT 614 624.	BVSc/TANUVAS/00	23-06-77

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1860	R. ANIL KUMAR S/o L.RISHIPAL	TNVC/1493/05	"THE NEST" 955 / D / 4-5, BEHIND ROHINI THEATRE, OOTY- MYSORE ROAD, OOTY - 643 237	BVSc/TANUVAS/92	16-06-69
1861	R. ARUMUGAM S/O S.RANGASAMY PILLAI	TNVC/2412/05	117-118, RAJIV GANDHI NAGAR, SOWRIPALAYAM, COIMBATORE 641 028	BVSc/TANUVAS/91	01-06-67
1862	R. BALAGOPAL S/o G.RAMACHANDRAN	TNVC/1238/05	358 / 10, 18TH MAIN ROAD ISHWARYA FLATS, ANNA NAGAR WEST, CHENNAI 600 040	BVSc/TNAU/77	21-03-55
1863	R. Balasubramaniam, S/o Sh. V.S. Ramasamy	TNVC/3647/06	D-4/144, A WHO, Parameswaran Vihar, 28, Arcot Road, Saligramam, Chennai- 93, Tamil Nadu	BVSc/MU/73	30.04.51
1864	R. Chandran S/o Sh. S. Raj	TNVC/3800/07	119/2, Thomas Nagar, Iluppaiyurani, Kovilpatti- 628502, Thoothukudi Distt., Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/89	16.05.66
1865	R. CHITRA W/O S.RAJENDRAN	TNVC/3159/05	4 / 52, ERANIANKATTU SALAI, THALIGAI POST, NAMAKKAL TK & DIST 637 212.	BVSc/TANUVAS/00	02-06-75
1866	R. Fatima Bi, D/o Sh. Bokary Syed Sardar	TNVC/3649/06	124, 6th Cross MKB Nagar, Vyasarpadi, Chennai- 39, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/83	07.03.58
1867	R. Frances Arputha Dass, S/o Sh. A. Raju	TNVC/3596/06	B-31, Varatharaja Nagar, PO Theni Distt.- 625562, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/05	30.06.82
1868	R. GANESH S/o D.RAMALINGAM	TNVC/0779/05	NO.64B, VELLALA STREET, AYANAVARAM, CHENNAI 600 023	BVSc/TNAU/76	08-09-53
1869	R. GNANASEKAR S/O K.RAJADURAI	TNVC/2428/05	210-E, RAJALAKSHMI ILLAM, NETHAJI NAGAR, PALANI 624 601, DINDIGUL DISTRICT	BVSc/TANUVAS/96	10-04-73

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1870	R. GNANASEKAR S/O N.RANGASAMY	TNVC/2315/05	74, CHB COLONY WEST, THIRUCHENGODE, NAMAKKAL DISTRICT PIN 637 211	BVSc&AH/DR.PRDKV P/98	10-05-76
1871	R. Gopinath, S/o Sh. K. Rajamanickam	TNVC/3616/06	73/A, Annadapatty Village, Karupanoor PO, Tirupathur, Tk. Vellore Dt.-635601, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/02	09.09.77
1872	R. GOVINDARAJAN S/o D. T. RAJAGOPAL	TNVC/0722/05	D-125, 18TH STREET, PERIYAR NAGAR, CHENNAI 600 082	BVSc/TNAU/74	14-12-48
1873	R. JAGADISH WILFRED S/o M. RAJARATNAM	TNVC/0890/05	43 / 22, NESAVILLA RAGHAVA STREET, CHOO LAI, CHENNAI 600 112.	BVSc/Uni of Madras/65	19-09-37
1874	R. JAYAKUMAR S/o D. RAJAMANICKAM	TNVC/0695/05	NO.10 / 28, BALAJI NAGAR, KEELKATTALAI, CHENNAI 600 117.	BVSc/Uni of Madras/74	01-07-48
1875	R. JAYAPRAKASH S/o A. RAMAMURTHY	TNVC/2929/05	NO.22 / 1, ELEGANT APARTMENT, 12TH CROSS STREET, INDRA NAGAR, ADYAR, CHENNAI 600 020	BVSc/TNAU/81	15-03-57
1876	R. JONAT S/o S. RENGASAMY	TNVC/1105/05	475 / 1-1, THAMIRAPARANI STREET, VISWASANTHI NAGAR, MADURAI.	BVSc/TNAU/82	22-05-60
1877	R. KALIRAJAN S/o K. RABINDRANATH TAGORE	TNVC/1435/05	55-D, ASHOK NAGAR 4TH STREET, MOHAMEDSHAPURAM, TIRUMANGALAM, MADURAI DISTRICT	BVSc/TANUVAS/96	15-05-73
1878	R. Kumaresan, S/o Sh. P. Raju	TNVC/3544/06	M. Mettuppatty PO, Namakkal-637020, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/06	10.06.79
1879	R. MADHESWARAN S/o P. RAJAMANICKAM	TNVC/1276/05	KAMMANAICKAMPATTY, PUDUTHAMPATTY P.O. DHARMAPURI DIST. 636 808	BVSc/TANUVAS/00	07-04-75

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1880	R. MANICKAM S/o K.RAMAGOUNDER	TNVC/2783/05	6 / 160, B.KATHIRCHETTIPATTI, PAGALPATTI POST, OMALUR TK, SALEM DIST, PIN : 636 304.	BVSc/Uni of Madras/68	15-06-44
1881	R. MATHIVANAN S/o RANGASAMY	TNVC/1553/05	KALLANGATTU PUDUR, KONDARASAM PALAYAM POST, NAMAKKAL DT, 637 203.	BVSc/TANUVAS/93	05-06-70
1882	R. Murugeswari, S/o Sh. V. Mathailagan	TNVC/3575/06	Pothiramangalam PO, Tittagudi Taluk, Cuddalore Distt. -606111, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/00	28.03.76
1883	R. NARENDRA BABU S/o N.RAVINDRAN	TNVC/0671/05	38, STATE BANK COLONY, EZHIL NAGAR, TIRUNELVELI 627 007	BVSc/TANUVAS/95	03-05-72
1884	R. PALANI DORAI S/o S.M.RAMALINGAM	TNVC/1698/05	NO.155 / 2, SECRETARIAT COLONY, KILPAUK, CHENNAI - 600 010	BVSc/TNAU/88	18-11-61
1885	R. Parthasarathy, S/o Sh. R. Ramakrishnan	TNVC/3593/06	490, 6th Street Bharathi Nagar South, Kumbakonam, PO Thanjavur Distt., Tamil Nadu	BVSc/MU/70	12.02.47
1886	R. PRABAKARAN S/o A.RAJAMANICKAM	TNVC/1522/05	W-510, 9TH STREET, "C" SECTOR, ANNA NAGAR WESTERN EXTENSION, CHENNAI 600 101.	BVSc/TNAU/79	05-10-57
1887	R. RAJENDRAN S/o V.G.RAMANUJAM	TNVC/1569/05	49 / 5, A2-RC VISHRANTHI, CARTTRACK ROAD, MADUVANKARAI, GUINDY, CHENNAI 600 032.	BVSc/TANUVAS/93	16-05-70
1888	R. Rajesh Nair	KeralaSVC/3106/06	Kalleli House, Edakkulangara PO, Karunagapally, Kollam Distt. -690562, Kerala	BVSc&AH/OUA&T/06	28.05.82
1889	R. RAJKUMAR S/o N.RAMASAMY	TNVC/0825/05	18 A1, CHINNANNAN STREET, S.P.PUDUR, NAMAKKAL, TAMIL NADU- 637 001.	BVSc/TANUVAS/01	20-05-77



<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1890	R. Rajkumar, S/o Shri R. Venkata Rao	APSVCI/4483/06	1-35, Chinabethapudi (V), Stuartpuram (P), Bapatla (M), Guntur Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SWU/06	01.11.80
1891	R. Ramaraj, S/o Sh. C. Rathinasamy	TNVC/3776/06	67, Subramaniya Koil Street, Kamatchipuram PO, Theni-625520, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/93	08.05.72
1892	R. Ramasamy, S/o Sh. Ramasamy	TNVC/3586/06	19, Kailasa Oorani Street, Aruppukottai, Virudunagar Dist., Tamil Nadu	BVSc/MU/73	11.07.46
1893	R. RAMPRABHU S/o S. RAJAH ARUNACHALAM	TNVC/1466/05	4 / 94c, SIDHAR STREET, METTUR & POST, AMBASAMUDRAM TK, TIRUNELVELI DISTRICT PIN 627 436	BVSc/TANUVAS/92	24-07-69
1894	R. RAVI S/o G. RAJAGOPAL	TNVC/3272/05	NO.37.A, CO-OP. COLONY, MOHANUR ROAD, NAMAKKAL PIN 637 001.	BVSc/TNAU/79	22-05-56
1895	R. RAVINDRAN S/o D. RANGASAMY	TNVC/1677/05	F-12, RAJENDRA PRASATH SALAI, BLOCK 27, NEYVELI PIN - 607803	BVSc/TNAU/78	20-01-56
1896	R. RAVISANKAR S/o P. RAJARATHINAM	TNVC/3120/05	PLOT NO.54, 2ND STREET, ANNAMALAI NAGAR, MC ROAD, THANJAVUR 613 007	BVSc/TANUVAS/93	17-06-70
1897	R. SARAVANAN S/o RAMASAMY	TNVC/1570/05	BUNGALA KADU, MALLUR POST, SALEM DIST, TN, PIN : 636 203.	BVSc/TANUVAS/00	10-05-75
1898	R. SELVAKKUMAR S/o P. RAMASAMY	TNVC/2112/05	3/51, NORTH STREET, KHANSAPURAM POST, VIRUDHU NAGAR DIST 626 133	BVSc/TANUVAS/01	26-06-76
1899	R. SELVAM S/o S. RATHINASAMY	TNVC/2769/05	NO.7, NGO COLONY, SRIPERUMBUDUR, KANCHEEPURAM	BVSc/TANUVAS/00	13-06-77

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1900	R. SENTHILKUMAR S/o S. RAMASAMY	TNVC/2118/05	MALAI GOUNDER THOTTAM, BELUKURICHI POST, NAMAKKAL 637 402.	BVSc/TANUVAS/96	03-06-70
1901	R. Shanmugam, S/o Sh. C. Ramalingam	TNVC/3770/06	Mudiyanoor Village Veppalaipatty PO, Mangalapuram Via., Salem Distt., Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/92	10.05.68
1902	R. SIVASHANKAR S/o S. RAMAKRISHNAN	TNVC/2951/05*	21, T.L. RAGHUPATHY STREET, SUBASH NAGAR, CHROME PET, CHENNAI 600 044	BVSc/TANUVAS/01	23-04-77
1903	R. Sreenivasa Reddy, S/o Shri R. Chandra Reddy	APSVC/4471/06	Loddipalli (P), Orvakal, Kurnool Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	05.05.80
1904	R. Suresh, S/o Sh. V. Rama Nathan	TNVC/3566/06	A.P. 1391, 31st Street, 6th Sector, K.K. Nagar, Chennai-600078, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/82	09.08.52
1905	R. THIRUMAVALAVAN S/o A. RAMASAMY	TNVC/2123/05	4/69, EIGHTH CROSS STREET, KATTUKUDDALORE ROAD, VRIDDHACHALAM 606 001.	BVSc/TANUVAS/01	24-06-77
1906	R. UMARANI S/o P. VENKATACHALAPAT HY	TNVC/2940/05	17, KANNADHASAN MAIN STREET, S.S. COLONY, MADURAI - 10	BVSc/TANUVAS/93	11-06-70
1907	R. VASANTHA KUMAR S/o V.P. RAMAMURTHY	TNVC/1600/05	PLOT NO.26, DOOR NO.5, ANASUYA NILAYAM, BALAJI NAGAR EXTN III, PUZHAI, CHENNAI-66.	BVSc/Uni of Madras/64	17-03-43
1908	R. Venkatesh N., S/o Sh. Rama Samy T.	DVC/0626/04	National Institute of Immunology, Aruna Asaf Ali Marge, JNU Complex, New Delhi.	BVSc/TANUVAS/97	06.05.74
1909	R. VIJAYAKUMAR S/O M. RANGANATHAN	TNVC/2701/05	FLAT NO.113, ARIHANT GARUDA 2ND FLOOR, 17/2, POLICE MANICKAM STREET, AYANAVARAM, CHENNAI 600 023	BVSc/Uni of Madras/68	01-02-46

<b>SNUM</b>	<b>NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALIF</b>	<b>DOB</b>
1910	R. VIJAYALAKSHMI S/o RM.RANGANATHAN	TNVC/1419/05	V.S.V. HOUSE, AYYAN KOIL STRET, PULANKURICHI, SIVAGANGAI DISTRICT	BVSc/TANUVAS/92	13-12-67
1911	R. VIVEKANANDAN S/o C.RAMAKRISHNAN	TNVC/1578/05	4 / 52, PERUMAL KOIL STREET, VIRAPANDI POST, 605 758, TN.	BVSc/Uni of Madras/70	10-07-48
1912	R. YASOTHAI W/o.A.S.RAMALINGAM	TNVC/0883/05	ALAMPALAYAM POST, MUTHUR VIA, ERODE DISTRICT. PIN : 638 105.	BVSc/TANUVAS/00	14-06-75
1913	R.Anandan,S/o Sh V Rangaswamy	TNVC/3508/06	2/355,Siruvani Rd,Kalampalayam PO,Coimbatore-10,Tamil Nadu	BVSc/MU/67	2.05.42
1914	R.ANNALVILLI S/o R.RAJAGOPALAN	TNVC/1761/05	II / 266-2, ARUMUGA NAGAR, RANSINGAPURAM ROAD, TIRUPPATTUR 630 211, SIVAGANGA DISTRICT	BVSc/TNAU/88	10-01-66
1915	R.C. RAJA SUNDARAM S/o R.CHANDRA SEKARAN	TNVC/2879/05	BIG STREET, PALANICHETTIPATTI, THENI DIST.	BVSc/TNAU/81	04-06-58
1916	R.Ilong,S/o T.K.Rajamanickam	TNVC/3430/06	Thoranampathy Vill Post,Tirupathur TK,Pin- 620017,Tamil Nadu	BVSc/TNAU/81	7.05.55
1917	R.K.Thamizh Selvi, D/o R.Kaliaperumal	PondiSVC/287/06	No.47,Ayyanar,Koil Street,Thattanthavady, Pondicherry-9	BVSc&AH/Pondi Uni/06	21.12.83
1918	R.KANAGARAJAN S/o K.RAMSAMY	TNVC/1819/05	NAVAMARATHU THOTTAM, KALAKURICHY P.O. BELUKURICHY (VIA) NAMMAKAL TK, SALEM DISTRICT, PIN 637 402	BVSc/TNAU/84	04-07-59
1919	R.Karunakaran,S/o S. Ramasamy	TNVC/3478/06	No.197,C-81,Compound Narth Madavi Road, Perambalur PO&Taluk&Dist,Pin- 621212,Tamil Nadu	BVSc/TNAU/78	5.06.51

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1920	R.KUMARARAJ S/o P.D.RAJAN	TNVC/1762/05	NO.10, SOUTH MADA STREET, SRINAGAR COLONY, SAIDAPET, CHENNAI 600 015	BVSc/Uni of Madras/71	12-10-47
1921	R.Leena Rajathy Port Louis,D/o P.Royaisamy	PondiSVC/283/06	No.34,Third Main Street, Chellappu Nagar,Reddiar Palayam,Pondicherry	BVSc&AH/Pondi Uni/05	14 11 83
1922	R.P. SENTHIL KUMAR S/o R.PERIASAMY	TNVC/0758/05	3 / 36, NALLUR, KANDAMPALAYAM POST, PARAMATHI VELUR TALUK, NAMAKKAL DISTRICT, PIN : 637 203.	BVSc/TANUVAS/97	30-07-73
1923	R.Premanand,S/o K.Ramkumar	PondiSVC/288/06	No.1, 1st Main Road, Kuruji Nagar, Extn.,Lawspet, Pondicherry-8	BVSc&AH/Pondi Uni/06	08.08.81
1924	R.Ravichandran,S/o G. Raju	TNVC/3502/06	Nilavoor Po,Yelagiri Hills,Vellore Dist- 635853,Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/97	10.09.72
1925	R.S. Saji	KeralaSVC/3203/06	Ulkam Viliakom House, Kodampally Vakkom PO, Tvm.,Kerala	BVSc&AH/WBUA&FS U/06	
1926	R.Samuel Jones Ruhdie,S/o Sh D.S.P.Ruhdie	TNVC/3431/06	41, Officers Colony,Puthur,Trichy- 620017,Tamil Nadu	BVSc/Uni of Madras/65	18.12.38
1927	R.Sridhar, S/o Sh.T.S.Ramasamy	TNVC/2096/05	Plot NO.38A,Jaswanth Nagar,Mugappair West,Chennai-37	BVSc/TNAU/87	10.10.62
1928	R.V. SURESH S/o R.N.VADIVEI	TNVC/0762/05	NEW NO.9, OLD NO.18-B, SARVAMANGALA NAGAR MAIN ROAD, SARVAMANGALA NAGAR, NANGANALLUR POST, CHENNAI 600 061.	BVSc/TNAU/80	20-12-53
1929	R.V. VIJAYAKUMAR S/o R.VELUSAMY	TNVC/1140/05	19, NORTH MOHAMADHEAR STREET, SENDAMANGALAM 637 409, NAMAKKAL DIST.	BVSc/TANUVAS/97	28-03-73

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1930	RA.MURALLIDHARAN S/o M.G.RAMADOSS	TNVC/0818/05	16, KUPPIAH STREET, WEST MAMBALAM, CHENNAI 600 033.	BVSc/TNAU/76	10-10-50
1931	Rabari Jayeshkumar Bhikhabhai	GUJSVC/2764/06	To. Jalsan, Rabarivas, Opp. High School, Ta. Khambhat, Distt. Anand- 388580, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	28.08.84
1932	Raghab Chandra Sayan, D/o Sh. Dasarathi Sayan	OVC/2064/06	At Jaganathpur, PO Tasarada, Distt. Mayurbhanj, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	11.09.80
1933	Raghatwan Youraj Shivaji	MahaSVC/7284/	121/5, Gaikwad Chawal, Ward No. 2, Dapoli, Pune- 411012, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	11.02.80
1934	Raghnath Singh, S/o Sh. Saraba Singh	OVC/2100/07	At Jamaghati, PO Siadimal, Distt Balasore, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	11.05.82
1935	Raghvendra Pratap Sing, S/o Shri L.N. Singh	UPVC/4514/06	Vill. Janjiraha, PO Balua, Distt. Deoria, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUA&T/ 01	01.01.79
1936	Rahandale Prafulchand Bhikamchand	MahaSVC/7180/	A/p Pandharwani, Tal. Salekasa, Distt. Gondia, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	17.02.79
1937	Rahman Md. Ziaur, S/o Md. Mafibur Rahman	ASM/2252/06	Vill. Bilotia No. 3, PO Dhing, Distt. Nagaon- 782123, Assam	BVSc&AH/AAU/06	31.12.78
1938	Rahman Yesmina, D/o Md. Tabibur Rahman	ASM/2276/07	C/o Md. Tabibur Rahman, Kalyanpur, Ganeshguri, Guwahati-6, Assam	BVSc&AH/AAU/07	05.06.80
1939	Rahul Sati, S/o Sh. Anand Baliabh Sati	UVC/207/06	House No. III/755-B, Jha Coloney, Pantnagar, Distt. U.S. Nagar, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/0 6	15.11.82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1940	Rahul Shehar, S/o Shri Hari Ram Shehar	MPSVC/2389/06	27/298, Chawda Colony, Guna, MP-473001	BVSc&AH/JNKVV/06	13.04.83
1941	Raibole Rajratna Daulatrao	MahaSVC/7363/	Near Rashtriya School and New Water Tank, Mothi, Umri, Tal. Distt. Akola, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	08.06.82
1942	Raimon Mathew	KeralaSVC/3117/06	Kalliakkattu Murickel, Malapuram Distt.-679334, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	21.10.81
1943	Raj Himangshu, S/o Sh. Baloram Deka	ASM/2290/07	Ward No. 7, Baruapara, Mangakdoi, Distt. Darrang-784125, Assam	BVSc&AH/AAU/07	01.03.83
1944	Raj Kamal Sharma, S/o Sh. Parsa Ram Sharma	HPSVC/755/06	VPO Rajpur, TEH. Palampur, Distt. Kangra, HP	BVSc&AH/CSKVV/06	05.12.62
1945	Raj Kumar Dohare, S/o Shri Jiyal	UPVC/4479/06	Town Kadaura, N.N. 44, Muli Katra, Jalaun, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/06	08.12.76
1946	Raj Kumar Khanna, S/o Sh. Bodh Raj Khanna	DVC/0639/04	JU-36-A, Pitampura, Delhi-110088	BVSc&AH/CCSHAU/04	14.11.78
1947	Raj Kumar Mittal, S/o Shri S.C. Mittal	UPVC/4451/06	Opp. Petrol Pump, By Pass Road, Khera Garh, Agra, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GADVASU/06	04.09.77
1948	Raj Kumar Yadav, S/o Shri R.R. Yadav	UPVC/4394/06	Krishna Nagar Colony, Prikarna Road, Janaura, Faizabad, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDAUA&T/06	03.05.80
1949	Raj Narayan, S/o Shri Sitaram	UPVC/4399/06	Vill. & PO Chanpurwa, Distt. Hamirpur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDAUA&T/06	05.07.77

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1950	Raj Rattan Singh, S/o Sh. Rattan Singh	Pb.SVC/2686/06	Near Collier Factory, Gali No. 10, Guru Gobind Singh Nagar, Bathinda, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/ 06	27.12.82
1951	Raja Ram Singh, S/o Sh. Vishnudev Singh	BVC/2726/06	Vill. Mohjmma, PO Luxmipur, Bihar	BVSc&AH/JNAU/02	30.11.77
1952	Raja Udayabhanu Rout, S/o Sh. Upendranath Rout	OVC/2090/06	Plot No. N/1-94, IRC Village, Bhubaneswar, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	11.03.80
1953	Rajan Gupta, S/o Sh. Vijay Gupta	Pb.SVC/2651/06	358, Nangal Kotli Mandi, Gurdaspur, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/ 06	02.03.83
1954	Rajan Kansal, S/o Sh. Mohinder Pal Kansal	Pb.SVC/2648/06	671, Street No. 1, Shakti Nagar, Bathinda-151005, Punjab	BVSc&AH/PAU/03	08.06.78
1955	Rajan Uttam Gajbe, S/o Shr. U.A. Gajbe	MPSVC/2360/06	PN-322, Sanjeevani Nagar, Garha Jabalpur, MP-482003	BVSc&AH/JNKVV/06	20.04.81
1956	Rajani Kantar Panda, S/o Sh. Mayadhar Panda	OVC/2078/06	At/PO Archikana, Via Namouza, Distt. Kendrapara, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	04.06.81
1957	Rajasekhar R.	KeralaSVC/3120/06	Ponman Nilayam, UNRA, C- 9, Pohdikonam PO, Tvm- 695587, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	08.08.81
1958	Rajbongshi Jayanta, S/o Sh. Gojen Rajbongshi	ASM/2260/06	Andherighat, Sipajhar, Darrang, Assam	BVSc&AH/AAU/06	03.03.80
1959	Rajeev Kumar, S/o S. Rajendra Singh	UVC/206/06	Main Market Sugar, Mill Nadahi, Jaspur, Distt. U.S. Nagar, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/0 6	01.04.83

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1960	Rajeev Ranjan Sinha, S/o Sh. Ram Narayan Sinha	DVC/0674/06	WZ-235, IIIrd Floor, Indrapuri, New Delhi-12	BVSc/TANUVAS/03	16.01.79
1961	Rajendra Kumar Saxena, S/o Sh. Parma Nand Verma	DVC/0620/03	CBME, IIT, Hauz Khas, New Delhi-110016	BVSc&AH/PAU/67	23.04.43
1962	Rajendra Kumar Sharma, S/o Shri N.L. Sharma	MPSVC/2359/06	Mahima Bhawan Ward No. 32, Lashkar Chowk, Gwaloli Hoshangabad, MP- 461001	BVSc&AH/JNKVV/06	02.11.72
1963	Rajendra Kumar, S/o Shri Jaipal	UPVC/4471/06	Vill. Bhindaaura, PO Chhwai, Distt. Banda, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAJA&T/ 06	05.04.79
1964	Rajendra Kurmi, S/o Shri Lalita Prasad Kurmi	MPSVC/2403/06	Village Pipargaur, Rehli Sagar, MP-470227	BVSc&AH/JNKVV/06	12.04.79
1965	Rajendra Prasad Bahuguna, S/o Sh. S.K. Ba huguna	UVC/239/06	24/3 Carcular Road, Dehradun, Uttaranchal	BVSc&AH/AGRA UNI/70	8.02.48
1966	Rajendra Prasad, S/o Late Sh. Ramavtar Yadav	BVC/2669/05	Vill. Barbada, PO Barbada, PS Sahebpur Kamal- 851217, Distt. Begusarai, Bihar	BVSc&AH/BAU/81	20.11.55
1967	Rajendra Ram, S/o Sh. Karam Ram	UVC/205/06	Village Chantola, PO Narkoti, Distt. Baghashwar, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/0 6	18.12.66
1968	Rajendra Singh Bisht, S/o Sh. H.S. Bisht	UVC/271/07	Vill. Patli Gaon, PO Malan, Distt. Pithoragarh, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/0 3	01.10.79
1969	Rajendra Yadav, S/o Sh. Sube Singh Yadav	HVC/1931/	Vill. Nangal Pipa, Post Kamania, Th. Narnaul (Mahendergarh), Haryana	BVSc&AH/MAFSU/06	01.11.81



<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1970	Rajesh Alhan, S/o Sh. Satbeer Singh	HVC/1947/	H.No. 582/3, Gali No. 1, Hanuman Naga, Narwana, Distt. Jind, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/06	08.09.78
1971	Rajesh Goyal, S/o Sh. Jagdish Prasad	RajSVC/3264/06	Goyal Building Material, Neem Da Gate, Circular Road, Bharatpur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	20.05.77
1972	Rajesh Gupta, S/o Shri R.P. Gupta	UPVC/4355/06	Vill. & Post Ranipur, Moh. Deori, Jhansi, Uttar Pradesh	BVSc&AH/ANGRAU/05	25.01.82
1973	Rajesh Jadon, S/o Shri N.S. Jadon	MPSVC/2397/06	Village Jaitpura, Tehsil Gohad, Bhind, MP	BVSc&AH/JNKVV/06	21.08.81
1974	Rajesh Kumar Joshi, S/o Shri Mohan Joshi	UPVC/4352/06	B-12, Narendra Nagar, Kumar Ganj, Faizabad, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/86	26.06.64
1975	Rajesh Kumar Ranjan, S/o Sh. Rambhajan Yadav	BVC/2715/05	Vill. Madhiya, PO Madhiya, PS Basopatti-847225, Distt. Madhubani, Bihar	BVSc&AH/TNVASU/05	18.07.80
1976	Rajesh Kumar, S/o Sh. Bishundev Sharma	BVC/2720/06	Vill. Pir Damriya, PO Marufganj, PS Maislami-800008, Distt. Patna, Bihar	BVSc&AH/WBUA&FS/05	01.03.80
1977	Rajesh Kumar, S/o Sh. Kaushalendra Kumar	BVC/2683/05	Vill. Jiyan Bigha, PO Jiyan Bigha, PS Shekhpura, Distt. Shekhpura, Bihar	BVSc&AH/WBUA&FS U/05	15.10.81
1978	Rajesh Kumar, S/o Shri Bhaiya Lal	UPVC/4372/06	Vill. Firozapur, PO Fatehgunj, Distt. Jaunpur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDAAU&T/06	25.06.78
1979	Rajesh Singathia, S/o Sh. Parkash Singathia	HVC/1930/	H.No. 503, Block No. 11 N.A. Kirti Nagar, Sirsa, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/06	05.06.83

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1980	Rajesh Thakur, S/o Shri Gorelal	MPSVC/2357/06	Ranu Bhavan Vind Vasni Mandir Berghat Road, Seoni, MP-480661	BVSc&AH/JNKVV/06	03.07.73
1981	Rajguru Ashok Subhash	MahaSVC/7374/	Malewadi No. 1, Palasdeo, Tal. Indapur, Distt. Pune-413132, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	01.06.82
1982	Raji E.S.	KeralaSVC/3199/06	Edattuparambil House, Mannuthi PO, Thrissur-680651, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	27.05.77
1983	Rajib Kanti Saha, S/o Sh. Ramen Saha	WBSVC/3289/06	Balia (East), Garia Station Road Garia, Kolkata-700084, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/06	21.02.84
1984	Rajinder Singh, S/o Sh. Harbhajan Singh	Pb.SVC/2673/06	500, St. No. 6, Gopal Park, Kapurthala-144601, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/06	01.01.82
1985	Rajiv Ranjan, S/o Sh. Luxmi Prasad Yadav	BVC/2713/05	Vill. Mohanpur Punsichak, PO&PS Shastrinagar-23, Dt- Patna, Bihar	BVSc&AH/GBPUAS&T/04	15.02.79
1986	Rajnish Kumar Pathak, S/o Sh. Ajeet Kumar Pathak	UVC/251/06	C/o Sh. Ajeet Kumar Pathak, Vill. Phulsunga, PO Transit Camp, U.S. Nagar, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/06	06.08.75
1987	Rajnish Pathania, S/o Sh. Dina Nath	HPSVC/761/06	VPO Tihra Distt. Mandi, HP-175026	BVSc&AH/CSKKVV/06	19.10.81
1988	Rajni, D/o Sh. Choudhary N.R.	KarSVC/3947/06	T-314/3, 6th Camp., Air Force Station, Jalahalli (East), Bangalore, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	19.10.83
1989	Rajni, D/o Sh. N.R. Chaudhary	RajSVC/3325/06	Vill. Basni Kharia, Post Pairi Sidha, Jodhpur, Rajasthan	BVSc&AH/KVAFS/06	19.10.83

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1990	Rajnish Kumar Tyagi, S/o Sh. Jagat Singh Tyagi	DVC/0608/02	T-16/2, URI Enclave, Delhi Cantt.	BVSc&A/MAFSU/02	17.04.78
1991	Rajput Atul Bhagwansingh	MahaSVC/7412/	"Maa Ambika Niwas", Shivshankar Nagar, Chikhali Road, Buldana- 443001, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	15.10.81
1992	Rajput Manjunath Singh, S/o Shri Rajput Siva Singh	APSVc/4500/06	Naidupeta 1st Lane, H.No. 4-12-9, Guntur, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	06.04.81
1993	Raju Saikia S/o(L) Chandra Saikia	MeghSVC/241/06	C/oMrsHima Das, Coll of Nursing Neigrihms, Shillong (Mawadia ngadiang), Meghalaya	BVSc&AH/AU/02	29.6.76
1994	Rakash Kumar Verma, S/o Shri D.R. Verma	UPVC/4472/06	Vill. & PO Martnua Sarana, Distt. Ambedkarnagar, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAU&T/ 06	12.07.80
1995	Rakesh Kamkar, S/o Sh. Chandan Kamkar	WBSVC/3279/06	B-1/4, Flat No. A/11, PO Kalyani, Dt. Nadia- 741235, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	10.08.83
1996	Rakesh Kumar Singh, S/o Shri Virendra Kumar	UPVC/4549/06	CM 1/19, JDA Colony, Virangah Nagar, Jhansi, Uttar Pradesh	BVSc&AH/JNKVV/06	08.08.80
1997	Rakesh Kumar Soni, S/o Shri S. S. Soni	MPSVC/2371/06	Musafirkhana, Galla Mandi Road, Nowgaon, Chhatarpur, MP-471201	BVSc&AH/JNKVV/06	20.06.82
1998	Rakesh Kumar Tiwari, S/o Shri Girija Shankar Tiwari	MPSVC/2335/06	Block Colony, Mehadwani, Dindori, MP	BVSc&AH/JNKVV/86	12.09.63
1999	Rakesh Kumar, S/o Sh. Ram Singh	DVC/0653/05	Sanjay Gandhi Animal Care Centre, Raja Garden, New Delhi-27	BVSc&AH/CCSHAU/0 1	25.08.78

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2000	Rakesh Kumar, S/o Shri Hari Prasad	UPVC/4506/06	Moh. Churkhiwal, Distt. Jalaun, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/06	01.06.82
2001	Rakesh Malik, S/o Shri Laxmi Narain	UPVC/4502/06	C-457, Brij Vihar, PO Chandar Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/06	12.12.78
2002	Rakesh Nayar, S/o Sh. Raj Kumar Nayar	HPSVC/770/06	Smila Dental Care Clinic, Opposite Minhas Hospital Chowk, Nadaun, Hamirpur, HP	BVSc&AH/CSKKVV/06	01.10.82
2003	Rakesh Sharma, S/o Shri Ram Niwas Sharma	MPSVC/2328/06	C/o Shri A.K. Dandotia, Torkhedawale, Near Civil Hospital, Duttapura Morena, MP	BVSc&AH/JNKVV/05	03.10.77
2004	Rakesh Singh Negi, S/o Sh. Atar Singh Negi	UVVC/181/06	Studio Lodge, Kulri, Mussorie, Distt. Dehradun, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/91	19.12.67
2005	Rakshe Amol Arvind	MahaSVC/7366/	A/p Sakharwadi, Tal. Phaltan, Distt. Satara-415522, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	08.07.83
2006	Ram Chander Soni, S/o Sh. Jagdish Chander Soni	Pb.SVC/2692/06	C/o Jagdish Chander Soni, Sangam Jewellers Mukherji Market, Abohar, Dt. Firozepur, Punjab	BVSc&AH/RAU/03	07.05.78
2007	Ram Gopal, S/o Sh. Nagendra Ray	BVC/2690/05	Vill. Bangraha, PO Bangraha, PS Bazmatti-843301, Distt. Sita Madhi, Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/05	12.12.76
2008	Ram Jit Dubey, S/o Shri Sadanand Dubey	UPVC/4349/06	Vill. & Post Bhathar, Distt. Jaunpur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/UPAU/69	26.06.48
2009	Ram Kumar Singh Tomar, S/o Shri Baksh Singh Tomar	MPSVC/2338/06	Vill-Patel-Ka-Pura, Ambah, Morean, Madhya Pradesh	BVSc&AH/IGKV/06	20.03.79

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2010	Ram Lakhon Pateriya, S/o Shri Pyarelat Pateriya	MPSVC/2361/06	Vill. & Post Mawai, Tikamgarh, MP-472001	BVSc&AH/JNKVV/06	10.06.65
2011	Ram Niwas Mange Ram	HVC/1936/	VPO Sadalpur, Th. Adampur, Distt. Hisar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/06	21.04.83
2012	Ram Prasad Gurunath Kulkarni, S/o Sh. Gurunath Konher Kulkarni	KarSVC/3823/06	Rohini, Fort Harihar, Davanagere Distt, Karnataka	BVSc/UAS, Biore/88	15.04.65
2013	Ram Prasad Meena, S/o Sh. Badri Narayan	RajSVC/3254/06	Vill. Vijay Pura, Post Rajwas, TEH. Newai Tonk, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	10.08.76
2014	Ram Swaroop, S/o Sh. Santosh Singh	HPSVC/767/06	Vill Bari-Darola, PO Bahana- Jatta, THE. Jundata, Bilaspur, H.P	BVSc&AH/CSKKVV/06	05.12.81
2015	Ramagopala Reddy Karri, S/o Shri K. Satyanarayana Reddy	APSVC/4450/06	Basvi Reddy Center, Kuthukulur, Anaparthi (M), E.G. Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	19.04.81
2016	Ramakrishnaiah, S/o Sh. Kempaiah	KarSVC/3955/07	KT 608, 2nd Cross. Basaveshwara Street, Cauvery Nagar, Mandya- 571401, Karnataka	BVSc/UAS, B'lore/87	01.06.63
2017	Ramamonan Koosanapudi, S/o Shri Venkateswarlu	APSVC/4480/06	D.No. 18-1-49, Stationpet, Near Davi Raju's House, Narsapuram, W.G. Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	29.07.81
2018	Ramandeep Singh, S/o Sh. Gurdev Singh	Pb.SVC/2687/06	1715/13, St.No. 10, Near Post Office, Shimla Puri, Ludhiana, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/ 06	12.02.81
2019	Ramandeep Singh, S/o Sh. Malkiat Singh	Pb.SVC/2681/06	365, Ward No. 5, St.No. 11, Basti Gobindgarh, Moga, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/ 06	20.04.82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
	Ramesh Babu P., S/o Shri P. Ranga Swamy	APSVC/4477/06	H.No. 3-1-13, Opp. SRH School, Betamcherla, Kurnool Dt.-518599, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	05.10.80
2021	Ramesh D., S/o Sh. Doreswamy	KarSVC/3925/06	Bharathinagar, Maddur Tq., Mandya Distt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	12.01.84
2022	Ramesh Kumar Nagesia, S/o Shri Fetwa Nagesia	MPSVC/2329/06	H.No. 2929, Berkheda Padhani, Near Holibara, BHEL Bhopal, MP-462021	BVSc&AH/JNKVV/05	08.05.77
2023	Ramesh Kumar Singh, S/o Sh. Gopikrishan Prasad Singh	BVC/2622/05	Vill. Taju Bigha, PO Mirchigang, PS Nalanda- 803111, Distt. Nalanda,Bihar	BVSc&AH/AAU/05	10.01.80
2024	Ramesh Kumar Tiwari, S/o Sh. Bhola Tiwari	BVC/2706/05	Vill. Kulharia, PO Kulharia, PS Parbatta, Distt. Khagriya,Bihar	BVSc&AH/WBUA&FS/ 05	10.10.79
2025	Ramesh Kumar, S/o Sh. Ram Chandra Mahto	BVC/2648/05	Vill. Madhopur, PO Satanpur, PS Ugiyarpur- 848132, Distt. Samastipur,Bihar	BVSc&AH/BAU/05	05.04.79
2026	Ramesh Kumboju, S/o Shri Nandaiah K.	APSVC/4441/06	H.No. 1-108, Garshakurthy (P), Gangadhara (M), Karimnagar Dt.-505445, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	17.08.81
2027	Ramesha C.B., S/o Sh. Basavarajappa N.	KarSVC/3890/06	Chickenangala Post, Tarikere Tq., Chicomagalur Distt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	02.06.83
2028	Ramgopal Laha, S/o Late Sh. Jagobandhu Laha	WBSVC/3216/06	Vill. Ala, PO Dhaniala-Khali, Distt. Hooghly-712302,West Bengal	BVSc&AH/BCKV/86	02.01.63
2029	Ramu K.C., S/o Sh. Chandrashekar K.C.	KarSVC/3881/06	16/24,Behind Shivanubhava Kalyan Mantap,Basaveswara Block,KR.Nagar- 571602,Mysore Dt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	04.10.83

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2030	Rana Preet Gill, D/o Sh. Karamjit Singh Gill	Pb.SVC/2646/06	H.No. 290, St. No. 2, Preet Nagar Nakodar, Distt. Jalandhar, Punjab	BVSc&AH/PAU/05	26.12.81
2031	Randive Deepak Shankar	MahaSVC/7548/	Bhavanishankar Apartment, A/2- Pokharnagar, Manjaorli, Badlapur (W),Dt.Thane, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	10.10.82
2032	Randive Prasenjit Shripati	MahaSVC/7306/	Tandulwadi Road, Kalpana Nagar, Tal. Kallam, Distt. Osmanabad, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	16.12.80
2033	Rane Gaurav Uday	MahaSVC/7291/	Hindukush Co-op.HSG,Room No11,Nr Liberty Garden Ramabai Marg, Malad (W),Mumbai,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/02	03.01.79
2034	Ranganath G.J., S/o Sh. Jayaramaiah G.N.	KarSVC/3943/06	Gopikkunte, Bargur-572113, Sire Tq., Tumkur Distt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	21.07.83
2035	Ranjan Kumar Sahu, S/o Sh. Subash Chandra Sahu	OVC/2082/06	At Mathura, Distt./PO Ganjam,Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	15.05.81
2036	Ranjan Surendra Kumar, S/o Sh. Naunit Ram Ranjan	DVC/0656/05	H.No. 334, New Rajendra Nagar, New Delhi-60	BVSc&AH/AU/56	13.10.34
2037	Ranjeet, S/o Sh. Moola Ram	RajSVC/3310/06	Ward No. 4, Neem Ka Thana, Sikar, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/05	15.06.76
2038	Ranjeet, S/o Shri Molhuram	UPVC/4510/06	Vill. Phoolpur, PO Utrethu, Distt. Ambedkarnagar,Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/06	05.10.74
2039	Ranjith Kumar Jha, S/o Sh. Harihar Jha	DVC/0594/02	Old Double Storey, J-64, IInd Floor, Lajpat Nagar-IV, New Delhi	BVSc&AH/AAU/90	01.06.76

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2040	Ranum Dabas, D/o Shri P.S. Dabas	UPVC/4423/06	18, Municipality Qtr, Near Company Garden, South Civil Line, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/06	10.01.84
2041	Rao Venkatesware, S/o Sh. Brahmaiah Morta	DVC/0630/04	212, Bank Vihar Apartment, Plot No. 16, Sector-22, Dwarka, New Delhi-110075	BVSc&AH/JNKVV/66	02.07.43
2042	Rashmi K.M., D/o Sh. Mallikarjunaiah A.	KarSVC/3910/06	23/5, 7th Cross, 2nd Floor, Magadi Road, Bangalore-560023, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	10.07.83
2043	Rashmi Mahanta, D/o Sh. Amal Chandra Mahanta	DVC/0647/05	Pet Concern, D-26, GF Lajpat Nagar-II, New Delhi-24	BVSc&AH/AAU/99	02.03.77
2044	Rashmi, D/o Sh. Samendra Singh	RajSVC/3329/06	Kothi Gulzar Baag, Agra Road, Bharatpur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	01.01.80
2045	Raskar Seem Uttamrao	MahaSVC/7193/	Tathe Nagar, Near Dharmadhikari Mala, Savedi, Ahmednagar-414002, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	14.10.81
2046	Rasmita Mali, D/o Sh. Duryodhan Mali	OVC/2045/06	At Saralapadar, PO Balugaon, Distt. Khurda, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	12.06.81
2047	Ratandeep Singh, S/o Shri G.P. Singh	UPVC/4513/06	Vill. & PO Bagahan, Chunar, Distt. Mirzapur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/SDAU/06	17.09.81
2048	Rathod Akos Sitaram	MahaSVC/7556/	237, Ganganagar, Udaya Colony, (Kurudwadi), Hingoli, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/03	15.09.76
2049	Rathod Mahendra Devjibhai	GUJSVC/2778/06	Dr. Ambedkar Street, Nana Kalodra, Ta. Khambhat, Dt. Khambhat, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	05.07.81



<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2050	Rathod Pravin Ramdas	MahaSVC/7230/	At Anvi, Post Kaudhari, Tal. Badanagar, Distt. Jalgaon-421203, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	05.05.82
2051	Rathod Sandip Kishanrao	MahaSVC/7647/	C/o K.V. Rathod, Swami Vivekanand Nagar, Selu, Tal. Selu, Distt. Parbhani-431503, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	16.03.83
2052	Rathod Satish Lakshmanrao	MahaSVC/7405/	At/Post Kauthali (Tanda), Kauthali, Tal. Parli (V), Distt. Beed, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	25.06.80
2053	Rathod Shailendrasing, Udaysing	MahaSVC/7440/	C/o Ramda K. Jadhao, At Pimpalkhuta, Po- Aalanda, Tal. Barshi Takali, Dt. Akola, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	07.11.82
2054	Rathod Vishal Hiranman	MahaSVC/7635/	Kaulkhed Road, Banjara Nagar, Akola-444004, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	19.05.80
2055	Raut Ashavin Sadashivrao	MahaSVC/7353/	Kannamwar Nagar, Behind Bilt Colony, Chamorshi Road, Gadchiroli, Dt. Gadchiroli, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	13.07.82
2056	Raut Avinash Eknath	MahaSVC/7182/	19, Mitra Housing Society, Keshav Nagar, Akola, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	12.02.81
2057	Raut Bharti Manohar	MahaSVC/7148/	60, Nabira Layout, Panchwati, Katol, Distt. Nagpur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	12.06.81
2058	Raut Kavita Anil	MahaSVC/7397/	S.T. Depot, Shevgaon Road, Pathardi, Tal. Pathardi, Distt. Ahmednagar-414107, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	01.06.82
2059	Raut Pranjalil Bhanudas	MahaSVC/7616/	Madhav Nagar, Gaurakshan Road, Akola-444004, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	30.11.81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2060	Raut Sachin Shaligram	MahaSVC/7589/	Navadurga Nagar, Ramtek Pura, Akot, Distt. Akola-444101, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	12.01.84
2061	Ravi Girdhar, S/o Sh. Chandar Prasad Girdhar	DVC/0672/06	F-1129, IInd Floor, CR Park, New Delhi	BVSc&AH/HAU/88	14.04.65
2062	Ravi Kant Gupta, S/o Shri Shrikant Gupta	MPSVC/2339/06	C/o Vinayak Telecom, Indira Chowk, Shahdol, MP-484001	BVSc&AH/IGKV/06	12.10.79
2063	RAVI SUNDAR GEORGE S/o D.GEORGE	TNVC/0705/05	6, SEVENTY FEET ROAD, JAWAHAR NAGAR, CHENNAI 600 082	BVSc/TNAU/84	30-07-60
2064	Ravidev Patel, S/o Sh. Ramvatar Singh	BVC/2685/05	VIII. Nokha, PO Nokha, PS Nokha-802215, Distt. Rohtas, Bihar	BVSc&AH/JNAU/05	05.05.82
2065	Ravinder Kumar, S/o Sh. Raj Kumar	HVC/1933/	VPO Manka Manki, Distt. Ambala, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/06	15.01.77
2066	Ravinder Singh, S/o Sh. Balwinder Singh	Pb.SVC/2660/06	VIII. Dhani Chirag, P/o Nokerian, Tehsil Fariika, Distt. Ferozepur, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/06	15.12.81
2067	Ravindra Dombar, S/o Sh. Basappa Bombar	KarSVC/3868/06	Post Nipanal, Raibag Tq., Belgaum Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	01.04.83
2068	Ravindra Kumar Ravindra, S/o Late Sh. Khushilal Mandal	BVC/2630/05	VIII. Patvar tola, PO Barikodarjanna, PS Sahibganj-816109, Distt. Sahibganj, Bihar	BVSc&AH/RAU/02	21.04.72
2069	Ravindra Kumar Sisodia, S/o Shri N.S. Sisodia	MPSVC/2407/07	VIII. & Post Dobhi, Narsinghpur, MP-487334	BVSc&AH/JNKVV/08	10.10.79

<i>S/NUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2070	Ravindra Prasad Srivastava, S/o Sh. K.M.	RajSVC/3341/06	Central Cattle Breeding Farm, Suratgarh, Sriganganagar, Rajasthan	BVSc&AH/CSAKEP/8 0	01.01.55
2071	Ravindra Yadav, S/o Shri Ram Jit Yadav	UPVC/4463/06	A/P Laxmiganj, Dist. Kushinagar, Uttar Pradesh	BVSc&AH/MAFSU/06	12.01.80
2072	Rego Nicole Lisa Marie Owen	MahaSVC/7271/	3/19, West View, S.V. Road, Santacruz (W), Mumbai-400054, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	18.09.81
2073	Rekhe Dhananjay Shamrao	MahaSVC/7622/	Moreshwar Colony, Akola- 444005, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	27.07.83
2074	Remy Joseph	KeralaSVC/3136/06	Thakndippurath House, Mekkad PO, Kariyad, Ankamaly, Emakulam- 683589, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	01.05.81
2075	Remya M.A.	KeralaSVC/3159/06	50/1484, Remya, New Gardens, Ayyanthole PO, Thrissur-680003, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	06.06.81
2076	Remya V.	KeralaSVC/3146/06	Jayachandra Smaran, Panamattom PO, Koorali, Kottayam-686522, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	26.01.83
2077	Renu, D/o Sh. Suresh Kumar	Pb.SVC/2642/06	Deptt.of Epi Pre Med, COVS, GADVASU, Ludhiana, Punjab	BVSc&AH/CCSHAU/9 9	27.09.77
2078	Resmi T.S.	KeralaSVC/3113/06	Sreekrishna Bhavan, T.C.55/414, Kaiman om North, Rappanamcode PO, Tvm-695018, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	25.05.82
2079	Rewant Ram, S/o Sh. Prahlaad Ram	RajSVC/3252/06	V/P Chokari Kallan, Via. Piper City, Jodhpur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	03.05.77

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2080	Richie, S/o Sh. Rai Sahib	Pb.SVC/2680/06	H.No. 16/715, Sant Vihar, Main Bazar, St. Vaid Trith Raj, Moga, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/ 06	07.03.82
2081	Ridip Kumar Das, S/o Sh. Kaitish Chandra	DVC/0610/02	Incharge PFA Gaushadan, Bawana, Delhi-110039	BVSc&AH/AAU/01	01.03.72
2082	Rindhe Sandeep Narayan	MahaSVC/7633/	Tirupati Balaji Nagar, Botha Road, Sunderkhed, Tal./Distt. Buldana-443001, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	29.12.83
2083	Rinku Narayan, S/o Shri Mahesh Narayan	UPVC/4426/06	Vill. & PO Swangipatti Dumari Hata, Kushinagar, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/0 6	25.10.79
2084	Ripudaman Singh, S/o Sh. Gurcharan Singh	Pb.SVC/2695/07	Ward No. 17, House No. 31, Malout, Mukatsar, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/ 06	14.05.83
2085	Rita Kumari, D/o Sh. Roshan Lal	HPSVC/759/06	Vill. Dehra, PO Hatwar TEH. Ghumarwin Distt. Bitaspur, HP	BVSc&AH/CSKKVV/0 6	07.04.84
2086	RITA NARAYANAN W/o.V.R.BASKAR	TNVC/1799/05	32 / B. AZEEZ NAGAR II STREET, KODAMBAKKAM, CHENNAI 600 024	BVSc/TANUVAS/94	31-10-68
2087	Ritesh Roy, S/o Sh. T.K. Roy	HPSVC/776/06	House No. 37, Near Rest House, V/PO Indora, Distt. Kangra, HP	BVSc&AH/CSKKVV/0 6	19.05.80
2088	Rituparna Das, D/o Sh. Sambhunath Das	WBSVC/3251/06	A-9/98, Kalyani, Dt. Nadia- 741235, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	24.06.83
2089	Rituraj Pal, S/o Sh. Madan Chandra Pal	WBSVC/3290/07	P-25/1, Saratpally, Midnapore(P)-721101, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	23.11.82

<b>SNUM</b>	<b>NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALIF</b>	<b>DOB</b>
2090	Riyesh T.	KeralaSVC/3185/06	Thachamvally PO, REC PO, Chathamangalam, Kozhikode-673601, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	30.05.82
2091	ROBERT ASHA RAJINI S/O KESAVAN CHAKRAVARTHY	TNVC/2306/05	NO.11, 2ND CROSS STREET, RADHAKRISHNAN NAGAR, TIRUVANMIYUR, CHENNAI 600 041	BVSc/TNAU/78	25-10-55
2092	Robinder Singh, S/o Sh. Rajinder Singh	Pb.SVC/2693/06	358, Phase-I, Urban Estate, Patiala-147002, Punjab	BVSc&AH/SKUAS&T/ 06	23.07.82
2093	ROBINSON J.J. ABRAHAM S/o S.ABRAHAM	TNVC/2917/05	324, SIXTH MAIN ROAD, VENKATRAMAN NAGAR, HASTHINAPURAM, CHENNAI 600 064	BVSc/TNAU/81	11-01-57
2094	Rohankar Rahul Upasrao	MahaSVC/7273/	Upasrao Villi, Near Govt. Rest House, Pralpur Nagar Partur, Tal. Partur, Distt. Jalna, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/03	01.09.81
2095	Rohi Nilesh Ravindra	MahaSVC/7176/	5, 'Indira' Ring Road, Akola, Tal. Distt. Akola, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	22.01.81
2096	Rohit Kumar Soni, S/o Shri Kundan Lal Soni	UPVC/4551/07	Vill. Ghazipur, Distt. Fatehpur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/IGKVV/06	16.07.82
2097	Rohit Mathur, S/o Sh. Govind Swaroop Mathur	DVC/0661/05	E-70, Chotu Singh Block, Asiad Games Village Society, New Delhi-49	BVSc&AH/CCSHAU/0 5	23.05.78
2098	Rohit Singh, S/o Sh. Virendra Pal Singh	RajSVC/3337/06	2-B-2, Mahaveer Nagar-III, Kota, Rajasthan	BVSc&AH/JNKVV/06	30.12.81
2099	Rohmehtra Satishkumar Luxmichand	MahaSVC/7694/	Greenfield Farms, Railway Crossing, Theur, Tal. Haveli, Distt. Pune-412110, Maharashtra	BVSc&AH/GBPKEPV V/76	20.03.53

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2100	Rohtash Mittal, S/o Sh. Pawan Kumar Mittal	Pb.SVC/2675/06	25, Mota Singh Nagar, NR. Tej Bagh Colony, Sanour Road, Patiala, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/ 06	17.07.83
2101	Rojan P.M.	KeralaSVC /3127/06	Palakkattil, Kizhayoor PO, Pattambi, Palakkad Distt.- 676303, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	04.01.81
2102	Roon Marian Mathai	KeralaSVC /3133/06	Puthiyadathu Surabhi, DBRA, 29(A), Nanthencode, Kowdiar PO, Tvm-695003, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	05.01.83
2103	Roshni Budh, D/o Sh. Anand Budh	OVC/2104/07	At/PO Sorda, Via Purnapani, Distt. Sundargarh, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	10.08.83
2104	Rubina Kumari Baithalu, D/o Sh. Jogendra Nath Baithalu	OVC/2067/06	C/o J.N. Baithalu, At/PO Khalda, Distt. Cuttack, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	07.06.82
2105	Ruby Augustine	KeralaSVC/3139/06	Providencia H.No. 28/790, Chevayur PO, Kozhikode- 673017, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	27.01.82
2106	Ruchi Tiwari, D/o Shri J.L. Tiwari	MPSVC/2392/05	B.T.I. Quarters, Shahdol, MP	BVSc&AH/JNKVV/06	19.10.82
2107	Ruchi Tripathi, D/o Shri Ravikant Tripathi	MPSVC/2384/06	J-10, Indraprastha, Airport Road, Lalghati, Bhopal, MP	BVSc&AH/JNKVV/06	24.03.81
2108	Rupali Saxena, D/o Sh. Ashok Kumar Saxena	DVC/0640/04	115, Vasudha Apartments, Sector-9, Rohini, Delhi- 110085	BVSc&AH/PAU/02	14.03.77
2109	S. ARUNACHALAM S/o A. SRINIVASA NADAR	TNVC/0837/05	1444, THIRUVALLUVAR NAGAR, ANNA NAGAR WEST EXTN, MOGAPAIR, CHENNAI 600 037.	BVSc/Uni of Madras/69	02-10-44

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2110	S. ARUNKUMAR S/o R.SELVARAYAR	TNVC/3021/05	NO.4 / 668, PALAYAMKOTTAI NORTH (POST) KATTUMANNAR KOIL (TK) CUDDALORE DISTRICT PIN 608 701	BVSc/TANUVAS/95	04-06-71
2111	S. Ashok Kumar S/o Sh. J.V. Sundararajan	TNVC/3589/06	Plot No. 4333, Y Block No. 2, V Main Road, Anna Nagar, Chennai- 600040, Tamil Nadu	BVSc/MVC/84	09.09.59
2112	S. AYYAPPAN S/o V.SUBBURAMANUJAM	TNVC/0740/05	OLD NO 4, NEW NO.10, 'N' STREET, KILPAUK GARDEN COLONY, CHENNAI 600 010.	BVSc/TNAU/86	02-03-63
2113	S. Ayyappan, S/o Sh. V.U. Surulivel	TNVC/3784/07	S.V. Clinic, Valyappamalai PO, Tiruchengodu Taluk, Namakkal-637410, Tamil Nadu.	BVSc/TANUVAS/92	14.03.70
2114	S. BAEGAN S/o M.SABAPATHY	TNVC/2980/05	FLAT 198 / 7, 'GREEN FIELDS" R-30A, ANNA NAGAR WEST EXTN., CHENNAI 600 101	BVSc/TNAU/81	09-10-57
2115	S. BALACHANDRAN S/o S.SUBBIAH	TNVC/3097/05	8 / 7, SRI RAM SQUARE, NGO 'A' COLONY, TIRUNELVELI 627 007	BVSc/Uni of Madras/71	20-10-47
2116	S. BALASUNDARAM S/o S.SRINIVASAN	TNVC/2220/05	3362 AR 8TH STREET, A.F. BLOCK, 11TH MAIN ROAD, ANNA NAGAR, CHENNAI 600 040.	BVSc/Uni of Madras/63	17-06-40
2117	S. Benjamin Ratnasingh, S/o Sh. A.S. Peter	TNVC/3618/06	802/A6, Kirubal lillam, Sultanpet, Fingerpost, Uthagamandalam- 643001, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/87	02.02.59
2118	S. DHANDAPANI S/o N.S.SUBRAMANIAN	TNVC/1542/05	NEGANUR & POST, GINGEE TK, VILLUPURAM DIST. 604 202.	BVSc/TANUVAS/96	05-06-73
2119	S. DHARMACEELAN S/o S.A.SARAVANAMUTHU	TNVC/1290/05	62, N.G.O. NEW COLONY, JAWAHAR NAGAR, TIRUNELVELI - 7	BVSc/TANUVAS/95	23-05-72

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2120	S. Easwar, S/o Sh. A. Somasundaram	TNVC/3793/07	Singalandapuram PO, Rasipuram Taluk, Namakkal-637412, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/93	10.06.70
2121	S. ELANGO VAN S/o S.C.SUBRAMANY	TNVC/1294/05	NO.57, KUTTAIMALE STREET, NAMAKKAL 637 001	BVSc/UAS,B'lore/91	11-06-68
2122	S. GENGARAJ S/o V.SRINIVASAN	TNVC/1230/05	214 / 6, 3RD STREET, RAJIVNAGAR, KOVILPATTY - 628501, THOOTHUKUDI (DT)	BVSc/TNAU/80	09-05-58
2123	S. GNANALAKSHMI S/O K.SUBBIAN	TNVC/2435/05	14, BAJANA KOODA STREET, NEW BAZAAR, ARUPPUKOTTAI 626 101, VIRUDHUNAGAR DISTRICT	BVSc/TANUVAS/98	15-03-74
2124	S. Hemalatha, S/o Sh. T. Senthilnayagam	TNVC/3576/06	No.15, Ram's Flats,1 Southmada St,Srinagar Colony,Saidapet,Chennai-15,Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/91	07.04.68
2125	S. JAISHANKAR S/o T.M.SELVARAJAN	TNVC/2004/05	PLOT NO.251, ARUL NAGAR, GUDUVANCHERI, KANCHIPURAM DT, PIN : 603 202.	BVSc/TANUVAS/99	19-05-74
2126	S. JAYARAMAN S/O SANGAVA NAICKER	TNVC/2388/05	65/3, CHIDAMBARAM GARDENS, JAWAHARLAL NEHRU ST, SRIVILLIPUTHUR 626 125.	BVSc/TNAU/81	04-03-58
2127	S. Jeyakumar, S/o Sh. S.R.S. Sakthivel	TNVC/3622/06	4-1-110, Velmooper Street, Ramnagar Extn. T.Kalluppatti, Madurai-625702,Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/95	01.06.72
2128	S. Kalaiyarasu, S/o Sh. P. Semmannan	TNVC/3584/06	Checkumedu, Chinnappampatti PO, Omalur Taluk, Salem Distt.,Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/05	15.04.82
2129	S. KATHIRVEL S/o R.SHANMUGAM	TNVC/1289/05	8 / 41, GURUSAMIPALAYAM POST, RASIPURAM TK. NAMAKKAL DISTRICT 637 403	BVSc&AH/Dr.PRDKV P/95	24-05-72



<i>S/NUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2130	S. KAVITHA S/o A.SANTHANAKUMAR	TNVC/0749/05	PLOT No.4, M.G. ROAD, SENDILNAGAR EXTN.(S), CHROMEPET, CHENNAI - 600 044	BVSc/TANUVAS/95	19-06-72
2131	S. MANOHARAN S/o M.SHANMUGAVEL	TNVC/3195/05	4 / 165, RAMSON NAGAR, IIND STREET, PUDUKOTTAI, THOOTHUKUDI DISTRICT, PIN 628 103	BVSc/TANUVAS/98	13-06-73
2132	S. MANOHARAN S/o R.SEERALAN	TNVC/2944/05	NORTH STREET, ULAGANKATHAN POST, KALLAKURICHI TALUK, VILLUPURAM DISTRICT PIN 608 202	BVSc/TANUVAS/92	15-05-69
2133	S. Manokaran, S/o Sh. A. Sakthivel	TNVC/3656/06	46-C,Kulathu St.Senthampalayam,Salang apalayam PO,Kavindapadi Via,Erode-638455,Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/00	05.05.75
2134	S. MOHANRAJ S/o S.SELVARAJ	TNVC/2870/05	3 / 7, SENGALIAPAN NAGAR, V.K.ROAD, PEELAMEDU, COMBATORE - 4.	BVSc/TANUVAS/00	19-03-75
2135	S. NAGARAJAN S/O V.SHANMUGA SUNDARAM	TNVC/2409/05	161/126, STATE BANK COLONY III. SALEM 636 004	BVSc/TANUVAS/95	01-05-72
2136	S. NAGARAJAN S/o V.SUBRAMANIAM	TNVC/2955/05	E4, STAFF QUARTERS, LIVE STOCK RESEARCH INSTITUTE, KATTUPAKKAM - 603 203	BVSc/TNAU/83	06-03-56
2137	S. Nagarajan, S/o Sh. S. Sadayan	TNVC/3614/06	32/A 93-B Gandhi Nagar, Salem Camp PO, Mettur Dam, Salem-638456,Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/92	04.04.67
2138	S. Natarajan, S/o Sh. K. Shanmugam	TNVC/3639/06	11, Subramaniya Siva Street, Pauparapatti PO, Dharmapuri Distt. - 636809,Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/06	02.06.82
2139	S. NEDUNCHELLIYAN S/o U.SINGARVELU	TNVC/0718/05	28, S.R.P. COLONY, PAPER MILLS ROAD, CHENNAI 600 082	BVSc/Uni of Madras/69	09-05-47

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2140	S. PANCHAPAKESAN S/o SANKARA SUBRAMANIAN	TNVC/2796/05	NO.9, NORTH MADAVILAGAM, THIRUVAIYARU POST, THANJAVUR DIST 613 204.	BVSc/TNAU/76	09-06-53
2141	S. Panneerselvam, S/o Sh. N. Santhan	TNVC/3632/06	11-E/2, Swami Sivananda Salai Rasipuram PO, Namakkal-637408, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/79	29.06.56
2142	S. Parthasarathy, S/o Sh. Sudhansu Bhusan Swain	OVC/2120/07	At/PO Bayree, Distt. Jajpur, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	07.07.83
2143	S. PRABHAKARAN S/o J.SAMUEL RAJ	TNVC/1488/05	258 / D, DR.RUFUS STREET, JOTHI NAGAR, ATTUR, SALEM DISTRICT PIN - 636 102	BVSc/TANUVAS/00	17-06-74
2144	S. PRATHABAN S/o P.SETHUPANDIAN	TNVC/0771/05	88, THIRD MAIN ROAD, GANDHI NAGAR, ADYAR, CHENNAI 600 020.	BVSc/TNAU/80	10-07-57
2145	S. RAJAMOHAN PARAMASIVAM S/o P.SUBBIAH	TNVC/2739/05	11-2 / 9, KAMARAJ STREET, KOMBAL, THENI DIST 625 522.	BVSc/TANUVAS/95	29-07-72
2146	S. RAJARAMAN S/o V.SANKARAN	TNVC/1617/05	OLD NO.11 / 77, NEW NO.11 / 21, SAM TOWERS, MUNUSAMY SALAI, K.K.NAGAR (WEST) CHENNAI 600 078	BVSc/TNAU/88	23-03-66
2147	S. RAJASEGARAN S/o S.P.SANKARANARAYA NAN	TNVC/2852/05	14 / 3, KANDASAMY LAYOUT FIRST STREET, K.K. ROAD, VILLUPURAM 605 602.	BVSc/Uni of Madras/73	15-09-47
2148	S. RAMAKRISHNAN S/o M.SUBRAMANIAM	TNVC/3232/05	SOUTH SELLAPPAMPALAYAM, IRUKKUR (PO) PARAMATHY VELUR (TK) NAMAKKAL DISTRICT PIN 637 204	BVSc/TANUVAS/94	25-04-70
2149	S. RAMESH S/o T.SIDDHAN	TNVC/1524/05	38 / 72,13, GANDHI NAGAR, DHARMAPURI, PIN 636 701.	BVSc/TANUVAS/02	31-07-79

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2150	S. Ravi Veerappa, S/o Sh. V. Sekar	TNVC/3590/06	Kuruvikkarambai Post, Peravurani Taluk, Thanjavur Distt.- 614902, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/04	31.05.80
2151	S. SANKAR S/o M.SUBRAMANIYAN	TNVC/0942/05	NO.1, OLD WEAVER'S COLONY FIRST STREET, VEERALAKSHMI NAGAR, ARUPUKKOTTAI POST, VIRUDHUNAGAR DISTRICT.	BVSc/TANUVAS/95	09-06-72
2152	S. Sankaraingam, S/o Sh. M.P. Sadachiva Nadar	TNVC/3655/06	65/40, Raju Nagar, Jothipuram PO Coimbatore- 641047, Tamil Nadu	BVSc/MU/68	15.05.46
2153	S. SARAVANAN S/o M.K.SELLAPPAN	TNVC/3142/05	KADAPALLAI ROAD, MUDALAI PATTY PUDUR, MUDALAI PATTI POST, NAMAKKAL DIST 637 003.	BVSc&AH/MAU/95	30-05-73
2154	S. SARAVANAN S/o S.SENGOTTAIAN	TNVC/2762/05	108, RANA NAGAR, TEACHERS' COLONY, ERODE 638 011.	BVSc/TANUVAS/02	20-11-77
2155	S. SARAVANAN S/o R.SUBRAMANIAN	TNVC/0816/05	6 / 846, E.B. COLONY, PARAMATHY ROAD, NAMAKKAL 637 001.	BVSc/TANUVAS/98	25-06-74
2156	S. Sargunam, S/o Sh. G. Sadhanandhan	TNVC/3535/06	5/5, Mullai Nagar 1st Cross Street, Ramapuram, Chennai-600089, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/06	28.12.80
2157	S. SATHESHKUMAR S/o R.SOUNDARA PANDIYAN	TNVC/2960/05	6, NARMADA STREET, YAGAPPA NAGAR, THANJAVUR 613 007	BVSc/TANUVAS/94	18-12-70
2158	S. SELVAKUMAR S/o P.SHANMUGAM	TNVC/2751/05	4 / 13, SERUKKALAI POST, VELAGOUNDANPATTI VIA, NAMAKKAL DIST, PIN : 637 212.	BVSc/TANUVAS/00	16-07-75
2159	S. SELVAM S/o E SEETHARAMA REDDI	TNVC/1243/05	VALAIYAPPATI, HIRAYANAMANGALAM (PO), KULITHALAI (TK), KARUR (DT) 639 145	BVSc/TNAU/82	18-01-57

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2160	S. Selvamaniappan, S/o Sh. M. Subramanian	TNVC/3794/07	2/57, Chetty Street Perakkai, Kanyakumari- 629601, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/97	15.07.74
2161	S. Selvaraj, S/o Sh. K. Soliyagowder	TNVC/3610/06	20, Krishna Raja Nagar, Near New Thillai Nagar, P.N. Pudur PO, Coimbatore- 641041, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/84	21.01.61
2162	S. SELVASUBRAMANIAN S/o S. SWAMINATHAN	TNVC/0787/05	B3FF, SUBHIKSHA APARTMENTS, OLD NO.26(NEW NO.22), SHERFUDEEN STREET, CHOOCLAIMEDU, CHENNAI 600 094	BVSc/TNAU/78	08-10-55
2163	S. SENATHIRAJA S/O S.SIVALINGAM	TNVC/2719/05	ANNA NAGAR, KULAMANGALAM (N) P.O. ALANGUDI (TK) PUDUKKOTTAI DISTRICT PIN 614 624	BVSc/TANUVAS/98	04-07-75
2164	S. SENTHIL KUMAR S/O P.SETHU	TNVC/2449/05	3/538, SUNDARAJA PATTINAM, PARAMAKUDI 623 707, RAMANATHAPURAM DISTRICT	BVSc/TANUVAS/97	19-05-74
2165	S. SENTHIL KUMAR S/O A.SUBRAMANIAM	TNVC/1275/05	3 / 25, BHARATHI NAGAR, NEAR RELIANCE OFFICE, MOHANUR ROAD, NAMAKKAL 637 001	BVSc/TANUVAS/01	17-07-78
2166	S. SENTHILKUMAR S/o C.SUBRAMANIAN	TNVC/1743/05	13 / 10, LEATHER GODOWN STREET, ARIYALUR 621 704, PERAMBALUR DISTRICT	BVSc/TANUVAS/97	08-06-73
2167	S. Shanmugavel, S/o Sh. S. Subbiah	TNVC/3602/06	Korukkampatti, Vadakarai PO, Rajapalayam Taluk, Virudhunagar Distt., Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/91	07.09.64
2168	S. SIVAGNANAM S/o M.SHANMUGASUNDAR AM	TNVC/1251/05	1 / 3 - NORTH STREET, SAMIYARPATTY POST, GANDHIGRAM (VIA) DINDIGUL - 624 312	BVSc/TANUVAS/01	17-12-74
2169	S. SIVAKUMAR S/o K.SARGURUNATHAN	TNVC/3131/05	13, KANNIMAR KOIL STREET, VADUGAPATTI P.O. PERIYAKULAM (T.K.) THENI DISTRICT	BVSc/TANUVAS/98	06-05-75

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2170	S. SIVASEELAN S/o S.SOUNDARAPANDIAN	TNVC/0733/05	W-2, MOSQUE STREET, GUDALUR 625 518, THENI DISTRICT	BVSc/TANUVAS/93	31-10-69
2171	S. SRI SAI S/o V.JESUDAS SELVARAJ	TNVC/0865/05	18, KOVALAN NAGAR II STREET, T.V.S. NAGAR, PALANGANATHAM, MADURAI -3.	BVSc/TANUVAS/98	15-02-74
2172	S. SUBATRA W/o.G.R.BARANIDHAR AN	TNVC/1859/05	OLD NO.66, NEW NO.20, FIRST MAIN ROAD, C.I.T.NAGAR, CHENNAI 600 035	BVSc/TANUVAS/98	04-05-74
2173	S. SUKUMAR S/o S. SUNDARAMOORTHY	TNVC/1867/05	Q-35, AGATHIAR NAGAR, VILLIVAKKAM, CHENNAI 600 049	BVSc/TNAU/74	01-12-51
2174	S. SUMATHI W/o.K.THANGARASU	TNVC/1191/05	46 / 54, THILLAI PURAM, Ist ST.NAMAKKAL 637 001.	BVSc/TANUVAS/98	25-07-74
2175	S. SURESH KUMAR S/o S.SUNDARAM	TNVC/0652/05	4 / 1, ANAIPPALAYAM VILLAGE, ANDAGALUR GATE-POST, RASIPURAM -TK, NAMAKKAL DiST. 637 401	BVSc/TANUVAS/96	30-06-73
2176	S. Swaminathan, S/o Sri. P. Subramaniam	TNVC/2779/07	Mannathampalayam PO, Erode-638153, Tamil Nadu	BVSc/MU/61	01.12.37
2177	S. THOMASINA W/o.G.RAJA	TNVC/1511/05	6 / 1B, OLD KATPADI ROAD, VELLORE 632 004	BVSc/TANUVAS/96	20-04-72
2178	S. USHA KUMARY S/o C.P.CHANDRA MOHAN	TNVC/2245/05	59, STRAHAN'S ROAD, R.C.GREENWOODS, FLAT D2, PATTALAM, CHENNAI- 12.	BVSc/TNAU/88	28-06-66
2179	S. VAIRAMUTHU S/o R.SUBBIAH	TNVC/1505/05	30, THIRUMALAIGAI STREET, NANGUNERI - 627 108 TIRUNELVELI DISTRICT	BVSc/TNAU/88	15-03-64

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2180	S. VASANTHA KUMAR S/o V.SWAMIDOSS	TNVC/0885/05	PLOT NO.10, D.NO.12 / 883B, 28TH STREET, IIND CROSS SHANTHI NAGAR, TIRUNELVELI 627 002.	BVSc/TANUVAS/00	25-05-75
2181	S. VASUKI S/o K.SUBRAMANIAM	TNVC/1926/05	5-B2 / 2, ANBU NAGAR, MANAKKADU, HASTHAMPATTI, SALEM - 636007	BVSc/TANUVAS/1995	25-07-71
2182	S. VENKATĒSAN S/O A.SUNDARAM	TNVC/2461/05	42(2), ANNAI SATHYA NAGAR, NAMAGIRIPET POST, NAMAKKAL DIST 637 406.	BVSc/TANUVAS/93	12-06-70
2183	S.A. ASOKAN S/O S.M.ARUNACHALAM	TNVC/2316/05	68, IVTH STREET, SECRETARIAT COLONY, LAKSHMIPURAM, CHENNAI 600 099	BVSc/TNAU/84	15-08-57
2184	S.A. JOSEPH S/o A.M. SAVERINATHAN	TNVC/1872/05	2 / 4, 10TH TRUST CROSS STREET, MANDAVELLIPAKKAM, CHENNAI 600 028	BVSc/Uni of Madras/58	16-11-32
2185	S.Anitha,D/o Selvaraj	PondiSVC/282/06	No.7,Anna Street, Dr.R.K.Nagar,Kathirkamam, Pondicherry	BVSc&AH/Pondi Uni/05	3.12.83
2186	S.C. Bhartiya, S/o Shri Mahaveer Bhartiya	UPVC/4370/06	Vill. Atta, PO Babu Ganj (Ghiyanagar), Allahabad, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDAUA&T/ 06	12.05.77
2187	S.DEVADOSS S/o R.SWAMINATHAN	TNVC/1795/05	4 / 2, GANDHI NAGAR I STREET, MELUR, MADURAI DISTRICT	BVSc/TNAU/88	22-05-61
2188	S.EZHIL VALAVAN S/O N.SUBBIAH	TNVC/2265/05	ROSE NAGAR, ELAMBALUR ROAD, PERAMBALUR P.O. PIN 621 212	BVSc/TANUVAS/97	05-06-74
2189	S.G. KANAGA SUHILA W/O J.KENNEDY LINGAM	TNVC/2775/05	5, VELAYUTHA PANDIAN STREET, OLD WASHERMANPET, CHENNAI 600 021.	BVSc/TANUVAS/94	17-05-71

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2190	S.K. Prakash, S/o Sh. K. Kandasamy	TNVC/3657/06	1/2-E, Periyapatty Road, Ponnarsankar Nagar, Namakkal-637041, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/92	04.06.68
2191	S.K. Singh, S/o Shri R.N. Singh	UPVC/4382/06	Near Pani Ki Tanki, M.N. 1373/9, Vivekanandnagar, Sultanpur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDAUA&T/06	11.12.81
2192	S.K. Singhal, S/o Shri R.S. Singhal	UPVC/4546/06	19-A, North Arjun Nagar, Agra, Uttar Pradesh	BVSc&AH/JNKVV/06	01.07.76
2193	S.K. Srivastava, S/o Shri K.L. Srivastava	UPVC/4527/06	Vill. & PO Gorariya, Distt. Kushinagar, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/06	15.08.79
2194	S.M. SAKTHIVELAN S/o S.MASILAMANI	TNVC/2738/05	552, KVK SAMY STREET, PERIYAR NAGAR, CHENNAI 600 039.	BVSc/TANUVAS/95	13-04-72
2195	S.M.K. KARTICKEYAN S/o M.KANNIAPPAN	TNVC/1470/05	101, CHINNAMANIKYAKARA STREET, CHENGALPATTU 603 001	BVSc/TANUVAS/93	17-06-70
2196	S.Mohammed Azamatulla Shariff, S/o Salar Shariff	PondiSVC/294/06	NO.27, Jasmine Street, Opp Patrick School, Thanthal Periyar Nagar, Pondicherry	BVSc&AH/APAU/79	14.10.56
2197	S.N. SIVASELVAM S/o C.NAGALINGAM	TNVC/372/05	35 / 3, (OLD NO.16 / 3), AMEERJAN STREET, CHOOLAIMEDU, CHENNAI 600 094	BVSc/TNAU/79	24-10-57
2198	S.P. ANBUMANI S/o PERIASAMY	TNVC/1900/05	OLD NO. 1853, NEW NO. 148, 6TH AVENUE, ANNA NAGAR WEST, CHENNAI - 600040	BVSc/Uni of Madras/62	12-01-39
2199	S.P. RAJKUMAR S/o S.PONNUSWAMY	TNVC/3016/05	A162, N.G.O. COLONY, GANDHI NAGAR, NAGERCOIL 629 002, KANYAKUMARI DISTRICT	BVSc/TANUVAS/95	04-04-72

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2200	S.P. VINIL S/o H.SAMRAJ	TNVC/2100/05	21/28, DOUBLE STREET, THIRUVATTAR & PO, PIN 629 177, KANYAKUMARI DIST.	BVSc/TANUVAS/00	06-06-76
2201	S.R. SRINIVASAN S/o S.D.RAMASWAMY	TNVC/0767/05	PLOT NO.46, K.K.R. NAGAR, MADHAVARAM, CHENNAI 600 060.	BVSc/TNAU/79	01-12-55
2202	S.Ramesh, S/o M.Subramani	PondiSVC/281/06	No.27, Iyyinar Koil Street, Kuyavarpalayam, Pon dicheery -13	BVSc&AH/Pondi Uni/05	12.5.84
2203	S.S. Chaudhary, S/o Shri Gajraj Chaudhary	UPVC/4473/06	VIII. Pokherbhitwa, PO Saltowa, Distt. Basti, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAU&T/ 06	17.08.81
2204	S.SANTHOSH KUMAR S/o C.SIVANATHAN	TNVC/0655/05	MIG - 412, TNHB, VENNAMPATTY ROAD, DHARMAPURI 636 705	BVSc/TANUVAS/01	17-1-76
2205	S.Senthilkumar, S/o G.Sel varaj	PondiSVC/292/06	8, Sivan Koil Street, Thakkalour, Thirunalla r(PO), Karaikal (T.K), Pondicheery	BVSc&AH/Pondi Uni/05	25.11.80
2206	S.Sivakumar, S/o Sh.M.Shanmugam	TNVC/3651/06	8/39, Kandasampuram Street, Mudukulathur, Ramna d District, Tamil Nadu	MSV/MSAVM&BT, Mo scow/01	5.05.73
2207	S.V. VEERARAGHAVAN S/o S.VEDAGIRI	TNVC/2090/05	351/89, GANDHI ROAD, SRIPERUMBUDUR 602 105.	BVSc/Uni of Madras/65	01-07-38
2208	S.Vadivukarasi, D/o S.Sivapragassam	PondiSVC/286/06	No.5, Karpaga, Vinaygar Koil St., Kurinji Nagar, Lawapet, Pondicherry	BVSc&AH/Pondi Uni/05	5.10. 83
2209	S.VIGIL ANBIAH S/o A.SATHIAVAKOO	TNVC/2256/05	NO.B1, R.S.A. HOUSING COMPLEX, ANNAMALAI UNIVERSITY, ANNAMALAI NAGAR 608002	BVSc/TANUVAS/94	27-08-71



<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2210	S. Wetwiton Lyngdoh(M), S/o (L) P. S. Kharkongor Myliem	MeghSVC/247/07	Syllai-U-Lor, Shillong- 9, Meghalaya	BVSc&AH/AAU/07	14.10.78
2211	Sabale Siddharth Suryakant	MahaSVC/7703/	C/o Phalke B.S., Main Colony, M-11/516, A/p Walchandnagar, Tal. Indapur, Dt. Pune, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	16.10.83
2212	Sabale Varsha Vishnu	MahaSVC/7341/	Kowadi Kukadi Colony, Kowadi Road, Kowadi, Tal. Karjat, Dt. Ahmednagar, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	27.03.83
2213	Sachin Kumar Jain, S/o Shri N.K. Jain	MPSVC/2419/07	H.No. 446, Near Nanhe Jain Mandir, Hanumantal, Jabalpur, MP-482002	BVSc&AH/JNKVV/06	04.01.82
2214	Sachin Samaiya, S/o Shri Santosh Samaiya	MPSVC/2390/06	Kirana Merchant, Main Road, Karrapur, Sagar, MP- 470337	BVSc&AH/JNKVV/06	09.01.79
2215	Sachindra Kumar Sharma, S/o Sh. Trilok Chandra Sharma	UVC/223/06	B-5, Pashulok Farm, Rishikesh, Distt. Dehradun, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/9 1	03.08.66
2216	Sadarao Bharat Lotan	MahaSVC/7153/	At Zotwade, Tal. Shindkheda, Distt. Dhule, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	17.08.80
2217	Sadarlya Kamlesh Amarshibhai	GUJSVC/2765/06	At & Po Navagam (Patei Nagar), Ta. Malla (M), Distt. Rajkot-363670, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	01.06.83
2218	Sah Bajlu Rahman Ozair, S/o Sh. Sah Havilur Rahman	BVC/2667/05	Vill. Lakhmikiya, PO Balya, PS Balya, Distt. Begusarai, Bihar	BVSc&AH/Raj.A.U/79	06.03.56
2219	Sahane Arun Mahadeo	MahaSVC/7215/	A/p Ale, Tal. Junner, Distt. Pune-413412, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	24.10.81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2220	Sahare Mahesh Gajanan	MahaSVC/7447/	Surveeyor Colony, H.No. 11, New Gurudwara Road (Tukum), Distt. Chandrapur- 442401, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	11.02.82
2221	Sahitya Bhushan Yadav, S/o Shri Hotiram Yadav	UPVC/4494/06	VIII. Govind Yapur, PO Maujeipur, Distt. Mainpuri, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GSAUA&T/ 06	24.04.80
2222	Sai Prakash S., S/o Sh. Sreerama Reddy S.N.	KarSVC/3940/06	Sangatapalli Village, Pathpalya 561212, Bagapalli Tq., Kolar Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	18.06.83
2223	Saikia Manaswinee, D/o Sh. Prabhat Saikia	ASM/2264/07	North Haiborgaon, Nagaon- 782002, Assam	BVSc&AH/AAU/07	23.10.79
2224	Saikia Tarun Kumar, S/o Sh. Jinaram Saikia	ASM/2276/07	Barathiabari, PO Janaram Choika, Distt. Darrang- 784125, Assam	BVSc&AH/AAU/07	30.06.82
2225	Sajesh M.G.	KeralaSVC/3169/06	Maramcherry House, Vesupuram, Mattatyhuukunnu PO, Thrissur-680684, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	20.03.82
2226	Saket K Niranjn, D/o Sh. Keshav Dass	HPSVC/783/06	NIRS Garsa, (Via- Bhunter), Distt. Kullu, H.P.- 175141	BVSc&AH/GBPUA&T/ 00	20.06.76
2227	Saket Yadav, S/o Shri Bajj Ram Yadav	UPVC/4419/06	VIII. Khemavpur, PO Chandesar, Distt. Azamgarh, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUA&T/ 06	24.04.81
2228	Sakharam Kanastya, S/o Shri Batha	MPSVC/2368/06	Vaikaunth Nagar, Near SSM School, Jaswari Road, Khandwa, MP-450001	BVSc&AH/JNKVV/06	11.05.79
2229	Sakhare Meerabai Pundlikrao	MahaSVC/7277/	Datta Nagar, Parbhani, Tal. Distt. Parabhani, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	26.12.81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2230	Salendra Singh Bisht, S/o Sh. T.S. Bisht	UVC/269/07	Malviya Udhyan, Kotdwara Distt. Pauri Garhwal, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/8 1	09.02.58
2231	Saigar Suhas Birappa	MahaSVC/7711/	A/p Gunjegaon, Tal. Mangalwedha, Distt. Solapur-413305, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	19.07.84
2232	Salil Kumar Jain, S/o Shri S.C. Jain	MPSVC/2347/06	44, Gorakhpur, Jabalpur, MP-482001	BVSc&AH/JNKVV/75	27.09.52
2233	Salke Dinkar Babanrao	MahaSVC/7466/	Jai Bhawani Transport, Patil Mala, A/p Jawala, Tal. Parner, Distt. Ahmednagar- 414306, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	29.05.82
2234	Salunkhe Anandrao	MahaSVC/7268/	Bhai Kotwal Road, Chopda, Tal. Chopda, Distt. Jalgaon- 425107, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	25.07.81
2235	Salunkhe Samadhan Chandrakant	MahaSVC/7715/	At Akola (Wasud), Tal. Sangala, Distt. Solapur- 413307, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	07.05.83
2236	Salunkhe Vishal Anandrao	MahaSVC/7281/	Bhai Kotwal Road, Chopda, Tal. Chopda, Distt. Jalgaon- 425107, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/02	29.12.79
2237	Samarchith P. Kurup	KeralaSVC/3176/06	Gayathri, Edappally PO, Cochin-682024, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	09.01.83
2238	SAMARENDRA NARAYANAN S/o WG.CDR.K.PA. NARAYANAN	TNVC/0379/04	8.EX SERVICEMEN ENCLAVE, SELAIYUR, CHENNAI 600 073, TN	BVSc&AH/GBPUA&T/ 80	19-01-58
2239	Sameta Ramesh Bhumaiyya	MahaSVC/7671/	Diggi Balaji Mandir, Parbhani, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	18.06.84

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2240	Samir De, S/o Lt. Jogesh Ch. De	TripuraSVC/164/06	C/o Lt. Jogesh Ch. De, Old Thana Road, Banamalipur, Agartala, Tripura	BVSc&AH/BCKVV/79	25.01.52
2241	Samir Kumar Maiti, S/o Sh. Sasanka Sekhar Maiti	WBSVC/3221/06	Vill. Paschimaita, PO Bhagirathpur, Distt. Paschim Midnapur-721136, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/05	01.03.83
2242	Samit Ghosh, S/o Sh. Netai Chandra Ghosh	WBSVC/3266/06	Vill. Moheshpur, PO Jagalari, PS Jangipara, Distt. Hooghly-712403, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/06	01.01.83
2243	Samuel Vijayasekar Muthiah, S/o Sh. N.S. Muthiah	TNVC/3634/06	14/33, Thyagaraya Gramani Street (North Usman Road), T. Nagar, Chennai-17, Tamil Nadu	BVSc/MU/72	20.06.47
2244	Sanap Maharudra Jagannath	MahaSVC/7691/	At Tagadgaon, Tal. Shirur (KA), Distt. Beed-431122, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	07.07.82
2245	Sanatan Majhi, S/o Sh. Hejam Charan Majhi	OVC/2092/06	At Ichinda Road, PO Rairangpur, Distt. Mayurbhanj, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	28.03.80
2246	Sandeep Gulia, S/o Sh. Rajbir Singh	HVC/1934	C/o Vijaya Bank, Santpura, City Kaithal	BVSc&AH/GBPUA&T/06	21.11.82
2247	Sandeep Kumar,	DVC/0597/02	210/3A, Mchalla Doonaghar, Shahdara, Delhi	BVSc&AH/CCSHAU/01	22.06.77
2248	Sandeep Kumar, S/o Shri Ram Baran	UPVC/4498/06	Vill. Sinki Khurd, PO Handia, Distt. Allahabad, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/06	10.08.76
2249	Sandeep, S/o Sh. Shish Ram	HVC/1908/	H.No. 501, Nr. Electric Transfomer, Main Gali, Azad Nagar, Hisar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/06	24.08.81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2250	Sandesh Kumar, S/o Shri Itpat Singh	UPVC/4369/06	H.No. 111 A/1, Basant Vihar Quila Road, Meerut, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDAUA&T/ 06	28.06.76
2251	Sandhaya Rani S. D/o Shri Lingaiah	APSVc/4486/06	LIG-13, APHB Colony, Munugod Road, Nalgonda- 508001, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	31.08.81
2252	Sandip Bhuskat S/o Nilkanthrao Bhuskat	RajSVC/3294/06	"Nilpanch" 17-B, Zero Line Saraswati Colony, Kota Rajasthan	BVSc&AH/PRKVP/94	14.1.73
2253	Sandip Patnaik, S/o Sh. Girish Chandra Pattnaik	OVC/2061/06	A/PO Khandpada, Street Danda Sahi, Distt. Nayagarh, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	28.07.80
2254	Sane Dipak Subhash	MahaSVC/7404/	Pohregaon, Tal. Renapur, Distt. Latur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	01.02.82
2255	Sangana Gowda Koppad, S/o Sh. Karabasappa	KarSVC/3870/06	Yarnal Post, Basavana Bagewadi Tq., Bijapur Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	22.07.82
2256	Sangma Sudhir, S/o Sh. Gajen N. Sangma	ASM/2241/06	C/o Mr. Newton Sangma, Vill. & PO Neperpatty, PO Bokajan, Distt. Karbi- Anglong, Assam	BVSc&AH/AAU/06	20.12.79
2257	Sangram Keshari Behera, S/o Sh. Champe Behera	OVC/2088/06	At Samdapali, Via Bijepur, Distt. Bargarh, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	28.05.81
2258	Sanjay Kumar Bandhu, S/o Sh. Ramchandra Yadav	BVC/2679/05	Vill. Belahi, PO Parva, PS Jaynagar-847226, Distt. Madhubani, Bihar	BVSc&AH/WBUA&FS U/05	15.05.78
2259	Sanjay Kumar Bharti, S/o Shri B. Chand	UPVC/4442/06	Vill. Usra Bazar, PO Tiwai, Tehsil Rudrapur, Deoria, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/0 6	10.06.81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF.</i>	<i>DOB</i>
2260	Sanjay Kumar Meena, S/o Sh. Ram Charan	RajSVC/3273/06	Vill. Ramsingh Pura, PO Shafipura Bamanwas, Swaimadhopur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	04.06.79
2261	Sanjay Kumar Singh, S/o Sh. Bhagavat Prasad Singh	BVC/2712/05	Vill. Dattu Bigha, PO Opp, PS Ekangarsarai-801301, Distt. Nalanda, Bihar	BVSc&AH/RAU/00	15.07.75
2262	Sanjay Kumar, S/o Sh. Kameshwar Prasad Sinha	BVC/2694/05	Vill. Nakdoyi, PO Aungari- 801301, Distt. Nalanda, Bihar	BVSc&AH/JNKVV/05	25.05.81
2263	Sanjay Kumar, S/o Sh. Krishan Ballabh Jha	BVC/2657/05	Vill. Gautamnagar, PO Saharsa, PS Saharsa- 852201, Distt. Saharsa, Bihar	BVSc&AH/BAU/05	15.08.79
2264	Sanjay Sharma, S/o Shri K.D. Sharma	UPVC/4454/06	H.No. 392, C-Kazi Khera Lal Bag, Kanpur-7, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDAUA&T/ 06	13.08.77
2265	Sanjay Singh Tomar, S/o Shri Sher Singh Tomar	MPSVC/2340/06	V&P Sathona Morena, MP- 476115	BVSc&AH/IGKV/06	06.05.75
2266	Sanjay Singh, S/o Shri J.S.P. Singh	UPVC/4361/06	Vill. Bamhaniyaon, PO Dhanapur, Distt. Chandauli, Uttar Pradesh	BVSc&AH/AAU/06	12.12.79
2267	Sanjeev Kumar Bujaruk, S/o Sh. Venkappa	KarSVC/3866/06	Hosur Post (Rabkavi), Jamkhandi Tq., Bagalkot Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	10.01.83
2268	Sanjeev Pant, S/o Sh. D.D. Pant	UVC/250/06	Trilok Nagar, Malla Bamori, PO Bhotiya Parava, Haldwani, Distt. Nainital, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/0 0	11.03.75
2269	Sanjeev Sharma, S/o Shri Suresh Chandra	MPSVC/2398/06	V&P Birkhadi, Tehsil Gohad, Bhind, MP-477116	BVSc&AH/JNKVV/05	07.06.78

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2270	Sanjib Deka, S/o Sh. Puspa Deka	DVC/0648/05	C/o Dr. Sanjib Kakoti, SGACC, Raja Garden, Near Sivji College, New Delhi-27	BVSc&AH/AAU/01	01.04.77
2271	Sanjib Kakoty, S/o Sh. Vipin Kakoty	DVC/0637/04	Sanjay Gandhi Animal Care Center, Near Sahivaji College, Raja Garden, New Delhi-110027	BVSc&AH/AAU/97	01.03.75
2272	Sanjit Kumar, S/o Sh. Birendra Prasad	BVC/2680/05	VIII. Karu Bigha, PO Karu Bigha, PS Nimechak Bachani-803116, Dt. Gaya, Bihar	BVSc&AH/WBUA&FS U/05	15.11.78
2273	Sanjiv Kumar, S/o Sh. Ramchandra Prasad	BVC/2686/05	VIII Dheusa, PO Dheusa, PS Shekhpura-811105, Distt. Shekhpura, Bihar	BVSc&AH/OUA&T/05	01.03.80
2274	Sankpal Sandip Sopan	MahaSVC/7420/	At/Post Ranjangaon, (Sandas), Tal. Shirur, Distt. Pune-412211, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	25.06.82
2275	Sanmat Jain, S/o Sh. Prem Chandra Jain	DVC/0643/04	2760, Lane No. 3, Bihari Colony, Shahdara, Delhi-110094	BVSc&AH/JNKVV/04	29.03.80
2276	Santhosh Kumar, S/o Sh. Somashekar S.K.	KarSVC/3888/06	28 Veerabadra Nilaya VMS Garden, Main Rd, Thindlu, Vidyananyapura, B'lore-97, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	25.01.84
2277	Santosh Basannavar, S/o Sh. Shivanna	KarSVC/3869/06	Hirur Post-586214, Muddebihal Tq., Bijapur Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	15.07.82
2278	Santosh Kumar Budhani, S/o Sh. Kailash Chand Budhani	UVC/209/06	House No. 23, Nagla Pantnagar, Distt. U.S. Nagar, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/06	01.11.78
2279	Santosh Kumar Jaiswal, S/o Shri P.N. Jaiswal	UPVC/4412/06	VIII. & PO Naibazar, Near Allahabad Bank, Gorakhpur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDAUA&T/06	03.11.77

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2280	Santosh Kumar Ojha, S/o Sh. Birendra Prasad Ojha	BVC/2658/05	Vill. Nemaize, PO Nimaize, PS Bhrampur, Distt Baxar, Bihar	BVSc&AH/BAU/05	31.10.77
2281	Santosh Kumar Sahu, S/o Sh. Abhimanya Sahu	OVC/2057/06	At/PO Shergada, Distt. Ganjam, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	02.07.81
2282	Santosh Kumar Sukla, S/o Sh. Gaya Prasad Shukla	UVC/259/06	H.No. 1125, Phool Bagh, Pantnagar, U.S. Nagar, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/7 7	07.12.56
2283	Santosh Kumar Yadav, S/o Shri S.S. Yadav	UPVC/4519/06	Vill. Tilaura, PO Pali, Distt. Gorakhpur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/ 06	30.05.80
2284	Santosh Kumar, S/o Late Sh. Lakhan Dev Prasad	BVC/2693/05	Vill. Shekh Alli, PO Veshvak, PS Islampur- 801303, Distt. Nalanda, Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/0 5	11.01.80
2285	Santosh Rajpal, S/o Shri Chhotelal Pal	UPVC/4489/06	Phaphun Chauraha Auraiya Road, Dibiyaipur, Auraiya, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/ 06	13.08.80
2286	Sarabjit Singh Jaswal, S/o Sh. P.S. Jaiswal	HVC/1900/	H.No. 28, Vishal Nagar, Yamuna Nagar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/0 5	04.07.81
2287	Sarada Prasanna Sahoo, S/o Sh. Durga Charna Sahoo	OVC/2143/07	At/PO Malapatna, Via Pattamundai, Distt. Kendrapara, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	10.07.84
2288	Sarag Ambadas Namdeoasa	MahaSVC/7329/	At/p Wasadi, Tal. Nandura, Distt. Buldhana, Maharashtra	BVSc&AH/PKV, Akola/ 75	22.09.51
2289	Sarajo Ku Mohanta, S/o Sh. Madhusudan Mohanta	OVC/2137/07	At Bhrmargola, PO Dahikoti, Via B. Sathilo, Distt. Mayurbhanj, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	04.06.83



SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
2290	Sarbasish Mandal, S/o Sh. Sunil Kumar Mandal	WBSVC/3230/06	240, A.C. Road(S), PO Khagra, Distt. Murshidabad, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	17.10.83
2291	Sardari Lal, S/o Sh. Shiv Ram	DVC/0663/05	CVO/Comdt.(Vet) Provisionin g dte, Vet Wing, FHO, BSF, East Block- 9, Level-4, Sec- 1, R.K. Puram, New Delhi	BVSc&AH/RAU/66	01.06.53
2292	Saripalli Devaraju, S/o Shri S. Satyanandam	APSVC/4505/06	D.No. 7-63, Prashantinagar, Pendurthi, Visakhapatnam Dt.-531173, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	19.08.81
2293	Sarita Anna Shobha Bhengra, D/o Sh. John Bhengra	OVC/2047/06	C/18, Contractor Colony, Hamirpur, Rourkela-3, Distt. Sundergarh-769003, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	30.11.81
2294	Sarita Jena, D/o Sh. Bhaskar Jena	OVC/2125/07	At-Sestri Nagar, 3rd Lane, PO Gosaninuaagam, Berhampur-3, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	07.04.83
2295	Saritha N.S., D/o Sh. Sanne Gowda	KarSVC/3914/06	Nelamakanahally-871430, Malavalli Tq., Mandya Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	07.05.84
2296	Sarla Singh, D/o Shri Komal Singh	MPSVC/2382/06	Gr.No. 814, Manoj Kirana, Chandras Shekhar Ward, Ranjhi, Jabalpur, MP	BVSc&AH/JNKVV/06	28.06.71
2297	Sarna Dhanjita, D/o Sh. Mondeep Sarma	ASM/2279/07	C/o Mr. N. Sarma, Downtown, Mathura Nagar, PO Dispur, Guwahati, Assam	BVSc&AH/AAU/07	14.02.80
2298	Sarmah Hiramani, D/o Late Sh. Bhuban Ch. Sarmah	ASM/2247/06	C/o Kunti Devi, Vill. Metapara, PO Dheklpara, Dt. Darrang- 784145, Assam	BVSc&AH/AAU/06	31.03.80
2299	Sarode Bhushain Shankant	MahaSVC/7124/	Safalya, 185, Friends Colony, Katol Road, Nagpur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	10.06.82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2300	Sarvesha K., S/o Sh. Krishnappa	KarSVC/3883/05	Kondasandra Village, Holur Distt. Kolar Tq. & Distt. Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	20.07.83
2301	Sashanka Sekher Dutta, S/o Sh. Kamleshwar Dutta	DVC/0619/03	11B1-A, Upper Ground Floor, Arun Nagar, Kotla Mubarakpur, New Delhi-110003	BVSc&AH/AAU/97	22.02.74
2302	Sat Pal Gautam, S/o Sh. Ram Chander Sharma	DVC/0631/04	D-34, South Ext.-I, New Delhi-110034	BVSc&AH/PAU/69	05.10.44
2303	Sat Prakash Singal S/o Sh. Mukand Lal Singal	DVC/0632/04	B-29, Panchsheel Enclave, New Delhi	BVSc&AH/PU/54	07.09.32
2304	Satale Shrikant Bhimashankar	MahaSVC/7155/	'Dattakripa' Surve No. 39, H. No. 375, Shinde Vasti, Keshavnagar, A/p, Mundhwa, Tal. Haveli, Pune, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	31.05.82
2305	Sataikar Asmita Amrutrao	MahaSVC/7431/	Sonal Niwas, Opp. Padmavati Hospital, Degloor Road, Tal. Udgir, Distt. Latur-413517, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	05.05.83
2306	Satay Jaykumar Satwaji	MahaSVC/7334/	C/o S. N. Satav, Mali Galli, Kalamnuri, Tal. Kalamnuri, Distt. Hingoli, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	01.08.81
2307	Sathe Pradnya Madhavrao	MahaSVC/7332/	'Shree Krupa' Ganesh Chouk, Chichondi Patil Nagar, Ahmednagar, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	01.06.83
2308	Sathish Kumar B.M., S/o Late Sh. Murthy B.M.	KarSVC/3938/06	Main Road, 3rd Block, Shanivarsanthe-571235, Somwarpet Tq., North Coorg, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	27.07.83
2309	Sathisha K.B., S/o Sh. Bettaswamy	KarSVC/3921/06	Kellana Post, Kunigal Tq., Tumkur Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	02.06.83

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOR</i>
2310	Satish Chand Mathur, S/o Sh. P.L. Mathur	DVC/0604/02	Gate No. 32, Nehru Stadium, New Delhi-110003	BVSc&AH/Vikram Uni/60	01.01.39
2311	Satish Kumar Edakula, S/o Shri Rama Subrahmanyam	APSVC/4546/07	Vommangi, Prathipadu (M), E.G. Dt.-534430, Andhra Pradesh	BVSc&AH/OUAT/07	04.05.81
2312	Satish MP, S/o Sh. M.C. Parmeswaran	DVC/0618/03	Quarter No. 1092, Sector-4, R.K. Puram, New Delhi	BVSc&AH/KAU/00	04.07.76
2313	Satish, S/o Sh. Dhulappa	KarSVC/3829/06	Anusuya Nivas, # 9-11- 142, V.N. Colony, Bidar- 585401, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	08.07.84
2314	Satpal Singh Chauhan, S/o Sh. Tej Singh	RajSVC/3321/06	At Post Peeth, TEH, Simalwada, Dungarpur, Rajasthan	BVSc&AH/AAU/06	30.06.83
2315	Satpute Abhijeet Bharat	MahaSVC/7643/	'Kondan', V.J. Arak Nagar, Beed Road, Morewadi, Ambajogai, PO Sadar Bazar, Tal. Ambajogai, Distt. Beed-431517, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	04.03.84
2316	Satpute Sitendra Bhagojirao	MahaSVC/7544/	Satpute Niwas, H-448, Jire Galli, Ambejogai, Tal. Ambejogai, Distt. Beed- 431517, Maharashtra	BVSc&AH/MAU/00	06.02.70
2317	Satpute Vikas Shahurao	MahaSVC/7667/	A/p Mogra, Tal. Majaigaon, Distt. Beed-431131, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	09.04.83
2318	Satvir Singh Panghal, S/o Sh Ram Chandra Panghal	HVC/1948	H.No.755, Sector- 21, Panchkula, Haryana	BVSc&AH/HAU/79	26.04.53
2319	Satya Narayan Kar, S/o Sh. Kedarnath Kar	OVC/2139/07	At Ramakrishna Nagar, PO Lochapada, Berhampur, Distt. Ganjam, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	28.06.83

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2320	Satya Prakash Arya, S/o Shri D.P. Arya	UPVC/4380/06	Vill. & PO Pindra, Distt. Varanasi, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDAUA&T/ 06	08.12.75
2321	Satya Prakash Dubey, S/o Late Shri G.L. Dubey	MPSVC/2422/07	B-2/38, Vinaya Nagar, Sector-3, Gwalior, MP	BVSc&AH/JNKVV/64	10.01.43
2322	Satyanarayan Swain, S/o Sh. Rathi Swain	OVC/2073/06	C/o Rathi Swain, Near Forest Check Gate, Distt./PO Nayagarh, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	04.07.82
2323	Satyanarjan Prusti, S/o Sh. Sudam Chandra Prusti	OVC/2069/06	At Jankharai, PO Chashakhand, Distt. Baisore, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	16.05.82
2324	Satyendra Kumar Gupta, S/o Shri K.L. Gupta	MPSVC/2367/06	Main Market, Bazar Area, Simore Rewa, MP-486448	BVSc&AH/JNKVV/06	12.05.80
2325	Saufa Mansur, S/o Sh. Mansurul Haq	BVC/2649/05	Vill. Parh, PO Chakbahauddin PS Daisingsarai, Distt. Samastipur, Bihar	BVSc&AH/BAU/05	14.02.79
2326	Saurabh Aanand, S/o Sh. Sachidanand Singh	BVC/2692/05	Vill. Dayara, PO Bihar Sharif, PS Bihar-803101, Distt. Nalanda, Bihar	BVSc&AH/JNKVV/05	21.12.80
2327	Saurabh Chaturvedi, S/o Shri V.K. Chaturvedi	UPVC/4444/06	330, Sanjay Gandhi Puram, Lucknow, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CCSHAU/0 6	06.01.83
2328	Saurabh Kumar, S/o Shri Achal Kumar	UPVC/4518/06	Vill. Simrothi Tappal, Distt. Aligarh, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/ 06	05.06.82
2329	Saurabh Manish, S/o Sh. Anil Kumar Saxena	DVC/0668/05	Flat No. 2, Pkt. A-3, Sector- 8, Rohini, Delhi	BVSc&AH/CCSHAU/0 5	23.02.80

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2330	Saurabh Sharma, S/o Sh. Jag Mohan Sharma	RajSVC/3295/06	A-2, Vijay Path, Tilak Nagar, Jaipur, Rajasthan	BVSc&AH/CCSHAU/0 6	22.01.82
2331	Saurav Kumar Panigrahi, S/o Sh. Himangshu Shekhar Panigrahi	WBSVC/3291/07	VIII. Ghoratalia, PO & PS Marishda, Distt. Midnapore(P)-721449, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	25.06.84
2332	Savitha J.V., D/o Sh. Venkata Reddy J.M.	KarSVC/3900/06	Sujanahalli, Kotagal- 563125, Chintamani Tq., Kolar Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	24.01.84
2333	Savitha N.	KeralaSVC/3151/06	M.M.K. House, Eraman PO, Payyannur (Via.), Kannur- 670307, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	20.02.81
2334	Sawaimul Avirat Dewanand	MahaSVC/7445/	Upali Colony, 34th Agney Layout Khamla, Tal. Distt. Nagpur-440025, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	07.06.83
2335	Sawandkar Pandurang Ganeshrao	MahaSVC/7498/	Irrigation Camp. Basmathnagar, Tal. Basmath, Distt. Hingoli- 431512, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	03.01.82
2336	Sawant Manish Narendra	MahaSVC/7213/	A/p Kesari, Danoli, Tal. Sawantwadi, Distt. Sindudurg, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	16.12.81
2337	Sawant Sagar Chandrakant	MahaSVC/7298/	Laxmi Niwas, Kadawal, Tal. Kudal, Distt. Sindhudurg, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/02	14.03.80
2338	Sayanti Das, S/o Subhas Chandra Das	WBSVC/3250/06	A-10X/26, Kalyani, Distt. Nadia-741235, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	11.02.83
2339	Sayil Hemlata Ramakant	MahaSVC/7259/	Plot No. 14, Sachin Housing Co-op. Society, Narmada Colony, Katol Road, Nagpur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/02	03.10.80

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2340	Sayyed Mushtaque Mahebab	MahaSVC/7336/	C/o Sayed Saheb Dudh Dairy Wale, Lakshman Nagar, Beed-431122, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	15.03.82
2341	Seema Meena, D/o Sh. H.M. Meena	RajSVC/3320/06	V&P Meena Baroda, TEH. Gangapur City, Via. Bazirpur, Sawaimadhopur, Rajasthan	BVSc&AH/JNKVV/06	07.07.83
2342	Seena K.M.	KeralaSVC/3141/06	Keerikkattel House, Manjoor PO, Kottayam-686603, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	30.05.81
2343	Seena N.P.	KeralaSVC/3190/06	Venus House, Pilathara PO, Kannur-670501, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	28.02.82
2344	Senthamarai M., D/o Sh. Kolanchi J.	KarSVC/3950/06	98/2, M.T. Depot Quarters, M.T. Coy, MEG Centre, Bangalore, Kamataka	BVSc/TNVASU/05	19.04.80
2345	Serene Xavier	KeralaSVC/3150/06	Porathur Kittan House. Dr. Korath Lane, East Fort PO, Thrisur-680005, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	29.04.82
2346	Shafiqur Rahman Abdul Ghafoor	MahaSVC/7156/	Badai Poura, Ward No. 4, Post Mangrulpir, Tal. Mangrulpir, Distt. Washim, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	05.01.82
2347	Shahare Tulsidas Yashwant	MahaSVC/7248/	A/p Mahagaon/Sukali, Tal. Sakdi, Distt. Bhandara, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	13.05.76
2348	Shahid Vaseem S.A., S/o Sh. Syed Abdul Rahim	KarSVC/3877/06	1769, Amjad Building, Mujawar Moh, Mulbagal-563131, Kotar Dt, Kamataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	15.07.83
2349	Shaifudeen N.T.	KeralaSVC/3126/06	Nasheeda Manzil, Chandapadi Post, Ponnani, Malappuram-679577, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	19.03.79

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2350	Shaikh Anis Shaikh Ashraf	MahaSVC/7294/	A/p Bhatwadgaon, Tal. Majulgaon, Disit. Beed-411144, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/03	01.07.80
2351	Shaikh Mubarak Abdul	MahaSVC/7400/	Nhavre, Tal. Shirur, Distt. Pune-412211, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	29.07.82
2352	Shaikh Shabbiruddin Hasnoddin	MahaSVC/7123/	94, Mumtaz Nagar, Dhar Road, Parbhani, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	15.10.79
2353	Shailash Kumar Pillai, S/o Shri G.S. Pillai	MPSVC/2408/07	C.B. Quarters, Near Cantt. Police Station, Sadar Bazar, Jabalpur, MP-482001	BVSc&AH/JNKVV/06	17.08.81
2354	Shailendra Sonkar, S/o Shri Hori Lal Sonkar	UPVC/4409/06	Moh. Naiganj, PO Kachehary, Distt. Jaunpur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/05	04.08.79
2355	Shailza Sharma, D/o Shri V.C. Sharma	UPVC/4415/06	Vashishth Hospital, Jansath Road, Atam Kunj Colony, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh	BVSc&AH/RAU/06	19.05.81
2356	Shaknar Kumar Singh, S/o Sh. Banke Singh	BVC/2702/05	Vill. Kodar, PO Bageura, PS M.H. Nagar-841404, Distt. Siwan, Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/05	25.10.80
2357	Shakti Kant Dash, S/o Sh. R.K. Das	OVC/2142/07	Plot No. 49, Jayadurga Nagar, Cuttack Road, Bhubaneswar-751006, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	14.06.83
2358	Shakti Pratap, S/o Shri Mahakar Singh	UPVC/4405/06	Vill. Warespur, PO Kailsa, Distt. J.P. Nagar, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/06	18.11.81
2359	Shakti Ranjan Panigrahy, S/o Sh. Jnana Ranjan Panigrahy	OVC/2056/06	At Purbakachha, PO Madhykachha, Distt. Cuttack, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	18.11.81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2360	Sham Sunder Rajpal, S/o Sh. Diwan Chad Rajpal	DVC/0651/05	H-47/4, Shankar Vihar, New Delhi	BVSc&AH/HAU/73	02.02.50
2361	Shamala B.R., W/o Sh. Gururaj M.	KarSVC/3897/06	BEL Officers Colony, Jalahalli Post, Bangalore, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	26.03.83
2362	Shambhoo Sharma, S/o Shri G.D. Saraswat	UPVC/4379/06	9, Kaveri Vihar, Phase-I, Shamsabad Road, Agra, Uttar Pradesh	BVSc&AH/JNKVV/68	15.06.47
2363	Shameem A.	KeralaSVC/3135/06	Sha Nivas, Melathur PO, Maleppuram-679326, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	30.05.82
2364	Shamik Polley, S/o Sh. Arabinda Polley	WBSVC/3246/06	Vill. & PO Uttar Manasri, Distt. Howrah-711412, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	02.07.83
2365	Shankar, S/o Sh. Vithal Rao	KarSVC/3855/06	Rajeshwar-585331, Basavakalyana Tq., Bidar Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	19.07.81
2366	Shankaraiah K., S/o Shri Ramanna K.	APSVC/4512/06	Rajoli, Waddepalli (M), Mahabubnagar Dt.-509126, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	28.05.82
2367	Shankpal Sachin Sureshrao	MahaSVC/7724/	Vidya Restaurant, Buldhana Road, Infront of Bus Stand, Malkapur, Dt- Buldhana, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	19.04.82
2368	Shantkumar, S/o Sh. Veershatti	KarSVC/3858/06	Nandgaon-585329, Humnabad Tq., Bidar Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	01.04.84
2369	Sharad Kumar Bhandari, S/o Sh. Hamant Kumar Bhandari	UVC/228/08	Maheswari Bhawan, East Pokhakhali, Almora, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/8 8	18.04.64



<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2370	Sharad KumarSingh, S/O R.B.Singh	UPVC/4368/06	VIII & PO Kumhiya (Resulabad), Distt Faizabad, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDAUA&T/ 06	10.07.79
2371	Sharadindu Shah, S/o Late Shri Mohan Shah	UPVC/4356/06	Uttar Pradesh Animal Husbandry Department, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/9 2	21.12.64
2372	Shama Kalpeshkumar Chandubhai	GUJSVC/2779/06	Opp. Mahadev Temple Bhadkad, Ta. Sojitra, Distt. Anand-387380, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	08.05.81
2373	Sharma Rinky, D/o Sh. D.S. Sharma	ASM/2293/07	C/o D. Sharma, Navapur, Borb heta PO Jorhat, Air Field, Jorhat-785005, Assam	BVSc&AH/AAU/07	17.10.82
2374	Shashank Nath, S/o Shri S.C. Verma	UPVC/4418/06	550/6, Jagrit Vihar, Meerut, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUA&T/ 06	16.03.82
2375	Shashi Ranjan Prabhat, S/o Sh. Radha Kant Singh	BVC/2700/05	Vill. Chaturchak, PO Udhedih, PS Sultanganj- 813213, Distt. Bhagalpur, Bihar	BVSc&AH/CSAUAT/0 5	18.11.81
2376	Shashidhara M.D., Mahendrappa M.	KarSVC/3852/06	C/o B. Onkarappa Prashanth Nilaya II Cross, Old Town Gandhinr, Bhadravathi, Shim oga, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	01.04.84
2377	Shashikala H., D/o Honappa B.	KarSVC/3942/06	Hosahalli Palya, Thirumalapura Post, Huliyar Hobli. C.N. Hally, Tumkur Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	01.06.84
2378	Shashikant Sindagi, S/o Sh. Mallanna Sindagi	KarSVC/3835/06	Bhantanoor-586214, Muddebihal Tq., Bijapur Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	22.07.83
2379	Shashthi Ballabha Pandey, S/o Sh. C.V. Pandey	UVC/237/06	Khanna Farm, Industrial Estate, Haldwani, Nainital, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/8 8	13.09.64

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2380	Sheikh Mohd. Gaus Mohd. Hussain	MahaSVC/7492/	At. Sakarla, Post Dahegaon, Parshion- Khapa Road, Tal. Parsionl, Distt. Nagpur, Maharashtra	BVSc&AH/PKV, Akola/71	01.07.42
2381	Shekh Mubarik, S/o Shri Skekh Bafati Khan	MPSVC/2412/07	Near Old Thana, Palera, Tikangarh, MP-472221	BVSc&AH/GKV/06	13.07.66
2382	Shelar Kiran Rohidas	MahaSVC/7676/	3/203, Siddhivinayak Park, Lokmanyanager, Pada No. 4, Thane (W)-400605, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	26.09.83
2383	Shelar Nilesh Kacharu	MahaSVC/7191/	Saptshrungi Nagar, Ghoti, Tal. Igatupri, Distt. Nasik- 422402, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	26.10.81
2384	Shelar Pankaj Dagadu	MahaSVC/7480/	Khandesh Bhavani, 1670, Gokul Colony, Rahuri, Tal. Rahuri, Distt. Ahmednagar- 413705, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	06.06.82
2385	Shelke Sachin Kabhari	MahaSVC/7324/	At Hangewadi, Post Malunja, Tal. Sangamner, Distt. Ahmednagar-422605, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	23.09.81
2386	Shendara Rahul Chintaman	MahaSVC/7150/	Bhagchand Nagar, Ward No. 2, Dhamangaon Rly., Distt. Amravati, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	07.10.81
2387	Shende Amol Nivrutti	MahaSVC/7699/	A/p Kati, Tal. Indapur, Distt. Pune-413120, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	13.01.84
2388	Shende Girdhari Pituji	MahaSVC/7152/	A/p Mandokhal/Toki, Ajruni/Morgaon, Distt. Gondia, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	10.04.79
2389	Shende Nitin Sevakram	MahaSVC/7587/	Plot No. 24, Utkarsha Gruh Nirman Society, Ring Road, Dabha, Nagpur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	15.05.83

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2390	Shende Tejas Chandrakant	MahaSVC/7312/	A/p Shirtar, Tal. Man, Distt. Satara-415509, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	20.07.81
2391	Shete Shankar Mohan	MahaSVC/7734/	Shete Wasti, Bawada, Tal. Indapur, Distt. Pune-413101, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	03.01.84
2392	Shete Vijaykumar Arjun	MahaSVC/7437/	A/p Nighoj, Tal. Pamer, Distt. Ahmednagar-414306, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	24.09.81
2393	Shijin A.	KeralaSVC/3142/06	Grace Villa, PO Chelavoor, Kozhikkode-673571, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	23.10.81
2394	Shilpa B.N., D/o Sh. Nayal B.G.	KarSVC/3878/06	12, MIG, 11 KHB Colony, Hunsur, Mysore Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	28.01.83
2395	Shilpa Shree A., D/o Sh. Anand	KarSVC/3912/06	112, Gandarvagiri, Ward No1, Nr APMC Yard, HKV Nagar, Naddur Tq., Mandya Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	02.08.82
2396	Shinde Akashrao Savata	MahaSVC/7234/	At Mirewadi, Post Rawadi (Bk), Tal. Phaltan, Distt. Satara, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	16.05.82
2397	Shinde Ashok Sarjerao	MahaSVC/7673/	A/p Pimpalwandi, Tal. Patoda, Distt. Beed-413229, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/02	07.05.79
2398	Shinde Manish Shivaji	MahaSVC/7723/	"Shivam", Plot No 23, Sangli Kupwad Road, Vishrambag (S.V.H Society), Tal. Miraj, Dt-Sangli, Maharashtra	BVSc&AH/PKVAkola/92	11.08.70
2399	Shinde Prakash Rambhau	MahaSVC/7714/	At Jawale, Post Nirgudsar, Tal. Ambegaon, Distt. Pune-412406, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	15.07.84

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2400	Shinde Santosh Arunrao	MahaSVC/7302/	T.P.S. Colony, Old-104, Parli Vajinath, Tal. Parli Vajinath, Distt. Beed, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	06.03.81
2401	Shinde Saroj Bhagwanrao	MahaSVC/7535/	Vivekanand Nagar, Majalgaon, Tal. Majalgaon, Distt. Beed-431131, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	03.06.83
2402	Shirodkar Kshama Dilip	MahaSVC/7476/	"Audumber Chhaya", 1, Kopti Colony, Thane East, Distt. Thane-400603, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	12.10.81
2403	Shishodiya Jayshing Madanshing	MahaSVC/7340/	At Indewai, Post Pokharni, Distt. Parbhani-431401, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	07.06.82
2404	Shisode Mansing Gulabrao	MahaSVC/7644/	A/p Makhani, Tal. Gangakhed, Distt. Parbhani- 431514, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	25.11.81
2405	Shiv Kumar Singh, S/o Sh. Ram Paryag Singh	BVC/2632/05	Vill. Kamla Barri (Got), PO Kamla Barri (Got), PS Jaynagar- 847226, Dt. Madhubani, Bihar	BVSc&AH/RAU/05	01.03.78
2406	Shiv Kumar, S/o Shri Ram Chandra Singh	UPVC/4559/07	Vill. NNP Nagli, PO Raghunathpur, Bulandshar, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAU&T/ 99	15.07.67
2407	Shiv Nandan Singh Parmar, S/o Late Shri Ganga Ram Singh Parmar	MPSVC/2337/06	G-4, Veterinary College Campus, Jabalpur, MP- 482001	BVSc&AH/JNKVV/78	17.06.55
2408	Shiv Prasad, S/o Sh. Jainarayan	UVC/263/06	Professor, Pharmacology, C. V.Sc, Pantnagar, Distt- U.S. Nagar, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/8 4	08.04.61
2409	Shiv Raj Matta, S/o Late Sh.R.S. Matta	UVC/195/06	4/5, Mohini Road, Dehradun, Uttaranchal	BVSc&AH/Agra Un/60	10.01.33

<i><b>SNUM</b></i>	<i><b>NAME</b></i>	<i><b>RNUM</b></i>	<i><b>ADD</b></i>	<i><b>QUALIF</b></i>	<i><b>DOB</b></i>
2410	Shiv Shankar Kumar, S/o Sh. Bijay Kumar	BVC/2626/05	Vill. Kalibazar Hilsa, PO Hilsa, PS Hilsa, Distt. Nalanda, Bihar	BVSc&AH/UAS, B'lore. /04	10.10.78
2411	Shiva Kumar A.M., S/o Sh. Murugendra Gowda	KarSVC/3952/07	Managind Director, D.K. Milk Union, Kulashkara, Mangalore Distt., Karnataka	BVSc/UAS, B'lore/72	01.07.49
2412	Shiva Prasad K.B., S/o Sh. K.V. Basavanna	KarSVC/3828/06	Kuruburu, T. Narasipura, Mysore Distt., Karnataka	BVSc/UAS, B'lore/87	10.05.64
2413	Shivanand Magadam, S/o Sh. Siddanna B. Magadam	KarSVC/3843/06	Sulthanpur, Hukker Tq., Belgaum Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	15.05.83
2414	Shivani Gadaria, D/o Shri Mohan Lal Gadaria	MPSVC/2331/06	C/o Shri M.L. Gadaria, Near Vinod Kunj, Tikamgarh, MP	BVSc&AH/JNKVV/05	27.07.80
2415	Shivaputra Badami, S/o Sh. Veerappa Badami	KarSVC/3838/06	Neelagunda, Badami Tq., Bagalkot Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	01.06.82
2416	Shivasharanappa N., S/o Sh. Balappa Nayak Vadi	KarSVC/3847/06	Gajarkot-585284, Yadgiri Tq., Gulbarga Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	01.07.83
2417	Shivprasad G.R., S/o Sh. Rajaian G.V.	KarSVC/3853/06	Gowrapura, Ajjampura- 577547, Tarikere Tq., Chickmagalur Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	18.09.83
2418	Shobhana Singh, S/o Sh. Birender Singh	HVC/1913/	C/o Dr. Jagjit Serawat, Vill. Kuftana, Distt. Rohtak, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/0 6	29.10.83
2419	Shomeer Bhatnagar, S/o Shri H.K. Bhatnagar	UPVC/4357/06	14/1, Pratap Park, Mathura Cantt., Uttar Pradesh	BVSc&AH/JNKVV/92	22.01.68

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2420	Shrimali Mehulkumar Dharmabhai	GUJSVC/2722/06	D+e-3/1, S.D.A.U. S.K. Nagar, Ta. Dantiwada, Distt. B.K.-385506, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	26.06.82
2421	Shrirao Rajesh Gulabrao	MahaSVC/7252/	Near Gullane Trader's, 4, Madhav Nagar, Near Santaji Nagar, Amravati, Maharashtra	BVSc&AH/PKV, Akola/94	26.08.85
2422	Shubhashish Mohapatra, S/o Sh. Ramesh Chandra Mohapatra	OVC/2049/06	A/PO Sanapadar, Distt. Khurda, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	10.07.82
2423	Shyam Babu Singh, S/o Shri Ram Bachan Singh	UPVC/4434/06	Vill. & PO Jalaipur Mafi Chunar, Distt. Mirzapur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDAUA&T/06	16.01.78
2424	Shyam Kishor Mishra, S/o Shri P.D. Mishra	UPVC/4376/06	Vill. Ghora Kata, PO Menhdwal, Distt. Santkabir Nagar, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDAUA&T/06	10.07.78
2425	Shyam Sundar Kesh, S/o Sh. Sibrama Kesh	WBSVC/3254/06	Vill. Gopalpur, PO & PS Kotalpur, Distt. Bankura-722141, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/06	29.03.82
2426	Shyamolima Sahu, D/o Sh. Rasbehari Sahu	WBSVC/3248/06	18/2/1, Ramnabarnitala Lane, PO Bally, Distt. Howrah, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/06	22.01.83
2427	Shyju. P	KeralaSVC/3107/06	Ambadi (House), Melmuri PO, Yulassery (Via), Palakkad-679307, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	21.05.79
2428	Shyma V.	KeralaSVC/3154/06	Varikkottil House, West Pampady PO, Thrissur-680597, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	15.05.81
2429	Siddesh R., S/o Sh. Rachashetty D.L.	KarSVC/3918/06	45, KEB Colony, II Borewell, II Cross, Chamundeswarinagar, Mandya-571401, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	14.08.83

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2430	Siddineni Venkata Kiran, S/o Shri Srimannarayana	APSV/4527/06	C/o A. Anjaneyulu, Plot No. 198, Bhavani Nagar, ECIL 'X' Road, Kapra, Ranga Reddy Dt.-500062, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	07.04.82
2431	Sidhartha Deshmukh, S/o Sh. S. Deshmukh	Pb.SVC/2701/07	Deptt. of Vety. Pathology, GADVASU, Ludhiana- 141004, Punjab	BVSc&AH/HPKV/00	01.10.77
2432	Sidheshwar Yadav, S/o Late Sh. Ram Sawrup Lal Yadav	BVC/2666/05	Vill. Hasanpur, PO Hasanpur Sugar Mill, PS Hasanpur, Distt. Samastipur, Bihar	BVSc&AH/Magadh Uni/70	29.09.33
2433	Sindhe Vaibhav Madhukarrao	MahaSVC/7415/	At Manzari (Ghat), Post Pachangri, Tal. Patoda, Distt. Beed, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	12.05.80
2434	Singh Shobha, D/o Sh. Ram Lalit Singh	ASM/2257/06	C/o R.L. Singh, Vice Principal, K.V. Dulaijan, Distt. Dibrugarh, Assam	BVSc&AH/AAU/06	13.10.81
2435	Singh Tarunkumar Chokhe Singh	GUJSVC/2775/06	A-137, Paras Nagar, New Kamal Kunj Society, IOC Road, Chandkheda, Dt. Gand hinagar, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	09.01.84
2436	Sirsat Priti Rajabhau	MahaSVC/7433/	Gopal Nagar, Paratwad, Tal. Achalpur, Distt. Amravati-444805, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	10.03.83
2437	Siva Srinivasula Reddy B., S/o Shri Chinna Malla Reddy B.	APSV/4443/06	Vasudevapuram (M), Rajupalem (M), Kadapa Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	21.04.82
2438	Sivakumar S., S/o Sh. Shanmugam M.	Pb.SVC/2696/07	Deptt. of Livestock Products Technology, COVS, GADVASU, Ludhiana, Punjab	BVSc&AH/TNV&ASU/ 00	10.04.76
2439	SK. Jabir Alli, S/o Sh. SK. Salim	OVC/2086/06	At Malatira, PO Padhanpada, Distt. Bhadrak, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	01.05.81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2440	Smrutirekha Mallick, D/o Sh. Purnananda Mallick	OVC/2054/06	At Kasoti, PO Marshaghai, Distt. Kendrapara, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	15.02.81
2441	Snathosh Kumar Biradar, S/o Sh. Shantagouda	KarSVC/3837/06	Angadagere, Basavana Bagewadi Tq., Bijapur Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	22.06.83
2442	Sobaran Singh Mahor, S/o Shri Kundan Singh	MPSVC/2400/06	233, Mahesh Bagh Colony, Indore, MP-452008	BVSc&AH/JNKVV/06	20.04.79
2443	Soja S.	KeralaSVC/3188/06	Vaisakh, Thalappady, Puthuppallu PO, Kottayam- 686011, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	25.09.81
2444	Solanki Bhagvantsinh Malaji	GUJSVC/2766/06	At & Po Mandal, Ta. Dhanera, Distt. Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	28.08.83
2445	Solanki Himanshu Amrutlal	GUJSVC/2687/06	137, Gujarat Housing Board, Somnath Road, Mehsana-384001, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	14.12.91
2446	Somnathe Roshan Deoraaji	MahaSVC/7165/	Shehnagar, Ward No.7, Sewagram Road, Near Pranod Shende's House, Wardha, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	07.12.81
2447	Sonakshi Chaudhary, D/o Shri Narendra Kumar	UPVC/4456/06	Vill. & PO Tandhera, The- Jansati, Dt. Muzaffarnagar, Utt ar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/0 6	19.09.82
2448	Sonar Bipin Pradip	MahaSVC/7577/	C/o P.L. Sonar, RB-11- 10414, 15-Block Institute, 15- Block, Bhusawal, Distt. Jalgaon, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	01.05.84
2449	Sonawane Jeevan Parsharam	MahaSVC/7456/	A/p Paregaon B.K., Tal. Sangamner, Distt. Ahmednagar-422611, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	13.03.83



<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2450	Sonawane Sachin Ravindra	MahaSVC/7576/	C/o Chandrakant Kulkarni Parijat, Vikas Colony, Near Nahata College, Bhusawal, Dt. Jalgaon, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	15.09.83
2451	Soni Prashantkumar Sureshbhai	GUJSVC/2767/06	Desai Street, Talodh, Bilimora, Ta. Gandevi, Distt. Navsari-396321, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	21.08.83
2452	Sonu Devi, D/o Sh. Daljeet Singh	HVC/1920/	H.No. 1279, Sector-19, Part-I, Kathal, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/06	26.01.83
2453	Souma Muraleedharan P.	KeralaSVC/3160/06	Pratheeksha, Near Cherumukku Temple, Chembukavu, Thrissur-680020, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	18.04.82
2454	Sourav Kanti Sharma, S/o Sh. Anadi Ratan Sharma	WBSVC/3264/06	Vill. Beliadanga, PO D/Barasat, PS Joynagar, Distt. 24 Prgs(S), West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/06	21.03.83
2455	Sourava Ranjan Dash, S/o Sh. Sudarsan Dash	OVC/2091/06	Plot-F/843, Sector-6, CDA, Cuttack, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	16.7.82
2456	Souvik Karmakar, S/o Sh. Ranjut Kumar Karmakar	WBSVC/3267/06	28/15, Ashoke Avenue, Durgapur-4, Distt. Burdwan, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/06	30.11.82
2457	Sowmya Narayan, D/o Sh. Narayana S.	KarSVC/3896/06	C-2-(2), Behind Filter House, Triveninagar, T. Naraispure Tq., Mysore Distt, Karnataka.	BVSc&AH/KVAFSU/06	18.01.83
2458	Sreeja Lekshmi P	KeralaSVC/3114/06	Nediayathu Veedu, Pada North, Marunagapally, Kollam-690518, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	31.05.81
2459	Sreejith Radhakrishnana	KeralaSVC/3166/06	Saubhagyam, TC 38/1220, Pottayil Lane, M.G. Road, Thrissur-680004, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	21.07.82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2460	Sridhar R.N., S/o Sh. Narayanaswamy R.	KarSVC/3931/06	Perumachanhalli, Chinnasandra Po, Kaiwara Hobli, Chintamani Tq., Kolar Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	25.08.82
2461	Srikar Raju Battu, S/o Shri B. Gundaiah	APSVC/4437/06	R/o Echoda (M), Adilabad Dt. - 504307, Andhra Pradesh	BVSc&AH/MAFSU/06	15.05.84
2462	Srinivas Achary, S/o Sh. Nabin Chandra Achary	OVC/2124/07	NAC Flat, Qr. No. F-26, Unit-III, Kharvel Nagar, Bhubaneswar-751001, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	11.12.82
2463	Srinivas Singh, S/o Sh. Chandra Bhushan Singh	BVC/2665/05	VIII. Bara Telya New Basti, PO Chhapra, PS Chhapra Sader-841301, Dt. Chhapra, Bihar	BVSc&AH/TNVASU/05	10.02.82
2464	Srinivasu Ryvada, S/o Shri Adinarayana Ryvada	APSVC/4473/06	Dr. No. 7-303, Hanumanthavaka (Jn), Dairy Farm (P), Visakhapatnam-530040, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	10.02.80
2465	SS. Arasu, S/o Sh. S. Shanmugam	TNVC/3652/06	Q.No. 19, New No. 45, Ramuthevar Street, Aruppukottai-628101, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/92	30.06.88
2466	Subash Ch Mohanty, S/o Sh. Budhiram Mohanty	OVC/2134/07	At Bartana, PO Simulia, Distt. Balasore, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	03.04.81
2467	Subhodh Kumar Saxena, S/o Sh. Banarsi Prasad	BVC/2698/05	VIII. Godapar, PO Pengri, PS Varshiliganj-805130, Distt. Navada, Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/05	15.03.77
2468	Subh Karan Kumhar, S/o Shri Ramkumar	MPSVC/2365/06	VIII. Raura, PO Sansarpur, Tehsil Sirmour, Rewa, MP-486001	BVSc&AH/JNKVV/06	20.06.82
2469	Subhash Babu, S/o Shri Tulsi Ram	UPVC/4540/06	VIII. & PO Hatia, Distt. Hathras, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/01	31.12.76

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2470	Subhash Chander, S/o Sh. Pawan Kumar	HVC/1945/	VPO Odhan, Th. Dabwali, Distt. Sirsa, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/0 6	10.10.80
2471	Subhash Chandra Mehta, S/o Sh. Shanti Swaroop Mehta	DVC/0654/05	U-15, Hudco Place, Andrews Ganj, New Dethi-49	BVSc&AH/JNKVV/68	15.12.45
2472	Subhash Chandra Prasad Singh, S/o Sh Shayam Nandan Maayar	BVC/2620/05	Vill. Ektara, PO Ektara, PS Arer-847222, Distt. Madhubant, Bihar	BVSc&AH/AAU/05	15.02.80
2473	Subhash Chandra Tripathi, S/o Shri R.R. Tripathi	MPSVC/2364/06	Vill. & Post Baraon, Via Maugang, Rewa, MP- 486331	BVSc&AH/JNKVV/06	30.06.79
2474	Subhasis Das, S/o Sh. Vivekananda Das	WBSVC/3286/06	Vill. Sangram Chak, PO Jaigeerchak, Distt. Midnapur(W)-721644, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	14.04.84
2475	Subhasis Ghosh, S/o Sh. Subhash Ch. Ghosh	WBSVC/3261/06	Mother Dairy, Qr. No. A-8, PO Dankuni C. C., Dt. Hooghly- 712310, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	01.03.83
2476	Subhranil Barik S/o Sh. Timir Barik	WBSVC/3282/06	Vill. & PO Rohini, Distt. Midnapur (West)- 721143, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	15.12.83
2477	Subin M.B.	KeralaSVC/3112/06	Madhamplackal House, Cheruvally, Kavumbh agam PO, Kavala, Kottayam- 686519, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	02.05.83
2478	Subodh Kumar Singh, S/o Shri R.B. Singh	UPVC/4483/06	418, AW2, Damoder Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/ 06	24.07.79
2479	Subrata Kumar Das, S/o Late K.S. Das	WBSVC/3218/06	51, Block-II, Sri Ram Nagar Residential Complex, VIP Road, Kolkata-52, West Bengal	BVSc&AH/CU/68	03.03.47

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2480	Sudarsi Sudhakar, S/o Shri S. Kondaiah	APSVC/4522/06	Chakicherla (P.O.), Ulavapadu (M), Prakasam Dt.-523292, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	07.05.79
2481	Sudesh K., S/o Sh. Balakrishnan K.	KarSVC/3928/06	55, 1st Main, 8th Cross, Maruthinagar, Yelahanka, Bangalore-560064, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	08.11.81
2482	Sudhanshu Shekhar Thakur, S/o Late Sh. Jay Gopal Thakur	BVC/2695/05	Vill. Jagganathpur, PO Harpur Fatikvara, PS Mahnar-844501, Distt-Vaishali, Bihar	BVSc&AH/JNKVV/05	01.01.81
2483	Sudheera N., S/o Sh. Nijalinagappa	KarSVC/3933/06	Bidarakere-577521, Jagalur Tq., Davanagere Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	01.08.83
2484	Sudhi Srivastava, D/o Shri Ajay Kumar Srivastava	UPVC/4555/07	Moh. Sancharhi, PO Navab Ganj, Distt. Gonda, Uttar Pradesh	BVSc&AH/JNAU/06	07.01.82
2485	Sudhin George	KeralaSVC/3193/06	35/3, 3rd Cross Street, Collectrate Colony, Amintikarai, Chennai-600029, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	04.06.82
2486	Sudhir Kumar, S/o Shri Suraj Prasad	UPVC/4501/06	H.No. 7, Savitri Nagar, Sanigawan Road, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/06	29.06.80
2487	Sudhish Yadav, S/o Sh. Jagdish Chandra	RajSVC/3306/06	Indra Gandhi Nagar, Near Gayatri Bhavan, Kota, Rajasthan	BVSc&AH/KVFSU/06	26.06.82
2488	Sudhish Yadav, S/o Sh. Jagdish Chandra Yadav	KarSVC/3876/06	C/o Ajay Kumar Ola, Room No. 123, VCH, Bangalore-560024, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	26.06.82
2489	Sudipta Mahato, D/o Sh. Kalipada Mahato	WBSVC/3292/07	119, Akhil Mistry Lane, Kolkata-700009, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/06	06.12.81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2490	Suendra Nath Maurya, S/o Late Sh. R.K. Mauriya	UVC/260/06	Village Kamwaganja, PO Haripunayak, Haldwani, Distt. Nainital, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/6 4	11.11.43
2491	Suhasini Sahoo, D/o Sh. Golak Bihari Sahoo	OVC/2138/07	Fiat No. 104, Block-D, Okilabag Enclave, Laxmisagar, Bhubaneswar- 6, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	30.04.83
2492	Sujata Kumari Panda, D/o Sh. Adikanda Panda	OVC/2093/07	At-21, Sweetly Housing Complex, Phase-II, Ganganagar, Bhubaneswar, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	05.04.81
2493	Sujata Mourya, D/o Sh. Kalu Ram Mourya	RajSVC/3249/06	55, Kalyan Nagar, Kartarpura, Jaipur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	21.01.79
2494	Sujata Singh	GUJSVC/2725/06	Ex. JWOS Singh 54, Sena Nagar, Jamnagr-361006, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	18.08.84
2495	Sujit Kumar Satpathy, S/o Sh. Banamali Satpathy	OVC/2071/06	At Padampur, Bargarh, Rajborasambar, Distt. Bargarh, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	30.08.80
2496	Sujit Kumar, S/o Sh. Suresh Kumar Verma	BVC/2672/05	Vill. Gangjala, PO Saharsa, PS Saharsa-852201, Distt. Saharsa, Bihar	BVSc&AH/GBPUAS & T./05	18.09.79
2497	Sujoy Bisai, S/o Sh. Lakshmi Narayan Bisai	WBSVC/3285/06	Vill. Gorhmal, PO Nayagram (Benasuli), Distt. Midnapur(W)-721102, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	16.01.81
2498	Sukare Prashant Ganesh	MahaSVC/7427/	A/p Motegaon, Tal. Chimur, Distt. Chandrapur-442904, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	01.07.82
2499	Sulochana Meena, D/o Sh. Phoola Ram	RajSVC/3292/06	Koiinda Ka Bas (South), Jhunjhunu, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	05.02.80

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2500	Suma K.	KeralaSVC/3157/06	Ambanath House (Swathy), XI/585C, PO, R.V. Puram- 680631,Kerala	BVSc&AH/KAU/06	25.07.81
2501	Suman B.S.	KeralaSVC/3162/06	Anjali, Near Sivankoil, Kottappana, Neyyatinkara, Tvm-695121,Kerala	BVSc&AH/KAU/06	16.05.83
2502	Suman Kumar, S/o Sh. Sachidanand Lal Das	BVC/2722/06	Vill. Maina, PO Maina, PS Sonbarsha-852129, Distt. Sahrsa,Bihar	BVSc&AH/WBUA&FS/ 05	01.07.78
2503	Suman Talukder, D/o Sh. Subrata Talukder	WBSVC/3233/06	Vill. Kayadanga, PO Kalyangarh, Dt. 24 Prgs(N), WB-743272,West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	19.06.82
2504	Suman, D/o Shri Gannu Singh	UPVC/4438/06	108/26, PWD Colony, Rampur Garden, Bareilly,Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/0 6	07.07.78
2505	Sumi Cherian	KeralaSVC/3179/06	Kallupurackel, Kalarcode, Alappuzha-688003,Kerala	BVSc&AH/KAU/06	02.04.83
2506	Sumit Kaushik, S/o Shri N.L. Sharma	UPVC/4452/06	Vill. & PO Bhainsakur, Tehsil Siana, Distt. Bulandshar,Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/0 6	05.06.82
2507	Sumit Virmani, S/o Sh. Yash Pal Virmani	DVC/0638/04	C-3/303-A (SFS), Pankha Road, Janakpuri, New Delhi- 110058	BVSc&AH/RAU/99	11.09.73
2508	Sundara Murthy V.S., S/o Sh. V.R. Srinivasan	KarSVC/3874/06	171,4th'B' Main Rd,4th Stage,4th Block Basaveswamagar,B'lore- 79,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	03.06.48
2509	Suni Kumar, S/o Sh. Shish Pal Singh	UVC/208/06	Village Nagala Koyala, PO Gurkul Narsan, Roorkee, Haridwar,Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/0 6	04.08.81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2510	Sunil Kumar B.S., S/o Sh. Shekarappa B.D.	KarSVC/3895/06	Chiradoni, Channagire Tq., Davanagere Distt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	04.02.84
2511	Sunil Kumar Rajak, S/o Sh. Bihari Lal Baitha	BVC/2643/05	Vill. Bhandhar, PO Bhandhar, PS Hathauri- 848117, Distt. Samastipur,Bihar	BVSc&AH/BAU/05	05.01.82
2512	Sunil Kumar Sahoo, S/o Sh. Benudhar Sahoo	OVC/2122/07	At Padhan Patna, PO Banamalipur, Distt. Khurda,Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	07.06.82
2513	Sunil Kumar Singh, S/o Shri Ikashandev Singh	UPVC/4491/06	Vill. Jalalpur Maidan, PO Bharehatha, Mirzapur,Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/ 06	06.05.79
2514	Sunil Kumar, S/o Sh. Lal Chand	RajSVC/3256/06	Vasant Vihar Colony, Near Police Line, Ajmer, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	20.03.79
2515	Sunil Kumar, S/o Sh. Raj Karan Mor	HVC/1912/	VPO, Bass (Khurd), Distt., Hisar,Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/0 6	15.11.81
2516	Sunil Kumar, S/o Sh. Rameshwar Singh	BVC/2705/05	Vill. Raghunathpur, PO Bhaluaahi, PS Nokha- 802215, Distt. Rohtas,Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/0 5	25.12.77
2517	Sunil Kumar, S/o Sh. Suraj Bhan	HVC/1928/	331/17, Gali No. 8, Uttam Nagar, Near Power House, Gohana, Sonipat,Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/0 6	19.01.81
2518	Sunimal Saren, S/o Late Sh. Banshing Saren	WBSVC/3273/06	Vill. Doluibasa, PO Birkham, Distt. Bankura,West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	05.09.81
2519	Sunit Kumar Biswal, S/o Sh. Pranaballava Biswal	OVC/2065/06	At Shasanga, PO Chenapadi, Distt. Keonjhar,Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	20.06.82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2520	Sunita Behera, D/o Sh. Nanda Behera	OVC/2105/07	At Torania-Samil-Pahadachula, PO Raichakradharpur, Distt. Puri, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	10.06.80
2521	Suradkar Umesh Shaligram	MahaSVC/7625/	C/o S.D. Suradkumar, Kuntal Nivas, Vishnuwadi, Buldana-443001, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	01.04.83
2522	Suraj Kumar, S/o Sh. Arjun Prasad Singh	BVC/2671/05	Vill. Hajipur, PO Biharshariel, PS Bihar-803101, Distt. Nalanda, Bihar	BVSc&AH/GBPUAS&T./05	17.10.78
2523	Surajit Kumar Hajong S/o Mr. Surendra Ch Hajong	MeghSVC/242/06	C/o Mr. Surendra Ch Hajong, Vill-Goalgaon, PO-New Bhaitabari, D/West Garo Hills, Meghalaya	BVSc&AH/AU/06	31.7.81
2524	Suram Rasagna, D/o Shri Suram Narayana Reddy	APSVC/4494/06	Kalanuthala, Peddaraveedu (M), Prakasam Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVU/06	08.06.82
2525	Sure Ganesh Prakash	MahaSVC/7138/	Gajanan Cloth Stores, Hursool, Ajantha Road, Harsool, A/p Harsool, Dt. Aurangabad, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	21.09.80
2526	Surender Kumar, S/o Sh. Rajpal	HVC/1917/	VPO Bigowa, Th. Ch. Dadri, Distt. Bhiwani, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/06	22.12.78
2527	Surender Singh Arya, S/o Sh. Mohinder Singh Arya	DVC/0664/05	46, Defence Appts. Near Inder Enclave, New Delhi-87	BVSc&AH/RKV/87	01.02.64
2528	Surendra Kumar Gupta, S/o Late Sh. Brahma Beharilal Gupta	DVC/0659/05	Fiat No. 752/Ag.H-13, Paschim Vihar, New Delhi-87	BVSc&AH/AU/60	16.01.37
2529	Surendra Narayan Srivastava, S/o Shri R.N. Srivastava	MPSVC/2413/07	C-124, Minal Residency, Bhopal, MP	BVSc&AH/JNKVV/67	01.02.44



<i><b>SNUM</b></i>	<i><b>NAME</b></i>	<i><b>RNUM</b></i>	<i><b>ADD</b></i>	<i><b>QUALIF</b></i>	<i><b>DOB</b></i>
2530	Suresh Chand Singhal, S/o Late Shri D.C. Singhal	MPSVC/2417/07	H/o Smt. H. Bai Jain, 1025 Gole Bazar, Ranital, Jabalpur, MP-482002	BVSc&AH/JNKVV/83	25.05.59
2531	Suresh Kumar Soni, S/o Shri Ram Lal Soni	MPSVC/2358/06	H-04, Vaishali Nagar, Damoh, MP-470661	BVSc&AH/JNKVV/06	19.07.67
2532	Suresh Kumar Tiwari, S/o Shri D.P. Tiwari	UPVC/4553/07	Vill. Pure Khushli Dubey H- 10, Vinayakpur Nandauli, Via. Amani Ganj, Faizabad, U.P	BVSc&AH/JNKVV/95	24.11.67
2533	Suresh Kumar, S/o Shri Puranmashi Ram	UPVC/4492/06	Vill. Harpur, PO Zamania, Distt. Ghazipur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/ 06	12.05.77
2534	Surinder Kumar Tehria, S/o Sh. Mangat Rai	DVC/0657/05	H.No. 187, Giri Nagar, Balmukund Khand, Kalkaji, New Delhi-19	BVSc&AH/HPKV/05	10.10.82
2535	Suruchi Sahoo, D/o Sh. Lokanath Sahoo	OVC/2089/06	Plot No. N/1-94, IRC Village, Bhubaneswar, Orissa	BVSc&AH/OUAT/06	01.01.83
2536	Surve Vinayak Jagannath	MahaSVC/7478/	44, A/p Tulsani, Tal. Sangameshwar, Distt. Ratnagiri-415804, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	22.08.82
2537	Suryawanshi Amol Sahebrao	MahaSVC/7559/	C/o Satyabhama Sahebrao Suryawanshi, A/p Bahal (Kasbe), Tal. Chaligaon, Dt. Jalgaon, Mah arashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	25.03.83
2538	Suryawanshi Prajakta Balaji	MahaSVC/7174/	C/o Belsare, "Bhagyashree", 25- B, Adiwasi Colony, Tukdohi Chowk, Manewada Rd, Nagpur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	18.07.81
2539	Suryawanshi Prashant Ramrao	MahaSVC/7660/	3, 'Chayakunj', Taroda (B), Mahsool Nagar, Nanded- 431605, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	02.06.81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2540	Suryawanshi Vijaykumar Murari	MahaSVC/7562/	C/o Suryawanshi Murari Kishan, Baoik Madhymik Ashram Shala, Marwalitanda, Tal. Naigaon, Dt. Nanded, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/03	01.04.79
2541	Suryawanshi Vikas Dhondiram	MahaSVC/7286/	Kindarwadi, Tal. Tasgaon, Distt. Sangli, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	11.08.81
2542	Suryawanshi Yuvraj Raghunath	MahaSVC/7526/	5, Jaihind Colony, Dhekusim Road, Amahare, Distt. Jalgaon, Maharashtra	BVSc&AH/KKV, Dapoli/79	24.03.53
2543	Sushama Arya, D/o Sh. D.P. Arya	RajSVC/3296/06	A-64, Poonia House, Kailash Nagar, Jhotwara, Jaipur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	24.07.79
2544	Susheel Kumar Tiwari, S/o Shri S.K. Tiwari	UPVC/4410/06	H.No. 2096, Near Taxi Stand, Karoudia, Sultanpur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/06	06.06.80
2545	Sushil Dahiya, S/o Sh. Phool Kumar	HVC/1943/	VPO Mandora, Th. Kharkhoda, Distt. Sonapat, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/06	25.10.80
2546	Sushil Kr Sinha, S/o Rajendra Mohan Sinha	TripuraSVC/165/06	C/o Rajendra Mohan Sinha, Southern side of Dhaleswar B. O. C. Dist (w) Tripura	BVSc&AH/MAU/84	24.11.58
2547	Sushil Kumar Mehta, S/o Sh. Ved Prakash	RajSVC/3243/06	Veterinary Hospital, Tapukada, Alwar, Rajasthan	BVSc&AH/GBPAU&T/91	17.08.68
2548	Sutradhar Arup Kumar, S/o Sh. Narendra Kr. Sutradhar	ASM/2259/06	C/o Mr Narendra Kr. Sutradhar, Jait Rod, Barpeta, Assam-781314	BVSc&AH/AAU/06	18.02.80
2549	Suvajit Samanta, S/o Sh. Subhas Samanta	WBSVC/3245/06	Vill. & PO Bakshi, PS Bagnan, Distt. Howrah-711303, West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/06	09.04.84

S/NUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
2550	Swarnalatha Sondi, D/o Shri Babjee	APSVC/4462/06	C/o G.T. Naidu, MIG-178, APHB Colony, Opp. Zilla Parishad Office, Srikakulam- 532001, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	04.06.82
2551	Swati Omanwar, D/o Sh. P.K. Omanwar	DVC/0666/05	457, Hawa Singh Block Asiad Village, New Delhi-49	BVSc&AH/GBPAUT/9 5	17.01.72
2552	Syed Mohmood Syed Nawazuddin	MahaSVC/7316/	Syed Manzil, 1-1-29, Fort Street, Udgir, Distt. Latur- 41517, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	21.01.79
2553	Syed Quayyum Ali, S/o Shri Habibul Hason	MPSVC/2350/06	Govind Nagar, Chotey- Sheetoley Kothi, Jhansi Road, Shivpuri Shivpuri, MP-473551	BVSc&AH/JNKVV/75	05.05.51
2554	Synsharlang Megh Khongsti, S/o Shri O.Nongkhlaw	SVC/238/06	C/o P Khongsti, Upper Nongthymmai, Nongkhyriem, Shillong-14, Meghalaya	BVSc&AH/AAU/06	8.11.82
2555	T. AROKKIYA SELVARANI S/o J.AROCKIA RAJ	TNVC/2961/05	KALLU VAZHI (VILLAGE), AANTICHI OORANI (P.O.) SIVAGANGAI DISTRICT	BVSc/TANUVAS/94	14-03-71
2556	T. AVADAYAPPAN S/o A.THAMOTHARAN	TNVC/1985/05	13A, EAST STREET, THEROOR POST, (VIA) SUCHINDRUM, KANYAKUMARI DIST, TAMIL NADU 629 704.	BVSc/TNAU/75	02-09-49
2557	T. BALASUNDARAM S/o P.THEVARBIRAN	TNVC/2894/05	11 / 19, BAJANAI KOIL STREET, THATHAMKUPPAM VILLIWAKKAM, CHENNAI 600 049.	BVSc/TNAU/76	14-10-51
2558	T. Devi, D/o Sh. G. Narendran	TNVC/3764/06	31-C, Mahanadu Dharmarayar Street, Kanchipuram, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/02	26.07.78
2559	T. JEISOBERS S/O R. THIRUNAVUKKARAS U	TNVC/2308/05	1/87, OPPOSITE TO ARUNA THEATRE, ANDIMADAM (P.O.) 621 801	BVSc/TANUVAS/97	07-07-71

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2560	T. PALANICHAMY S/o K.THIRUMAL	TNVC/2029/05	7, PATTARAIVAKKAM ROAD, VARADHARAJAPURAM, AMBATTUR, CHENNAI-53.	BVSc/Uni of Madras/70	24-12-40
2561	T. Porchezian, S/o Sh. Thekshina Moorhy	TNVC/3597/06	14, Sri Kanaga Vinayagar Koil Street, Puliyangudi, Tirunelveli-627855, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/85	24.05.62
2562	T. Raja Swaminathan, S/o Sh. M. Thangarai	TNVC/3568/06	25-C, Thiru Nagar, 5th Cross, Velayuthanagar Extension, Jayakondan- 621802, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/95	25.06.72
2563	T. RAJAVELU S/o K.G.THANJI	TNVC/0846/05	445, AMIRTHAM ILLAM, TNCSC ROAD, KAMALAKSHIPURAM, VELLORE 632 002.	BVSc/TANUVAS/97	30-06-74
2564	T. Ramachandra Reddy, S/o Shri T. Venkata Subba Reddy	APSVC/4448/06	H.No. 87/1292, Somisetty Nagar, Opp. Bishop Church- 2, Kurnool-2, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	01.06.80
2565	T. RAMATHILAGAM S/o V.VEERAPANDIAN	TNVC/3075/05	SP.53, 3RD STREET, ISTSECTOR, K.K.NAGAR, CHENNAI 600 078	BVSc/TANUVAS/92	09-06-69
2566	T. RAVIMURUGAN S/o T.THANGARAJ	TNVC/1492/05	51 / 5H, S.M.PURAM. SECOND STREET, THOOTHUKKUDI 628 003	BVSc/TANUVAS/94	14-10-69
2567	T. SATHIAMOORTHY S/o A.THANGAVEL	TNVC/0960/05	NO.11, STAFF QUARTERS, MADRAS VETERINARY COLLEGE, VEPERY, CHENNAI -7.	BVSc/TANUVAS/95	18-06-70
2568	T. Seeta Ram Reddy, S/o Shri Narayan Reddy	APSVC/4534/06	P.No. 31, H.No. 87-1037, Ganesh Nagar-1, Near 'C' Camp, Kurnool, Andhra Pradesh	BVSc/APAU/75	12.08.52
2569	T. SENGOTTAIYAN S/o M.THASAGOUNDER	TNVC/2841/05	KATTUPPALAYAM, S.G.PALAYAM PO, SAKTHI NAGAR (VIA), ERODE DIST, PIN : 638 315.	BVSc/TANUVAS/98	16-06-74

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2570	T. SIVAKUMAR S/o M.B. THIAGARAJAN	TNVC/0857/05	19 / 86, III STREET, KARPAGAM AVENUE, CHENNAI 600 028.	BVSc/TNAU/86	24-06-62
2571	T. Srinivasa Babu, S/o Sh. Thippeswamy T.	KarSVC/3834/06	Sri Srinivasa Textorium, Parasurampura- 577538, Challakere, Chitradur ga Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	01.08.81
2572	T. UMA S/o D. PERIYANASAMY	TNVC/1507/05	G-3, NO.22, ELANGOADIGAL STREET, PADMANABA NAGAR, CHOOALAMEDU, CHENNAI 600 094	BVSc/TANUVAS/97	02-05-74
2573	T. VASANTHA KUMAR S/o A. THANGAVEL	TNVC/2911/05	WEST VALASU, THOPPU KADU, P. METTUR POST, NAMAKKAL 636 203	BVSc/TANUVAS/02	18-05-77
2574	T.A. KANNAN S/O T. ARTHANARI	TNVC/2462/05	51. G II SANTHI ILLAM, KULALAR STREET, IDAPPADI 637 101, SALEM DIST.	BVSc/TANUVAS/94	02-03-71
2575	T. ANNA S/O S. THAVASY	TNVC/2294/05	91/6, BHARATHI STREET, T. KALLIKULAM, TIRUNELVELI	BVSc/TANUVAS/93	31-05-70
2576	T. C. BALAMURUGAN S/o T. CHINNASAMY	TNVC/0690/05	402, C VINAYAGAPURAM, ATTUR SALEM, TAMIL NADU 636 102.	BVSc/TANUVAS/00	14-07-75
2577	T. G. PRABHAKAR S/o T. K. GOPALAN	TNVC/1573/05	8, POORNATHILAGAM STREET, TAMBARAM WEST, CHENNAI 600 045.	BVSc/TNAU/74	11-03-50
2578	T. J. HARIKRISHNAN S/o T. C. JAYAGOPAL	TNVC/3025/05	D-16, 16TH STREET, PERIYAR NAGAR, CHENNAI 600 082	BVSc/TNAU/84	13-01-60
2579	T. K. Gopalakrishna Murthy, S/o Sh. T. S. Ramasamy	TNVC/3785/07	Thippichettipalayam, Kadayampatty PO, Bhavani Via., Erode-638302, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/88	09.06.66

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2580	T.K. RAVINDRANATH S/o R.KAMALANADHA REDDY	TNVC/1579/05	9, VARADAREDDY STREET, TIMIRI, VELLORE DIST, PIN : 632 512.	BVSc/Uni of Madras/69	16-12-42
2581	T.Lurthu Reetha S/o Sh. P.B.Thomas	TNVC/1843/05	A-123 Jai Nagar, Thiruverambur, Trichy- 13, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/96	01.02.73
2582	T.M. GOWRISHANKAR S/o T.C.MANICKAM	TNVC/2914/05	D.NO.28 / 4, T.VEERABATHRA STREET, G.G. FLATS, BLOCK I, ERODE 638 003	BVSc/TNAU/80	20-08-57
2583	T.M.A. SENTHIL KUMAR S/o C.ALAGESAN	TNVC/3003/05	FLAT NO.8A. BLOCK B2. AISHWARYAM APARTMENTS, 4TH MAIN ROAD, NOLAMBUR, MOGAPPAIR WEST, CHENNAI 600 095	BVSc/TANUVAS/92	18-05-69
2584	T.N. GANESH S/o T.R.NARASIMHALU	TNVC/0821/05	PLOT No. 245, SRIKRISHNA NAGAR, MADURAVOYAL, CHENNAI - 602 102	BVSc/TNAU/78	05-12-55
2585	T.N.VARADHARAJAN S/o T.P.NAGASUBRAMANIA M	TNVC/1370/05	246 / 2, ROHINI FLATS, SEVENTH AVENUE, ANNANAGAR WEST, CHENNAI 600 101	BVSc/Uni of Madras/59	15-09-35
2586	T.P. SEKAR S/o T.PARTHASARATHY	TNVC/0651/05	13, GIRI STREET, WEST MAMBALAM, CHENNAI 600033	BVSc/TNAU/81	22-06-57
2587	T.R. PUGAZHENTHI S/o R.T.RENGASAMY	TNVC/0713/05	6-3-37, INDRA NAGAR, UTHAMAPALAYAM PO (TK) THENI DISTRICT 625 533	BVSc/TANUVAS/95	29-05-72
2588	T.Raju, S/o Sh S.Thaniel	TNVC/3474/05	280 K.C.Road, Melur, Sengottai, Ti runelvelli, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/74	2.01.50
2589	T.S. SARAVANAN S/o T.R.SANKARAN	TNVC/1580/05	B-53, TNHB, KARAI, RANIPET, VELLORE.	BVSc/TANUVAS/98	03-03-75

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2590	T.SATHYA BAMA S/O V.R.P.MURALIKRISHNA N	TNVC/2273/05	NO.94, RAJAJI COLONY, ATTUR - 636 102, SALEM DISTRICT	BVSc/TANUVAS/97	15-05-74
2591	T.SENTHILKUMAR S/oR.THAYALAN	TNVC/2113/05	NO.28/55 A1, JAYAPURAM, OPPOSITE TO NEW POLICE LINE, TINDIVANAM 604 002.	BVSc/TANUVAS/96	15-05-73
2592	T.SUJATHA W/o.M.TAMILVANAN	TNVC/1763/05	10 / 23, NEW COLONY, SALAPET, PERNAMBUT, VELLORE DISTRICT PIN 635 810	BVSc/TANUVAS/00	30-05-75
2593	T.V.Rajkumar,S/oT.G.Ve nugopal	TNVC/3550/06	382,5th Main Road,M.K.B.Nagar,Vyasarp adi,Chennai-039,Tamil Nadu	BVSc/Uni of Madras/65	5.07.38
2594	Tadavi Salim Bashir	MahaSVC/7186/	Sangavi Bk., Tal. Yawal, Distt. Jalgaon, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	06.08.81
2595	Tajani Sujitkumar Trikambhai	GUJSVC/2726/06	7, Somnath Society, Kapodra Char Rasta, Varachha Road, Surat- 395006,Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	24.04.84
2596	Takey Satish Manikrao	MahaSVC/7351/	C/o Sunil Solunke, Infront of ITI College, Jintur Colony,Selu, Distt. Parbhani,Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	15.05.82
2597	Tamalika Chowdhury, D/o Sh. Jayanta Chowdhury	WBSVC/3262/06	9. D.N. Sanyal Lane, Krishnagar, Dt. Nadia,West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/0 6	20.09.82
2598	Tamlam Uma Manohar	MahaSVC/7183/	84, Sumrati Nagar, Dattawadi, Amravati Road, Nagpur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	12.11.81
2599	Tandel Shiwani Dilip	MahaSVC/7219/	3/11, A-Dhiraj Appartments, Peddar Road, Mumbai, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	17.09.81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2600	Tangade Suyash Uttamrao	MahaSVC/7243/	'Raghukirpa' Ramkrishna Nagar, Vasmat Road, Parbhani-431401, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	31.05.81
2601	Tangkamlesley N.Sangma, S/o Sh F.R.Marak	MeghSVC/248/07	Bolsal Ading, South Garo Hills, Meghalaya	BVSc&AH/AAU/07	5.11.79
2602	Tanpure Tushar Namdeo	MahaSVC/7395/	C/o Jadhav Dattatray Ramchandra, A/p Kothure, Tal. Niphad, Distt. Nashik- 422303, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	21.10.81
2603	Tanvir Ahmed, S/o Md. Hasim	BVC/2714/05	Ansari Watch Co., Vill. Hasanpur Surat, PO Patori, PS Patori-848504, Dt- Samastipur, Bihar	BVSc&AH/TNVASU/0 5	20.11.80
2604	Tapan Kumar Palai, S/o Sh. Madhu Sudan Palai	OVC/2132/07	Plot No. 567, Sahid Nagar, Bhubaneswar, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	19.07.82
2605	Tapaswini Nayak, D/o Sh. Gangadhara Nayak	OVC/2108/07	Distt. Police Office, Gajapati Nagar, Berhampur- 10, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	10.07.82
2606	Tarsingh Hrangkhawal, S/o Prabhaj Ch Hrang Khwal	TripuraSVC/168/06	C/o P.C. Hrangkhwal, Vill- Rangamura, PO- NKR(Para)Ps. Teliamura Dt, (W) Tripura	BVSc&AH/WBUA&FS U/06	15.7.84
2607	Tejinder Singh, S/o Late Shri Achhar Singh	UPVC/4348/06	412 Ra Bazar, Meerut Cantt. Meerut, Uttar Pradesh	BVSc&AH/AAU/06	10.05.82
2608	Tejinder Singh, S/o Sh. Achhar Singh	Pb.SVC/2641/06	C/o Sh. Surjit Singh, H.No. 2318/39, Abdulla pur Basti, Fauji Moh, Ludhiana, Punjab	BVSc&AH/AAU/06	10.05.82
2609	Tekale Gajendrakumar Shamrao	MahaSVC/7345/	S.B. Tekale, C/o Mule Sir Shrikrishna Nagar, (Mhada), New Mondha Road, Jalna, Dt. Jalna, Mahara shtra	BVSc&AH/MAFSU/05	16.08.82



<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2610	Tekale Mangesh Sheshrao	MahaSVC/7249/	A/p Peth Amrapur Galli, Degloor, Distt. Nanded-431717, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/03	09.02.80
2611	Thakare Harshadkumar Avajibhai	GUJSVC/2776/06	At & Post Dhavidod, Ta. Ahwa, Distt. Dang-384710, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	21.06.82
2612	Thakare Vivek Sambhaji	MahaSVC/7505/	Plot No. 48, Shiv Colony, Jamner, Tal. Jamner, Distt. Jalgaon, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	30.03.83
2613	Thakkar Rupeshkumar Vardhihal	GUJSVC/2768/06	I-1, Madhuram Flat, B/H, Petrol Pump, Jivraj Park, Ahmedabad-380051, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	09.09.83
2614	Thakur Rashmi Ramsingh	MahaSVC/7411/	Sahara House, Shelhal Road, Nideban, Tal. Udgir, Distt. Latur-413517, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	01.10.82
2615	THANGA THAMILVANAN S/o V.THANGARAJAN	TNVC/1568/05	C-6, RANI VAHINI FLATS, 36, NACHIAPPA ST, MYLAPORE, CHENNAI-4.	BVSc/TNAU/89	15-02-66
2616	THANGARAJ RATHINASAMI S/o D.AROGYAM	TNVC/3246/05	282, 5TH STREET, BASTIAN NAGAR, BETHANIAPURAM, MADURAI 625 016.	BVSc/Uni of Madras/68	11-07-43
2617	Thange Hemant Pradip	MahaSVC/7579/	Parekh Building, 7, Plot No. 237, Road No.32, Sion Koliwada, Tal. Sion (E), Mumbai, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	01.06.84
2618	Thawali Shweta Devidas	MahaSVC/7598/	C/o Shri Deepak A. Thakre, Old Subhedar Layout, Plot No. 6, Nagpur-24, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	03.03.83
2619	THIYAGARAJA ACHUTHAN S/o N.V. THIYAGARAJAN	TNVC/0813/05	1667A / 2, 9TH STREET, 15TH MAIN ROAD, ANNA NAGAR, CHENNAI 600 040.	BVSc/Uni of Madras/68	03-04-43

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2620	Thombare Nandkumar Nana	MahaSVC/7511/	At Mirewadi, Post Rawadi (B.K.), Tal. Phaltan, Distt. Satara-415522, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	01.06.82
2621	Thombare Rahul Nagnath	MahaSVC/7410/	A/p Sangvi (Mardi), Tal. Tauljapur, Distt. Osmanabad, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	02.04.83
2622	Thorat Vaishali Kahndu	MahaSVC/7229/	404, Saikrupa Hsg. Society, Sec-19, Plot No.27, Nerul (Navi Mumbai), Dt. Thane, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	02.05.81
2623	Thorat Varshan Devidas	MahaSVC/7307/	Near D. Pharmacy Institute, Osmanabad-413501, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	15.06.82
2624	Thota Srilatha, D/o Shri T. Kishan	APSVC/4515/06	C/o Dr. Sunil Mangalam, MIG-31, Vijayanagar Colony, Hyderabad-500057, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	10.08.82
2625	Thube Harshala Appasaheb	MahaSVC/7573/	A/p Kanhur Pathar, Tal. Parner, Distt. Ahmednagar, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	16.10.83
2626	Thumber Ghanshyam Rajnikant	GUJSVC/2780/06	Ghanshyam Krupa Janak Nagar, Gayatri Sch, Nr. Sagar Appartment Zanzarda Rd, Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	14.11.81
2627	Tijare Gaurav Subhashchandra	MahaSVC/7638/	A-4/G-4, Govind Gaurkhede Complex, Seminary Hills, Nagpur-440006, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	02.06.83
2628	Tikekar Vikas Prabhakarao	MahaSVC/7516/	Konark Apartment, Behind Wadgao Police Chowkey, Bapat Nagar, Chandrapur- 442401, Maharashtra	BVSc&AH/PKV, Akola/75	19.07.51
2629	Tiple Ashwini Vijaykumar	MahaSVC/7596/	C/o Vijaykumar P. Tiple, 94- Lata Kunj, Khankhoje Nagar, Manewada Road, Nagpur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	13.04.82

<i>S/NUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2630	Tirthbasi Sahoo, S/o Sh. Basanta Ku Sahoo	OVC/2136/07	At Khamar Sahi, PO/Distt. Dhenkanal, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	19.07.83
2631	Tista Mondal, S/o Sh. Bhaba Sindhu Mondal	WBSVC/3237/06	Vill. & PO Kalinagar, PS Sandeshkhali, Dt. 24 Prgs(N), West Bengal	BVSc&AH/WBUAFS/06	10.11.83
2632	Tiwari Shailendra Satishchandra	MahaSVC/7639/	A/p Umari (Bazar), Tal. Kinwat, Distt. Nanded-431805, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	22.08.81
2633	Tompawar Kapil Ashokrao	MahaSVC/7373/	At Rahur, Post Fulsawangi, Tal. Mahagaon, Distt. Yavatmal-445230, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	02.01.82
2634	Tornekar Anil Prabhakar, S/o Sh Prabhakar Rao	KarSVC/3825/06	Torna-585443, Aurad, Bidar Dt, Karnataka	BVSc&AH/MAFSU/98	15.05.76
2635	Totewad Gajanan Digambar	MahaSVC/7453/	Near Vitthal Rukhumai Mandir, Samrat Nagar, Datta Nagar Road, Gumastha Colony, Nanded, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	01.06.83
2636	Tracy N. Sangma, D/o(L) Smt. I. S. N. Sangma	MeghSVC/240/06	Lower Wadanang, PO- Chandmari, Tura, West Garo Hills, Meghalaya	BVSc&AH/AAU/06	14.6.81
2637	Tribhuvan Prasad, S/o Shri Mahanguram	UPVC/4517/06	Vill. & PO Hisamuddinpur Pipra, Distt. Ambedkarnagar, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUA&T/00	10.04.75
2638	Tribhuvan Yadav, S/o Shri Ram Awadh Yadav	UPVC/4516/06	Vill. Sahjadpur, PO Barahata, Distt. Jaunpur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUA&T/98	07.08.72
2639	Trilochan Sahu, S/o Sh. Maheswar Sahu	OVC/2101/07	At/PO Dhenkanal, Back of Amarnath Hall, Distt. Dhenakanal, Orissa	BVSc&AH/OUAT/07	06.01.83

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2640	Trindade Davina Joseph	MahaSVC/7682/	1, Casabianca, Lady Jamshedji Cross Road No. 2, Mahim Mumbai-400016, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	13.05.83
2641	Tripti Jain, D/o Shri Prakash Chandra Jain	MPSVC/2332/06	Gayatri Nagar, N.K.J. Road, Jain Compound Katni, MP	BVSc&AH/JNKVV/05	31.01.81
2642	Tulajaram Pawar, S/o Sh. Rajendra	KarSVC/3845/06	Hadalageri-586245, Muddebihal Tq., Bijapur Distt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	01.06.83
2643	Udai Bhan Varun, S/o Prahlad Varun	UPVC/4429/06	Vill. & PO Rasoolpur (Tareta), Distt. Basti,Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/0 6	02.03.78
2644	Uday Shankar Gupta, S/o Shri H.L. Gupta	UPVC/4523/06	Vill. & PO Bagaha (Lar Road), Salempur, Deoria,Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/ 99	31.12.71
2645	Udaykar Aniruddha Padmakar	MahaSVC/7624/	Ward No. 20, Aras Layout, Buidana-443001, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	23.09.83
2646	Udgire Dileep Ramji	MahaSVC/7436/	Mali Lane, Kalamnuri, Tal. Kalamnuri, Distt. Hingoli- 431702, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	05.01.83
2647	Ugalmugie Shrihari Sarjerao	MahaSVC/7523/	'Shrihari Niwas', Dnyaneshwar Nagar, Behind I.T.I., Nagpur Road, Beed-431122, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	17.07.82
2648	Umesh Chandra, S/o Late Shri D.P. Srivastava	UPVC/4350/06	128/163, H.I. Block, B/H Anand Nagar, Kidwai Nagar, Kanpur,Uttar Pradesh	BVSc&AH/Agra Uni./72	17.12.47
2649	Umesh Kavali, S/o Sh. Jagadeeshappa	KarSVC/3842/06	"Chinmai"Siddeshwaranagar 1cross Ranebennur- 581115Haveri Dt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	01.04.84

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2650	Umesh Kumar Tripathi, S/o Shri K.P. Tripathi	UPVC/4390/06	Vill. Lauki, PO Sahajanwababu, Distt. Maharajanj, Uttar Pradesh	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	01.07.77
2651	Umesh Kumar, S/o Sh. Rati Ram	RajSVC/3245/06	Vill. & PO Malakhera, Awar, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	11.07.79
2652	Umesh Singh, S/o Shri R.S. Singh	UPVC/4530/06	B-14, MAA Bhagirathi Nagar, Sunderpur, Varanasi, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/ 06	03.07.81
2653	Umme Asma U., D/o Sh. Khaleel Ur Rahaman Khan	KarSVC/3953/07	Pump House Road, I Cross, Belur-573115, Hassan Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	19.05.83
2654	Ummed Singh Rathore, S/o Sh. Ram Singh	RajSVC/3291/06	Chandra Vill. 134 ZSA BJS Colony, Jodhpur, Rajasthan	BVSc&AH/Udaipur Uni/73	05.04.49
2655	Umretiya Sandip Dhirajlal	GUJSVC/2769/06	"Bansari" At Mandlikpur, Po Bandhala, Via. Bilkha, Ta&Dt. Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	03.02.84
2656	Utage Sangameshwar Ganpatrao	MahaSVC/7317/	Ganga Niwas, Shivaji Society, Udgir-413517, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	28.04.80
2657	Uttam Bhati, S/o Sh. Pooran Chand Bhati	RajSVC/3313/06	Infront of Sophia School, Tilak Nagar, Bikaner, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/05	15.04.80
2658	Uttam Kumar Bajpai, S/o Shri Ashok Kumar Bajpai	UPVC/4400/06	118, Ganganagar Parajyan Purva, Nawab Ganj, Kanpur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDAUA&T/ 06	20.06.81
2659	Uttam Kumar, S/o Shri Awadhesh Prasad	UPVC/4364/06	D-54, Sec-P, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/0 0	15.09.76

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2660	Uttar Sarkar, S/o Sukhamoy Sarkar	TripuraSVC/169/06	Vidyasagar Chowmuhani PO-Jogendra Nagar, Agartala, (w) Tripura	BVSc&AH/CSAKEPV V/90	12.08.66
2661	V. ANTONY SAMSON S/o II. VINCENT XAVIER	TNVC/3145/05	4 / 25, 5TH MAIN ROAD, RENGA NAGAR, TIRUCHY - 2.	BVSc/TNAU/78	06-07-52
2662	V. Anurajkumar, S/o Sh. A. Vasimalai	TNVC/3623/06	A/3, Pandurenga Apartments, B. Koil, Trichy- 621216, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/01	28.06.77
2663	V. APPA <sup>4</sup> RAO S/o V. KRISHNAIAH	TNVC/0649/05	PLOT NO. 60, III MAIN ROAD, SOUTH JAGANNATHA NAGAR, VILLIVAKKAM, CHENNAI 600 049	BVSc&AH/APAU/89	01.07.66
2664	V. Arun, S/o Sh. Vaikuntavasan	TNVC/3592/06	111, Jothi Nagar, Bharathidasan Salai, Kondur, Cuddalore-2, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/00	28.06.76
2665	V. BALAKRISHNAN S/o K.C.SEN	TNVC/0756/05	139 / 24, KAILASH COLONY, ANNA NAGAR WEST, CHENNAI 600 101.	BVSc/TNAU/81	22-04-56
2666	V. BHASKAR S/o V. DORASAMY REDDY	TNVC/1530/05	NO. 41, NALLATHANNI KULAM STREET, GANDHI ROAD EXTN, TIRUTTANI 631 209, TIRUVALLUR DISTRICT.	BVSc/TANUVAS/90	10-06-64
2667	V. GNANAPRAKASAM S/o S. VELAYUTHAM	TNVC/2217/05	W-436, NEW NO. 13, "VELANAGHAM", SECTOR "C" 5TH STREET, ANNA NAGAR WESTERN EXTENSION, CHENNAI 600 101.	BVSc/Uni of Madras/59	20-06-37
2668	V. Jagannadha Varma K., S/o Shri Varma K.U.J.R.	APSVC/4529/06	MIG-II-113, Phase-II, VUDA Colony, Contonment, Vizianagaram	BVSc&AH/SVVU/06	24.04.81
2669	V. JEICHITRA W/o. R. MAHENDRA BOOPATHY	TNVC/1685/05	1 / 218, KANAGALAKSHMI NAGAR, VAYALUR ROAD, SOMARASAMPETTAI (PO), TRICHIRAPALLI - 620 102	BVSc/TANUVAS/95	15-07-72

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2670	V. KANNAN S/O P. VELASAMY	TNVC/2321/05	29/48A, KAMARAJ NAGAR, GANDHI SALAI, RASIPURAM, NAMAKKAL DISTRICT 637 408	BVSc/TANUVAS/98	10-06-75
2671	V. MEENALOHANI S/o M. VENKATACHALAM	TNVC/1953/05	4 / 229, THIRUPATHUR ROAD, ARASAMPATTI (PO), DHARMAPURI (DT)	BVSc/TANUVAS/93	29-12-69
2672	V. PONMANI W/o. A. MEENAKSHI SUNDARAM	TNVC/0950/05	NO. 1, BUNGALOW III STREET, KOVILPATTI 628 501, THOOTHUKKUDI DISTRICT.	BVSc/TANUVAS/95	30-06-72
2673	V. PONNUCHAMY S/o R. VELUSAMY	TNVC/0896/05	PALAPPANPATTY POST, KALLIMANDAYAM VIA, DINDIGUL DISTRICT 624 616.	BVSc/TANUVAS/98	15-04-75
2674	V. PRABAHARAN S/o A. VAIYAPURI	TNVC/1212/05	NO. 11, SECOND CROSS STREET, GANDHI NAGAR, MANNACHANALLUR (PO), TRICHY (DT) 621005	BVSc/TANUVAS/94	05-07-71
2675	V. PURUSUOTHAMAN S/o V. VENKATRAM	TNVC/2869/05	11 / 2, II STREET, SOUTH HIGH COURT COLONY, VILLIVAKKAM, CHENNAI - 49.	BVSc/TNAU/75	04-08-54
2676	V. RABINDRANATH S/o V. VIRARAGHAVAN	TNVC/0798/05	20, DR. NATESAN SALAI, ASHOK NAGAR, CHENNAI 600 083	BVSc/TNAU/80	06.05.57
2677	V. RAJENDRAN S/o P. VELU	TNVC/3282/05	LADAPURAM POST, PERAMBALUR TK & DIST, 621 121.	BVSc/TANUVAS/91	26-05-67
2678	V. RAMASAMY S/O N. VELAPPA GOUNDER	TNVC/2492/05	H-22, HOUSING UNIT, NASIYANCOOR ROAD, MANICKAMPALAYAM, ERODE 638 011.	BVSc/Uni of Madras/68	16-02-46
2679	V. Ramaswamy, S/o Sh. T. Venkatachalam	TNVC/3604/06	138 (Old No. 102/1), Perambur High Road, Perambur, Chennai- 600007, Tamil Nadu	BVSc/MU/73	04.11.50

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2680	V. RAMESH S/o P.VEERAMALAI	TNVC/1603/05	DOOR NO, 3 / 236 A, V.P.R. ILLAM, SOUTH STREET, ERAGUDI (PO) THURAIYUR (TK), TRICHIRAPPALLI (DT) 621001	BVSc/TANUVAS/96	16-06-72
2681	V. RANGANATHAN S/o M.VARADHAN	TNVC/1241/05	6 / 16, PERIYAR MANIYAMMAI NAGAR, THUVAKUDI MALAI, TRICHY - 620 022	BVSc/TANUVAS/98	04-01-74
2682	V. Sankaranarayana Moorthy, S/o Sh. S. Vellappa Naicker	TNVC/3583/06	1/4-C, Bharathi Nagar, Ist St. Kovilpatty, Tuticorin Distt. Tamil Nadu	BVSc/TNAU/74	15.08.49
2683	V. Senthil, S/o Sh. P.K. Venkatachalam	TNVC/3507/06	7/116, Kaveri Green Fields, Kongalathur, Ladduvadi, S.Karadu PO, Namakkal 1, Tamil Nadu	BVSc/KKVP/01	01.05.77
2684	V. Srinivasa Rao, S/o Shri V. Subba Rao	APSVC/4540/07	C-1, Siri Enclave, Advocates Colony, Hanamkonda, Warangal, And hra Pradesh	BVSc&AH/APAU/91	19.06.68
2685	V. SUNDARARASU S/o A.VEERAPPAN	TNVC/2936/05	R-25 / 53, MARAIMALAI ADIGAL STREET, M.M.D.A. COLONY, ARUMBAKKAM, CHENNAI 600 106	BVSc/Uni of Madras/69	03-03-47
2686	V. THANASEELAN S/O T.VELLAISAMY	TNVC/2322/05	KEELAKKARISALKULAM, RAYAGIRI P.O. SIVAGIRI T.K. TIRUNELVELI PIN 627 764	BVSc/TNAU/86	09-07-62
2687	V. TITUS GEORGE S/o V.T.GEORGE	TNVC/2887/05	54 / 4, PALAYAKARAN STREET, KODAMBAKKAM, CHENNAI 600 024.	BVSc/Uni of Madras/69	07-11-45
2688	V. UMA D/o K.VELAYUDHASAMY	TNVC/1738/05	8 / 241, RIVERWAY, KALLIPATTI POST, ERODE DISTRICT 638 505	BVSc/TANUVAS/01	05-04-77
2689	V. VEERAPANDIAN S/o A.VEERAN	TNVC/3076/05	SP.53, 3RD STREET, IST SECTOR, K.K.NAGAR, CHENNAI 600 078	BVSc/TNAU/89	08-04-62



SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
2690	V. VENKATARAMANUJAM S/o K.V.VENKADASAMY	TNVC/3106/05	NO.22, 26TH CROSS STREET, BESANT NAGAR, CHENNAI 600 090	BVSc/Uni of Madras/73	04-05-47
2691	V. VIJAYANAND S/o S.VARADARAJAN	TNVC/2749/05	PLOT NO.4525, "Y" BLOCK, DOOR NO.196, ANNA NAGAR, CHENNAI 600 040.	BVSc/TANUVAS/95	21-09-71
2692	V.A.Manikhandan S/o V.Arthanary	TNVC/0659/05	10,Brammadesam Sakthi Nagar Via, Erode Dist- 638315,Tamil Nadu	BVSc&AH/Dr.PRDKV P/97	9.05.75
2693	V.D.PADMANABAN S/O V.DURAI SWAMY	TNVC/2260/05	OLD NO.89, NEW NO.184, HABIBULLA ROAD, T.NAGAR, CHENAI 600 017	BVSc/Uni of Madras/61	01-11-39
2694	V.G. SOMASUNDARAM S/O S.GOVINDARAJAN	TNVC/2599/05	VEMANDAMPALAYAM POST, GOBI TK, ERODE DIST 638 462.	BVSc/TNAU/76	10-08-49
2695	V.G. Vasudevan, S/o Sh. V. Ganesan	TNVC/3791/07	23, Chellamuthu Street, Ariyalur, Perambalur Distt., Tamil Nadu	BVSc/TNAU/84	12.07.58
2696	V.K. Veereshwaran, S/o Sh. V. Kaiyani Chettiar	TNVC/3768/06	21, Church Road, Thiruporur Main Road, Guduvanchery, Chennai, Tamil Nadu	BVSc/MU/67	15.06.42
2697	V.LEELA W/o.M.S.RAMESH	TNVC/1791/05	OLD NO.6, NEW NO.11, SECOND CROSS STREET, RAMAKRISHNA NAGAR, CHENNAI 60 028	BVSc/TNAU/88	22-06-65
2698	V.MOHAN S/O N.VELAIAH	TNVC/2345/05	14-III CROSS STREET, ORMES ROAD, KILPAUK, CHENNAI 600 010	BVSc/TNAU/82	07-09-55
2699	V.N. APPAJI RAO S/o K.S.KRISHNASWAMY	TNVC/0775/05	1/L, BLOCK, MANDIRA APARTMENTS, No.53, NORTH BOAG ROAD CHENNAI 600 017.	BVSc/Uni of Madras/69	15-7-37

## THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

546

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2700	V.N. SESHAGIRI S/o V..G.NARASINGA RAO	TNVC/0772/05	FLAT.E, OLD NO.3, NEW NO.9, TWENTY FIRST STREET, NANGANALLUR, CHENNAI 600 061.	BVSc/Uni of Madras/65	18-08-39
2701	V.NAGARAJAN S/o VENKATARAMAN	TNVC/1862/05	NO.11, YAMUNAI STREET, BHARATHI NAGAR, ADAMBAKKAM, CHENNAI 600 088	BVSc/Uni of Madras/62	07-09-39
2702	V.Poovannan, S/o Sh G.Venkatarathnam	TNVC/0814/05	12/47, Nagoji Street, Triplicane, Chennai- 600005, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/78	9.04.52
2703	V.R. KANNAIYAN S/o K.V.RAMANUJAM	TNVC/2088/05	276/2, SANGAM APARTMENTS, BELLY AREA, ANNA NAGAR, CHENNAI 600 040.	BVSc/Uni of Madras/64	10-06-39
2704	V.S. GOMATHY S/O P.SUKUMARAN	TNVC/2305/05	16/3, THANDAVA ACHARI STREET, PURASAWALKAM, CHENNAI 600 007	BVSc/TNAU/81	31-07-56
2705	V.S. Panwar, S/o Shri Dhan Singh	UPVC/4535/06	B.R.House, A1/26, Defence Enclave, Kankar Khera, Meerut, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/6 8	05.09.45
2706	V.SRINIVASA RAGHAVAN S/o S.VASUDEVAN	TNVC/0958/05	PLOT NO.7, D.NO.1144 / 5, III CROSS STREET, DR.RAMAMOORTHY NAGAR, MADIPAKKAM, KEELKATTALAI POST, CHENNAI 600 117.	BVSc/TANUVAS/00	02-10-75
2707	Vadde Naresh, S/o Shri Anantharamaian	APSVC/4479/06	Kamalapuram (P), Karepally (M), Khammam Dt.-507210, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	06.08.82
2708	Vagh Arshi Arjanbhai	GUJSVC/2770/06	At Gabha (Gir), Ta. Talala (Gir), Distt. Junagadh- 362150, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	03.07.83
2709	Vaibhav Kumar Harsola, S/o Sh. Naveen	RajSVC/3300/06	Opp. Water Works, Bhawani Mandi, Jhalawar, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	29.12.80

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2710	Vaidya Pandurang Nivrutti	MahaSVC/7190/	A/p Sugaon Khurd, Tal. Akole, Distt. Ahmednagar-422601, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	26.12.81
2711	Vairagar Sandip Hiranman	MahaSVC/7450/	Moshi (Shivaji Wadi), Tal. Haveli, Distt. Pune-412105, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	21.09.82
2712	Vaishali Bhat, S/o Sh. Pushkar Nath Bhat	DVC/0641/04	DV-58, Vishakha Enclave, Pitampura, Delhi-88	BVSc&AH/GBPAUT/98	15.04.74
2713	VAJIRAVELU JAYAKUMAR S/o V.P. VAJIRAVELU	TNVC/0738/05	NO.3 / 9, BASKARA STREET, RANGARAJAPURAM, KODAMBAKKAM, CHENNAI 600 024.	BVSc/Uni of Madras/73	15-11-49
2714	Vala Karsan Bhagvanbhai	GUJSVC/2771/06	At Chhapari, Po Achhidra, Ta. Veraval, Distt. Junagadh-362255, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	01.04.83
2715	Valmiki Prakash Shankarbhai	GUJSVC/2781/06	53, Mangal Milan Park, Borsad Crossing, Anand-388001, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	27.11.80
2716	Valvi Ashok Ganji	MahaSVC/7555/	Pandesara Gujrat Housing Board, D.I.G.336,Block No. 98, Surat, Dt. Surat-394221, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	14.09.76
2717	Vandana Sangwan, D/o Sh. S.S. Sangwan	Pb.SVC/2697/07	Deptt. of Clinical Services Complex, COVS, GADVASU, Ludhiana, Punjab	BVSc&AH/GBPUAT/01	24.09.78
2718	Vani T.K., D/o Sh. Krishna Naik	KarSVC/3879/06	Murgon Colony, Behind Junior College, Kadur-577548, Chickmagalur, Distt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	11.07.82
2719	Vanjari Sachin Shashikant	MahaSVC/7518/	A/p Kilemachindragad, Tal. Waiva, Distt. Sangli, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	01.05.79

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2720	Varun Kumar Chaudhary, S/o Sh. Lakhan Chaudhary	BVC/2681/05	Vill. Barhi, PO Barhi, PS Jaynagar-847226, Dist. Madhubani, Bihar	BVSc&AH/WBUIA&FS U/05	15.02.79
2721	Vasundhara Garbhiyal, D/o Late Sh. Jaman Singh Kutiyal	UVC/227/06	C/o Sh. Pardeep Singh Garbhiyal, Malli Bazar, Dharchulla, Pithoragarh, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/9 6	12.06.70
2722	Vedpathak Hareshwar Subhash	MahaSVC/7678/	36-D, Narendra Sadan, Room No. 39-40, 3rd Floor, Mughhat Cross Lane, Girgaon, Mumbai, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	05.09.83
2723	Vedratna Saxena, S/o Late Shri V.P. Saxena	UPVC/4539/06	190, Malviya Nagar, Opp. Gurudwara, Gonda, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/9 1	21.09.67
2724	Venga Reddy Soumya, D/o Shri v. Sanjeeva Reddy	APSVC/4487/06	H.No. 3-85/2, Sanghameshwar, Domakonda (M), Nizamabad Dt.-503123, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVU/06	01.07.82
2725	Venkanna Balaganur, S/o Sh. Nagappa	KarSVC/3860/06	C/o L.K. Balaganur Anusha Nivas, Housing Colony Mudhol-587313, Bagalkote Dt. Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	01.01.83
2726	Venkata Jagadish Gadige, S/o Shri Krishna Murthy	APSVC/4518/06	H.No. 18-1-400, 2nd Floor, Bhavani Nagar, Tirupati-517502, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVU/06	26.10.82
2727	Venkata Rami Reddy Guda, S/o Shri Venkateswara Reddy	APSVC/4501/06	Santhagudipadu, Rompicherla (M), Guntur Dt. -522615, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVU/06	25.05.81
2728	Venkata Rao Ponugoti, S/o Shri Bhaskara Rao	APSVC/4475/06	Fire Office 1st Road, Kesarigunta Colony, Kandukur, Prakasam Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVU/06	01.07.79
2729	Venkataramu M.N., S/o Sh. Narasimhiah M.L.	KarSVC/3951/07	Dir (AH), KMF, Central Office, MH Marigowda Rd, B'lore-29, Karnataka	BVSc/UAS, B'lore/75	24.07.53

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2730	Venkatgiri, S/o Sh. Basawraj	KarSVC/3856/06	Muttangi-585227, Humnabad Tq., Bidar Distt.Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	01.08.83
2731	Vibha Rani, D/o Shri R.S. Solanki	UPVC/4422/06	Vill. Jiyana Gulyan, Baghpat,Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/06	10.02.84
2732	Vibha Yadav, D/o Shri Ram Chandra Yadav	UPVC/4383/06	Vill. Piperpur (Nasirpur), PO Shivtara, Ambedkarnagar,Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDAAU&T/06	10.07.81
2733	Vichar Nema, S/o Shri B. Nema	MPSVC/2373/06	523, Vevekanand Ward, Yadav Coloney, Jabalpur, MP	BVSc&AH/JNKVV/06	10.01.81
2734	Vichare Abhijit Suresh	MahaSVC/7267/	Kamerkar Chawl, Natraj Nala,Burarpeth,Dapoli, Tal.Dapoli,Dt.Ratnagiri, Maharashtra	BVSc&AH/Dr.BSKKV/01	14.01.78
2735	Victo Jubin Varghese	KeralaSVC/3181/06	Kadalikkattil House, South Marady PO, Muvattupuzha, Ernakulam-686673,Kerala	BVSc&AH/KAU/06	06.05.81
2736	Victoria, D/o Sh. Krishan Gopal	Pb.SVC/2678/06	H.No. D-XIV 145-B, Gali Dhobian Wali, Nangal Kotly, Gurdaspur, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/06	05.01.83
2737	Vidha Singh, S/o Sh. Kishun Singh	BVC/2662/05	Vill. Jasauli Tola Jurihata, PO Jasuli Via Pachrukhi, PS Pachrukhi, Dt.Siwan,Bihar	BVSc&AH/TNVASU/05	05.03.80
2738	Vidhya P.	KeralaSVC/3192/06	Krishna Kripa, Nr. KMS, Thalikkavil, Kannur-670001,Kerala	BVSc&AH/KAU/06	07.03.76
2739	Vidhya Pati Dixit, S/o Sh. H.N. Dixit	UVC/229/06	Professor B.P.H.,CBSC Pantnagar,Distt-U.S.Nagar,Uttarancnal	BVSc&AH/GBPUAT/76	01.01.53

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2740	Vijay Kashnia, S/o Sh. Lal Chand Kashnia	Pb.SVC/2691/06	VPO Kullar Tehsil Abohar, Distt. Ferozepur, Punjab-152116	BVSc&AH/CASUA&T/00	20.07.76
2741	Vijay Kumar Kushwaha, S/o Sh. Ram Darash	RajSVC/3279/06	A-25, Karni Nagar, Pawanpuri Colony, Bikaner, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	26.04.80
2742	Vijay Kumar Pahadia, S/o Sh. Yadram	RajSVC/3276/06	Julaha Para, Bhusawar, Bharatpur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	25.12.80
2743	Vijay Kumar Sharma, S/o Sh. N.K. Sharma	RajSVC/3286/06	Vill. Makro, TEH Singana, Jhunjhunu, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/93	20.10.68
2744	Vijay Kumar Srivastava, S/o Shri Satish Chandra	UPVC/4462/06	878/8, Moh. Katra, Gandhi Nagar, Basti, Uttar Pradesh	BVSc&AH/MAFSU/06	30.04.79
2745	Vijay Kumar, S/o Sh. Maru Ram	Pb.SVC/2655/06	VPO Bazidpur Katian Wali, Tehsil Fazilka, Distt. Ferozepur, Punjab	BVSc&AH/CCSHAU/06	03.01.80
2746	Vijay Kumar, S/o Sh. Om Prakash	HVC/1951/	VPO Siwana Th. Beri, Distt. Jhajjar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/06	20.12.80
2747	Vijay Kumar, S/o Sh. Tara Chand	RajSVC/3324/06	Vill. Shivpura, Post Malsisar, Jhunjhunu, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	26.04.80
2748	Vijay Kumar, S/o Shri Ram Darash Prasad	UPVC/4545/06	Vill. Tiwaripur, PO Kodra, Via. Majhauri, Deoria, Uttar Pradesh	BVSc&AH/RAU./00	26.04.80
2749	Vijay Singh Yadav, S/o Sh. Gyan Chand Yadav	DVC/0611/02	132, Police Colony, IIT Gate, Hauz Khas, New Delhi-110016	BHSc&AH/HAU/01	30.03.77

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2750	Vijendra Singh Rajora, S/o Late Sh. Basant Singh	UVC/261/06	1/137, Phool Bagh, Pantnagar, Distt. U.S. Nagar, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/7 8	11.04.56
2751	Vijendra Singh, S/o Shri Rajveer Singh	UPVC/4443/06	Vill. Karanpur, PO Kuri Ravana, Distt. Moradabad, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/0 6	15.08.83
2752	Vikas Gaurishankar	MahaSVC/7161/	Gomto Apart., Plot No.301, West High Court Road, Law College Sq., Dharampeth, Nagpur, Ma harashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	22.03.82
2753	Vikas Kumar Goyal, S/o Sh. Amar Nath	Pb.SVC/2649/06	Ward No. 3, Master Colony, VPO Moonak, Distt. Sangrur, Punjab-148033	BVSc&AH/GADVASU/ 06	15.06.83
2754	Vikas Kumar S/o Sh Dayanand Singh	RajSVC/3302/06	Vill-Shivpura, Post- Malsisar, Jhunjhunu, Rajasth an	BVSc&AH/RAU/06	10.7.80
2755	Vikas Mehta, S/o Sh. Krishan Lubhaya Mehta	Pb.SVC/2683/06	45/11, Shankar Nagar, Tibri Road, Gurdaspur, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/ 06	12.10.81
2756	Vikas R.	KeralaSVC/3173/06	Manasseril House, Muthukulam South PO, Alappuzha-690506, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	14.04.82
2757	Vikas Ranta, S/o Sh. Om Parkesh Ranta	HPSVC/775/06	Vill. Droti, PO Tikker, TEH. Rohro, Distt. Shimla, HP- 171203	BVSc&AH/CSKKVV/0 6	22.09.80
2758	Vikas Sharma, S/o Sh. B.D. Sharma	HPSVC/756/06	Behind Kali Bari Temple, Ghuggar, Palampur, Kangra, HP	BVSc&AH/CSKKVV/0 6	18.01.83
2759	Vikas Sharma, S/o Sh. Ram Prasad Sharma	DVC/0652/05	Q.No. T-58/D, Sarai Phoos Railway Colony, Tis Hazari, Delhi-54	BVSc&AH/CCSHAU/0 3	29.12.78

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2760	Vikas Tyagi, S/o Sh. P.K. Tyagi	HVC/1915/	H.No. 1282, Sector-8, Karnal, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/0 6	20.11.81
2761	Vikas Verma, D/o Shri Lalaram Verma	UPVC/4474/06	Vill. & PO Gausganj, Distt. Hardoi, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/ 06	04.12.79
2762	Vikash Gupta, S/o Shri Pramod Kumar Gupta	UPVC/4503/06	128/283, Deoki Nagar, Yashoda Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/ 06	05.10.79
2763	Vikash Jaiswal, S/o Shri P.L. Gupta	UPVC/4453/06	547/K/65, Shiypurib Raja Ji Puram, Lucknow, Uttar Pradesh	BVSc&AH/MAFSU/06	09.11.80
2764	Vikram Jeet, S/o Sh. Rishi Pal Indora	HVC/1922/	H.No. 467, Sector-16, Hisar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/0 6	26.10.79
2765	Vikrant Gill, S/o Shri Bachan Singh	UPVC/4524/06	Vill. Mukari, PO Mundha Khera, Distt. J.P. Nagar, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/0 5	01.01.83
2766	Vimal Kumar N.B.	KeralaSVC/3195/06	Malappalate House, Vadalkenirappu PO, Njeroor, Kottayam- 686612, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	16.10.80
2767	Vinay Kumar Tanwar, S/o Late Sh. Maj. D.S. Tanwar	UVC/253/06	LPT GBPAU, Pantnagar, Distt. U.S. Nagar, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/7 8	04.05.54
2768	Vinay Kumar, S/o Sh. Udaybhan Singh	BVC/2725/06	Vill. Rampurva, PO Vrindavan Ashram, PS Chanpatiya-845450, Dt.W- Champaran, Bihar	BVSc&AH/CSAUAT/0 5	05.01.80
2769	Vindeshwari Prasad, S/o Late Sh. Dwarika Prasad	BVC/2730/06	Vill. Gaudadh, PO Gaudadh, PS Sahpur, Distt. Bhojpur, Bihar	BVSc&AH/MAGADH UNI./66	05.04.36



<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2770	Vineet Kumar Bhardwaj, S/o Shri Surash Chand Bhardwaj	MPSVC/2394/06	H.No. 160, Jiwaji Gunj, Morena, MP	BVSc&AH/JNKVV/06	01.06.82
2771	Vineeta Almadi, D/o Sh. Pishori Lal Almadi	DVC/0634/04	C/o Mr. Vijay Chopra, C- 2/81, Janakpuri, New Delhi	BVSc&AH/HPKV/00	21.11.75
2772	Vineeta Singh, S/o Sh. Virendra Pratap Singh	DVC/0676/06	E-5, Lajapat Nagar-I, New Delhi-29	BVSc&AH/JNKVV/92	31.08.69
2773	Vinesh P.V., S/o Sh. Venkataramana J.	KarSVC/3886/06	Pillikunte Villiage, Maniganahalli-563135, Srinivasapur Tq., Kolar Distt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	12.06.83
2774	Vinita Garg, D/o Sh. Ramesh Chand Garg	Pb.SVC/2650/06	H.No. 2026, Phase-II, Urban Estate, Patiala, Punjab-147002	BVSc&AH/GADVASU/ 06	20.10.83
2775	Vinod Kumar Bisen, S/o Shri B.L. Bisen	MPSVC/2418/07	A-86, Padamnabh Nagar, Bhopal, MP	BVSc&AH/JNKVV/83	01.01.59
2776	Vinod Kumar Singh, S/o Shri Ram Lakhani Singh	UPVC/4435/06	Vill. Bisaura Khurd, PO Pathrarura, Mirzapur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDAUA&T/ 06	16.01.78
2777	Vinod Kumar T.G.	KeralaSVC/3161/06	Qtr. No. 39, MCL Township, Wayalaeer Dam PO, Palakkad-678624, Kerala	BVSc&AH/KAU/06	20.07.81
2778	Vinod Kumar, S/o Shri S.S. Singh	UPVC/4532/06	Vill.& PO, Mirzapur, Distt. Ghazipur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/0 0	09.08.75
2779	Vinod Sharma	DVC/0616/02	Jeevashram, Vety. Hospital, Rajokori, New Delhi	BVSc&AH/CCSHAU/9 3	

42662/2008-70

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2780	Vipin Kaushik, S/o Sh. Narendra Kumar	RajSVC/3287/06	346, Vinoba Basti, Sriganganagar, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	15.08.79
2781	Vipin Kumar, S/o Sh. Anil Kumar Gupta	RajSVC/3338/06	Cloth Merchant, Near PNB Mania, Dholpur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/05	03.05.80
2782	Vipin Kumar, S/o Shri Veer Singh	UPVC/4464/06	Vill. & PO Sarurpur Bagpat, Distt. Bagpat, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSKHPKV/06	17.03.81
2783	Virendra Kumar Singh, S/o Shri P.N. Singh	UPVC/4459/06	MM-312, Sec. Di, LDA Colony, Kanpur, Road, Lucknow, Uttar Pradesh	BVSc&AH/MAFSU/06	11.09.81
2784	Virendra Pratap, S/o Shri Ram Jatan	UPVC/4436/06	986/1, Unchaw Garhi, Rajapur, Aliahabad, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDAUA&T/06	05.08.83
2785	Virendra Singh, S/o Sh. Puskar Singh	UVC/231/06	Village-Kirora, PO Munadawal, Distt. Rudraprayag, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/9	26.07.74
2786	Virupaxi Addanagi, S/o Sh. Chandrappa	KarSVC/3844/06	Chiikkabagewadi-591109, Bailhongal Tq., Belgaum Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	26.09.83
2787	Vishal B.N., S/o Sh. Nagaraj B.A.	KarSVC/3919/06	"Nagaraj Farm" 29th Km, Kanakapura Main Road, Bolare Post, Bangalore-560062, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	04.10.83
2788	Vishal Sindhwani, S/o Sh Narinder Sindhwani	HVC/1935/	M/s Deepak Med, Store, Ismailabad, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/06	03.10.82
2789	Vishav Deep Rathor, S/o Sh. Krishan Singh	HPSVC/778/06	Sh. K.S. Rathaur, House No. 55, Ward No. 1, Hamirpur, HP	BVSc&AH/CSKKVV/06	06.06.82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2790	Vishnu Kumar Gupta, S/o Shri Ramji Lal Gupta	MPSVC/2393/06	Near Rest House, M.S. Road, Kailaras, Morena, MP	BVSc&AH/JNKVV/06	02.06.79
2791	Vishnudev Kumar, S/o Sh. Brajnandan Prasad Sah	BVC/2696/05	Vill. Suryaganj, PO Gamhriya, PS Gamhriya- 852108, Distt. Madhepura, Bihar	BVSc&AH/MA&FSU/0 5	05.01.79
2792	Vishwajeet Singh, S/o Shri Ram Singh Rana	UPVC/4554/07	Vill. Rudayan, PO Sasani, Distt. Hathras, Uttar Pradesh	BVSc&AH/CSAUA&T/ 94	14.08.71
2793	Vishwanath K.N., S/o Sh. Narayanappa B.	KarSVC/3935/06	4, I Cross, C.N. Halli, S.S.A. Road, Hebbal, Bangalore- 560024, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	12.05.84
2794	Vishwanatha U., S/o Sh. Kenchaganowda U.	KarSVC/3904/06	Kamathahalli, Harapanahalli Tq., Danavagere Distt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/0 6	25.07.83
2795	Vivek Arora, S/o Sh. Darshan Lal Arora	DVC/0642/04	E-103, Sarita Vihar, New Delhi-110076	BVSc&AH/AAU/04	30.09.80
2796	Vivek Chauhan, S/o Sh. Bhopal Singh	DVC/0669/06	RVC, AHQ, R.K. Puram, New Delhi-61	BVSc&AH/PAU/86	28.11.63
2797	Vivek Kumar Gaurav, S/o Shri Vijay Kumar	UPVC/4384/06	H.No. 465, Moh. Bhoor, PO Prem Nagar, Bareilly, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDAUA&T/ 06	09.05.81
2798	Vivek Kumar Singh, S/o Sh. Bijay Kumar	RajSVC/3301/06	Trimurthy Traders, Atru Baran, Rajasthan	BVSc&AH/MAFSU/06	30.08.80
2799	Vivek Saxena, S/o Sh. Satya Prakash Saxena	HVC/1899/	H.No. 88, Sector-13, Part-2, Hisar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/9 8	19.10.75

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2800	Vivek Singh, S/o Shri Ram Kishor	UPVC/4367/06	Vill. Dwari Kapur Jutt, PO Korajahanabad, Fatehpur, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDAUA&T/06	30.07.80
2801	Vuppala Swapna, D/o Shri Narasimha Reddy	APSVC/4520/06	W/o G. Sridhar, 3-4-110, A.P. Colony, Mallapur, Hyderabad-76, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	11.04.80
2802	Vyavahare Shrikant Hari	MahaSVC/7720/	18, Ashirwad, Shiv Colony, Jamner, Distt. Jalgaon-424206, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	28.10.83
2803	W.P. Archibald Balraj David, S/o Capt. Job Solomon David	TNVC/3797/07	88-F, 1st Main Road, Sri Ayyappa Nagar, Chennai-600092, Tamil Nadu	BVSc/MU/64	25.02.43
2804	W.S. SUJANNA PRIYA W/O P.I. R KUMAR	TNVC/2704/05	EG1, HANSA GARDEN, MADAMBAKKAM MAIN ROAD, RAJAKILPAKKAM, CHENNAI 600 073	BVSc/TANUVAS/99	27-03-73
2805	Wable Rajendra Ramdas	MahaSVC/7218/	C/o R.S.Wable, Kumbhar Lane, A/p Deolali, Prarara, tal. Rahuri, Dt. Ahmednagar, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/02	19.04.80
2806	Wade Manguram Paisuji	MahaSVC/7322/	At Chingali, Post Mohali, Tal. Dhanora, Distt. Gadchiroli, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	11.09.80
2807	Wadke Sunetra Shreenivas	MahaSVC/7485/	Priyadarshani Park, 301, Near Jankalyan Sahakari Bank, Om Nagar, JB Nagar, Andheri (E), Mumbai, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	30.10.82
2808	Wagh Somnath Bhikanrao	MahaSVC/7224/	At Thakur Pimpalgaon, Tal. Shevgaon, Distt. Ahmednagar-414503, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	23.02.82
2809	Waghambare Sitaram Sedashiv	MahaSVC/7139/	At. Dhondewadi, Post Jahiwadi, Tal. Pandharpur, Dt. Solapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	01.08.80

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2810	Waghaye Shrikant Baburao	MahaSVC/7591/	A/p Kesaiwada (Wagh), Tal. Lakhani, Distt. Bhandara, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	03.04.83
2811	Waghaye Umeshkumar Govinda	MahaSVC/7620/	A/p Kesaiwada (Wagh), Tal. Lakhani, Distt. Bhandara-441804, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	25.04.82
2812	Waghmare Dilip Laxmanrao	MahaSVC/7285/	A/p Massajog, Tal. Kaij, Distt. Beed, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	01.06.80
2813	Waghmare Rupesh Nagesh	MahaSVC/7136/	A/p Sangramnagar, Akhuj, Match Well Hari Style, Tal. Maishiras, Distt. Solapur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	25.01.82
2814	Wakankar Neha Chandrakant	MahaSVC/7216/	Aangan, C-304, Takur Village, Kandivali (East), Mumbai-400101, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	21.02.82
2815	Wakchasure Santosh Uttam	MahaSVC/7143/	A/p Kalas Bk., Tal. Akole, Distt. Ahmednagar, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	17.12.81
2816	Wakchaure Rajesh Sudhakar	MahaSVC/7561/	'Rajnitii' Banglow, Near Kanya Vidya Mandir, Dattanagar, Loni, Tal. Rahata, Dt. Ahmednagar, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	28.07.82
2817	Walawalkar Dipti Sharad	MahaSVC/7684/	E-101, Unit No.1, Hrushikesh, Swami Samarth Nagar, Cross Lane No.1, Andheri(W), Mumbai, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	18.05.83
2818	Wankar Alok Khemraj	MahaSVC/7636/	11-Ashapushp, Jaitala Road, Near Viraj Traders, Nagpur-440016, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	04.04.83
2819	Wankhade Pravin Ramrao	MahaSVC/7592/	'Pitrukhaya', A/p Jarud, Tal. Warud, Distt. Amravati-444908, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	30.04.84

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2820	Warhadpande Rahul Mukundrao	MahaSVC/7491/	Shaniwarpeth, Kondhali, Tal. Katol, Distt. Nagpur, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	15.03.82
2821	Wase Milind Prabhakar, S/o Sh. Wase Prabhakar Ambadasji	DVC/0609/02	Commandant (Sr.V.S), ITBP Force Hgr. Block-II, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003	BVSc&AH/PKVP/85	23.11.62
2822	Wasnik Roshan Lalchand	MahaSVC/7607/	C/o Lalchand I., Wasnik, Nehru Ward, Sangadi, Tal. Sakoli, Distt. Bhandara, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	13.09.81
2823	Wattamwar Manoj Gonvindrao	MahaSVC/7413/	A/p Sanroli, Tal. Biloli, Distt. Nanded-431731, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	31.03.82
2824	Waware Vijay Annaji	MahaSVC/7319/	C/o A.B. Waware, A/p Kolvihir, Tal. Morshi, Distt. Amravati, Maharashtra	BVSc&AH/Dr.PDKV/0 0	15.07.74
2825	Wkhe Srikant Ashok	MahaSVC/7350/	'Prathad Prasad', Bramhan Lane, Shegaon, Tal. Shegaon, Distt. Ahmednagar, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	02.09.82
2826	Y. KRISHNAMOHAN REDDY S/o Y.RAMAKRISHNA REDDY	TNVC/0707/05	G-2, FIRST FLOOR, RANGA NIVAS, DOOR NO.40 (OLD) BARNABY ROAD, KILPAUK, CHENNAI 600 010	BVSc/APAU/82	26-08-60
2827	Yadala Ravi Kumar, S/o Shri Y. Marianna	APSVC/4497/06	H.No. 853/D, P.V. Colony, Mallaram (P.O.), Munugur (M), Khammam Dt.-507125, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	13.03.79
2828	Yadav Deshmukh Ashvini Vasantao	MahaSVC/7557/	C/o V.R. Yadav Sir, A/p Kadepur, Tal. Kadegaon, Distt. Sangli-415305, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	11.11.82
2829	Yadav Vishal Rambharos	MahaSVC/7151/	C/o R.L.Yadav, Gaddam Plots, Sant Dnyaneshwar Marg, Akola, Dt. Akola, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	21.08.82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2830	Yajjala Vijaya Kumar, S/o Shri Y. Dhaneswara Rao	APSVC/4517/06	D.No. 45-49-1/1/1, Abid Nagar, Akkayapalem, Visakhapatnam-16, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	23.10.80
2831	Yajuvender Sharma, S/o Sh. Bihari Lal Sharma	HPSVC/768/06	VIII Dafthi, PO Thalla, Via Mashobra, THE. Suni Shimla-171007, H.P.	BVSc&AH/CSKVV/0 6	21.05.81
2832	Yajuvendra Singh, S/o Shri Narendra Bahadur	UPVC/4347/06	VIII. & Post Amani Ganj Barar, Faizabad, Uttar Pradesh	BVSc&AH/NDAUAT/0 5	15.12.79
2833	Yamekar Balaji Manu	MahaSVC/7133/	'Sharda Niwas, 2004, Satranj Galli, Kundakwadi, Tal. Billi, Dt. Nanded, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	05.03.80
2834	Yashpal Singh Chauhan, S/o Shri Nandlal Chauhan	MPSVC/2385/06	Sadani Compound, Near Shankar Mandir, Harda, MP- 481331	BVSc&AH/JNKVV/06	13.05.79
2835	Yashvir Singh Chauhan, S/o Sh. Atar Singh Chauhan	DVC/0628/04	B-16, West Jyoti Nagar, Loni Road, Shahdara, Delhi- 110094	BVSc&AH/GBP UA&T/ 74	09.07.52
2836	Yasmeen Sultana, D/o Shri Shaik Khaza	APSVC/4454/06	19-3-20, Mosque Street, Sanganunta, Guntur- 522003, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/06	15.08.80
2837	Yaspal Singh Das, S/o Sh. D.R. Singh	UVC/270/07	II/533, G.B.P.A.U&T. Pantnagar Distt. U.S. Nagar, Uttaranchal	BVSc&AH/GBP UA/T/ 7	12.09.54
2838	Yeotikar Pomima Bashidharao	MahaSVC/7275/	"Manik" Building, Pushra Nagari, Near Pawdewadi Naka, Nanded-431602, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/04	09.08.82
2839	Yogendra Singh Chauhan, S/o Sh. Prathvi	RajSVC/3285/06	Near Old Hospital, Sarnathura Dholpur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	04.11.76

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2840	Yogendra Yadav, S/o Sh. Hemchander Yadav	DVC/0599/02	VPO Kangaheri, New Delhi-110071	BVSc&AH/PAU/01	06.8.76
2841	Yogesh Chandra Bhardwaj, S/o Sh. A.V. Sharma	UVC/243/06	Adarsh Nagar, Piliikothi, Haktwani, Distt. Nainital, Uttaranchal	BVSc&AH/GBPUAT/94	06.08.71
2842	Yogesh Chandra Dixit, S/o Shri Dinesh Chandra Dixit	MPSVC/2362/06	31-12, Behind Irrigation Div-1, Shahdol, MP-484001	BVSc&AH/JNKVV/06	01.09.73
2843	Yogesh Gupta, S/o Sh. Om Prakash Gupta	DVC/0622/03	152, 3rd Floor, Raja Garden, New Delhi	BVSc&AH/HAU/87	13.09.64
2844	Yogesh Kr. Sharma, S/o Sh. Gopal Lal	RajSVC/3284/06	A-613, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	19.12.80
2845	Yogesh Kumar Bhardwaj, S/o Sh. Tarsem Chand Bhardwaj	Pb.SVC/2676/06	H.No. 436, Pram Basti-3, Sangrur-148001, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/06	07.09.82
2846	Yogesh Pratap Singh, S/o Shri Janardan Singh	UPVC/4428/06	Yogesh Medical Store Hospital, Rd Fazil Nagar, Kushinagar, Uttar Pradesh	BVSc&AH/GBPUAT/06	30.05.83
2847	Yogesh Sharma, S/o Sh. Suresh Chand	RajSVC/3299/06	113, Nasiya Colony, Gangapur City, Sawaimadhopur, Rajasthan	BVSc&AH/MAFSU/06	05.07.82
2848	Yogesh, S/o Sh. Ashok Kumar Jantikar	KarSVC/3830/06	'Venkatesh Krupa' #28, Nr Rao's Primary Sch, Shivnagar North, Bidar-585401, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/06	07.02.84
2849	Yogita Dhaka, D/o Sh. H.S. Dhaka	RajSVC/3288/06	F-19, Kanta Khaturia Colony, Bikaner, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	05.07.79



<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2850	Yugdeep, S/o Sh. Birbal	HVC/1939/	VPO Satrod, Distt. Hisar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/0 6	09.06.82
2851	Zade Bhavana Arun	MahaSVC/7414/	Plot No. 52, Hanuman Nagar, Near Medical College, Nagpur-440009, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	19.11.82
2852	Zade Prashant Rajeshwar	MahaSVC/7354/	"Matoshree", 23, Vikas Colony, Ramnagar, Wadgaon, Tal. Distt. Yavatmal-445001, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	26.05.81
2853	Zambre Vishnu Jaysingh	MahaSVC/7688/	C/o Shri Jaysing Vyankat Zambre, Rawalgaon, Post Kokangaon, Tal. Karjat, Distt. Ahmednagar, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/06	15.12.82
2854	Zarekar Ashok Uttamrao	MahaSVC/7364/	Yogiraj Niwas, (Maske Naib Tahsildar), Behind Tahsil Office, Partur, Tal. Partur, Dt. J alna, Maharashtra	BVSc&AH/MAFSU/05	09.05.80
2855	Zohra Syed, D/o Shri Syed Liyakat Ali	MPSVC/2404/06	165, Khizabad Colony, Khazrana, Indore, MP- 452016	BVSc&AH/JNKVV/06	07.09.80

Dr. ANUP BHAUMIK, Secy.  
[ADVT III/IV/Exty/141/07]